

“लीडन नगर की चहार दीवारी के बाहर पड़ी हुई शत्रु की सेना नागरिकों की मुसीबतों पर दृष्टे लगानी थी। तब उन वीर नागरिकों ने शहर की दीवार पर चढ़कर शत्रुओं से कहा—“तुम हमें ‘त्रिहो-उत्ते ग्याने वाले’ कह-कटकर हँसते हो ? ठीक है, परन्तु जबतक नगर में से एक भी कुत्ते या बिल्ली की आवाज आती रहेगी, समय लेना, जबतक लीडन स्वतन्त्रता के लिए लड़ता रहेगा। जब कुछ भी खाने को न रहेगा तो हम अपने बाँये हाथ खाकर दाहिने से अपनी स्वतन्त्रता के लिए युद्ध करेंगे।”

नरमेध !

[डच प्रजातंत्र का विकास]

चन्द्रभाल जौहरी



शीघ्र ही प्रकाशित होंगे

- | | |
|------------------------------|---------------|
| १-फौसी ! | ५-जंगली |
| २-किसान | ६-क्या करें ? |
| ३-मजूर | ७-मराठे वीर |
| ४-अछूत | ८-आत्मकथा |
| ९-ग्राम-संगठन | |
| १०-विवाह-मीमांसा | |
| ११-प्रलय-प्रतीक्षा | |
| १२-लोकनायक श्रीकृष्ण | |
| १३-ब्रिटिश साम्राज्य की नींव | |

अद्वेय
गणेश जी को
'श्री गणेश'
की
अद्वाञ्जलि

४ त्यागभूमि १

जीवन, जागृति, बल और बलिदान !

‘त्यागभूमि’ अपनी एक खास दिशा की ओर बढ़ती जा रही है। प्रतीत होता है, त्याग और बलिदान की भावना को जनसाधारण की नस नाड़ियों में दौड़ा देना उसका मिशन है और अपने उसी मिशन को पूरा करनेमें वह छटपटाती रहती है। ‘त्यागभूमि’ के सम्पादन में परिश्रम और लगन की मात्रा बहुत स्पष्टता से झलक उठती है।

—कर्मवीर

हिन्दी के मासिक-पत्रों के इस अष्ट वातावरण में ‘त्यागभूमि’ ने एक सुरुचिपूर्ण आदर्श उपस्थित कर दिया है ‘त्यागभूमि’ में कई ऐसी विशेषतायें और नवीनतायें हैं, जो हिन्दी के अन्य किसी भी मासिक-पत्र में नहीं हैं।

—युवक

हम दावे के साथ छत्रों पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि ‘त्यागभूमि’ सी सस्ती, सुलिखित, सुसम्पादित हिन्दी में एक भी पत्रिका नहीं है। फिलहाल जिसे केवल एक मासिक पत्र या पत्रिका खरीदने की सामर्थ्य हो उसे बिना किसी पशोपेश के त्यागभूमि का ग्राहक बन जाना चाहिए।

—मतवाला

प्रस्तावना



मोटली का प्रख्यात इतिहास मैंने यरोडा जेल में पढा था । उसका असर मेरे पर अच्छा पडा था । विलियम दी साइलेण्ट (प्रिंस ऑव् ऑरेञ्ज) का जीवन चरित्र जानने योग्य है और मोटली की शैली रसिक है । भाई चन्द्रभाल जौहरी का अनुवाद पढ़ने की मुझको फुरसत नहीं मिली है परन्तु मैं जानता हूँ कि उन्होंने परिश्रम अच्छा किया है । अंग्रेजी भाषा नहीं जानने वालों के लिए यह पुस्तक उपयोगी है, ऐसा मेरा अभिप्राय है ।

स्टीमर अण्डा

३० मार्च सन् १९२९

मोहनदास करमचन्द गांधी

वक्तव्य

मेरे अहमदाबाद आने पर गान्धीजी ने मुझे पुस्तकों की एक सूची दी। उनकी इच्छा थी कि इन पुस्तकों का हिन्दी में रूपान्तर हो जाय। मैंने दुर्भाग्य से उस सूची में से सब से बड़ी पुस्तक पहले चुनी। जिस ग्रन्थ के लिखने में प्रसिद्ध इतिहासकार मोटले ने दस वर्ष लगाये थे, जिस ग्रन्थ की भाषा सुन्दर बनाने में उस सिद्ध-हस्त उपन्यास-लेखक ने अपनी सारी कला खर्च कर दी, उस महान ग्रन्थ पर अज्ञान के कारण मेरा हाथ अनायास ही जा पड़ा था।

मैंने मोटले के 'राइज ऑव् दि डच रिपब्लिक' को एक बार पढ़ा और मुग्ध हो गया। किसी ग्रन्थ का एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपान्तर करना कोई बड़ा महत्व का काम नहीं समझा जाता है। परन्तु मोटले का ग्रन्थ पढ़ चुकने पर डच प्रजातंत्र का स्वतन्त्र इतिहास लिखने का विचार करना मुझे धृष्टता, संसार के एक महान सेवक के प्रति कृतघ्नता और व्यर्थ का अहम्वाद सा प्रतीत होने लगा। साथ ही उस अंग्रेजी के पन्द्रह सौ पृष्ठ के तीन जिल्द वाले ग्रन्थ का हिन्दी के चार-पाँच सौ पृष्ठ में सार निकालकर रख देना और भाषा भी उपयुक्त और सजीव बनाये रखना बड़ा कठिन जान पड़ने लगा। सफलता मिली कि असफलता इसका निर्णय तो पाठक ही कर सकते हैं—विशेष कर वे पाठक, जिन्होंने मूल अंग्रेजी ग्रन्थ और हिन्दी के रूपान्तर दोनों को संयोगवश ध्यान से पढ़ा हो।

गान्धी जी की प्रेरणा और आशीर्वाद न होता तो मेरे लिए तो इस बृहत् कार्य को प्रारम्भ करके समाप्त करना भी कठिन हो जाता। जैसे-तैसे लगभग दो वर्ष में हिन्दी का रूपान्तर हो पाया है। मोटले की जादू-भरी अंग्रेजी से रूपान्तर की हिन्दी गिर न जाय इसी स्वप्न में अध्याय के अध्याय फिर-फिर लिखे, बहुत-सा कागज़ और स्याही खराब की, रातों-रातों की नींद बिगाड़ी, परन्तु फिर भी वह बात कहीं ? इतने पर भी यह काम शायद अधूरा ही रह गया होता, अगर काका कालेलकर ने ज़बरदस्ती एक मास की तनहाई (Solitary Confinement) न दे दी होती। इच्छा अथवा अनिच्छा से मैं उनका भी ऋणी हूँ। पूज्य गणेश शंकर विद्यार्थी जी के प्रोत्साहन और सहायता के लिए यदि मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करूँ तो यह व्यर्थ का पश्चिमी ढंग का लोकाचार हो जायगा। वे मेरे बड़े भाई हैं। उसी प्रकार श्रीकृष्णदत्त जी पालीवाल। प्रकाशकों के नखरों और अपनी नव-वधू की सी हिचकिचाहट से उकताकर जब मैं अपने दो वर्ष के प्रयत्न को एक बार अग्नि में झोंक देने का विचार करने लगा था, तो भाई पालीवाल जी ने डाँटकर मुझे इस आत्मघात से बचाया था। साधु-प्रकृति भाई हरिभाऊ उपाध्याय जी ने प्रकाशन में सहायता करके जो मेरा उत्साह बढ़ाया है उसके लिए मैं उनका अत्यन्त ऋणी हूँ। पुस्तक की प्रस्तावना पूज्य गान्धी जी लिखने वाले थे। परन्तु दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, जो कुछ भी कहिए, जिस समय पुस्तक प्रेस में जा रही है, गान्धी जी फिर सन् १९२०-२१ की तरह दूसरे आक्रमण की दुन्दभी बचा चुके हैं। हिन्दी रूपान्तर पढ़ने का उनके पास समय भी नहीं। फिर भी अपनी प्रेरणा से

किये गये प्रयत्न की लाज रखने की परिस्थिति में जो कुछ सम्भव था, उन्होंने कुछ शब्द प्रस्तावना-स्वरूप लिखकर भेज दिये हैं और लिखते हैं कि " भाई जौहरी, मैं प्रस्तावना भेजता हूँ। इससे अधिक लिखने का न समय है न शक्ति है। बापू का आशीर्वाद।" मेरे लिए 'बापू का आशीर्वाद' ही काफी था, प्रस्तावना न भी आती। बापू जी की मेरे ऊपर असीम कृपा और स्नेह है कि उन्होंने ब्रह्मदेश से २६ मार्च मग १९२९ को होने वाले कलकत्ते में अपने अभियोग के लिए लौटते हुए भी जहाज में बैठे-बैठे कुछ शब्द लिखकर भेज दिये। हिन्दी जनता को मूलग्रन्थ का महत्व मालूम हो गया।

हालैण्ड के नरमेध-यज्ञ की इस रोमाञ्चकारी कहानी को लिखकर मोटले यूरोप में अमर हो गया है। अमेरिका और इंग्लैण्ड के लोग तो उसकी अंग्रेजी की पुस्तक पढ़कर उसका गुण गाते ही हैं। यूरोप की अन्य सब भाषाओं, फ्रेंच, जर्मन, रशन इत्यादि में भी मोटले के ग्रन्थ के अनुवाद हो चुके हैं।

इन अनुवादों को अच्छे-अच्छे लेखकों ने लिखा है और अच्छे-अच्छे आदमियों ने उनकी प्रस्तावनार्थ लिखी हैं। मैंने अपनी मातृभाषा जानने वालों को केवल हालैण्ड के स्वतन्त्रता के भयकर संग्राम की कहानी सुनाने की महत्वाकांक्षा से ही मोटले के ग्रन्थ का हिन्दी में रूपान्तर करने का साहस किया है। यह स्वतन्त्रता का संग्राम क्या था, प्रारम्भ से अन्त तक एक महान यज्ञ था। नरमेध-यज्ञ। अत्याचार की भट्टियाँ जल रही थीं। अलंकार की भट्टियाँ नहीं, सचमुचकी भट्टियों में दिन-रात मनुष्य भोंके जाते थे। वे भट्टियों में झुँकते थे, परन्तु संग्राम से भागते नहीं थे।

असंख्य मनुष्य आहुति बने। देवता-स्वरूप, हालैण्ड के लोगों का हृदय-सम्राट 'विलियम दि साइलेण्ट' इस स्वतन्त्रता के यज्ञ में पूर्णाहुति बना। तब कहीं जाकर स्वतन्त्रता-देवी के दर्शन हुए। सदियों से गुलाम रहने के कारण निराशा और भाग्य के उपासक बन जाने वाले, एक ठोकर से घबराकर बैठ जाने वाले, एक हार से हतोत्साह हो जाने वाले पाठक हॉलैण्ड के स्वतन्त्रता के पुजारियों की कहानी में पढ़ें। ओह

“... जून का महीना आ गया। नागरिकों की कठिनाइयों क्षण-क्षण बढ़ने लगीं। साधारण भोज्य-पदार्थ तो कभी-कभी खत्म हो चुके थे। लोग तेलहन पर गुजारा चला रहे थे। जब यह भी खत्म हो गया, तो लोग विल्ली, कुत्ते और चूहे इकट्ठे करने लगे। और जब यह भ्रष्ट जानवर भी नष्ट हो गये, तो लोग घोड़ों और बैलों के रक्खे हुये चमड़े उवाल-उवाल कर खाने लगे। उन्होंने जूतों तक का चमड़ा उवाल कर खाया, उन्होंने कब्रों पर से घास नोंच-नोंच कर खाई, पत्थरों पर जमी हुई काई खाई कि जिससे वे कुछ दिन तक जीवित बने रहें और भेजी हुई सहायता आते ही स्वतन्त्रता की ध्वजा फहरा दे। अन्त में नागरिकों ने अपने प्रिय नेता आरेञ्ज के पास एक खत में अपना हाल खून में लिखकर भेज दिया, और नगर पर निराशा का काला मण्डल चढ़ाकर लड़ते-लड़ते मर-मिटने के लिए तैयार हो गये। लीडन में अनाज खत्म हो चुका था। कुत्ते, विल्ली, चूहों की बढ़िया खाने में गिनती होने लगी थी। थोड़ी सी गायें बचाकर दूध के लिए रख ली गई थीं। उनमें म भी थोड़ी-थोड़ी रोज मारी जाने लगीं। परन्तु ज़रा-ज़रा से मौस

सै भूखों मरने वाले नागरिकों का पेट कैसे भर सकता था ? कसाई-खाने के चारों ओर मुखमरों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और वे आपस में एक-एक निवाला मॉस के लिये कुत्तों की तरह झगड़ते थे । घब किये हुए पशुओं का रक्त बहकर खरंजे पर आता था, तो वेतहाशा दौड़ कर गिरते थे और जिह्वा से रक्त चाटने लगते थे । स्त्रियों और बच्चे दिन भर गन्दे नालों और गोबर के ढेरों में अनाज के कण ढूँढते और कुत्तों से खाने के लिए झगड़ते नज़र आते थे । कटे हुए और उबले हुए चमड़े के टुकड़ों को लोग बड़े चाव से हड़प जाते थे । पेड़ों की सारी हरी पत्तियाँ तोच कर खा डाली गईं थीं । घास-पात सब कुछ मनुष्य का भोजन बन चुका था । फिर भी भूख से तड़प-तड़प कर मनुष्य सड़कों में गिरते थे और मर जाते थे । रोज़ भयंकर सख्या में मौतें होती थीं । बच्चे माताओं के भूख से सूखे और मुर्माये हुए स्तनों पर छटपटा-छटपटा कर जाने गँवाते थे । मातायें गोद में बच्चों को लिये हुए मर-मरकर सड़कों पर गिरती थीं । मकानों में कुटुम्ब के कुटुम्ब प्रातःकाल को मरे हुए मिलते थे । महामारी फैली । सात-आठ हजार मनुष्य देखते-देखते काल के गाल में चले गये । परन्तु इस फ्राके-मस्ती और निराशा में भी लीडन को अपनी स्वतंत्रता का गर्व था । जब शत्रु नागरिकों को कुत्ते, बिल्ली और चूहे खाने वाला कहकर चिढ़ाने और हँसने लगे तब नागरिकों ने नगर की दीवारों पर चढ़कर अपने शत्रुओं से गरजकर कहा, 'तुम हमको कुत्ते-बिल्ली-चूहे खाने वाला कहते हो ? हाँ, हैं हम कुत्ते-बिल्ली खाने वाले ! परन्तु साथ-साथ यह भी विश्वास रखना कि जब तक नगर में से एक भी बिल्ली या कुत्ते की आवाज़

आती रहेगी लीडन सिर नहीं मुकायेगा । जब हमारे पास कुछ भी खाने को न रहेगा तो यत्नीन रखना हम में से हरएक अपना बायां हाथ खा-खा कर दाहिने से अपने देश, अपनी जाति, अपनी स्त्रियों, अपने धर्म और स्वतन्त्रता के लिए घोर युद्ध करेगा । यदि फिर भी भगवान ने प्रसन्न होकर हमारी सहायता न की तो भी हम अन्त तक तुम से लड़ते रहेंगे । जब अन्तिम षड़ी आ जायगी तब अपने हाथों हम अपने नगर में आग लगा देंगे; पुरुष, स्त्री, बच्चे सब अग्नि की ज्वालाओं में जलकर मर जायेंगे, परन्तु अपने घरों को विदेशियों के पदार्पण से अपवित्र नहीं होने देंगे, अपनी स्वतन्त्रता का नाश न होने देंगे ।”

लीडन के, स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले नागरिकों ने शत्रु से बचने का और कोई उपाय न देखकर समुद्र के बाँध काट दिये और अपने देश को विदेशियों के पदों के अपवित्र स्पर्श से बचाने के लिए समुद्र में डूबा देने के लिए तैयार होकर चिल्लाने लगे, *Better a drowned land than a lost land* अर्थात् हारे हुए देश से डूबा हुआ देश अच्छा । क्या हम अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले पुरुष भी इसी प्रकार स्वतन्त्रता के लिए जीने और स्वतन्त्रता के लिए मर मिटने को तैयार हैं ? हमें तो साल-छः महीने के लिए जेल हो आने पर ही घमण्ड हो जाता है । स्वतन्त्रता के आगामी विकट लम्बे सग्राम में जब तक हम भी इसी तरह हारे हुए देश से डूबा हुआ देश' अथवा जला हुआ देश सहर्ष पसन्द करने को तैयार नहीं हो जायेंगे, अपनी नि सहायता पर निराश नहीं होंगे तबतक विजय मिलना असम्भव है । स्वाधीनता वही पा सकते हैं जो उसका मूल्य हसते-

हंसते चुका देते हैं । कोई हमारी वर्तमान अवस्था पर निराश न हो, नेदरलैण्ड के इन्हीं मिःसहाय निःशस्त्र माधारण लोगों ने संसार की उम समय की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं का इम भयकरता से सामना किया था कि शत्रु-सेनापति को अपने घर खबर भेजनी पड़ी थी कि 'यह नागरिक ऐसे लड़ते हैं कि जैसे संसार के सर्वश्रेष्ठ सैनिक लड सकते हैं ।'

है किसे सामर्थ्य सहने की भला उम हाथ को,

देश-रक्षा के लिए ऊंचा हुआ जो हाथ हो ।

अन्त में उन सब मित्रों के प्रति जिन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में मुझे सहायता की है, मैं एक बार कृतज्ञता प्रकट करना अपना धर्म समझता हूँ । पाठकों से प्रार्थना है कि जहाँ कहीं उन्हें इस ग्रन्थ में रोचकता मिले, उसके लिए वे मोटले की लेखनी और गान्धी जी की प्रेरणा का आभार मानें । जहाँ त्रुटियाँ और अरोचकता मिले उसके लिए मुझे दोषी समझें और मेरे अज्ञान के लिए मुझे क्षमा करें ।

गुजरात विद्यापीठ

अहमदाबाद

फरवरी १९८५

चन्द्रभाल जौहरी

विषय--सूची

१.	चार्ल्स के पूर्व	१
२	चार्ल्स का राज्य-त्याग	३९
३.	फिलिप का आगमन	५५
४	डचेज परमा का शासन	६५
५	आन्दोलन	९९
६	'इनक्विज़िशन'	११६
७	ग्रेनविले के बाद	१५०
८	क्रान्ति के पथ पर	१८८
९	प्रारम्भिक चिन्तनकारियाँ	१९६
१०.	अत्याचार की पराकाष्ठा	२१७
११.	पशुता का नंगा नाच	२२८
१२	बगावत का भडा	२५१
१३	प्रजातन्त्र की नींव	२९७
१४.	नव-प्रभात	३०४
१५	एल्वा का अन्त	३५७
१६	मुक्ति की चेष्टा	३५७
१७.	ग्रान्तो का संगठन, राष्ट्रीय एकता	१३७

१८.	ऑरेख का उरथान	३९५
१९.	डॉन जॉन का करुण अन्त	४०७
२०.	अलेक्जैण्डर फारनोस	४१४
२१.	स्वाधीनता की घोषणा	४३७
२२.	ऑरेख की हत्या का प्रयत्न	४४४
२३.	एलेन्कौन का अन्त	४५३
२४.	आरेख की हत्या	४६०

भूल-सुधार

अध्याय १७ और १८ के आरम्भ में भूल से १५—१६ अंक पढ़ गये हैं । पाठक कृपया सुधार लें ।

नरमेध !



“अपने बल पर खड़े होकर लड़ना और स्वाधीनता प्राप्त करना, नहीं तो लडते-लडते मर जाना ही मेरी नजर में सर्वश्रेष्ठ जँचता है।”

—विलियम प्रिंस ऑव् आरेञ्ज

डच प्रजातंत्र का विकास

चार्ल्स के पूर्व

यूरोप के उत्तर-पच्छिम का वह भाग जिस में अब बेलजियम और हालैण्ड बसे हुए हैं पहले नेदरलैण्ड कहलाता था। इस में तीन बड़ी नदियाँ राइन, मियूज और शेल्ड बहती हैं। जिस प्रकार पाँच नदियों ने पजाब की और गंगा और यमुना ने युक्त-प्रान्त की भूमि को अपने जल से सींच-सींच कर उपजाऊ बना दिया है, उसी प्रकार इन तीन नदियों ने नेदरलैण्ड की मरुभूमि को अपनी गोद का दूध पिला-पिला कर हरा-भरा कर रक्खा था। यह भाग समुद्र की सतह से नीचा है, परन्तु मनुष्य ने अपनी लगातार मेहनत से इसे समुद्र के राज से छीन कर पृथ्वी की भेंट कर दिया है, बड़े-बड़े बाँध खड़े करके समुद्र को पीछे ढकेल दिया है। समुद्र से छीने हुए भाग पर लोगों ने अपने घर बनाये हैं, बड़े-बड़े नगर वसाये हैं। भौगोलिक और जातीय आधार पर यह फ्रान्स और जर्मनी दोनों का कहा जा सकता है। जिस प्रकार आर्यों ने जंगलों को काट कर गंगा और यमुना के किनारे गाँव वसाये थे, उसी प्रकार यहाँ के पूर्व निवासियों ने दलदलों को सुखाकर रहने के योग्य भूमि बनाई थी।

यहाँ के आदिम निवासी कौन थे, कैसे थे, यह कहना बड़ा कठिन है। सीजर से पहले का कोई वर्णन इस भाग के

सम्बन्ध में नहीं मिलता । वटेविया के—जिमे नेदरलैण्ड का हृदय कहना चाहिए—निवासी बड़े वीर थे । यहाँ के नौजवान युवक जब तक एक शत्रु को मार नहीं लेते थे तब तक अपनी दाढ़ी और बाल नहीं कटाते थे । सीजर की सेना में वटेविया के सिपाही ही सब से वीर गिने जाते थे । रोम का साम्राज्य इन्हीं के बल पर फैला था । बूढ़े, जवान, सब वीरता के मद से मतवाले राजपूतों की भांति रणभूमि में जान गँवाने के लिये सदा उत्सुक । फिरा करते थे । अपने देश को प्राकृतिक अड़चनो से लडते-लडते ये लोग मेहनत के खूब आदी हो गये थे । इनका शरीर भी दृष्ट पुष्ट होता था ।

नेदरलैण्ड में बसने वाली फरासिसी और जर्मन दोनो जातियाँ शरीर में पुष्ट और लम्बे क्रद की थी । परन्तु धार्मिक बातों में फरासिसी अपने धर्म-गुरुओ के पीछे वैसे ही अन्ध-विश्वास से चलते थे जैसे कि भारतवासी ब्राह्मण के पीछे चलते थे । जर्मन आज्ञादो से सोचते थे । परमात्मा इत्यादि के बारे में भी उनके विचार उच्च थे । दोनो जातियों की राज-नैतिक परिस्थिति में बहुत अन्तर था । फरासिसियों के यहाँ सरदार और अमीर-उमरा तथा धर्म गुरु ही सब कुछ माने जाते थे । सर्व साधारण के कोई अधिकार न थे । राज्य-शासन का भार भी इन्हीं सरदारों इत्यादि के हाथ में रहता था । वे जो तय करते थे वही न्याय माना जाता था । सब सरदार और अमीर लडाई के हुनर में होशियार होते थे और वे ही प्रति वर्ष के लिए राजा चुन लिया करते थे । साधारण लोग जो सरदार उनकी रक्षा करने के योग्य हाता था उसो को शरण में

जा रहते थे। जर्मनों के यहाँ सार्वजनिक पचायतो के द्वारा सब काम होता था। दासों के अतिरिक्त—जो या तो लड़ाई में कैद हुए आदमी होते थे या दगलो में हारे हुए मनुष्य—और सब को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। प्रायः पूर्णमा को पचायत की बैठक होती थी। ढाल और तलवार की खन-खनाहट पर लड़ाई के सरदार चुने जाते थे यही सरदार शासन का कार्य भी करता था। गावों की पचायतो में गांवों के मुखिया चुने जाते थे। सब चुने हुए सरदार और मुखिया पचायत की आज्ञा का सदा पालन करते थे। लड़ाई, सुलह और शासन का वास्तविक अधिकार केवल पचायत को ही था। लोगों को स्वतन्त्रता इतनी प्रिय थी कि नियत दिवस पर पंचायत की बैठक में पहुँच जाना भी जनता के प्रतिनिधि और सरदार लोग अपनी स्वतन्त्रता पर एक बन्धन समझते थे। अक्सर दो-दो तीन-तीन दिन तक उनके इन्तजार में सभा की बैठक रुकी रहती थी। वे बड़ी शान से आते थे। राय देने के लिए हाथ न उठा कर जोर जोर से ढाल तलवार खड़काते थे। जब सरदार चुने जाते तो कन्धों पर बिठा कर उनका जलूस निकाला जाता था।

इन लोगों का सब से पहला ऐतिहासिक वृत्तान्त जो मिलता है वह वित्रेशियों के हाथ का लिखा हुआ है। जब सीज़र ने नेदरलैण्ड पर हमला किया था तब नेदरलैण्ड-वासियों ने उससे खूब लोहा लिया था। नरवाई जाति के लोग तो इस वीरता से लड़े थे कि उनकी जाति की जाति मर भिटी थी। सीज़र की जीत हुई परन्तु नरवाई लोगों ने जीते-जी उसकी दासता स्वीकार

नहीं की। शेष जातियों ने सीजर ने सन्धि कर ली थी और वटेविया के लोगों को सीजर ने खुश होकर अपनी सेना में रख लिया था। आगे चलकर यह वटेविया की सेना अपनी वीरता के लिए सारे यूरोप में प्रसिद्ध हुई। यहाँ तक कि रोम-साम्राज्य की लगाम ही इस सेना के हाथ में आ गई। जिसकी तरफ यह सेना झुक जाती थी, वही रोम का राजा चुन लिया जाता था।

एक दफा वितेलियस वटेवियन सेना की सहायता से रोम का राजा चुना गया। परन्तु उसने गद्दी पर बैठते ही सारी वटेवियन फौज को जर्मनी भेज दिया क्योंकि वह उससे बहुत डरता था। चूस फिर क्या था। नेदरलैंड में क्रान्ति हो गई और नेदरलैंड से रोम-साम्राज्य की सत्ता ही उखाड़ फेंकी गई। क्लाडियस सिविलियस नाम का एक बहुत बुद्धिमान वटेवियन सरदार था। उसने रोम में शिक्षा पाई थी और पच्चीस वर्ष तक रोम की सेना में रहा था। वह बड़ा स्वतन्त्रता-प्रिय व्यक्ति था। उसने देखा कि रोम के राजा बहुत ऐयाश और कमजोर हो गये हैं; और राज्य की लगाम वटेवियनों के हाथ में है। रोम में रहकर रोमनों की सारी बुराइयाँ सिविलियस ने अच्छी तरह देख ली थी। वितेलियस अपने खाने-पीने पर ही एक सप्ताह में जितना धन खर्च कर डालता था उतना धन सारे वटेवियनों का केवल पेट ही नहीं भर सकता था, बल्कि उनके देश के दानदल सुखाकर उसे हरा-भरा एवं धन-धान्य-पूर्ण देश बना सकता था। सिविलियस ने सोचा कि क्यों न ऐसे व्यसनी राजा से पिण्ड छुड़ा लिया जाय।

सिविलियस ने देखा कि नेदरलैंड को स्वतन्त्र हो जाने का वही मौका है। बड़े प्रयत्न से उसने नेदरलैंड की सारी जातियों

को मिलाया और रोम के विरुद्ध स्वतन्त्रता के युद्ध की दुन्दुभी बजाई। युद्ध छिडा। एक तरफ तो सारे रोम-साम्राज्य की शक्ति थी और दूसरी तरफ छोटा-सा नेदरलैण्ड। कहाँ तक लडाई चल सकती थी? बेचारे सिविलियस की हार हुई। दक्षिण प्रदेशों की फ्रासिसी सन्धि के लिए उत्सुक हो उठे थे। यहाँ तक कि वीर बटेवियन भी बडबड़ाने लगे थे कि 'हमी अकेले कहाँ तक लडते रहेंगे, जब सबके भाग्य मे गुलामी ही बदी है तो हमीं अकेले लडकर उसे कैसे रोक लेंगे?' सिविलियस बडा होशियार राजनीतिज्ञ था। उसने रोमनों के आये हुए सन्धि के सन्देश को तुरन्त स्वीकार कर लिया। राइन नदी का पुल बीच में से तोड़ दिया गया। और इस तरफ सिविलियस और उस तरफ रोम के सेनापति खडे होकर आपस में सन्धि की शर्तें करने लगे।-

वस लेखक टेसीटस ने इस कहानी को यहीं पर छोड़ दिया है। बेचारे सिविलियस का कार्य, दक्षिण प्रदेश के निवासियों के कन्धे डाल देने के कारण पूरा न हो सका। आगे चल कर हम देखेंगे कि यह दक्षिण प्रान्तों के फ्रासिसी हमेशा लडाई के लिए सब मे पहले कदम उठाते थे परन्तु अन्त में सब से पहले घुटने टेक देते। उत्तर प्रान्त के लोग धीरे-धीरे आते थे, परन्तु आजाने पर अन्त तक अड़े रहते थे। बाद में विलियम आव् आरेञ्ज ने फिर जब स्वतन्त्रता का झण्डा खड़ा किया तब भी यह दक्षिण वाले अन्त में उमे इसी प्रकार छोडकर चल दिये जैसे कि उन्होंने सिविलियस का साथ छोड़ दिया था।

बहुत दिनों तक नेदरलैण्ड रोम-साम्राज्य का एक भाग रहा। फिर प्रान्त के कब्जे में चला गया। और फिर शार्लमैन

की मृत्यु के बाद जब उसके कमजोर उत्तराधिकारी उसके बड़े साम्राज्य को संभाल न सके तब नेदरलैंड पर जर्मनी ने कब्जा जमा लिया। इस बीच में नेदरलैंड में बहुत से छोटे बड़े जागीरदार उठ खड़े हुए थे। सन् १२२ ई० में नेदरलैंड के अन्तिम फ्रांसिसी राजा ने काउण्ट डर्क को होलैंड की जागीर प्रदान की थी। जागीरदारों को प्रायः पूर्ण राज्याधिकार होते थे। १६५ ई० में लौरेन की जागीर दो भागों में विभाजित कर दी गई थी। नीचे का भाग नेदरलैंड में आ गया था। ग्यारहवीं सदी में यह जागीर काउण्ट ऑव् ब्रवेण्ट के हाथ आई और वह काउण्ट से ड्यूक ऑव् ब्रवेण्ट कहलाने लगा। जिस प्रकार इन बड़े जागीरदारों को अपनी-अपनी जागीरों में पूर्ण स्वतन्त्रता थी उसी प्रकार उनसे नीचे के काउण्ट और बैरन कहलाने वाले जागीरदारों को भी अपने यहाँ पूर्ण स्वतन्त्रता थी। नामूर, हेनाल्ट, लिमबर्ग और जुटफेन के काउण्ट लक्जमबर्ग और गुइलड्रेस के ड्यूक मेचलिन के बैरन और एण्टवर्प के मार्कीज़ इत्यादि सारे जागीरदार इसी कक्षा के जागीरदार थे। लौरेन के घराने के बाद सब से मशहूर फ्लेण्डर्स का घराना था। हालैंड, जेलैंड, यूट्रेक्ट, ओवरीसैल, ग्रीनिन जेन, ड्रेन्द और फ्रीसलैन्ड ये सात प्रान्त जिस भाग में बसे हुए थे उसी भाग में अन्त में संयुक्त नेदरलैंड के प्रजातन्त्र-राज्य की स्थापना हुई थी। प्रारम्भ में इस भाग पर हालैंड के काउण्ट और यूट्रेक्ट के बिशप मिल कर राज्य करते थे।

नेदरलैंड छोटी छोटी जागीरों में बँटा हुआ था। दसवीं शताब्दी में पुराने डंग का बटेवियन शासन जिसमें लोग अपने

अधिकारी स्वयं चुन लेते थे—नष्ट हो चुका था। जब नेदरलैण्ड पर रोम का आधिपत्य हुआ था तब से यह अधिकारियों के चुनने की प्रथा बन्द कर दी गई थी। राजधानी रोम से जो अधिकारी नियत कर दिया जाता था देश पर उसी का अधिकार समझा जाता था। फिर जब फ्रान्स का आधिपत्य हुआ तो उस ने भी यही प्रथा जारी रखी। शार्लमैन के समय में तो सार्वजनिक पंचायतों का नाम ही मिट गया था। सेना विभाग, शासन-विभाग, न्याय-विभाग सारे विभागों के अधिकारी राजा द्वारा नियुक्त होते थे। परन्तु जैसे भारतवर्ष में मुगल सम्राट के कमजोर होते ही नवाब इत्यादि अपना राज्य जमा बैठते थे, उसी प्रकार नेदरलैण्ड के अधिकारी भी किया करते थे। शार्लमैन का सिद्धान्त था कि अधिकारियों को लोगों के पुराने रस्म रिवाजों के अनुसार ही शासन करना चाहिये। इस सिद्धान्त के कारण जनता पर निरंकुश राज्य कभी न हो सका। लोगों को बहुतसी बातों में स्वतन्त्रता रही। परन्तु इस सिद्धान्त की आड़ में अधिकारी लोग भी राजा की मीन-मेख से बचे रहते थे। यही अधिकारी वर्ग सारी मानगुजारी और कर वसूल किया करता था मालगुजारी का कम से कम एक तिहाई भाग तो ये मामूली तौर पर सदा ही हड़प जाते थे। परन्तु सम्राट के कमजोर होते ही सारी आमदनी अपने घर रखने का क्रम शुरू हो जाता था। इस अन्धे समय में जब कि शिक्षा और सभ्यता का अच्छा तरह प्रकाश नहीं फैल पाया था। अधिकारी और धर्म गुरु जनता का खून खून चूमते थे। कत्ल ज्विना, बदमाशी, लूटमार सबसे रुपया देकर बचाव हो सकता

था। राजा के अधिकारी प्रायः साल में तीन बार पंचायतों को एकत्र किया करते थे परन्तु ये पंचायतें उन बटेवियन स्वन्त्र पंचायतों की तरह नहीं थीं जिन में अश्व-शस्त्र से सुसज्जित ढाल-तलवार खनखनाते हुए वीर अपनी इच्छानुसार मनमाने समय पर आकर अपने अधिकारी चुना करते थे। अत्र देश के शासन की वागडोर दूर देश में रहने वाले ऐसे गुप्त हाथ में पहुँच गई थी, जिसके उन्हें कभी दर्शन भी नहीं होते थे। अत्र जनता का शासन नहीं था, जनता पर शासन होता था। अत्र अपने अधिकारी नेदरलैण्ड वाले स्वयं नहीं चुनते थे। कोई दूसरी ही देवी शक्ति उनके अधिकारी चुन कर भेजती थी। जनता के राजनैतिक अधिकार ही नहीं छीन लिये गये थे, व्यक्तिगत अधिकारों की भी कुरकी करली गई थी। जो अधिकारी जनता के रक्षक नियत किये जाते थे, वे ही जब भङ्ग बन कर जनता पर टूटते थे तब शासन की सुव्यवस्था कैसे रह सकती थी ?

इसी प्रकार पाँच शताब्दियाँ बीतीं। इस काल में 'जिसकी लाठी उसकी भैंस,' वस यही एक कानून था। लाठी का जोर, रूपये का जोर, धर्म-गुरुओं का जोर। इन्हीं तीन शक्तियों का निरंकुश राज्य था। परन्तु ससार में धीरे-धीरे सभ्यता फैल रही थी। यह ठीक है कि ड्यूक बैरन, धर्म-गुरु लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, प्रजा का रक्त मुफ्त में बहाया जाता था, बाज़्र दफा तो एक एकड़ ज़मीन के लिये हजारों जानें जाती थीं; यह भी ठीक है कि धर्म के नाम पर सैकड़ों रोते-पीटते मनुष्यों की गरदनें काट कर देवी-देवताओं पर चढ़ा दी जाती थीं; बेईमानी,

दगाशजी, छल-कपट, लूटमार, किमी भी प्रकार से। रुपया जमा करना लोग साधारण बात समझते थे। परन्तु यह सब होते हुए भी नेदरलैण्ड की तिजारत और कला-कौशल में वृद्धि हो रही थी, देश की गोद धन से भरने लगी थी। दूर-दूर पर वसे हुए नगरो और गावो के साथ-साथ बड़े नगर भी बसने लगे थे। नगरों की मालदार चुंगियों की राज्य कार्य्य में बात भी सुनी जाने लगी थी। हालैण्ड के मल्लाहो ने भी दूर-दूर के धावे मारना शुरू कर दिये थे। धन से बल आता है, बल से आत्म-विश्वास। जब सर्व साधारण में कारीगरी के कारण रुपया हो गया तो उन्होंने भी धनुष-बाण खरीदे, वे भी तलवारें बाँध कर सरदारो की तरह ऐँठ कर निकलने लगे। साधारण मनुष्यों का इस प्रकार मूँझों पर ताव देना जब सरदार लोग न सह सके, तो आपस में अकसर झगडे भी होने लगे। इन झगडों में सर्व साधारण ने देखा कि उनकी तलवार भी उतना ही अच्छा काट कर सकती है जितना अच्छा कि सरदारों की तलवार करती है। अपनी शक्ति का ज्ञान होते ही जनता के हृदय से सरदारों का भय निकल गया। शिक्षा भी फैल ही रही थी। लोगो की आँखें खुल जाने से धर्म गुरुओ का दबदबा भी कम हो चला। दिन-दिन सर्व साधारण की शक्ति बढ़ता गई। बहुत दिनों से जो एक सिद्धान्त चला आता था कि 'राजा पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतार है' वह तो कायम रहा परन्तु वास्तविक सत्ता सार्वजनिक चुङ्गियों के हाथ में आने लगी। यह 'परमेश्वर के अवतार' वाला सिद्धान्त भी बड़े मजे का सिद्धान्त था। कोई भी मूर्खाधिराज गद्दी पर आ विराजे परन्तु वह

परमेश्वर की ही इच्छा से आता था। यदि परमेश्वर के भेजे हुए इन महान् आत्माओं में से यदि कोई बलहीन होते अथवा राज्य-कार्य की आपदाओं से विरक्त रहना चाहते थे तो वे ईश्वर के सौंपे हुए राज्य को बेच-वाच कर अपना पिएड छुड़ा लेते थे। चार्ल्स दि सिम्पुल ने, डमी ईश्वर के प्रतिनिधि की हैसियत से काउण्ट डर्क हालैण्ड को सौंप दिया था, परन्तु इतने पर भी ईश्वर का प्रतिनिधि बेचारा चार्ल्स दि सिम्पुल अपने ताज की रक्षा न कर सका, जेलखाने में जान गँवाई। यद्यपि नगरों के हाथ में वास्तविक सत्ता आरही थी, परन्तु नगर खुदम् खुदा कभी कानून बनाने या शासन में भाग लेने का दावा नहीं करते थे। हाँ, सम्पूर्ण महत्वपूर्ण राज कार्यों में, और विशेषतः सन्धि करने में तो इनका पूरा हाथ रहता था। डराकर, धमका कर, खून बहाकर, वायदे करके, धूप देकर, लालच देकर, नाना प्रकार से नेदरलैण्ड के नगरों ने राजाओं से अधिकार-पत्र ले लिये थे। ये अधिकार पत्र (Charters) जन-साधारण की तरफ से बनाये जाते थे और राजा उन में लिखी हुई जनता की शर्त के अनुसार राज्य करने की शपथ लेता था। ये अधिकार-पत्र नेदरलैण्ड के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु हैं। इन्हीं के अनुसार नगरों पर राज्य होता था। जब कभी राजा इनके विरुद्ध जाता था तो जनता मरने-मारने पर तत्पर हो जाती थी। इस प्रकार अभी तक जहाँ केवल सरदार और धर्म-गुरु ही थे, वहाँ तीसरी शक्ति नगरों की पैदा होगई। फिरभी नगर न तो अपने को सारे देश का प्रतिनिधि समझते थे और न वे थे ही। उत्तर भाग में गुलामों प्रबल रूप से बहुता

दिन तक कायम रही। अधिकार-पत्रों के अनुसार निरंकुश-शासन के स्थान पर कानून का राज्य कायम हुआ था। सब के लिए एक ही कानून था। कोई मनुष्य बिना कुसूर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। अदालतें भी बनाई गईं, गुलाम इत्यादि नीच जाति के लोगों को छोड़ अन्य साधारण वर्ग के सब मनुष्य इन अदालतों में बैठ सकते थे। इतना सा सुधार और अधिकार भी उस असभ्य काल के लिए बड़ी बात थी।

पहले तो नगरों के अधिकारी राजा ही चुनता था। फिर धीरे-धीरे इन नगरों की चुंगियाँ ही अधिकारी चुनने लगीं। नैतिक जीवन के उदय और कला-कौशल से कमाये हुए धन के बल ने हालैण्ड और फ्लेण्डर्स के नगरों को छोटे-छोटे प्रजातन्त्रों के रूप में बदल दिया था। जैसे-जैसे इन नगरों की शक्ति बढ़ती गई, वैसे-वैसे इन्होंने और हाथ-पैर फैलाये। सरदारों के साथ इन नगरों के प्रतिनिधि प्रान्तिक पंचायतों में भी पहुँचने लगे। सन् १२८९ ई० में हालैण्ड के ६ प्रधान नगरों को प्रान्तिक पंचायत में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला। इस प्रकार सरदारों के साथ-साथ इन नगरों के हाथ में भी राजनैतिक संगठन का अधिकार आने लगा। काउण्ट ने नगरों को अपने अधिकारी और काँसिल के कुछ सदस्यों चुनने की भी सनद दे दी।

जिस स्थान पर आजकल हालैण्ड में ज्यूडरजी नाम का समुद्र का भाग है, वहाँ पहले स्थल था। तेरहवीं शताब्दी में एकाएक समुद्र की ढाढ़ आ जाने से यह हिस्सा डूब गया। तबसे पृथ्वी का यह भाग समुद्र का भाग बन गया। इस अचानक दैवी-आपत्ति से फ्रीसलैण्ड दो भागों में बँट गया। पश्चिमी भाग

हालैण्ड से मिल गया और पूर्वी भाग के स्वतंत्रता-प्रिय लोगों ने अपनी स्वतंत्र शासन प्रणाली कायम रखी ।

हालैण्ड में प्रथम डर्क से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक ४०० वर्ष बराबर डर्क और फ्लोरेन्स के घराने के मनुष्य गद्दी पर बैठते आये थे । इन घरानों के नष्ट हो जाने पर हेनाल्ट के काउन्ट के घराने को हालैण्ड की जागीर मिली । हालैण्ड और ज़ेलैण्ड मिलकर एक ही हो चुके थे । अन्त में ये दोनों प्रान्त हेनाल्ट से मिल गये । सन् १३५५ ई० में इस घराने का अन्तिम सरदार भी बिना कोई पुत्र छोड़े मर गया । इसलिए उसकी बहिन का लड़का विलियम ऑव् ववेरिया गद्दी पर बैठा । विलियम के बाद उसका भाई और भाई के बाद भाई का बेटा जागीर का मालिक हुआ । इसका नाम भी विलियम था । इसके बाद उसकी १७ वर्ष की लड़की गद्दी पर बैठी । परन्तु लड़की के चचेरे भाई वरगण्टी के ड्यूक फिलिप ने, जो 'सज्जन' के नाम से मशहूर था, उससे इसके बाप की जागीर छीन ली । लड़की बेचारी जगलो में मारी-मारी फिरने और बड़े कष्ट से अपने दिन बिताने लगी ।

पाँच सौ वर्ष तक नेदरलैण्ड इसी तरह छिन्न-भिन्न रहा । अन्त में वरगण्टी के घराने का सारे नेदरलैण्ड पर राज्य हो गया । नेदरलैण्ड के सब प्रान्त जो अलग-अलग हो गये थे, फिर से सब दासता के एक सूत्र से बाँध दिये गये । सब मिल कर एक स्वामी के सामने शीश नवाँने लगे । एक शताब्दी से अधिक समय तक यही घराना सारे देश पर राज्य करता रहा ।

हालैण्ड हज़म करने के पहले ही फिलिप बहुत से प्रान्तों — किसी पर विरासत से तो किसी पर ज़बरदस्ती से अधिकार

जमा चुका था। हालैण्ड, जेलेण्ड, हेनाल्ट और फ्रीसलैण्ड पाने के एक साल बाद ही उमने लक्जमबर्ग पर भी अधिकार जमा लिया। इतना बड़ा राज्य पाकर वह यूरोप के अन्य राजाओं की बराबरी का दम भरने लगा। पोर्चुगल की शाहजादी इजाबेला से जब उमका विवाह हुआ था तो फिलिप ने 'गोल्डेन फ्लीस' नामक एक संस्था स्थापित की थी।

संसार के सबसे प्रख्यात पच्चीस राजे, महाराजे और सरदार इस संस्था के सभासद थे। जैसा पहले कहा जा चुका है नगरो की चुंगियाँ और नगर पंचायतो की शक्ति बहुत-कुछ बढ़ गई थी। राजा के प्रतिनिधि और सरदारों के प्रतिनिधियों के बराबर ही नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों का भी प्रान्तिक पंचायतों में जोर था। परन्तु सब नगर छोटे-छोटे प्रजातन्त्र राज्यों की तरह एक दूसरे से स्वतन्त्र थे। प्रान्तिक पंचायत में जो प्रतिनिधि जाते थे, वे वहाँ उसी प्रकार बैठते थे जिस प्रकार आजकल राष्ट्र-संघ में भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि एक दूसरे पर कड़ी नजर रख कर बैठते हैं। एक नगर को दूसरे नगर पर विश्वास न था। यही अविश्वास उन्हें आगे चल कर ले डूबा। फिलिप जन्म का बड़ा लालची था। वह कभी अपनी संकुचित शक्ति पर सन्तोष नहीं कर सकता था। गद्दी पर बैठते ही उसने लोगों को कसना शुरू किया। सर्व-साधारण की स्वतन्त्रता कायम रखने और अधिकार-पत्रों के अनुसार चलने की उसने जो शपथें ली थीं वे सब एक किनारे रख कर उसने मरते दम तक नेदरलैण्ड के लोगों की स्वतन्त्रता कुचलने का ही प्रयत्न किया। उसमें राज्य शासन की पूर्ण योग्यता थी। रणभूमि में भी वह

जी खेल कर लड़ता था। उसने जनता पर बहुत कर लगाया। परन्तु उसमें इतनी वृद्धि थी कि जिन लोगों का थैली काट-काट कर खजाना भरा जा रहा है यदि वही निर्धन हो जायेंगे तो आमदनी का द्वार भी बन्द हो जायगा। इसीलिए वह सदा इस बात का भी प्रयत्न करता था कि देश की तिजारत और उद्योग-धन्धे बढ़ते रहे। उसके समय में जिस प्रकार स्वतंत्रता की चिन्ता हुई, उसी प्रकार देश के धन-दौलत की वृद्धि भी हुई।

फिलिप के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा। उसका नाम था चार्ल्स। परन्तु वह 'बहादुर चार्ल्स' के नाम से पुकारा जाता था। बहादुर तो वह अवश्य था, परन्तु दुर्भाग्य से उसमें और कोई गुण नहीं था। किसी अन्य देश पर जाकर राज करने और भ्रजा की जेब काटने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता और चालाकी की आवश्यकता होती है। चार्ल्स का बाप तो इस काम में बड़ा होशियार था परन्तु चार्ल्स निरा उदरुह और ऊल-जलूल था। जिस प्रकार मुहम्मद तुग़लक चोन जैसे बड़े-बड़े राज्यों को जीतने के स्वप्न तो देखा करता था, परन्तु देश की शासन व्यवस्था का कुंछ-विचार नहीं करता था, उसी प्रकार इसे भी राज्य-शासन की कोई परवाह नहीं थी। एक बड़ी भारी फौज रख छोड़ी थी, और प्रजा पर निर्द्वन्द्व होकर कर लगाता था। लोग इतना अधिक कर देने को तैयार नहीं थे। अधिकारी वर्ग जब कर वसूल करने जाते थे तो अकसर मार-पीट भी हो जाती थी। सड़के खून से रँग जाती थीं। तिस पर भी यह पागल स्वीजरलैण्ड की वीर पहाड़ी जातिओं से लड़ाई मोल ले बैठा। अन्त तक वह इसी प्रकार मार-काट में लगा रहा। उसका सिर अपने स्वप्न के

साम्राज्य का ताज तो नहीं पहिन सका, एक दिन कटकर रक्त-पूर्ण कीचड़ में अवश्य जा गिरा। यह बेचारा अपने राज्य की असहाय प्रजा को सताने के सिवाय अपना और कोई मनोरथ पूर्ण न कर सका। इसके मरने पर उसको जवान लड़की मेरी गद्दी पर बैठी।

मेरी के गद्दी पर बैठते ही लोगों में यह विचार फैला कि खोई हुई स्वतन्त्रता फिर से प्राप्त करने का यह अच्छा अवसर है। आपस की फूट से जो हानि होती है उसका लोग अनुभव कर चुके थे। इसलिए सब दल मिल गये। सबने मिलकर एक स्वर से अपने अधिकारों को माँग की। मेरी बेचारी औरत थी। तिसपर इधर से फ्रांस के राजा लुई ने भी बरगएडी पर चढ़ाई कर दी। वह सारा राज्य अपने लिए और मेरी को अपने लड़के से ट्राहने के लिए माँगने लगा। मेरी बड़ी घबड़ाई, उसने देश के लोगों से प्रार्थना की कि सब मिलकर इस नयी आपत्ति का सामना करो। लोगों ने कहा—“हाँ, हम तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं, परन्तु हमारे जा अधिकार तुम्हारे बाप-दादों ने नष्ट कर डाले हैं, हमें फिर दो और शपथ खाओ कि भविष्य में फिर कभी हमारी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप न होगा। मेरी ने शपथ खाकर ‘ग्रेट प्रिविलेज’ अर्थात् ‘महान् अधिकार’ के नाम का लोगों को एक अधिकार-पत्र दिया, जिसका नेदरलैण्ड के इतिहास में वही स्थान है जो इंग्लैण्ड में मेगना चार्टा का। नेदर-लैण्ड के भावी लोकमन्तात्मक राज्य की जड़ इसी अधिकार-पत्र से जमी। नेदरलैण्डवालों को कोई नया अधिकार नहीं दिया गया था। केवल पुराने अधिकारों को इस अधिकार-पत्र में फिर से मान लिया गया था।

“प्रान्तिक पंचायतो की सम्मति लिए बिना मेरी विवाह नहीं करेगी। सब अधिकारी देशवासियों में से ही बनाये जायेंगे। कोई अधिकारी दो पदों पर नियुक्त नहीं हो सकेगा। पदों की विक्री नहीं होगी। बड़ी पंचायत और हालैण्ड की सबसे बड़ी अदालत पुनर्जीवित की जाती है। मामूली अदालतों की अपील इस बड़ी अदालत में सुनी जायगी। जो अभियोग प्रान्तिक और नागरिक अदालतों के हल्को में होंगे व पहले उन्हीं अदालतों में जायेंगे। केवल उनको अपील इस अदालत में होंगे। प्रान्तिक और नागरिक भगडे चुकाने के लिए लोग अपनी सीमा से बाहर नहीं बुलाये जायेंगे। प्रान्तों की तरह नगर भी जत्र चाहे और जहाँ चाहे अपनी पंचायतों की बैठक कर सकेंगे। प्रान्तिक पंचायतों की राय के बिना कोई नवीन कर नहीं लगाये जायेंगे। मेरी या उसके उत्तराधिकारी कोई लड़ाई बिना प्रान्तिक पंचायतों की राय के नहीं छेड़ेंगे। यदि पंचायत की सलाह लिये बिना कोई लड़ाई छेड़ी जायगी तो प्रान्त उसके लिए धन इत्यादि कुछ देने को बाध्य नहीं होंगे। सब राज-कार्यों में देशी-भाषा का उपयोग होगा। मेरी का कोई हुम्म, जो नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध होगा, नहीं माना जायगा। पंचायतों की राय के बिना न कोई सिका बनाया जायगा, न किसी सिके का मूल्य घटाया-बढया जायगा। जिन करों के सम्बन्ध में नगरों की राय नहीं ली जायगी वे कर देने को नगर बाध्य नहीं होंगे। राजा स्वयं पंचायतों के सामने आकर अपने व्यय का प्रश्न रखवा करेगा।”

पन्द्रहवा शताब्दी के लिए ऐसी शासन-योजना काफी उदार थी। इस योजना से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वतंत्रता नेदरलैण्ड

के लोगो का जन्म-सिद्ध अधिकार मान लिया गया था । अभी तक तो प्रजा के कुछ अधिकार ही नहीं थे । जो कुछ था, राजा था । खैर, अब माना गया कि जनता के भी हाथ, पाँव, दिल और दिमाग होता है । हालैण्ड की तर्ह फ्लैण्डर्स इत्यादि अन्य प्रान्तो के साथ भी ऐसी ही योजनायें की गईं । देश मे चारो ओर आनन्द मनाया जाने लगा । इसी आनन्दोत्सव के बीच मेरी ने चुपचाप अपने कुछ विश्वासी अधिकारियो को, बिना पंचायत की अनुमति के, फ्रांस के राजा से सन्धि करने के लिए भेज दिया । फ्रांस के राजा ने सारा भेद खोल दिया । नवीन स्वतंत्रता पाये हुए मतवाले लोगो ने पकड़ कर तुरन्त उन देश-द्रोही अधिकारियो को सूली पर चढ़ा दिया । मेरी बाल बियेरे दौड़ती हुई आकर अपने नौ करों के लिए प्राणदान की भिक्षा माँगने लगी । परन्तु किसी ने उसकी न सुनी ।

१८ अगस्त सन् १४७७ ई० को मेरी का विवाह आस्ट्रिया और जर्मनी के राजा, हेप्सबर्ग के घराने के युवराज मैक्समिलियन से हो गया । मैक्समिलियन बड़ा ही चालाक था । उसने जनता के सर्वप्रिय दल से ऊपरी मेन कर लिया, उन्हें बड़े-बड़े मज्ज वाग दिखाये और अन्त में सरदारों से सर्व-साधारण को भिड़ाकर सरदारों की शक्ति नष्ट कर डाली । मेरी की घोड़े से गिर कर अकाल-मृत्यु हो गई । सब प्रान्तों ने मैक्समिलियन को मेरी के वधो को रक्षक मानकर वधो की नाबालगी मे उसको शासन करने का अधिकार दे दिया । परन्तु फ्लैण्डर्स प्रान्त के लोग बड़े स्वतन्त्रता-प्रिय और अभिमानी थे । उन्होंने उसको राज्याधिकारी मानने मे साफ इन्कार कर दिया । मेरी के चार वर्ष की अवस्था

के पुत्र फिलिप को वे उठा लें गये और उसी के नाम पर शासन करने लगे। कई वर्ष तक योही काम चलता रहा। मैक्समिलियन कुछ न कर सका। अन्त में सन् १४८८ ई० में उसने रोमनों की एक सेना लेकर ब्रूजेज नगर पर—जहाँ उसका लड़का रहता था—चढ़ाई कर दी। लोगों ने उसकी सेना को हरा दिया और उसको पकड़ कर मय उसके कई सरदारों के बाजार के एक मकान में कैद कर दिया। दूसरे प्रान्तों का बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने मैक्समिलियन और फ्लैण्डर्स के लोगों से जैमे-तैसे सन्धि करा दी। इस सन्धि के अनुसार मैक्समिलियन अन्य सारे प्रान्तों का अधिकारी माना गया परन्तु फ्लैण्डर्स पर फिलिप के नाम से एक कौंसिल का ही राज्य रहा। इसी समय यह भी निश्चय हुआ कि हर वर्ष सारे प्रान्तों को एक कांग्रेस हुआ करेगी और उसमें देश की अवस्था पर विचार हुआ करेगा। इन सब बातों को पूरा करने की मैक्समिलियन ने शपथ तो खाली, परन्तु ज्योंही उसके पिता बादशाह फ्रेडरिक ने उसको सहायता के लिए सैक्सनी के ड्यूक के सेनापतित्व में सेना भेजी उसने तुरन्त अपनी प्रतिज्ञा भंग कर डाली। एक वर्ष तक युद्ध होता रहा। अन्त में फ्लैण्डर्स के लोगों की हार हुई। सारे देश पर मैक्समिलियन का निरंकुश राज्य फैल गया। जिन लोगों ने उसके विरुद्ध सिर उठाया था उनको कड़ी सजाये मिली। अपने और अपनी पत्नी के पिछले वादों का विचार न करके उसने लोगों की स्वतंत्रता कुचल डाली। सन् १४९३ ई० में अपने बाप की मृत्यु पर मैक्समिलियन पूरे साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अब वह एक महान साम्राज्य का अधिपति था। दूसरे साल मेरी के पुत्र फिलिप को—जो 'सुन्दर'

फिलिप कहलाता था—नेदरलैण्ड की सारी पंचायतों ने भेंट और नजरें दीं। उत्तर में उसने केवल वरगण्डी के चार्ल्स और फिलिप के वादों को मानने की शपथ खाई। मेरी के 'ग्रेट प्रिविलेज' की याद तक भुला दी गई। हालैण्ड, जेलैण्ड इत्यादि सारे प्रान्तों ने उसे इन्हीं शर्तों पर अधिकारी मान लिया। फ्रीसलैण्ड ने—जिसके अधिकार-पत्र में लिखा था कि जबतक वायु स्वच्छन्दता से बहेगी फ्रीसलैण्ड भी स्वच्छन्द रहेगा—लड़ाई में थके होने के कारण, निराश होकर, मैक्समिलियन के हुक्म से ड्यूक ऑफ् सैक्सनी को अपना नवाब (Podesta) मान लिया। सारा देश पर-तन्त्रता की जखीर में फिर बँध गया।

सन् १४९६ ई० में फिलिप का विवाह स्पेन के राजा की कन्या से हुआ। फिलिप तो वाजिदअली शाह की तरह ऐशो-आराम से अपना जीवन बिताकर १५०६ ई० में चल बसा परन्तु उसके एक लड़के ने, जो द्वितीय शार्लमेन के नाम से मशहूर हुआ, स्पेन और नेदरलैण्ड को एक छत्र-झाया में कर दिया और इस प्रकार हेपसवर्ग का घगना एक बड़े चक्रवर्ती राज्य का मालिक बन गया। नेदरलैण्ड अब कोई स्वतंत्र राष्ट्र न रहा। एक बड़े साम्राज्य की जागीर समझा जाने लगा। चार्ल्स पांचवाँ, जिमको द्वितीय शार्लमेन कहते हैं, अपने घराने के लोगों को नेदरलैण्ड का नवाब बनाकर शासन करने को भेज दिया करता था। नेदरलैण्ड और स्पेन का यह राजनैतिक मिलन दोनों देशों का वास्तविक स्वप्नेलन न करा सका। एक देश दूसरे से हर बात में विरुद्ध था। स्पेन की आवादी विग्वरी हुई थी, लोग गरीब और लडाकू थे। नेदरलैण्ड खूब आवाढ़ था, तिजारत से

फूल-फूल रहा था। 'सुन्दर' किलिप, फर्डीनेएड से जलता था। इन राजाओं के आपस के वैर के कारण दोनों देशों को प्रजा भी एक दूसरे से घृणा करती थी।

फ्लैएडर्स का भेएट नामो नगर यूरोप का उस समय का सब से बड़ा और मालदार नगर समझा जाता था। यहाँ इतने कारीगर रहते थे कि जब वे अपने काम पर जाने को निकलते तो शहर के सारे रास्ते बन्द हो जाते थे। अस्सी हजार के करीब लडने वाले जवान शहर में रहते थे। भेएट का आधिपत्य आसपास के और भी बहुत से नगरों पर था। नगर की प्रजा अपने-अपने धन्धे के अनुसार कई हिस्सों में विभाजित थी और उन सब की अलग अलग पचायतें थीं। ये लोग बड़े स्वतंत्रता-प्रिय और स्वछन्द थे। मेरी के 'ग्रेट प्रिविलेज' के अनुसार अपने अधिकारों को अभी तक सुरक्षित समझते थे। नगर के बीच रोलैएड नाम का एक बड़ा घण्टा लटकता था। इसके बजते ही लोग हथियार ले-लेकर इकट्ठे हो जाते थे। बहुत दिनों से यह घण्टा वहाँ लटकता था। नगर-वासी घण्टे पर जान देते थे। चार्ल्स का चूड़ा-कर्म-संस्कार भी भेएट में ही हुआ था। एक बार इस नगर पर बारह लाख करोलो का कर लगाया गया। लोगों ने कर देने से इन्कार कर दिया। दवाब डाला गया तो बलवा कर डाला। रोलैएड घण्टे की टनन्-टनन् आवाज होते ही शस्त्र ले-लेकर लोग निकल पडे। जिस मनुष्य को उन्होंने अपना सन्देश देकर भेजा था कि हम कर नहीं देंगे उसने अधिकारियों से जाकर कह दिया कि नगरवासी कर देने को तैयार हैं। उसकी इस 'गा' के लिए उसे बड़ी कड़ी सजा दी गई। पकड़कर

पहले उसे खून कष्ट देकर तंग किया गया और फिर सूली पर चढ़ा कर मार डाला गया। चार्ल्स एक भारी सेना लेकर बड़े ठाठ-बाट से भेरेट में घुसा। उसका खूब स्वागत हुआ। छः घण्टे तक उसका जुलूस शहर में फिराया गया। चार्ल्स का प्रत्येक सिपाही सरशरो की भाँति अस्त्र-शस्त्र और बखो से सुसज्जित था। उसकी शान-शौकत देख कर नगर-निवासी दग रह गये। एक महीने तक तो चार्ल्स चुप रहा और कुछ न बोला। इसके बाद उसने अपना आक्रमण शुरू किया। पहले उन्नीस नेताओं को पकड़कर फाँसी दी गई। फिर सारे नगर को दण्ड का हुक्म सुना दिया गया। सारे नगर का माल-असबाब, रुपया-पैसा, घर-जायदाद सब जब्त कर लेने का हुक्म हुआ। रोलैण्ड घण्टा भी एक दम हटा देने का हुक्म दिया। पिछले कर में डेढ़ लाख बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ छ हज़ार वार्षिक का नया कर सदा के लिए लगा दिया गया। एक बड़ा दरवार हुआ और आज्ञा हुई कि नगर के प्रतिनिधि काले कपड़े पहन कर, नगे सिर, मुँह में लगायें लगायें आवें और चार्ल्स से क्षमा माँगें। नगर में बड़ा अमनतोष था। कोने-कोने पर मिपाहियों का पहरा था। चार्ल्स अपने को इस प्रकार का राजनैतिक अभिनय करने में बड़ा दक्ष ममकता था। बंचारे प्रजा के प्रतिनिधि घसीटकर लाये गये। आँखों में आँसू भरे, रँधी आवाज़ से उन्होंने घुटने टेक कर क्षमा माँगी। चार्ल्स बहुत बदनकर कुछ सोचने लगा। मानो वह विचार कर रहा था कि क्षमा प्रदान करूँ या न करूँ। अन्त में रानी ने अपना अभिनय किया। राजा से बहुत प्रार्थना करते हुए कहा—‘प्रभु आपका जन्म इसी नगर में हुआ था। इसलिए

इनको क्षमा कर दो।” चार्ल्स ने उत्तर में कहा “अच्छा, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण और इस कारण कि ये लोग हृदय से क्षमा माँगते हैं तथा न्याय की कठोर धार से दया ही मुझे भी अधिक पसन्द है. इन लोगों को क्षमा करना हूँ।” इस के बाद सारा देश दासता की कठोर जज्जिरो में पूर्णतया जकड़ गया। देश की सबसे बड़ी अदालत भी अधिकारियों ने अपने हाथ में कर ली और सविषय के लिए निम्न न्याय को जड हो कट गई।

नेदरलैण्ड की क्रान्ति को अच्छी तरह समझने के लिए नेदरलैण्ड की धार्मिक अवस्था को समझना बहुत जरूरी है। ईसाई मजहब तो बहुत दिन पहले ही देश में आ चुका था। परन्तु शुरू से ही लोग पोप का अधिकार बहुत नहीं मानते थे। बारहवीं सदी से ही ऐसे-ऐसे पन्थ उठ खड़े हुए थे, जो पोप का, उसके अधिकारों का और ईसाइयत का मजाक उड़ाया करते थे। बाद को वाल्टो और लूथर इत्यादि के सिद्धान्तों ने भी लोगों में प्रवेश किया। जिस प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भारतवर्ष में पण्डों-पुजारियों के पञ्जे से लोगों को छुड़ाने का प्रयत्न किया, उसी प्रकार लूथर ने यूरोप को धर्मान्धता के पञ्जे से छुड़ाने का प्रयत्न किया था। जो लोग लूथर इत्यादि के सिद्धान्तों को नेदरलैण्ड में मानते थे उन्हें कड़ी सजायें दी जाती थीं। गरम लोहे से जलाया जाता था, आग में डाला जाता था, खोलते हुए पानी में डुबाया जाता था। जिन्दा आदमियों की खाल खिचवाकर मक्खियाँ छोड़ दी जाती थीं और उन बेचारों की तड़पा-तड़पा कर जान ली जाती थी। परन्तु इन सब जुल्मों

लोगों के मन में शान्ति स्थापित न की जा सकी। दिन-

दिन लोगों में प्रचलित धार्मिक व्यवस्था के प्रति अश्रद्धा बढ़ती ही गई ।

पादरी बड़े ऐशो आराम से रहते थे । बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे । राजा, उमराव, सरदार और किसान सभी से रुपया वसूल करते थे । ये लोग अपने से बड़ा अधिकारी ही किसी को नहीं मानते थे । अगर कोई पादरी कोई कसूर करता था तो वह अदालत के नानने आने को बाध नहीं था । उसका मुकदमा पादरियों की अदालत में होता था । मामूली आदमियों को साधारण गवाह होने पर ही सजा मिल जाती थी, परन्तु छोटे से छोटे पादरी को सजा देने के लिए कम से कम सात गवाहों की आवश्यकता होती थी । बड़े पादरियों की सजा करने के लिए तो सत्ताइस से लेकर बहत्तर गवाहों तक की आवश्यकता होती थी । यदि कोई ज़रा भी पादरियों के विरुद्ध आवाज़ उठाता था तो उसके विरुद्ध फतवा निकाल दिया जाता था और सब उसका बहिष्कार कर देते थे । बड़े-बड़े वीर जो आग, लोहा, किसी से नहीं डरते थे इन पादरियों के नाम से काँपते थे ।

१३ वीं शताब्दी के लगभग पादरियों की शक्ति क्षीण होने लगी । पादरी व्यसनी तो थे ही उनके पास धन-दौलत भी बहुत रहती थी । इस दौलत के कारण लोगों में उनके प्रति घृणा और ईर्ष्या बढ़ने लगी । ये न तो देश को रक्षा के लिए ही कभी तलवार पकड़ते थे और न कभी कोई कर ही देते थे । इस कारण राजा-राव सभी इन से कुट्टते थे । फ्लैण्डर्स, हालैंड इत्यादि के काउण्टों ने हुक्म निकाला कि पादरी लोग खरीद, बसीयत इत्यादि किन्हीं प्रकार से भी जागीर के माजिक

नहीं बन सकेंगे। एक दो जगह बलबे भी हो गये। लोगों को घृणा दिन-प्रति-दिन बढ़ रही थी। बढ़े भी क्यों न? पादरियों ने लालच और वेईमानी की हद कर दी थी। बहुत से पादरी तो बिलकुल दुकानदार ही बन बैठे थे। उनके माल पर कर नहीं लगता था, इमलिए वे वर्तन इत्यादि धडहें के साथ और सब दुकानदारों से सस्ते बेचते थे। उनकी प्रतियोगिता में साधारण व्यापारियों की तिजारत ठण्डी पड जाती थी। इसलिए तिजारी भी इन से जलते थे। पादरियों को लोगों के अपराध क्षमा करने का भी अधिकार था। चाहे कैसा ही महान अपराध हो इनके क्षमा कर देने पर फिर अपराधी को सजा नहीं दी जा सकती थी। लालची पादरियों ने 'क्षमा-प्रदान' पत्रों को बेचना शुरू कर दिया। 'जहर देके मारने' का क्षमा-प्रदान-पत्र ११ डुकैट में। 'बिना जहर को हत्या' की क्षमा और भी सस्ती थी। बिल-हत्या दो डुकैट में ही माफ हो जाती थी। कोई ऐसा पाप न था जिस के लिए क्षमा मोल न मिल सकती हो। यहाँ तक कि पाप करने के पहले ही लोग क्षमा-पत्र खरीद सकते थे। कोई पापी यदि गिरजे में जाकर छिप रहता तो फिर उसे सजा नहीं मिल सकती थी। इन सब अनर्थों और धर्म की मिट्टी-पलीद देखकर स्वामी दयानन्द को तरह यदि यूरोप में एक लूथर पैदा हो गया तो आश्चर्य क्या है? अत्याचार ही अत्याचार नष्ट करने वालों को पैदा किया करता है। छापेखाने का आविष्कार भी हो चुका था और बाइबिल छप-छप कर बिकने लगी थी। पहले हस्त-लिखित बाइबिल की एक लगभग ५०० क्राउन में मिलती थी। अब पांच क्राउन में

ही मिलने लगी । ग़रीब आदमी भी बाइबिल खरीद कर पढ़ने लगे थे और उनकी आँखें खुलने लगी थीं । धर्म के ठेकेदारों से ठेकेदारी छिनने लगी थी । सन १४५९ ई० मे वरगण्डो के ड्यूक फिलिप ने एलान कर दिया कि पादरी लोग गिर्जों मे पापियों को नहीं छिपा सकते । चार्ल्स बाल्ड ने भी पादरियों पर कडा कर लगाया था । चार्ल्स लड़ाई के अतिरिक्त दुनिया में और कोई चीज समझता ही नहीं था । पादरी कर देने मे चीचपड करने लगे तो उसने तलवार के जोर से कर वसूल करना शुरू कर दिया । इस प्रकार पादरियों को चारों ओर से धके लगने लगे थे । सच्चे रोमन कैथोलिक लोग पादरियों की दशा पर आँसू बहाते थे । धार्मिक कर वसूल करने के लिए पादरियों ने सारा नेदरलैण्ड जिलो मे बाँट रक्खा था । इन जिलों से वर्म के नाम पर वसूल किया हुआ कर पादरी लोग खुल्लम-खुल्ला जुआघरों, शराखानों और चक्रलों में खर्च किया करते थे । क्षमा का ढांग सीमा के बाहर पहुँच चुका था । 'परमात्मा की माना से जिना करने की भी क्षमा मिज जाती थी' & । यह दशा देख कर सच्चे पुरुषों का हृदय फटता था ।

वर्म की इस व्यवस्था के विरोध में जो पन्थ या पुरुष उठता था लोग उसी के पाँछे चल पडते थे । लूथर, विकलिफ इत्यादि के अतिरिक्त और भी बहुत से लोगों के अनुयायी खडे हो गये थे । नये-नये पन्थ चल पड़े थे । एक पन्थ तो वाम-

& absolution was offered even for the rape of Gods' mother, if that were possible

मार्गियों से भी भ्रष्ट खडा हो गया था। बहुत से लोग इन पन्थ में सम्मिलित हो गये और पन्थ चलाने वाले गुरु की परमात्मा की तरह पूजा करने लगे। गुरु ने एक मेला लगाकर ईसा मसीह की माता मेरी की मूर्ति से विवाह किया और अपने दोनो ओर एक-एक बक्स रख दिया कि लोग परमात्मा की माता के दहेज के लिए रुपया दें। लोगों ने बड़े उत्साह से दौड़-दौड़ कर बक्सों में रुपया भर दिया। अन्व-विश्वाम और पागलपन की हद हो गई थी।

लूथर के पवित्र झण्डे के नीचे लोग एकत्र हो रहे थे। उसने निर्भीक स्वर से धार्मिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई। नेदरलैण्ड स्पेन के राजा चार्ल्स की पैतृक जागीर था। वहाँ वह जो चाहे कर सकता था परन्तु जर्मनी में मननानी करने की उसकी हिम्मत नहीं हो सकती थी। १५२१ ई० में पोप की सम्मति से चार्ल्स ने शाही एलान निकाला कि “लूथर नामी मनुष्य आदमी नहीं बल्कि शैतान है। साधुओं के कपड़े उसने लोगों को बहकाकर नरक में लेजाने के लिए पहन रखे हैं। इसलिए एलान किया जाता है कि वह और उसके चेले जहाँ मिलें फांसी पर लटका दिये जाय और उनका सब माल-असबाब जप्त कर लिया जाय।” इस घोषणा के बाद नेदरलैण्ड में एक भयंकर हत्याकाण्ड प्रारम्भ हुआ जिसके कारण चार्ल्स का शासन यूरोप के इतिहास में कुख्यात है। पहली जुलाई सन् १५२३ ई० को पहले-पहल लूथर के दो चेले त्रसेल्स जाये गये। रोमन कैथलिक प्रथा के अनुसार लोग केवल में प्रार्थना एवं धर्म-शास्त्रों का अध्ययन और चर्चा कर

सकते थे। परन्तु लूथर के मत वाले सुधारक हर स्थान पर प्रार्थना कर लिया करते थे। वे इस वान में विश्वास नहीं करते थे कि गिर्जों में ही प्रार्थना की जानी चाहिए। इसलिए एक नया शाही एलान किया गया कि “गिर्जों के अतिरिक्त और किसी स्थान पर लोग प्रार्थना करने के लिए एकत्र न हों, न घर में धर्म-शास्त्रों का अध्ययन और धर्म-विषयक चर्चा करें। जो इस आज्ञा के विरुद्ध आचरण करेगा उसे प्राण-दण्ड मिलेगा।” एलान कोरी धमकी देने के लिए ही नहीं किये गये थे। दिन-रात भट्टियाँ दहकती थीं और लोग पकड़-पकड़ कर उनमें भोके जाने थे।

लूथर इत्यादि के मत-वालों तथा अण्ड-वण्ड पन्थ वालों को ही सजायें नहीं दी जाती थीं, बहुत से सीधे और सच्चे निष्पक्ष धार्मिक लोगों को भी पकड़-पकड़ कर फाँसी दे दी जाती थी। चार्ल्स की वहिन हॅगरी की रानी मेरी ने—जो नेदरलैंड की नाम मात्र की शासक थी—अपन भाई चार्ल्स को सन १५३३ ई० में एक पत्र लिखा था कि ‘धर्म के विरुद्ध जाने वाले लोगों को खूब कड़ी सजायें देनी चाहिए। किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेदरलैंड की आशाही नष्ट न हो जाय।’ पीछे जो इत्याकाण्ड शुरू हुआ उसे देखकर तो यही भय लगता था कि कहीं मेरी की नियत की हुई सीमा को भी अत्याचार न लाँच जाय और समूचा देश ही वीरान न हो जाय। इस ‘धर्मपरायण’ विधवा मेरी ने बड़ी धार्मिक प्रसन्नता के साथ हुफ्त निकाला था कि धर्म के विरुद्ध आचरण करने वालों को मौत की सजा दी जायगी। जो आदमी पश्चात्ताप करेंगे उन्हें केवल तलवार से मारा जायगा। जो औरतें पश्चात्ताप

करेंगी उन्हें केवल जिन्दा जमीन में गाड़ दिया जायगा और जो लोग पश्चात्ताप विलकुल न करेंगे उन्हें आग में जला दिया जायगा। जिस समय ये अत्याचार हो रहे थे उसी समय चार्ल्स ने अपने पुत्र फिलिप को युवराज और नेदरलैण्ड के भावी राजा की हैसियत से प्रजा से स्वामि-भक्ति की शपथ लेने के लिए नेदरलैण्ड बुलाया।

चार्ल्स का राज्य-त्याग

२५ अक्टूबर सन् १५५९ ई० को ब्रसेल्स के महल में नेदरलैण्ड की पंचायतों को एकत्र होने का बुलावा दिया गया था। चार्ल्स पचम ने यह तिथि राज्य-भार फिलिप को सौंप देने के लिए निश्चित की थी। चार्ल्स राजनैतिक स्वाँग रचने में बड़ा सिद्धहस्त था। वह अच्छी तरह समझता था कि इन राजनैतिक दिखावों का जनता पर अच्छा असर पड़ता है। इन स्वाँगों को किस समय और किस प्रकार रचना चाहिए, यह भी वह खूब जानता था। हम देख चुके हैं कि जब भेएट में चलवा हुआ था तो वह किस प्रकार वहाँ पहुँचा था और फिर बुलावा देकर जनता को महीने भर बाद कैसी कड़ी सजायें दी थीं। हरे-भरे भेएट नगर को—जो कि एक छोटे प्रजातन्त्र की तरह स्वतन्त्र था—विलकुल तबाह कर डाला था। उसकी इच्छा थी कि उसके राजनैतिक जीवन का अन्तिम दृश्य भी उसकी कला का अनूठा नमूना हो। खूब सोच विचार कर उसने इस दृश्य का कार्यक्रम तैयार कर लिया था। २५ अक्टूबर को चार्ल्स अपने सिर का मुकुट उतारकर फिलिप के सिर पर रखेगा यह कोई साधारण बात नहीं। सारे यूरोप की आंखें एक टक ब्रसेल्स के महल की ओर लग रही थीं।

ब्रवेएट प्रान्त की राजधानी ब्रसेल्स बड़ा पुराना, सुन्दर, हरा-

भरा और आवाद नगर था। लगभग एक लाख की आवादी थी। शहर को चारों ओर ६ मील लम्बी चहार दीवारी थी, जो दो सौ घरस पुरानी हो चुकी थी। बीच से गीन नदी बहती थी। चारों ओर बाग, वाटिकाएँ और खेत इत्यादि फन-फूल रहे थे। बीच नगर में टाउन हाल की मीनार ३६० फीट ऊँची नेदरलैण्ड की कारीगरी की ध्वजा-स्वरूप खड़ी थी। इस में पत्थर की नक्काशी का बड़ा सुन्दर काम था। मीनार की बाईं ओर एक बहुत सुन्दर बगीचा था। दाहिनी ओर घोरञ्ज, एगमोण्ट, अरेम्बर्ग, क्यूलेम्बर्ग इत्यादि के सरदारों के राज-भवन बने हुए थे। शहर के बाहर एक मील की दूरी पर एक सघन और सुन्दर बन था, जिसमें ईसाई भिक्षुओं की कन्दराएँ थीं और जहाँ नगर के लोग आखेट के लिए अथवा गरमी में सैर करने जाया करते थे।

इस सुन्दर और धनवान नगर के महल में आज एकत्र होने का पचायती को न्योता मिला था। महल बहुत सुन्दर न था, न किसी विशेष कारीगरी से सुशोभित था। मुख्य द्वार से घुसते ही एक बड़ा हाल मिलता था जिससे सटा हुआ एक छोटासा देवालय था। इस हाल में 'गोल्डेन फ्लीस' संस्था की बैठके हुआ करती थी। इसी हाल में आज की मट्टी सभा का प्रबन्ध किया गया था। पश्चिम की तरफ एक छ-सात सीढियों का मंच बनाया गया था और उसके नीचे बहुत सी बेचें नेदरलैण्ड के सतर प्रान्तों के प्रतिनिधियों के बैठने के लिए रखी गई थी। मंच पर दाहिने-बायें कई कुतारें कुर्सियों की थी, जिनपर जरी पड़ी थी। यह 'गोल्डेन फ्लीस' के सभासदों और विशेष कोटि

के मेहमानों के बैठने के लिए थी। इनके पीछे तोनों बड़ी कौंसिलों के सदस्यों के बैठने की जगह थी। मंच के मध्य में एक बड़ा सुन्दर छत्र था जिसपर वरगण्डी के हथियार सजाये गये थे। इसके नीचे तीन सोने की कुर्सियाँ रक्खी गई थी।

नियत समय पर सब प्रतिनिधि अपनी-अपनी बेंचों पर आकर बैठ गये परन्तु जेल्डरलैण्ड और ओवरीसेल दो प्रान्तों के प्रतिनिधि नहीं आये। चारों ओर हाल ठसाठस भर गया था परन्तु मंच की सब कुर्सियाँ अभी तक खाली थी। लोग उत्सुकता से बाट देख रहे थे। तीन बजते ही देवालय के द्वार से चार्ल्स, विलियम आर्चबिशप का कन्धा पकड़े लकड़ी टेकता हुआ घुसा। उसके पीछे फिलिप और नेदरलैण्ड की मालिकिन हंगरी की विधवा रानी थी। इन दोनों के पीछे, आर्कड्यूक मैक्समिलियन, ड्यूक ऑक्सेवाय तथा गोल्डन प्लीस के और बहुत से सरदार थे। विशप आर्चबिशप—जो पीछे से कार्डिनल ग्रेनविले के नाम से नेदरलैण्ड के इतिहास में अपने अत्याचार के लिए प्रसिद्ध हुआ—इसी भुण्ड में था। फ्रोजियन राज्य धराने का वीर लेमोरेल एगमोण्ट जिसने आगे चल कर रणक्षेत्रों में अपना नरसिंहा बजाकर यूरोप में नाम पाया और अन्त में देश के लिए फ्रांसी पर चढ़ा तथा ड्यूक आर्चबिशप, मार्कीज वरघन और लार्ड मौनटिनो, जिनका अन्त भी एगमोण्ट की तरह ही हुआ, उपस्थित थे। ड्यूक आर्चबिशप एयरशाट, ब्रैडरोड डाक्टर विग्लियस, रुग्मोज इत्यादि और बहुत से लोग भी जो आगे चल कर देश का भाग्य बनाने या बिगाड़ने में भाग लेंगे, इस समय मौजूद थे। जिस के कन्धे का सहारा लेकर

आज चार्ल्स सभा में आया था उसी के सहारे आगे चलकर देश स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा। विलियम ऑव् आरेन्ज का नाम इतिहास में अमर होगा। आज की सभा अनोखी थी। लोगों की आंखें चौंधिया रही थीं। परन्तु जो-जो मुख्य लोग इस दरबार में उपस्थित थे उन सब को आज की चक्राचौंथ एक बड़े अन्वकार की तरफ घुला रही थी। सब के सब आगे चलकर जान से हाथ धोयेंगे। कुछ विप देकर मारे जायेंगे; कुछ फांसी पर लटकेंगे, कुछ कत्ल करवा दिये जायेंगे। परन्तु आज की हँसी-खुशी में कौन इन यातनाओं का स्वप्न देख सकता था ?

चार्ल्स के घुसते ही सब लोग उठ कर खड़े हो गये। त्रिकोणाकार छत्र के नीचे जो तीन कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं, उन पर चार्ल्स आस्ट्रिया की रानी और फिलिप आकर बैठे। अन्य लोग भी अपने-अपने स्थानों पर बैठ गये। प्रिवी कौंसिल के एक सदस्य ने उठ कर एक बड़ी लम्बी चौड़ी वक्रवृत्ता म्हाडते हुए कहा—“बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे महाराजा जो इसी देश में पैदा होने के कारण हमें सबको विशेष रूप से प्यार करते थे, आज अपनी अस्वस्थता और गठिया इत्यादि के कठिन रोगों के कारण राज्य-त्याग कर स्पेन की अच्छी जलवायु में रहने जा रहे हैं।” फिर उसने चार्ल्स का वसीयतनामा पढा जिसमें आज से फिलिप को नेदरलैण्ड का राजा घोषित किया गया था। लोग चार्ल्स की प्रशंसा करते हुए एक-दूसरे से कानाफूसी करने लगे कि ऐसे समय में जब कि फ्रान्स का राजा देश पर दात लगाये बैठा है, महाराज को देश नहीं छोड़ना चाहिए।

चार्ल्स उठा। विलियम ऑव आरेञ्ज का कन्धा पकड़कर और लकड़ी का सहारा लेकर खड़ा हुआ। विलियम आरेञ्ज की अवस्था इस समय केवल बाईस वर्ष थी। परन्तु चार्ल्स ने उसे अपनी सेना का मुख्य सेनापति बनाकर फ्रान्स की सीमा पर लड़ने के लिए नियुक्त कर रखा था। इस विशेष अवसर के लिए उसे वहाँ से बुला लिया गया था। चार्ल्स ने अपनी लिग्वी हुई वक्त्रता पढ़नी शुरू की। १७ वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक के अपने सारे कारनामों का जिक्र करते हुए उसने कहा—“मैंने नौ दफा जर्मनी, छ दफा स्पेन, सात बार इटली, चार बार फ्रान्स, दस बार नेदरलैण्ड, दो दफा इंग्लैण्ड और कितनी ही बार अफ्रिका पर चढ़ाई की। मैंने ग्यारह दफा समुद्र यात्रा की। मैंने जन्म भर जो कुछ किया केवल देश और धर्म की रक्षा के लिए ही किया। जब तक परमात्मा ने मेरे शरीर में शक्ति रक्खी मैंने देश और धर्म की सेवा की। अब मेरी शक्ति क्षीण हो चली है, अतएव देश और प्रजा के हित के लिए मैं राज्य का त्याग करता हूँ। बूढ़े, कमजोर चार्ल्स के बदले नौजवान शक्तिशाली फिलिप का गद्दी पर बैठाता हूँ।” फिर उसने फिलिप से कहा—“मरते समय पिता का इतना बड़ा राज्य पुत्र के लिए छोड़ कर मरना पुत्र के लिए बड़ी वृत्तवृत्ता की बात होनी चाहिए। मैं तो जीते जी ही तुम्हें राज्य सौंप कर कब्र में जा रहा हूँ। मेरा यह ऋण तुम केवल प्रजा की सेवा करके चुका सकते हो। यदि तुम योग्य मावित हुए और परमात्मा से डरते हुए न्याय और धर्म की रक्षा करने रहे तो आगामी सन्तान मेरे त्याग को प्रशंसा करेगी।” अन्त में चार्ल्स

ने पंचायतो से प्रार्थना करते हुए कहा—“मैं तुमसे और तुम्हारे द्वारा देश से प्रार्थना करता हूँ कि फिलिप का आदेश मानना । अपने लिए केवल मैं इतना माँगता हूँ कि यदि मैंने अपने शासन काल में जान वा अनजान कोई अपराध कर डाला हो तो आप लोग मुझे क्षमा करें और भूल जाँय । अब अपना शेष जीवन ईश्वर भजन में बिताऊँगा । आपने जो दया और प्रेम का व्यवहार मेरे साथ किया है उसे मैं कभी न भूलूँगा । परमात्मा से आप के हित के लिए सदा प्रार्थना करता रहूँगा ।”

इन शब्दों ने सब के हृदय पिघला दिये । सब की आँखों में आंसू भर आये और चारों ओर से सिसकियों की आवाज आने लगी । चार्ल्स स्वयं कुर्सी पर बैठ कर बच्चे को तरह रोने लगा । फिलिप उठ कर चार्ल्स के पैरों में गिर पडा । चार्ल्स ने उठा कर उसे छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देकर सरदारों से कहने लगा कि बेचारे फिलिप के कंधों पर एका-एक बड़ा भारी बोझ आ पडा है । परमात्मा इसकी सहायता करें । फिलिप ने अपने पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए लोगों से कहा—“मुझे बड़ा खेद है कि मैं आपकी भाषा में आपसे नहीं बोल सकता । मेरी तरफ से विशप ऑव् परस बोलेंगे । कृपया आप उन्हें ध्यान से सुनिये ।” विशप ने उठकर एक धारा प्रवाह मनोहारिणी वक्त्रता दी जिसमें उसने फिलिप की ओर से चार्ल्स के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और विश्वास दिलाया कि आपकी आज्ञा के अनुसार ही फिलिप अपने कर्त्तव्य का सदा पालन करेगा । देश का शासन चलाने में भी

आपका ही अनुकरण करेंगे। लोगों की ओर से जेकब नाम के एक कौंसिल के सदस्य ने उत्तर में बड़ी सुन्दर भाषा में चार्ल्स का राज्य त्याग मंजूर कर लिया। फिर आस्ट्रिया की रानी ने उठकर अपने पद त्याग की घोषणा की और लोगों से अपने पिछले कृत्यों के लिए क्षमा चाही। जैकब ने पुनः उठकर लोगों की तरफ से महारानी के भूतपूर्व कृत्यों पर सन्तोष प्रकट किया इसके बाद सभा विसर्जित हुई। चार्ल्स जिस क्रम से सरदारों के साथ हाल में आया था उसी प्रकार उठ कर चला गया। चार्ल्स अपने अन्तिम अभिनय में पूर्णतः सफल हुआ। लोगों को उसने विलकुल विश्वास दिला दिया कि जीवन पर्यन्त उसे प्रजा के हित से अधिक और कोई दूसरी वस्तु प्रिय नहीं रही थी। लोगों को आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बरस उठे। भविष्य की ओर सब आशा और श्रद्धा से देखने लगे।

बेचारी भोली-भाली प्रजा को कूट राजनैतिक कैसे भीषण धोखे देते हैं। कैसे खिला-खिला कर मारते हैं। चार्ल्स ने अपने जीवन में कौनसा ऐसा देश-हित का काम किया था, जिसके लिए इतने प्रेम के आसू बहाये गये? सदा उसने लोगों पर अत्याचार ही किये थे। उसकी सारी समुद्र यात्रायें और दूसरे देशों पर हमले नेदरलैण्ड के किस काम आये? उसने कभी इस देश के लोगों के हित का ध्यान नहीं रखा। लडाईयों के व्यय के लिए नेदरलैण्ड से ही सदा रूपया लिया जाता था। परन्तु इन लडाईयों का नेदरलैण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं था। जिस प्रकार १९१४ ई० के महायुद्ध में इंग्लैण्ड और फ्रांस को बचाने के लिए बेचारे भारतवर्ष की जेब काटी

गई थी उसी प्रकार चार्ल्स की साम्राज्य फैलाने की अभिनापाओं को पूरा करने के लिए नेदरलैंड की थैली खाली की जाती थी। चार्ल्स को अपने सारे साम्राज्य में पाच करोड़ की आमदनी थी। इसमें से दो करोड़ नेदरलेण्ड से आता था। इस अभागे देश के कारीगर दिन-रात मेहनत करके जो रूपया इकट्ठा करते थे, वह उनसे कर द्वारा छोन कर व्यर्थ की लड़ाइयों में व्यय किया जाता था। चार्ल्स ने ये सारी लड़ाइयाँ केवल अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए लड़ी थी। पीछे से वह 'धर्म-सुधार' आन्दोलनों का दवाने में नेदरलैंड का धन खर्च करता रहा। नेदरलैंड के लोगों से रूपया तो लिया जाता था परन्तु उन्हें यह पूछने का अधिकार नहीं था कि रूपया व्यय किस प्रकार किया जाता है। अगर कभी पंचायतें कुछ पूछने की हिम्मत करती थी तो राजा की तरफ से उन्हें फटकार मिलती थी। यही नहीं कि चार्ल्स केवल इन लोगों की थैली ही खाली करता हा और उनकी तिजारत को ही हानो पहुँचाता हो। उसकी यह भी इच्छा थी कि नेदरलैंड के पृथक्-पृथक् प्रान्त अपनी पंचायतों द्वारा जो स्वतन्त्र शासन चलाते थे, उसे नष्ट करके सब प्रान्तों को मिलाकर एक ऐसा राज्य बना लिया जाय जिसमें राजा की इच्छा और आज्ञा ही सब कुछ हो। परन्तु ऐसा करना आसान न था। नेदरलैंड के लोगों के पूर्वजों ने अपना रक्त बहाकर स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। आज भी लोग स्वतन्त्रता के लिए खून बहाने को तैयार थे। चार्ल्स मरते दम तक अपनी यह इच्छा पूरी न कर सका। परन्तु जहाँ तक बना उसने लोगों की स्वतन्त्र संस्थाओं को नष्ट करने

का प्रयत्न किया । ट्वरनी नगर की स्वतन्त्रता छीन कर उसने उस नगर को इटली और स्पेन के नगरों की भांति दास बना दिया । हम देख ही चुके हैं कि भेएट को, उसने केवल इस लिए कि इन नगर ने अपनी पुरानी प्रथा और अधिकारों के अनुमार कर देने से इन्कार कर दिया था, कितनी कड़ी सजा दी थी । चार्ल्स केवल निरंकुश शासक ही नहीं था, बड़ा अत्याचारी भी था ।

फिर ऐसे अत्याचारों राजा के राज्य त्याग करने पर नेदरलैण्ड के लोगों ने इतने आँसू क्यों बहाये ?

चार्ल्स में कुछ गुण भी थे । चार्ल्स का युग वीरता और वहादुरी का युग था । जो राजा रणक्षेत्र में दिल खोलकर लड़ सकता था अथवा अखाडों में योद्धाओं को पछाड़ सकता था उसपर लोग मुग्ध हो जाते थे । चार्ल्स बड़ा वीर था । निर्भय होकर लड़ाई में घुस पड़ता था । सबसे पहले कसरत कर तैयार हो जाता था, और सबसे पीछे हथियार खोलता था । जहाँ सबसे घमासान युद्ध होता था वहाँ चार्ल्स सबसे पहले पहुँचता था । अखाडों में भी उसने सैकड़ों वीरों को पछाड़ा था । लोग उसके इन गुणों पर मुग्ध थे इसीलिए अत्याचारी होने पर भी उनके हृदय में उसके लिए प्रेम था । परन्तु यदि चार्ल्स नेदरलैण्ड को आर्थिक और राजनैतिक कष्ट ही दिये होता तो भी प्रजा का उसके प्रति प्रेम दिखाना एक सीमा तक ठीक होता । इतिहास तो चार्ल्स को केवल एक अत्याचारी और दुर्गचारी राजा ही की तरह याद रखेगा । बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे दुष्टात्मा के राज-त्याग करने पर लोगों ने इतने आँसू बहाये ?

वेनिस का राजदूत नेविजेरो चार्ल्स के राज-त्याग के दस वर्ष पहले की अवस्था वर्णन करते हुए लिखता है कि अकेले हालैण्ड प्रान्त में तीस हज़ार प्राणियों को सूली पर चढ़ाकर, गला घोटकर अथवा जिन्दा जलाकर इसलिए मार डाला गया कि वे अपने घर पर धर्म ग्रन्थ पढ़ते थे, मूर्ति-पूजा से घबराते थे अथवा इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि रोटी ॐ के अन्दर ईसा का रक्त और माँस वास्तव में आ जाता है। भिन्न-भिन्न इतिहास-लेखकों के मतानुसार अधिक से अधिक डेढ़ लाख और कम से कम पचास हज़ार लोगों को नेदरलैण्ड में केवल भिन्न धार्मिक विचार रखने के कारण प्राण-दण्ड मिला था। यह वर्णन राज्य-त्याग से दस वर्ष और धर्म-सम्बन्धी चार्ल्स की घोषणा से—जिसके बाद जोर शोर से धार्मिक अत्याचार शुरू हुआ था—पाँच वर्ष पहले का है। घोषणा के बाद के शेष वर्षों में तो न जाने उमने और कितने प्राणियों का वध करा डाला होगा। जो राजा अपने हाथ जिन्दगी भर अपनी प्रजा के रक्त से इस प्रकार रँगता रहा हो उसका इतना मुँह कि प्रजा की प्रतिनिधि पचायतो को बुलाकर अपने राज्य-त्याग के समय कहे कि जीवन-पर्यन्त मैं केवल प्रजा के हित के लिए प्रयत्न करता रहा। और लोग उसके पद-त्याग पर आँसू बहायें? जिन कत्रों में उसने हज़ारों मनुष्यों को जिन्दा गडवा दिया था उनमें से यदि एक मुर्दा उठ कर आज

ॐ रोमन कैथलिक ईसाइयों के यहाँ एक त्योहार पर एक दावत होती थी। उनका विश्वास है कि इस दावत पर जो रोटी खाई जाती है वह ईसामसीह का माँस और शराब ईसा का खून बन जाती है।

इस सभा के सम्मुख खड़ा हो जाता और अपनी कहानी सुनाने लगता तो प्रजा के हित को स्मरण करके आँसू बहाने वाले चार्ल्स को मुँहतोड़ उत्तर मिल जाता। शायद यह मुर्दा इस मनुष्य से, जो आज प्रजा के प्रतिनिधियों से अनजाने अन्याय के लिए क्षमा माँग रहा था, कहता कि इस संसार से परे भी एक संसार है जहाँ अपने भाइयों को जलाना, मारना और सूली पर चढ़ाना पाप समझा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि चार्ल्स धर्मान्ध था, धर्मान्धता के कारण ही उसने ये सब अत्याचार किये। परन्तु यह बात बिल्कुल गलत है। चार्ल्स धर्मान्ध नहीं था। उसने स्वयं रोम पर हमला करके उम नगर को घुरी तरह लूटा था और परमात्मा के प्रतिनिधि पोप को कैद कर लिया था। चार्ल्स तो केवल एक ऐसे महान् साम्राज्य का भूखा था : जिसमें वह निरंकुश, निर्द्वन्द्व राज्य कर सके। उसकी इस महत्वाकांक्षा के रास्ते में जो भी अड़चन बनकर आता था—चाहे वह पोप और पादरी हो अथवा पोप के विरुद्ध पन्थ वाला सुधारक—उसीको वह मिट्टी में मिला देने का प्रयत्न करता था। चार्ल्स धर्म सुधारकों को केवल इस कारण दण्ड नहीं देता था कि वे धर्म में सुधार चाहते थे। वह घड़ा दूरदर्शी था। वह जानता था कि ये आज धर्म में सुधार चाहनेवाले कलशासन में सुधार चाहेंगे। घम इसी कारण वह सिर उठाने वाले लोगों को दवाना चाहता था। यदि वह धर्म में पक्का विश्वास करने वाला होता तो कदापि जर्मनी से इस शर्त पर सन्धि न करता कि जर्मनी के लोग धार्मिक मामलों में स्वतन्त्र रहेंगे। वैसी हालत में तो जब तक उसके पास एक सिपाही भी रहता वह धर्म के लिए अवश्य

लडता लेकिन उसने जर्मनी को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी और इधर नेदरलैण्ड में धर्म के सम्बन्ध में स्वतंत्र विचार रखनेवालों को पकड़-पकड़ कर जिन्दा जलवाता रहा। चार्ल्स को जर्मनी के सिपाहियों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने जर्मनी से यह सन्धि चुपचाप कर ली। नेदरलैण्ड में जिन विचारों के लिए साधारण लोग प्राण-दण्ड पाते थे वे ही विचार चार्ल्स के जर्मन सिपाही चार्ल्स के भंडे के नीचे ही नेदरलैण्ड में फैलाते फिरते थे। यदि चार्ल्स धर्म में विश्वास रखनेवाला होता तो कदापि वह यह बात सहन न करता, अपनी जान भले ही गँवा देता। परन्तु वह तो जिस तरह भी हो केवल नेदरलैण्ड को अपने पञ्जे में रखना चाहता था।

वीर होने के साथ-साथ चार्ल्स तीन-चार भाषाएँ बहुत सुदरता से बोल सकता था। मनुष्यों की भी उसे खूब परख थी। बड़ा धार्मिक आडम्बर दिखाया करता था। हर रविवार को धार्मिक उपदेश सुनता था। प्रायः आधी-आधी रात तक अपने खीमे में घुटनों पर बैठकर प्रार्थना किया करता था। वह जानता था कि साधारण लोगों पर इन बातों का अच्छा असर होता है। लोग उसके इन ऊपरी दिखावों के कारण उसका असली रूप पहचानने में धोखा खा जाते थे। यही कारण था कि उसके इतने अत्याचारी होने पर भी लोग उससे घृणा नहीं करते थे। चार्ल्स यह भी जानता था कि कभी-कभी जनता को छोटे-छोटे कष्ट बड़े-बड़े कष्टों से अधिक दुःखदायी होते हैं और छोटे-छोटे कष्टों से घबराकर जनता विद्रोह कर बैठती है। जिस तरह ग़जनवी, तैमूर अथवा नादिरशाह भारतवर्ष को लुट-मारकर चलते बने

उस प्रकार चार्ल्स लुटेरो की भाँति देश को केवल एक दो टफ़ा लूटकर चला जाना नहीं चाहता था। यदि वह ऐसा करता तो देश का अहोभाग्य होता परन्तु वह तो—जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारतवर्ष को सदा के लिए चूसने की योजना की है—नेदरलैण्ड को अपने हाथों में थैली की तरह पकड़े रहना चाहता था कि जिम्मे वह जब और जहाँ चाहे रुपया व्यय कर सके। वह जानता था कि यदि स्पेन वालों को छोटी-छोटी नौकरियों पर भी नेदरलैण्ड में नियुक्त कर दिया जायगा तो न केवल लोगों में असन्तोष की आग भड़केगी और बखेड़े खड़े होंगे, बल्कि देश-वासियों को ही छोटी-छोटी नौकरियों पर रख कर उनके द्वारा नेदरलैण्ड अधिक अच्छी तरह वश में रक्खा और चूसा जा सकेगा। गुलाम देशों को हमेशा ही उन्हीं देशों के आदमियों के द्वारा गुलाम रक्खा जाता है। छोटी-छोटी नौकरियों पर उसने नेदरलैण्ड के लोगों को ही रक्खा। फिलिप को भी बाद में उसने यही मलाह दी थी। चार्ल्स का साम्राज्य इतना बड़ा था कि छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना उसके लिए बिलकुल असम्भव था। अधिकतर साम्राज्य का कार्य मन्त्रियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी पर ही चलता था। इसीलिए रिश्वतें भी खूब चलती थीं। मन्त्री और अधिकारी मालामाल हो जाते थे। चार्ल्स, यह सब देखकर भी आँखें बचाता था। वह जानता था कि रिश्वतें रोकना उसकी शक्ति के बाहर है। अगर वह छोटी-छोटी बातों से अधिकारियों के ऊपर निगाह रखता तो साम्राज्य का काम एक दिन भी नहीं चल सकता था। चार्ल्स का ध्येय जनता को सुखी रखना नहीं था। उसका ध्येय तो चक्रवर्ती

साम्राज्य का आधिपत्य था और जबतक उसके इम लक्ष्य के मार्ग में कर्मचारियों के रिश्वत लेने के कारण कोई बाधा उपस्थित होने की सम्भावना न रहती वह अपने कर्मचारियों की करतूतों को विरक्ति से देख सकता था। चार्ल्स होशियार तो था परन्तु अपने को वह जितना होशियार समझता था उतना नहीं था। उसने मनुष्य की कमजोरियों का ही अधिक अध्ययन किया था। इसलिए प्रायः वह मनुष्यों के गुणों की तरफ देखना भूल जाता था। उसने अपनी ऐसी ही गलतियों से अपने बहुत से मित्रों को शत्रु भी बना लिया। बहुत से ऐसे आदमियों को, जो उसके बड़े काम के होते, वह अपने हाथों से ऐसी ही भूलों के कारण खो बैठा था। बहुत से लोगों की यह स्पष्ट राय थी कि जितनी शेखी वह बघारता था उतना चतुर नहीं था उसने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य कर डाले जिनके कारण उसके उद्देश्य पूर्ति के मार्ग में बड़ी बाधाएँ खड़ी हो गईं।

चार्ल्स मामूली कद का गठोले जिस्म का जवान था। जवानी में वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनता था। स्पेन के जातीय खेलों में वह अक्सर सौँडों को सोंग पकड़-पकड़ कर दे मारा करता था। खाना भी बहुत और खूब ठूस-ठूस कर दिन में कई बार खाता था। शराब तो बोतलों पर बोतलें चढ़ा जाता था। इन्हीं सब आदतों के कारण बुढ़ापे में उसे गठिया, दमा इत्यादि बहुत से रोगों ने आ धेरा। जवानी में तो सदा उसके साथ विजय देवी जयमाल लिए घूमा करती थी परन्तु अपने ढलते दिनों में उसे बड़ी निराशाओं का सामना करना पडा था। जवानी में जो उसके सामने आया, हारा। यहाँ तक कि उसने

एक वार रावण की भाँति सैक्सनी और ब्रन्सविक के ड्यूको को पकड़कर अपने रथ के पहियो से बाँध दिया था। परन्तु राज्य-त्याग के कुछ ही दिन पहले उसी जर्मन जाति के एक नौजवान ने—जिसको निकम्मा कहकर वह ठट्टा लगाया करता था—उसे इतनी चुरी तरह पराजित किया था कि बेचारे को बुढिया का वेश धारण करके जान बचाकर भागना पड़ा था और अन्त में मजबूर होकर पासू की सन्धि करनी पड़ी थी, जिसमें लूथर इत्यादि को जर्मनी में अपने विचारों का प्रचार करने की इजाजत दे देने की शर्त भी थी। फ्रान्स की अन्तिम चढाई में भी उसे हार हुई थी और अन्त में जिस पोप को उसने गिरफ्तार कि याथा, उसके उत्तराधिकारी ने उसके राज्य-त्याग को धार्मिक न मान कर उसे अपमानित किया। जितना बड़ा साम्राज्य वह अपने बेटों के लिए छोड़ना चाहता था उतना वह अपने जीवन-भर प्रयत्न करने पर भी बना नहीं सका। इतनी मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं के होते हुए वह अपने अन्तिम दिन शान्ति से कैसे बिता सकता था ? उसने जवानी में ही इरादा कर लिया था कि अपने अन्तिम दिवस वैरागियों में रहकर बिताऊँगा। राज्य-त्याग के उपरान्त, वह अपनी स्त्री को छोड़ कर एक मठ में जा बैठा। परन्तु उसके हृदय में शान्ति नहीं थी। वह फिलिप को लम्बे-लम्बे पत्र लिखकर सलाह दिया करता था कि सुधारकों का नामो-निशान मिटा देना चाहिए। ऐसी कड़ी सजायें देनी चाहिए कि फिर धर्म के सम्बन्ध में भीन-मेख करने का कोई साहस न करे। उसे बड़ा पछतावा होता था कि, हाय ! मैंने लूथर से सन्धि क्यों कर ली ? इसी दुष्ट ने संसार में अथर्वम फैलाया है। परन्तु उसके

इस छटपटाने से भला संसार की प्रगति कैसे रुक सकती थी ? जीवन पर्यन्त जिसने लोगों को कष्ट ही दिये हों उनके अन्तिम दिन शान्ति से कैसे बीत सकते हैं ? धार्मिक सुधारकों को दण्ड देने की चिन्ता करने की उसे आवश्यकता नहीं थी । इस सम्बन्ध में उसके खून से पैदा हुआ फिलिप उससे दो हाथ बढ़ कर ही था । धर्म को कायम रखने की चिन्ता जितनी फिलिप को थी उतनी संसार में बड़े-बड़े महात्माओं को भी नहीं रही होगी ।



फिलिप का आगमन

फिलिप का जन्म सन् १५२७ ई० मे हुआ था । राज्याभिषेक के समय उसकी अवस्था २८ वर्ष की थी । उसे अपने चाप की जागीर में नेदरलैण्ड ही नहीं मिला वरन् नेदरलैण्ड के साथ साथ सारे स्पेन का साम्राज्य उसके हाथ आगया । एशिया, अफ्रिका, अमेरीका मे उसका राज्य था । मिलन का वह ड्यूक था । इंग्लैण्ड और फ्रान्स का भी नाम मात्र का राजा था । सन् १५४८ ई० में फिलिप पहले-पहल युवराज की हैसियत से नेदरलैण्ड में दौरा करने आया । ग्रीष्म-काल उसने वहीं बिताया । लोगों ने बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया । फिलिप ने भी खूब दिज्ञ खोल कर लोगों से घडे-बडे वादे किये । हर जगह निसंकोच होकर उसने प्रतिज्ञाये ली कि मैं जनता और शहरों के अधिकार सदा सुरक्षित रखूंगा । लोगो ने उसके इन वादों को सच्चा समझा । परन्तु यह सब चार्ल्स की मक्कारी थी । वह फिलिप से इस प्रकार के वादे करा कर लोगों को शान्त रखना चाहता था । येचारे सहज विश्वासी फ्लेमिंग्स, ब्रब्रण्टाइन्स और वेलन लोग उसकी चाल मे फंस गये उन्होंने शुद्ध हृदय से हर जगह फिलिप का स्वागत किया । एण्टवर्प में तो इस धूम का स्वागत हुआ कि शहर के अन्दर २६ हजार आठ सौ रुपये खर्च करके

बड़े सुन्दर अट्टाइस दरवाजे बनाये गये । सारे शहर के अमीर उमरा सजधज कर चार हजार सिपाहियों को साथ लेकर उसकी अगवानी को गये परन्तु फिलिप ने इन सब बातों पर कोई विशेष प्रसन्नता प्रकट नहीं की । उसके रुखे व्यवहार से लोगो को दुःख भी हुआ ।

सन् १५५४ में फिलिप ने इंग्लैण्ड की रानी मेरी ट्यूडर से विवाह किया । मेरी बहुत कुरूप और फिलिप से उम्र में ११ वर्ष बड़ी थी फिर भी वह फिलिप को जो जान से प्यार करती थी । जो मेरी रानी की हैसियत से प्रजा का खून बहाती और अत्याचार करती थी वही मेरी फिलिप की पत्नी बन कर उस के पैरों पर लोटने लगी । अगर पति और पत्नी के एक से विचार ही किसी दम्पति को प्रसन्न बना सकते हैं तो मेरी और फिलिप को तिगुना सुखी होना चाहिए था । दोनों ही अपने जीवन का उद्देश्य प्रचलित सनातन-धर्म की रक्षा करना समझते थे । प्रचलित धर्म पर विश्वास न करनेवालों को सूली पर चढ़ाना दोनों का मुख्य कार्य था । अपने साम्राज्यो को नरक बनाकर ये दोनों प्राणी स्वयं स्वर्ग में जाने के इच्छुक थे । परन्तु एक से विचार रखकर भी यह दम्पति सुखो नहीं थे । मेरी फिलिप की शुष्कता पर अकेले में बैठ कर आँसू बहाया करती । फिलिप को उसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी । इंग्लैण्ड की पार्लिमेण्ट ने फिलिप को नाम-मात्र से अधिक सत्ता देने से बिलकुल इन्कार कर दिया । परन्तु मेरी अपनी प्रजा को नाराज करके भी फिलिप को लड़ाइयों के लिए अपने खजाने से रुपया केवल इसलिए देती रही कि फिलिप किसी प्रकार उससे खुश हो जाय ।

चार्ल्स बड़ा व्यवहार-कुशल था। मन में उसके कुछ भी हो। ऊपर से बड़ी मीठी बातें किया करता था। सब लोग उससे खुश रहते थे। फिलिप में व्यवहार-कुशलता बिल्कुल नहीं थी। उसका व्यवहार सभी को बड़ा अप्रिय लगता था। लोगों की यह भी राय थी कि फिलिप न तो अपने पिता की तरह बलवान्, उत्साही और वीर है। न वह चार्ल्स की तरह युद्ध के लिए उत्सुक ही रहता है। बल्कि जहाँ तक होता है वह युद्ध से बचता है। चार्ल्स किसी की धमकी से पीछे नहीं हटता था और जो कुछ उसे करना होता तत्काल कर डालता था। फिलिप सोच-विचार में ही बहुत समय बिता देता था। फिलिप बहुत तुच्छ बुद्धि का—मामूली श्रेणी के मनुष्यों से भी गिरा हुआ—मनुष्य था। मिहनत तो दिन-रात करता था। परन्तु छोटी-छोटी बातों में अपना समय गँवा देता था। सुव्यवस्था और प्रबन्ध करना उसे बिल्कुल नहीं आता था। बोलता कम था परन्तु लिखने का उसे इतना शौक था कि पास ही के कमरे में बैठे हुए मनुष्य को अट्टारह पृष्ठ का पत्र केवल किसी ऐसे छोटे कार्य के लिए लिख भेजता जो कोई भी चतुर मनुष्य छः शब्दों में कर सकता था। उसका अधिकतर समय पत्र लिखने में ही व्यतीत होता था। शायद वह समझता था कि दुनिया पत्र-व्यवहार पर ही चलती है। वास्तव में घात यह थी कि वह किसी घात का तुरन्त निश्चय करने के अयोग्य था। अतः अपनी विचारहीनता छिपाने के लिए छोटे-छोटे कामों के सम्बन्ध में भी लम्बे पत्र लिखने बैठ जाता था। उसके पत्रों को पढ़ कर किसी निश्चय पर पहुँचना दुर्लभ होता था, क्योंकि वे प्रायः अर्थ-हीन और तत्व-रहित होते थे। केवल एक ही बात

द्वच प्रजातंत्र का विकास

उसके जीवन में ऐसी मिलती है, जिस पर अन्त तक वह दृढ़ रहा। साम्राज्य बढ़ाने की अपेक्षा धर्म को सुरक्षित रखने का उसे जिन्दगी भर ध्यान रहा। परन्तु यह कोई उसके स्वतंत्र विचारों का परिणाम न था, उसकी रग-रग में वचन से ही यह भाव भर दिया गया था कि ससार में सनातन-धर्म को सुरक्षित रखना ही उसका सर्वोपरि कर्तव्य है। फिलिप ने कोई अधिक शिक्षा भी न पाई थी। उस समय के राज, राजा प्रायः कई भाषाएँ बोल लिया करते थे, परन्तु फिलिप केवल स्पेनिश भाषा ही बोल सकता था। ललित-कला के उस युग में उसमें यह बात भी न होती तो वह कोरा पशु होता। वह अपने काम प्रायः समय पर करता था। प्रार्थना, कथा और धर्मोपदेश सुनने में वह सदा आगे रहता जिसे देखकर कट्टर सनातनी भी कहते कि युवराज की इस यौवनावस्था में धर्म की ओर इतनी प्रवृत्ति न होनी चाहिए। रोज़ घण्टों बैठकर वह धर्म-विषयक चर्चा किया करता था और अपने गुरु से बहुत खोद-खोद कर पाप-पुण्य के प्रश्न पूछता था। उसे इस बात की बड़ी चिन्ता रहती थी कि कौनसा काम पापमय है और कौनसा पुण्य-मय। फिर भी उसका सबसे प्रिय व्यसन व्यभिचार था। रात को प्रायः वेश बदल कर गलियों में घूमता और नीच से नीच कर्म तक करता।

फिलिप प्रायः स्पेन की पोशाक ही पहिनता था। कभी-कभी फ्रान्स और वरगण्डो के कपड़े भी पहिनता था। उसका दरबार ब्रसेल्स में वरगण्डो की प्रथा के अनुसार लगा करता था। परन्तु १५०० दरबारियों से १३५ स्पेन के थे। शेष पन्द्रह-तीस फ्लेमिन्स

चरगण्डी, इटली, जर्मनी, इंग्लैण्ड इत्यादि सब प्रदेशों के मिलाकर थे। इस सम्बन्ध में फिलिप ने अपने पिता की सलाह का कुछ भी ध्यान नहीं रक्खा था। चार्ल्स का विचार था कि नेदरलैण्ड पर नेदरलैण्डवासियों द्वारा ही शासन करना चाहिए। परन्तु फिलिप में चार्ल्स की दूरदर्शिता नहीं थी। उसने नेदरलैण्ड के वीर-और अभिमानी पुरुषों के सिर पर स्पेन वालों को रखकर नेदरलैण्ड में स्पेनवासियों के प्रति अत्यन्त द्वेष और घृणा के भाव उत्पन्न करा दिये। फिलिप स्पेन वालों को प्यार करता था। स्पेन वालों के साथ ही उठता बैठता था, स्पेनवालो से ही सलाह मशविरा करता था और केवल स्पेनवालो के द्वारा ही नेदरलैण्ड का राज्य चलाना चाहता था। उसकी कार्यकारिणी में भी पाँच छः स्पेन के सरदार थे। उनमें रुई गोमेज़ और ड्यूक ऑफ़ ऐलवा बड़े मशहूर थे। कहा जाता था कि फिलिप के चक्रवर्ती साम्राज्य के दो पाये थे, एक रुई गोमेज़, दूसरा ड्यूक ऑफ़ ऐलवा। इन दो मनुष्यों की राय से आधी दुनिया का राज्य चलता था। परन्तु ऐलवा और गोमेज़ में आपस में बड़ी ईर्ष्या थी। दोनों एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयत्न करते थे। अन्य अधिकारियों को बड़ी मुश्किल थी। यदि किसी पर रुई गोमेज़ प्रसन्न हो जाता था तो वह ड्यूक ऑफ़ ऐलवा की आँखों में खटकने लगता था और यदि किसी पर ड्यूक की कृपा-दृष्टि हो जाती तो गोमेज़ उसका दुश्मन बन जाता था। कार्यकारिणी में शान्तिवादी और गृहवादी दो दल थे। गोमेज़ शान्तिवादी पक्ष का नेता था और ड्यूक युद्धवादी पक्ष का। फिलिप के हृदय को शान्ति ही अधिक प्रसन्न थी इसलिए गोमेज़ पर उसका अधिक प्रेम था। परन्तु

ड्यूक की तलवार बड़े काम की चीज थी। फिलिप उसका भी उपयोग करना चाहता था। विशप ऑव् ऐरसन्जे आगे चलकर नेदरलैण्ड का भाग्य-विधाता ही बन बैठा। इस समय कार्य-कारिणी में अधिक भाग नहीं लेता था। कभी-कभी किसी विशेष कार्य के सम्बन्ध में सम्मति लेने के लिए बुला लिया जाता था। वह अकेला ही सारी कार्यकारिणी से अधिक बुद्धिमान और चतुर था।

रूई गोमेज़ का जन्म एक पोच्युगोज़ वंश में हुआ था। बचपन में वह फिलिप के साथ पला था। एकवार उसने लड़कपन में फिलिप को पीट डाला था और इस पर चार्ल्स ने क्रोध करके उसे प्राण-दण्ड का हुक्म दे दिया था। परन्तु फिलिप ने चार्ल्स के पैरों पड़ कर गोमेज़ की प्राण-भिक्षा माँगी थी और चार्ल्स ने प्रसन्न होकर गोमेज़ को छोड़ दिया था। कहते हैं तब से गोमेज़ और फिलिप का स्नेह बहुत बढ गया था। गोमेज़ भी बडा चतुर था। उसने फिलिप को अपने हाथों की कठपुतली कर रखा था। परन्तु फिलिप का गोमेज़ के हाथों में खेलने का एक और भी विशेष कारण था। फिलिप का गोमेज़ की स्त्री शाहज़ादी इवोली के साथ खुल्लमखुल्ला बहुत दिनों से सम्बन्ध था और गोमेज़ सब कुछ जानते हुए भी कुल्ल न कहता था। रात-दिन गोमेज़ फिलिप के साथ रहता था। कपडे उतारने से लेकर लोगो से मिलने-मिलाने तक का सारा प्रबन्ध और सारा पत्र-व्यवहार गोमेज़ ही करता था। दिन-रात काम करते-करते गोमेज़ पीला पड गया था। फिर भी फिलिप की सेवा में आठों पहर लगा रहता था और फिलिप से कहा करता था कि 'परमात्मा के बाद बस मैं आपको

जानता हूँ।' अपने मालिक की तरह वह भी अधिक पढ़ा लिखा न था। न तो उसे स्पेनिश भाषा के सिवाय और कोई भाषा ही आती थी और न युद्ध अथवा राज्य-प्रबन्ध सम्बन्धी विषयों का ही उसे कुछ ज्ञान था। मगर था वह बड़ा होशियार। राजनीतिज्ञ, युद्ध-कला विशारद, धर्म-शास्त्री कोई भी हो सबसे वह इस प्रकार वार्तालाप करता कि कोई उसे ज्ञानहीन नहीं बता सकता था। फिलिप ने उसे माला माल कर रक्खा था। लाखों रुपये साल की आमदनी की जागीरें उसे दे डाली थीं और उसका भाग्य दिनों-दिन ऊँचा ही उठता जा रहा था।

पाठक देख चुके हैं कि चार्ल्स के राज्य-त्याग के समय हंगरी की महारानी ने नेदरलैण्ड का युवराज-पद त्याग दिया था। यह स्त्री क्या थी, पूरी पुरुष थी। हाव-भाव, चाल-ढाल, खेल-कूद इत्यादि प्रत्येक व्यवहार से पुरुष जँचती थी। घोड़े की सवारी और शिकार का उसे विशेष शौक था। वह फिलिप को देख कर जलती थी और फिलिप भी उसे हृदय से घृणा करता था। फिर भी फिलिप की इच्छा थी कि नेदरलैण्ड के शासन का भार उसी के हाथ में रहता तो अच्छा था। खैर, नेदरलैण्ड की नवाब्री ड्यूक ऑफ़ सेबाय को दी गई। इस समय ड्यूक की उम्र सत्ता-इस अष्टादश वर्ष की होगी। यह बड़ा उद्दण्ड और साहसी मनुष्य था। इसका भी राज्य-कुटुम्ब से रिश्ता था। चार्ल्स का भतीजा और फिलिप का भाई होता था। परन्तु उसके बाप पर बुरे दिन आने से उसकी सारी जागीर छिन गई थी। इस नौजवान के हाथ में सिवाय अपनी तलवार के और कुछ न रहा था। उसने सकल्य कर लिया था कि अपनी तलवार के द्वारा ही अपनी रोटी कमा-

डच प्रजातंत्र का विकास

लैंगिंग और ततवार के ही जोर से अपने बाप की जागीर और मान-मर्यादा वापिस ले लेंगा। चार्ल्स की सेना में नौकरी करके उसने ऐसा मान पाया कि अन्त में नेदरलैण्ड का नवाब बन गया। युद्ध उसका व्यापार था। युद्ध न होने से पैसा नहीं मिलता था, इसलिए शान्ति उसे विलकुल नापसन्द थी। काउण्ट मैन्सफील्ड, मारशल स्ट्रोजनी इत्यादि उस समय के सभी योद्धा युद्ध से रुपया कमाते थे और शान्ति को बुरा समझते थे। इस नौजवान ने भी लड़भिड कर खूब रुपया इकट्ठा कर लिया था और अपने बाप की जागीर भी वापिस ले ली थी। इसका असली नाम फिलवर्ट था। इसको लेटिन, फ्रेन्च, स्पेनिश और इटैलियन इत्यादि कई भाषाएँ अच्छी तरह आती थीं। यदि उसमें उतावलापन और उद्दण्डता न होती तो वह बड़ा अच्छा सेनापति हो सकता था। खैर, यह उतावला उद्दण्ड जंगलों में फिरने वाला, बिना प्रजा का प्रजापति, वे मुल्क का नवाब, अन्त में अपनी तलवार के कारण इतना मशहूर हुआ कि आखिरकार नेदरलैण्ड का नवाब बना दिया गया।

चार्ल्स उम्र भर अडोस-पडोस के देशों से लड़ता रहा था। उसको अपने जीवन में बस युद्ध जीतने और राज्य बढ़ाने की अभिलाषा ही रही थी। परन्तु अन्तिम समय में उसे अपने पुत्र फिलिप का मार्ग निष्कण्टक और शान्तिमय बनाने की भी बड़ी इच्छा थी। अपने राज्य के अन्तिम दिनों में उसने बड़ी चेष्टा की कि किसी तरह युद्ध बन्द हो जाय जिससे नदी पर बैठते ही फिलिप को युद्ध की चिन्ता न करनी पड़े। परन्तु उसने जीवन-पर्यन्त लडाइयाँ लड़-लड़कर जो भागड़े बखेड़े यूरोप में खड़े कर

दिये थे उन्हें एकदम मिटा देना सम्भव नहीं था। उसने बहुत प्रयत्न करके फ्रान्स, स्पेन, फ्लैण्डर्स और इटली इत्यादि—फ्रान्स और स्पेन के राजाओं के सारे साम्राज्य—में शान्ति रहने के लिए एक सन्धि भी की थी। परन्तु यह सुलह केवल पाँच वर्ष के लिए ही हुई थी। पाँच वर्ष तक ऊपर से लड़ाई बन्द रही। परन्तु अन्दर-अन्दर युद्ध की तैयारियाँ होती रही। पोप ने भी फ्रान्स से एक गुप्त सन्धि की थी जिसके अनुसार यह निश्चय हुआ था कि फ्रान्स पोप को रुपया दे और पोप स्पेनवालों को इटली से निकाल दे। फिलिप को राज्याभिषेक के समय अच्छी तरह मालूम था कि मुझे कुछ ही दिन बाद फ्रान्स से लड़ना पड़ेगा। इसलिए गद्दी पर बैठते ही उसने युद्ध की तैयारी भी प्रारम्भ कर दी। परन्तु फिर भी उसके हृदय की सर्वोच्च अभिलाषा एक ही थी, धर्म की रक्षा करना। साम्राज्य बढ़ाने की उसे चिन्ता नहीं थी। विशप ऑफ एरस की सलाह से उसने नेदरलैण्ड में धर्म के विषय में मतभेद रखने वालों के लिए पुराने कठोर कानून फिर से जारी कर दिये मगर इन कानूनों के अनुसार लोगोंपर पूरी तरह क्रूरता नहीं की गई, क्योंकि फिलिप को नेदरलैण्ड वालों से फ्रान्स की लड़ाई में सहायता लेनी थी। फिलिप ने नेदरलैण्ड से अपनी सेनाओं के खर्च के लिए कर माँगा। परन्तु नेदरलैण्ड के सब मुख्य मुख्य प्रान्तों ने किसी प्रकार का नवीन कर देने से साफ इन्कार कर दिया। हाँ, वहाँ की बड़ी पंचायत ने सहायता-स्वरूप कुछ रुपया देने का वादा किया। फिलिप ने इसी पर सन्तोष कर लिया। नेदरलैण्डवालों को अधिक न छेड़ा गया। क्योंकि बिना नेदरलैण्ड की सहायता के फ्रान्स से लड़ना असम्भव था।

द्वच प्रजातंत्र का विकास

फ्रान्स के युद्ध में नेदरलैण्ड के सारे सरदारों ने फिलिप की ओर से लड़ाई में भाग लिया। एक वर्ष तक लड़ाई जारी रही। फिलिप की सेना ने फ्रान्स वालों को पराजित किया। फ्रान्स को लाचार होकर सन्धि कर लेनी पड़ी। इस सन्धि में फिलिप ने फ्रान्स से मनमानी शर्तें स्वीकार करा लीं। परन्तु विजय का सेहरा नेदरलैण्ड के वीर सरदार लेमोरल एगमोएट के सिर रहा। एगमोएट इस युद्ध में ऐसी वीरता से लड़ा था कि बड़े बड़े योद्धा उसे लड़ते देख।दाँतों तले उँगली दबाते थे। युद्ध में जहाँ किसी को जाने की हिम्मत नहीं पड़ती वहाँ एगमोएट पहुँचता था। जब सब निराश हो चुकते थे तब वीर एगमोएट पहुँचकर विजय देवी से जयमाल पहिनता था। नेदरलैण्ड वीर देश था। वहाँ वीरो की पूजा होती थी। एगमोएट पर लोग लट्टू हो उठे। जब वह विजय पाकर लौटा तो लोगों ने बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। सभी ने एक स्वर से उसकी जय बोली। एगमोएट को देखकर सबके हृदय फूल उठे थे। परन्तु एक हृदय में वह काँटे की तरह खटकने लगा था। ड्यूक ऑव् ऐलवा उसका यह सम्मान न देख सका। ईर्ष्या से जलकर उसने बड़ा भयंकर संकल्प किया। एगमोएट ने भी विजय और सम्मान के मद में ऐलवा को कुछ सख्त सुस्त बातें फिलिप के सामने ही कह डालीं। इस अपमान के कारण ऐलवा का संकल्प और भी दृढ़ हो गया।

डचेज़ परमा का शासन

लड़ाई समाप्त होने के पहले ही विशप ऑव् एरस और फ्रान्स का लौरें का कार्डीनल पेरोन नामी एक स्थान पर मिले थे। इन दोनों पादरियों ने आपस में सलाह की थी कि फ्रान्स और स्पेन की आये दिन की लड़ाई से नवीन धर्म-पन्थावलम्बियों को अपने प्रचार और कार्यका खूब मौका मिल रहा है। इसलिए जैसे बने आपस की लड़ाई बन्द करके दोनों को मिल जाना चाहिए और मिलकर दोनों देशों को नवीन धर्म-पन्थावलम्बियों की खबर लेनी चाहिए। फ्रान्स का राजा हेनरी भी लड़ाई से थक चुका था। उसे अपनी हार का भी बड़ा भय रहता था। फिलिप की भी हार्दिक इच्छा यही थी किसी तरह इन बखेडों से पिण्ड छूटे तो नेदरलैण्ड के सुधारकों की खबर लें। फ्रान्स और स्पेन ने आपस के युद्ध कभी किसी राष्ट्रीय अथवा जातीय प्रश्न को सुलझाने के लिये नहीं होते थे। इसलिए जनता को किसी प्रकार भी सन्धि हो जाने पर हर्ष होना स्वाभाविक ही था।

एगमोण्ट की अन्तिम विजय के बाद फ्रान्स के लिए सन्धि करने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह गया था। दोनों तरफ से सुलह की तैयारियाँ हुईं। स्पेन की तरफ से सन्धि की शर्तों पर घात-घात करने के लिए शाहजादा आरेञ्ज, ड्यूक ऑव गेल्वा, विशप ऑव् एरस, रूई गोमेज़ और प्रेसीडेन्ट विग्लियस नियुक्त हुए। फ्रान्स की तरफ से कान्सटेबल और लौरें के

कार्डिनल इत्यादि आये । इस सन्धि के अनुसार यह निश्चय हुआ कि, फ्रान्स और स्पेन के राजा केवल एक कैथोलिक पन्थ समर्थन करेंगे । दूसरे पन्थों को नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे, पिछले आठ वर्षों में दोनों तरफ की जो जागीरें एक दूसरे देशों ने ले ली हैं वे लौटा दी जायेंगी ।” इस शर्त के अनुसार ड्यूक ऑफ़ सेवाय की सारी जागीर उसको वापिस मिल गई और वह फिर रङ्क से राजा हो गया था । हेनरी की बहिन से सेवाय का विवाह होना भी निश्चय हुआ था । हेनरी की पुत्री ईजाबेला का विवाह फिलिप से ठहरा था । यूरोप के लगभग सभी राष्ट्र इस सन्धि में सम्मिलित थे । सन्धि की शर्तें पूरा करने के लिए जमानत के तौर पर फिलिप के चार सरदार हेनरी अपने साथ ले गया था । इनमें आरेञ्ज का शाहजादा विलियम था । फ्रान्स में जाकर हेनरी तो कुछ ही दिन में मर गया, परन्तु आरेञ्ज के शाहजादे विलियम को एक ऐसा भेद बता गया कि जिससे विलियम का सारा जीवन बदल गया । एक दिन बातें करते-करते हेनरी ने विलियम को उस गुप्त सन्धि की सारी शर्तें बता दी जो उसने विलियम के साथ सुधारकों को नष्ट करने के लिए की थी । इस सन्धि का हाल सुन कर विलियम की आँखें खुल गई । उसे पता चला कि जनता के विरुद्ध क्या क्या पड्यन्त्र रचे जा रहे हैं । विलियम ने उसी दिन दुष्ट सक्तन किया कि आज से मेरा जीवन इन राजाओं के मनोरथ विफल करने में ही व्यतीत होगा । आगे चलकर पाठक देखेंगे कि इस दृढ सक्तनी महान् आत्मा ने अपने देश और जाति के लिए जीवन भर अकथनीय कष्ट सहें और अन्त में देश के चरणों पर अपने हृदय के रक्त की अञ्जलि

चढ़ा कर संसार से चल बसा। हाल्लैंड प्रजातन्त्र के जन्मदाता आरेञ्ज विलियम का नाम संसार के इतिहास में अमर रहेगा। फिलिप की स्त्री इङ्गलैंड की रानी मेरी की मृत्यु हो चुकी थी। चार्ल्स भी मर चुका था। सन्धि से छुट्टी पाकर फिलिप अपनी स्त्री और पिता को शोक-क्रिया में संलग्न हुआ और शान्ति की स्थापना पर इधर नेदरलैंड में नाच रग होने लगा। एगटर्वप में नौ दिन तक लगातार लोगों के आन्दोलन मनाये—खूब खेल-कूद हुए। शराबें उड़ी, वाजे बजे। परन्तु नेदरलैंडवासियों के इन आनन्दोत्सवों से फिलिप को कुछ उत्साह अथवा प्रसन्नता नहीं होती थी। उसने यह सन्धि इसलिए थोड़े ही की थी कि नेदरलैंडवाले खूब नाचें कूटें और मौज उडावें? उसने तो सारी दुनिया से सन्धि केवल इसलिए की थी कि नेदरलैंडवालों का गिर नीचा हो फिलिप को आज तक कभी नेदरलैंड प्रिय नहीं लगा था। उसे वहाँ रहना भी भार मालूम होता था। वह शीघ्र से शीघ्र स्पेन लौट जाता और वहाँ बैठकर अपने मनोवाञ्छित कार्य को प्रारम्भ करना चाहता था। फिलिप नेदरलैंड के शासन और अपने स्पेन लौटने का प्रबन्ध करने लगा। ड्यूक ऑफ़ नेवाय को अपनी ही इतनी जागीर मिल गई थी कि उसे अब नेदरलैंड का शासन सम्भालने का अवकाश नहीं था। इस लिये आवश्यकता हुई कि नेदरलैंड की नवाबी किसी दूसरे को दी जाय। बहुत से लोगों को इस पद की चाह थी। एगमोएट और विलियम आरेञ्जवा नाम भी इस सम्बन्ध में लिया जाता था परन्तु विलियम अच्छी तरह जानता था कि किसी नेदरलैंड निवासी को यह पद नहीं मिल सकता अन्त में फिलिप ने चार्ल्स

की पुत्री अपनी बहीन उचेज़ ऑव् परमा को विशप ऑव् ऐरस की सलाह से चुपचाप इस पद पर नियुक्त कर दिया सब देखते रह गये। उचेज़ ऑव् परमा की सहायता के लिये तीन समितियाँ भी बनाई गईं। स्टेट कौंसिल, प्रिवी कौंसिल और फाइनेन्स कौंसिल। फाइनेन्स कौंसिल का काम बजट इत्यादि बनाना और राज्य के आय-व्यय की देख-रेख करना था। इसका प्रमुख वैरन वेरलमोएट था। प्रिवी कौंसिल का कार्य न्याय शासन था। इसके दस सदस्य थे और प्रमुख डाक्टर विगिलियस था। सबमे मुख्य और आवश्यक समिति स्टेट कौंसिल थी। इसको राज्य-शासन के सारे आवश्यक कार्य, युद्ध, सन्धि, परराष्ट्र सम्बन्ध, और प्रान्तिक और अन्तर-प्रान्तिक शासन सब कुल्ल करने और देखने भालने का अधिकार था। इसके सदस्य विशप ऑव् ऐरस विगिलियस, वेरलमौएट, ओरेज़ का शहजादा और काउण्ट एगमोएट थे पीछे से तीन चार सदस्य बढ़ा दिये गये जिस में काउण्ट हौर्न का नाम विशेष उल्लेखनीय है। काउण्ट हौर्न को फिलिप के साथ स्पेन जाने का हुक्म भी मिला था। कहा गया था कि वहाँ पहुँच कर उसको नेदरलैण्ड के शासन सम्बन्धी सारे अधिकार दे दिये जायँगे।

देशी सरदारों को स्टेट कौंसिल में रक्खा तो गया था परन्तु उनकी शक्ति कम करने के लिए ऐसा नियम बना दिया गया था कि स्टेट कौंसिल के सदस्य दूसरी समितियों में भाग न ले सकेंगे परन्तु दूसरी समितियों के सदस्य और 'गोल्डन पलीस' सस्था के सदस्यों को स्टेट कौंसिल के कार्य में भी भाग लेने का अधिकार था। स्टेट कौंसिल में भी सारी सत्ता तीन सदस्यों को एक उपसमिति के हाथ में थी। इस समिति का नाम 'कन्सल्टा'

था और इसके सदस्य विग्लियस, वेरलमोएट और ऐरस थे इन तीन सदस्यों में भी ऐरस ही मुख्य था। वह जो कहता और करता वही होता था। दूसरे दोनों सदस्य केवल उसकी हां में हां मिलाया करते थे। डचेज़ और परमा तो ऐरस के हाथ की कठपुतली मात्र। थी वास्तव में ऐरस को ही नेदरलैंड का भाग्य-विधाता बनाया गया था।

ब्रवेएट में नवाबजादी स्वयं ही रहने वाली थीं इसलिए वहाँ कोई सूबेदार नियत नहीं किया गया। दूसरे प्रान्तों में सूबेदार नियत हुए। फ्लैण्डर्स और आरटोइज का सूबेदार काउएट एगमोएट बनाया गया। हॉलैंड, जेलैंड और यूट्रेक्ट का सूबेदार आरेञ्ज का शाहजादा हुआ। गुडलड्रेस और जुटफेन का काउएट मेघमा, प्रीसलैंड, प्रोनिञ्जन और ओवरीसल का काउएट रेम्बर्ग, हेनाल्ड वेलेन्सेनीज़, और केम्ब्रे का सरदार घरघन, टूर्नी और टूर्नेसिस का वैरनमौनटनी, नामूर का वैरन वोलमोएट, लक्ष्मवर्ग का काउएट सैन्सफील्ड, राइसेल, डूये और और चीज़ का वैरन कोरे-रीज़। ये सबके सब सूबेदार अपने-अपने प्रान्तों की सेना के सेनापति भी थे। फ्लैण्डर्स को छोड़कर और सब प्रान्तों के सूबेदार अपने-अपने प्रान्तों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। शान्ति के समय, साधारण तौर पर प्रान्तों में बहुत थोड़ी सेना रहती थी क्योंकि जनता अधिक सेना रखना पसन्द नहीं करती थी। नेदरलैंड भर में शान्त समय में रहनेवाली सेना कुल ३००० थी। परन्तु यह सेना यूरोप भर में सबसे अच्छी नममी जाती थी। बहुत दिनों से फ्रान्स और स्पेन में लड़ाइयाँ हो रही थी। इसलिए नेदरलैंड में ४००० विदेशी सेना भी

रहती थी। यह सेना सीमान्त-प्रान्तों की रक्षा के लिए रक्खी गई थी। विदेशी सिपाही देश के खजाने से रुपये पाते थे परन्तु देशवासियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनके व्यभिचार और दुष्टाचार के कारण नेदरलैण्डवासी उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। जब फ्रान्स और स्पेन में सन्धि हो गई तब सीमान्त प्रान्तों की रक्षा का भय भी जाता रहा और इस सेना की नेदरलैण्ड में रखने की कुछ आवश्यकता न रही। लोगों की राय थी कि यह सेना विसर्जित कर दी जाय परन्तु ऐसा नहीं किया गया इससे लोगों को भय हुआ कि कहीं यह सेना देश के लोगों पर अत्याचार करने के लिए तो नहीं रक्खी जा रही है। लोगों को मालूम हो गया था कि उनकी धार्मिक तथा राजनैतिक स्वतंत्रता हरण करने के लिए नये उपाय रचने की मन्त्रणा हो रही है। लोगों की यह भी धारणा हो उठी कि यही सेना और बड़ी कर दी जायगी और इसी सेना की सहायता से नेदरलैण्ड जकड कर स्पेन का गुलाम बना दिया जायगा।

सन् १५५९ ई० की ७वीं अगस्त के दिन भेस्ट नगर में सारे प्रान्तों के प्रतिनिधियों को एकत्र होने और फिलिप के श्रीमुख से विदाई का सन्देश सुनने के लिए सूचना भेजी गई। नियत दिवस पर प्रतिनिधियों की सभा एकत्र हुई। शाहो दरवार बड़ी शान से सजाया गया। फिलिप, मागरेट (डचेज आव् परमा) तथा अन्य अनेक सरदारों के साथ दरवार में आकर बैठ गया। बिशप आव् एरस ने फिलिप की तरफ से लोगों से कहा—
“श्री महाराज ने आप लोगों को यह बतलाने के लिए यहाँ एकत्र किया है कि श्रीमहाराज शीघ्र ही नेदरलैण्ड छोडकर स्पेन जा

रहे हैं । श्रीमहाराज कहते हैं कि उनका नेदरलैण्ड पर बहुत स्नेह है और यदि अत्यन्त आवश्यक कार्य नहीं होता तो वह नेदरलैण्ड छोड़कर कभी स्पेन न जाते । श्रीमहाराज के पिता जी सन् १५४३ ई० मे प्रान्तों के हित के लिए ही इधर आये थे और वह प्रान्तों के हित-कार्यों में इतने सलग्न रहे कि केवल मृत्यु निकट आ जाने पर ही स्पेन लौट सके । श्री महाराज के राज्य-सिंहासन पर बैठने के समय फ्रांस से पाँच वर्ष तक के लिए एक सन्धि हो गई थी । परन्तु फ्राम ने उस सन्धि को तोड़ डाला । अतः प्रान्तों की रक्षा के लिए और प्रान्तों के बैरी का मान-मर्दन करने के लिए श्री महाराज को यहाँ पर वाध्य होना पडा । जो कुछ रुपया इस देश के खजाने से इस युद्ध में खर्च किया गया है वह सब इस देश की रक्षा और हित के लिए ही किया गया है । देश के कल्याणकारी कार्यों के लिए अभी ३० लाख रुपये की और आवश्यकता है । श्री महाराज आशा करते हैं कि आप लोग प्रमन्नता से यह रुपया दे देंगे । स्पेन पहुँचने पर यदि हो सके तो महाराज कुछ रुपया भेजेंगे । ड्यूक ऑव् सेवाय को स्वयं अब इतनी जागीर मिल गई है कि उन्हे नेदरलैण्ड का शासन-भार सँभालने का अवकाश नहीं है । महाराज के पुत्र लॉन, कारलो अभी छोटे हैं । वह भी इस भार को ग्रहण नहीं कर सकते । इसलिए श्री महाराज ने अपनी सुशीला बहिन मार्गरेट परमा को नेदरलैण्ड का शासन-भार सौंपा है । नेदरलैण्ड थोमती परमा की जन्म-भूमि है । उन्हे यह देश विशेष रूप में प्यारा है । वह इस देश के निवासियों की भलाई का स्वभावतः अधिक ध्यान रखेंगी । आजकल समय दुरा आ गया है । बहुत

सं देश और विशेषतः इन प्रान्तों के अडोस-पडोस के देशों में नये-नये अण्ड-त्रण्ड मतमतान्तर और पन्थ खड़े हो गये हैं। ये सब पन्थ गुनहगारों के सिरताज 'शैतान' के चलाये हुए हैं। इन पन्थों के द्वारा शैतान ने इन अभागों देशों में बड़े भगड़े-बखेड़े खड़े कर दिये हैं जिनके कारण परम-पिता परमेश्वर अत्यन्त क्रुद्ध हैं। श्री महाराज की यह इच्छा है कि इन नये विचारों की महामारी से यह देश पवित्र रहे। श्री महाराज को इस देश के राजा की हैसियत से ईश्वर के सम्मुख सुशासन का उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए उनका कर्त्तव्य है कि वह इस देश में धर्म का हास न होने दें। किसी नये धर्म अथवा विचारों के आने से सदा देश में बड़ी गड़बड़ मचा करती है। इसीलिए श्री महाराज की हार्दिक इच्छा है कि वह परमेश्वर और अपने पिता के पुराने पन्थ पर ही हड़ रहे। आप लोगों को याद होगा कि राज्य-त्याग करते समय बड़े महाराज ने क्या शब्द कहे थे? उन शब्दों का पालन करने के लिए श्री महाराज ने मार्गरेट को आज्ञा दी है कि 'जिन-जिन कानूनों और उपायों का चार्ल्स महाराज ने नये विचारों और पन्थों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया था, वे सब फिर से उपयोग में लाये जायँ और जिस तरह भी हो इस देश से इस नये विचारों की बीमारी को सर्वदा के लिए समूल नष्ट कर दिया जाय।' अन्य सब राज्याधिकारियों को भी परमात्मा के इस पवित्र कार्य को खूब जोश के साथ करना चाहिए।"

विशप ऑव् ऐरस की वक्तृत्व शक्ति बहुत प्रसिद्ध थी। आज उसने फिलिप की ओर से बोलने में अपनी सारी कला खर्च डाली थी। परन्तु जो बातें नेदरलैण्ड-वासियों के दिलों में

काँट की तरह खटक रही थीं उनका उस वक्तृता में जिक्र तक न आया था। न तो विदेशी सेनाओं के सम्बन्ध में ही कुछ कहा गया और न लोगों पर कर कम करने के सम्बन्ध में ही कोई बात कही गई थी। लोग करों के बोझ से दबे जा रहे थे। तिस-पर तीस लाख रुपये की माँग उनके सामने और रख दी गई। और, प्रथा के अनुसार प्रजा के प्रतिनिधियों ने उत्तर देने के पूर्व आपस में चर्चा करने की छुट्टी माँगी। दूसरे दिन फिर दरवार लगा और आरटोयज प्रान्त के प्रतिनिधियों की ओर से उनके प्रमुख ने पहले उत्तर दिया। आरटोयज प्रान्त के लोग बहुत शिष्ट और राजनीतिज्ञ थे। इसलिए उनके प्रमुख ने जो उत्तर दिया वह बड़ा ही सुन्दर, उपयुक्त और राजनीतिज्ञता में भरा हुआ था। उसने फिलिप की प्रशंसा करते हुए कहा—

‘मेरे प्रान्तवासी सदा से श्री महाराज पर बड़ी श्रद्धा और प्रेम रखते हैं। वर्षों के लगातार युद्ध से जो-जो कष्ट उन्हें भेलने पड़े हैं उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से भेले हैं। श्री महाराज आज जो नई माँग रख रहे हैं उसका अपना भाग भी वे बड़े हर्ष के साथ देने को तैयार हैं। वे श्री महाराज के चरणों पर अपना एक-एक पैसा ही रखने को तैयार नहीं हैं वरन अपना रक्त भी महाराजके लिए बहाने को सदैव तैयार हैं।’ फिलिप एगमोण्ट के कन्धे पर बाँह रखे खड़ा था और बड़े ध्यान से प्रतिनिधियों का उत्तर सुन रहा था। आरटोयज के प्रमुख के वचन सुनकर उसके मुखपर प्रसन्नता झलकने लगी। परन्तु प्रमुख ने बड़ी होशियारी से पलटा रखा। उसने फिलिप से बहुत विनती करते हुए कहा—“महाराज, मेरा प्रान्त यह सब कुछ और इससे भी कुछ अधिक करने

को तैयार है । परन्तु वह बदले मे यह चाहता है कि श्री महाराज सारी विदेशी सेना को एकदम यहाँ से चले जाने का हुक्म दे दें । अब तो सारे संसार के राष्ट्रों ने मिलकर सन्धि करली है । युद्ध की कोई सम्भावना नहीं है । फिर ये सेनायें व्यर्थ क्यों रक्खी जायँ ?”

यह सुनते ही फिलिप के चेहरे से प्रमन्नता का सब रंग एकदम उड़ गया और वह झुंभलाकर कुरसी पर बैठ गया । उसके चेहरे का रंग बार-बार बदलता था । बडी देर तक वह कुरसी पर चुपचाप बैठा कुछ सोचता रहा । दूसरे प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने आरटोयज्ज वालों से भी अधिक साफ शब्दों में फिलिप से वही बातें कहीं । रुपया देना सबने मजूर किया । परन्तु विदेशी सेनाओं के एकदम चले जाने की शर्त रक्खी । फिलिप सिंहासन के पास बैठे हुए एग्मोएट इत्यादि सरदारों से सक्रोध कहने लगा—“हाँ, हाँ, मैं खूब समझता हूँ । सारे के सारे प्रान्त बड़े राजभक्त हैं !” इन उत्तरों के सिवाय सारे प्रान्तों की पचायतों की ओर से एक अरजो भेजकर भी फिलिप से शिकायत की गई कि ‘विदेशी सेनाओं के सिपाही प्रति-दिन नगरों और ग्रामों में लोगो को सताते, लूटते, मारते और बखेड़े खड़े करते हैं, जिनसे उकता कर बहुत से नगरों और ग्रामों के मनुष्य अपने-अपने घर तक छोड़ कर भाग गये हैं ।’ इस अरजो पर आरेज्ज के शहजादा विलियम, काउएट एग्मोएट इत्यादि बहुत से बड़े-बड़े देशी सरदारों के भी हस्ताक्षर थे । दरबार समाप्त होने के पहले ही यह अरजो फिलिप के हाथों मे रख दी गई । फिलिप क्रोध से वैसे ही जल रहा था । अरजो पढ़ते ही आग-बबूला हो गया । एकदम अपना कुरसी से उठा और गुस्से से कौंपता, यह कहता हुआ वहाँ से चला गया कि

मैं भी तो एक दूसरे स्पेन का रहने वाला हूँ। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं भी अपना राज-पाट छोड़ कर यहाँ से चलता बूँ ?' फिलिप के चले जाने पर ड्यूक ऑफ़ सेवाय ने सरदारों और प्रतिनिधियों को इस प्रकार राजा का अपमान करने पर खूब फटकार बतवाई।

फिलिप जानता था कि क्रोध दिखाने से कुछ काम न निकलेगा। कुछ दिनों बाद पंचायत के पास फिलिप ने नरम शब्दों में सन्देशा भेजा कि विदेशियों के हाथ में देश का शासन सौंने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैंने डचेज ऑफ़ परमा को इसी लिए शासन-भार सौंपा है कि वह इसी देश की रहने वाली हैं। स्पेन की सेना नेदरलैण्ड में केवल देश को बाहर के हमलों से रक्षा करने के लिए रक्खी जाती है। कुल तीन-चार हजार विदेशी सिपाही देश में रह गये हैं। उन्हें फौरन ही इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि तन्खाह बहुत चढ गई है। परन्तु मैं उनका वेतन इस देश के खजाने से नहीं दूँगा। स्पेन पहुँच कर वहाँ से रुपया भेज दूँगा। अभी डॉन कारलास भी नेदरलैण्ड आने वाला है। उसकी रक्षा के लिए भी इन सेनाओं की आवश्यकता पडेगी। फिर भी यदि पंचायत की ओर से पहले से कह दिया गया होता तो मैं बडी प्रसन्नता से इस सेना को अपने जहाजों पर लौटा ले जाता। परन्तु अब इतनी जल्दी तो प्रबन्ध होना असम्भव है। यद्यपि ये सेनाये नेदरलैण्ड के हित के लिए ही रक्खी जाती हैं परन्तु मैं उनका व्यय अपने पास से दूँगा। इसी दश के आरेञ्ज विलियम और काउण्ट एग्मौण्ट इन दो सरदारों को मैं इन सेनाओं का अध्यक्ष बनाता हूँ और बचन

देता हूँ कि अधिक से अधिक ये सेनायें तीन-चार मास में इम देश से हटाली जायँगी ।

जिस दिन यह सभा हुई थी उसी दिन फिलिप ने देश के मुख्य न्यायालय के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी कि धार्मिक विषय में मत-भेद रखने वालों को ढूँढ-ढूँढकर फांसी पर चढ़ाया जाय । जिन्दा जलाने, जिन्दा गाड़ने अथवा फांसी पर चढ़ाने के सम्बन्ध में जितने कानून बने हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाय । किसी पर रियायत न की जाय । जो न्यायधीश अपराधियों को छोड़े अथवा रियायत करे उसको भी कठिन दण्ड दिया जाय ।” फिलिप ने प्रतिनिधियों को फिर एक दूसरी सभा करके नम्र भाव से नेदरलैण्ड के लोगों से विदा ली । परन्तु आरेञ्ज इत्यादि कुछ सरदारों के प्रति वह अपना क्रोध न छिपा सका । फ्लशिग से शाही जहाजों का बेड़ा खाना होने वाला था, डचेज परमा, ड्यूक ऑव् सेवाय और अन्य बहुत से सरदार फिलिप को वहाँ तक पहुँचाने गये थे । विलियम ऑव् आरेञ्ज भी गया था । जब फिलिप अपने जहाज पर चढ़ने लगा तो उसकी आँखें विलियम पर पड़ी । उसको देखते ही वह उत्रल पडा और बड़े क्रोध से बोला “तूने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया ।” विलियम ने बड़े नम्र भाव से कहा “मैंने क्या किया ? जो कुछ हुआ है पंचायतों की राय से ।” यह सुनकर फिलिप क्रोध से पागल हो गया और विलियम को कलाई ज़ोर से पकड कर चिल्लाया—“पंचायत ! पंचायत ने नहीं...तूने...तूने . तूने मेरा काम बिगाडा ।”

इस प्रकार विलियम सब के सामने अपमानित होकर फिर

जहाज़ पर फिलिप से मिलने न गया। यदि वह जहाज़ पर चढ़ गया होता तो कहीं उसे जन्म भर ही स्पेन के बन्दीगृह की हवा न ग्वानी पडती ? उसने बड़े विचार से काम लिया। विलियम बड़ा ही विचारशील मनुष्य था। अपनी विचार-शीलता के कारण ही वह अपने जीवन में बड़े-बड़े संकटों से बचा था। क्रोध में निकले हुए फिलिप के इस समय के वचन बिलकुल सच्चे हुए। मानो फिलिप की अन्तर्गात्मा ने पहिचान लिया था कि मेरे पैशाचिक कार्यों को मिट्टी में मिलाने वाला यही विलियम ऑव् आरेञ्ज है। फिलिप ने स्पेन पहुँचते ही धर्म के नाम पर अत्याचार का ताण्डवनृत्य शुरू कर दिया। लूथर के अनुयायी अथवा उनसे कुछ भी सहानुभूति रखने वाले लोग पकड़-पकडकर जलाये जाने लगे। फिलिप खूब ठाट-बाट से अपने शाही कुटुम्ब, मन्त्रिगण और अन्य देशों के राजदूतों को ले दरवार लगाकर बैठता था और लूथर के अभागे अनुयायी लालाकर उसके सामने जलाये जाते थे। एक नौजवान सरदार एक दफा इसी प्रकार पकडकर लाया गया। फिलिप के सिंहासन के निकट से जब लोग उसे खींच कर ले चले तो उसने फिलिप से कहा—“ क्या आप अपनी आँखों के सामने मुझे यों जीवित जल जाने देंगे ? ” नर-पिशाच फिलिप ने उत्तर दिया ‘ यदि मेरा पुत्र भी तेरी तरह बदमाश होता तो मैं उसे भी अपने हाथों जला देता । ” फिलिप का नया विवाह फ्रांस की राजकुमारी से बड़ा धूम-धाम से मनाया गया। विवाहोत्सव में सुधारकों की मशालें बनाकर रोगनी की गईं। आह, मनुष्य भी कितना पापाण-हृदय हो सकता है !

डचेज़ ऑव् परमा चार्ल्स की सत्र से बड़ी पुत्री थी पर उसका जन्म विवाहिता स्त्री से नहीं हुआ था। मार्गरेट को चार्ल्स की चाची ने पाला पोसा था और पीछे से उसको चार्ल्स की बहिन ने पाला जो हंगरी की महारानी और नेदरलैण्ड की नज़ीब थी। उसने मार्गरेट को घोड़े पर चढ़ना और शिकार खेलना सिखलाया। चार्ल्स ने पोप को खुश करने के लिए मार्गरेट का विवाह बारह वर्ष की अवस्था में २७ वर्ष के एक प्रियाश से कर दिया। वह पहले ही वर्ष में मर गया। फिर चार्ल्स ने एक दूसरे कुटुम्ब से नाता जोड़ने के अभिप्राय से उसका विवाह बीस वर्ष की अवस्था में १३ वर्ष नवयुवक आकटेवो से कर दिया। मार्गरेट को आकटेवो बिलकुल पसन्द नहीं था इसलिए वह उसका तिरस्कार किया करती थी। आकटेवो निराश होकर चार्ल्स के साथ लड़ने चला गया। एक दफा चार्ल्स की एक भयंकर लड़ाई का अन्त यह सुनने में आया कि एक बड़े तूफान में चार्ल्स और आकटेवो दोनों खत्म हो गये। यह समाचार पाकर मार्गरेट के हृदय में बड़ी ग्लानि और दुःख हुआ कि हाय, मेरे ही कारण दुखी हो आकटेवो ने घर-बार छोड़कर लड़ाई की शरण ली थी। फिर जब समाचार भूठा निकला और चार्ल्स के साथ आकटेवो भी लौटकर आया तब मार्गरेट ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और फिर उनके दो बच्चे भी पैदा हुए।

इस समय फिलिप के मार्गरेट ऑव् परमा को शासन-भार सौंपने के कई कारण थे। वह यह समझता था कि मार्गरेट राजपुत्री है और नेदरलैण्ड में ही पैदा हुई है इसलिए सब इस निर्वाचन से प्रसन्न होंगे। मार्गरेट के पति को भी वह कई मगड़ों

के कारण प्रसन्न करना चाहता था। परन्तु सब से मुख्य कारण यह था कि फिलिप नेदरलैण्ड के शासन की बागडोर वास्तव में विशप ऑव् ऐरस के हाथ में देना चाहता था और डचेज ऑव् परमा ही एक ऐसी व्यक्ति थी जो इस गदरी के हाथ की कठ-पुतली बनकर खेचने को तैयार थी। जिस समय वह इस देश कि गद्दी पर बैठी उसकी अवस्था २७ वर्ष के लगभग होगी। उसे धार्मिक पाखण्डों में बड़ा विश्वास था। उसे कैथलिक धर्म पर विश्वास न करने वालों से बड़ी घृणा थी और वह अपने बाप के धर्म-सम्बन्धी 'खूनी कानूनों' को ईश्वर की सम्मति से बनाये गये कानून समझती थी। वह नित्य पूजा-पाठ करती, प्रति पवित्र सप्ताह एक दर्जन कुँवारी लडकियों के चरण धोती और बड़ी धूम-धाम से उनके विवाह करती।

यह तो हुआ नेदरलैण्ड की अधिष्ठात्री का चरित्र। अब तनिक शासन की मुख्य कार्यकारिणी स्टेट कौंसिल के सदस्यों के चरित्रों को भी देखियें। घेरलामौण्ट 'आय-व्यय' विभाग का प्रमुख था। कैथलिक लोग उसको बड़ा सच्चरित्र समझते थे, परन्तु प्रोटेस्टेण्ट लोगों के मतानुसार वह बड़ा लालची और क्रूर था। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि घेरलामौण्ट था बहुत बहादुर, राजभक्त और पोप का कट्टर चेला, वह मदा अपने चारों पुत्रों के साथ देश के विरुद्ध, राजा की सहायता के लिए प्रस्तुत रहता था। यदि घेरलामौण्ट ने अपनी तलवार अपने देश विरुद्ध एक विदेशी राजा के पक्ष में न उठाकर अपने देश के लिए ही उठाई होती तो उसकी वीरता का गुण-गान आज उसके देश का बहा-बहा करता। परन्तु उसने दुर्भाग्य से अपनी वीरता का सदा

अपने देश के विरुद्ध ही उपयोग किया। प्रेसीडेण्ट विलियम अपने जमाने का बड़ा विद्वान् पुरुष था। उसने कई विश्वविद्यालयों में पढ़कर बहुत सी उपाधियाँ प्राप्त की थीं। जब फ्रांस से चार्ल्स ने सन्धि की तब इसको भी प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। कहा जाता है कि चार्ल्स को 'खूनी कानून' बनाने में इसने बड़ी सहायता दी थी, यद्यपि डाक्टर यह बात स्वीकार नहीं करता। वह कहता कि मैंने तो चार्ल्स से कह-सुनकर कानूनों की कठोरता कम करने का प्रयत्न किया था, परन्तु उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया गया क्योंकि उसके धार्मिक विचार सब अच्छी तरह जानते थे। वह धर्म-कर्म में बड़ा पक्का था। धार्मिक स्वतंत्रता, अर्थात् कैथलिक सम्प्रदाय के अतिरिक्त और किसी सम्प्रदाय में विश्वास रखना वह सबसे बड़ा पाप समझता था। वह उन लोगों को दिन-रात बड़ी गालियाँ सुनाया करता जो गिर्जों में न जाकर घर पर ही ईश्वरोपासना करने के पक्ष में थे। वह कहा करता था—'यदि वे-पढ़े लिखे लोग अपने कमरों के द्वार बन्द कर एकान्त में प्रार्थना करने बैठेंगे तो सारा देश नष्ट हो जायगा। - 'शैतान' सबकी आत्माओं पर कब्जा कर लेगा। इन सब आपदाओं से मनुष्यमात्र को तो 'ईसा के गडरिये' प्रादरी लोग ही बचाये रख सकते हैं। धार्मिक स्वतन्त्रता विलकुल वितण्डा है।' डाक्टर का बुढ़ापे में स्वयं 'ईसा का गडरिया' बनने का इरादा था, इसलिए स्वभावतः उसे चिन्ता थी कि कहीं 'गडरियों' की रोज़ी ही न उठ जाय।

कौंसिल का तीसरा सदस्य विलियम ऑव् आरेञ्ज था। विलियम ऑव् आरेञ्ज उन पुरुष रत्नों में से था जिनकी मनुष्य

समाज सदा ही पूजा करेगा। उसने अपने देश और संसार के लिए क्या किया यह तो आगे चलकर मालूम होगा। अभी यहाँ पर नेदरलैण्ड के इतिहास-नागन में उगनेवाले इस सूर्य का हम कुछ परिचय देते हैं। विलियम का जन्म नसाऊ के राज्य-घराने में हुआ था। नसाऊ वंश पहले-पहल १२वाँ सदी में इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उन्नी शताब्दी में इसकी दो शाखायें हो गईं। बड़ी शाखा को जर्मनी का राज्य मिल गया और छोटी परन्तु अधिक प्रख्यात शाखा पर नसाऊ डिलनबर्ग का राज्य रहा। पीछे से नसाऊ की छोटी शाखा नेदरलैण्ड में जा बसी और वहाँ उसे वृद्ध सी जागीर और अधिकार भी मिले। नसाऊ का यह राज-वंश वीरो का वंश कहा जाता था। विलियम आरेख का जन्म इसी वीरो वंश में हुआ था। उसका पिता विलियम 'अमीर' के नाम से प्रख्यात था। परन्तु वह मन्तति में ही अमीर था। उसके पाँच पुत्र और सात पुत्रियाँ थीं। विलियम आर्व आरेख की माँ का नाम जूलियाना था। वह बड़ी ही मन्चरित्र, धार्मिक विचारवाली, भक्तिभाव-पूर्ण, देवी थी। उसने अपना भक्ति-भाव पुत्रों में भी भर दिया था। उसने दुःख-दुर्द, कष्ट-आपदाओं में सदा अपने धन्वो को परमात्मा पर विश्वास रखना सिखाया था। जब उसके पुत्र बड़े हो गये तब भी वह उनको पत्रों में बराबर लिख लिखकर धन्वो की तरह समझाया करती थी कि 'बड़े से बड़े बप्टों में परमात्मा पर ही भरोसा रखना।' संसार के महान पुरुषों की माताओं में जूलियाना का बड़ा उच्च स्थान है। उसके चार पुत्र विलियम, एडॉल्फस, हेनरी और जॉन सभी बड़े वीर और दैव-भक्त थे।

सन् १५४४ ई० में विलियम का चचा 'नि सन्तान मर गया और विलियम को आरेञ्ज की जागीर १२ वर्ष की अवस्था में मिली। परन्तु विलियम ब्रसेल्स में पढ़ता था। लोग समझते थे कि विलियम राजा के दरवार में रहकर शिक्षा प्राप्त करेगा और फिर बड़ी-बड़ी लडाइयाँ लड़कर नाम कमायेगा। अथवा कहीं राजदूत या नवाब बनकर मौज में जीवन बितावेगा। बहुत छोटी अवस्था में विलियम चार्ल्स के घरों में रहने के लिए बुला लिया गया। चार्ल्स मनुष्य को परखने में बड़ा चतुर था। उसने विलियम को देखते ही समझा कि बड़ा होनहार लड़का है। १५ वर्ष की अवस्था में ही विलियम चार्ल्स का बड़ा अन्तरंग मित्र बन गया। वह सदा चार्ल्स के साथ रहता। बड़े-बड़े मनुष्यों से परामर्श करते समय भी चार्ल्स विलियम को नहीं हटाता था, न उससे कोई बात छिपाता था। प्रायः उससे बड़े गम्भीर विषयों तक में सलाह लेता। उस समय के सत्तार के इतिहास में जो नाटक खेला जा रहा था उसका अन्दर से सब हाल अच्छी तरह देखने और समझने का विलियम को खूब अवकाश मिला। बड़ा होते ही विलियम बड़े पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। ड्यूक ऑफ् सेवाय की अनुपस्थिति में चार्ल्स ने विलियम को फ्रान्स के सीमा-प्रान्तों में सेनाधिपति बनाकर भेजा। इस पद के लिए सब बड़े-बड़े सरदार—यहाँ तक कि काउण्ट एगमोण्ट तक लालायित हो रहे थे। विलियम को अवस्था इस समय २१ वर्ष की भी नहीं थी पर चार्ल्स ने उसे ही चुना। विलियम ने भी अपने कार्य से दिखा दिया कि वह इस पद के सर्वथा योग्य था।

राज्य-त्याग करते समय भी चार्ल्स विलियम का ही कंधा

पकड़कर खडा हुआ था। मानो वह कह रहा था कि विलियम के सहारे नेदरलैंड का राज्य निर्भर है। चार्ल्स के बाद विलियम आरेञ्ज का फिलिप से सम्बन्ध हुआ। एक समय फिलिप फ्रान्स से सन्धि करने के लिए इतना उत्सुक हो गया था कि उसने विलियम से बुलाकर कहा कि 'सबसे बड़ी सेवा जो तसार में तुम मुझे कर सकते हो, यह है कि जैसे भी बने फ्रान्स से सन्धि करवा दो। मैं स्पेन लौटने को बड़ा उत्सुक हो रहा हूँ।' उस समय विलियम ने ऐसी राजनीतिज्ञता से काम लिया था कि फ्रान्स को घुटने टेक कर सन्धि स्वीकार करनी पड़ी। इस एक उदारदृष्टि से ही विलियम की राजनीतिज्ञता का पता चलता है। जिस समय फिलिप स्वयं सन्धि के लिए इतना उत्सुक हो रहा हो कि अपने राजदूत को बुलाकर कहे कि "ऐ राजदूत! मैं सन्धि के लिए इतना उत्सुक हूँ कि यदि फ्रान्स ने सन्धि के लिए प्रार्थना न की तो मैं स्वयं फ्रान्स से सन्धि के लिए प्रार्थना करूँगा," उस समय शत्रु को हार की शर्तों पर सन्धि करने के लिए मजबूर कर देना विलियम की प्रचण्ड राजनीतिज्ञता नहीं तो और क्या थी ?

उस जमाने में जब सन्धि होती थी तो दोनों राजा एक-दूसरे पक्ष के अच्छे-अच्छे कुछ सरदार चुनकर अपने साथ जमानत के तौर पर ले जाते थे कि जिससे सन्धि की शर्तें शीघ्र ही पूरी कर दी जायें। फ्रान्स का राजा, ऐलवा इत्यादि के साथ आरेञ्ज को भी चुनकर ले गया था। एक दिन राजा हेनरी और आरेञ्ज दोनों जगल में अकेले शिकार खेल रहे थे। बातों-बातों में हेनरी ने विलियम से कहा—“मेरे देश में दिनपर दिन प्रोटे-

स्टेण्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं। मेरा जी इनसे बहुत घबराता है। यह केवल धार्मिक क्रान्ति ही नहीं है। इसमें राजनैतिक अंश भी है। देखो न बड़े-बड़े सरदार भी शामिल होते जाते हैं। अब मैंने अपने भाई फिलिप से सन्धि कर ली है। अब मैं और वह दोनों मिलकर शीघ्र ही इन दुष्टों को नष्ट करने का उपाय सोच रहे हैं।” फिलिप ने इस सम्बन्ध की सारी बातें तय करने के लिए ऐलवा को भेजा था। हेनरी बेचारे को क्या मालूम था कि आरेञ्ज को इस गुप्त मन्त्रणा का विलकुल पता नहीं था और आरेञ्ज को यह भेद बताकर वह अपने और फिलिप के इरादों की जड़ में कुल्हाड़ी मार रहा था। इन रहस्यों को जानकर आरेञ्ज का जीवन ही बदल गया। मानों उसने एक क्षण में निश्चय कर लिया कि इन नर-पिशाच राजाओं के अत्याचार से जनता की रक्षा करना ही आज से मेरे जीवन का उद्देश्य होगा। फिर हेनरी ने आरेञ्ज के सब तरकीबों भी बताईं जिनके द्वारा कैथलिक सम्प्रदाय में विश्वास न करने वाले लोगों का पता लगाया जाया करेगा और बड़े से बड़े सरदार तक को विलकुल रियायत न दिखाकर प्राण-दण्ड दे दिया जायगा। हेनरी ने यह भी कहा कि इस काम के लिए नेदरलैंड में स्पेन की सेनायें बहुत उपयोगी होंगी। इस रहस्य को सुनकर विलियम आरेञ्ज के मन की काया-पलट हो चुकी थी, फिर भी उसने अपने हार्दिक-भाव अपने चेहरे से हेनरी को प्रगट नहीं होने दिये। चुपचाप शान्त इस तरह सारी बातें सुनता रहा मानो उसने कोई असाधारण आश्चर्यजनक बात नहीं सुनी। इसी घटना के कारण विलियम आरेञ्ज का नाम ‘मौन’ विलियम पड़ गया। विलियम आरेञ्ज लिखता

है—“राजा हेनरी से यह रहस्य सुनकर आश्चर्य और क्रोध से मेरा सिर भन्नाने लगा । मैंने एक क्षण में ही समझ लिया कि मेरे देश में स्पेन से भी अधिक भयंकर अत्याचार शुरू होने वाला है । यदि कोई किसी मूर्ति की ओर तनिक आश्चर्य से भी निगाह उठाकर देखेगा तो वह तुरन्त ही अग्नि में भोंक दिया जायगा । मुझे इन नये सम्प्रदाय वाले लोगों के धार्मिक विचारों से तो प्रेम नहीं था परन्तु इतने सत्पुरुषों को मैं व्यर्थ सूली पर चढ़ते अथवा अग्नि में जलते भी नहीं देख सकता था ।” विलियम ने इसी घटना के बाद सङ्कल्प कर लिया कि जहाँ तक मुझसे हो सकेगा, मैं प्रजा को अत्याचार से रक्षा करूँगा । कुछ दिन बाद उसने हेनरी से नेदरलैंड जाने का छुट्टी ली और नेदरलैंड पहुँचकर स्पेन की सेनाओं को देश से तुरन्त निकालने के सम्बन्ध में एक बड़ा भारी सार्वजनिक आन्दोलन उठाया । स्पेन जाते समय फिलिप ने उससे तार्काह की थी कि ‘अपनी जागीर में रोमन कैथलिक सम्प्रदाय के विरुद्ध चलने वालों को खूब कठोर दण्ड देना । किसी पर रियायत न करना । किसी को न छोड़ना । ध्यान रखना कि न्यायाधीश लोग उचित सख्ती करते रहे । किसी पर दया न दिखावें ।’ राजा ने विलियम को कुछ ऐसे सरदारों के चुपचाप नाम भी बताये थे जिनकी उसे नये सम्प्रदायों में मिल जाने की गुप्त-रूप में खबर मिली थी और जिनको शीघ्र से शीघ्र मरवा डालने की उसने आज्ञा दे दी थी । विलियम लिखता है— ‘मैंने परमा मा के वचनों को राजा के वचन से अधिक समझ उन सब सरदारों को चुपके से बुलाकर बताया कि तुम्हारा जीवन उत्तरे में है । तुरन्त ही देश छोड़कर भाग जाओ ।’

फिलिप के स्पेन जाने के समय विलियम की उम्र २७ वर्ष की थी। उसकी स्त्री का सात वर्ष जावित रहकर देहान्त हो चुका था। उससे एक लड़का और लड़की थे। यह स्त्री एक बड़े अमीर की बेटी थी। विलियम को उसके घर से भी काफी जागीर मिली थी। अभी तक विलियम ने आनन्द से केवल राजसी जीवन ही बिताया था। उसने आने वाली आपदाओं को कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उसके पास धन, बल, मान सब कुछ था। आगे चलकर जिन नवीन धर्म-सुधारक सम्प्रदायों का वह कट्टर पक्षपाती बन गया उनपर भी उसका कोई विशेष प्रेम नहीं था। नाम के लिए वह कैथलिक पन्थ पर विश्वास करता था। आवश्यकता के समय पूजा-पाठ भी सनातन कैथलिक पन्थ की प्रथा के अनुसार ही करता था। परन्तु वास्तव में वह धार्मिक मर्यादों से दूर भागता था। अपनी जागीर में उसने लोगों को कैथलिक पन्थ पर ही चलने की आज्ञा निकाली थी परन्तु किसी अन्य पन्थावलम्बी की जान लेने के वह त्रिलकुल विरुद्ध था। उस जमाने में नेदरलैण्ड में कोलो, चमार, वसियारे ही प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय में सम्मिलित होते थे बड़े आदमी उससे प्रायः अलग ही रहते थे। अन्य सरदारों की भाँति विलियम भी रोमन कैथलिक ही था। उसने फिलिप के अत्याचारों से लोगों की रक्षा करने का संकल्प इसलिए नहीं किया कि उसे लोगों के धार्मिक विचारों से कुछ प्रेम था, धार्मिक बखेडों से तो वह सदा कोसो दूर रहता था वरन् इतने निरपराध मनुष्यों की धर्म के नाम पर हत्या उसे असह्य थी। जो विचार उसकी माता ने बचपन से उसके अन्दर भर दिये थे, यदि उनको प्रोटेस्टेन्ट विचारों का बीज मान

लें तो भी यही मानना पडेगा कि अभी तक विलियम मे इस वीज का कोई अंकुर नहीं निकला था। दिन-रात मजे की जिन्दगी बिताता था, खेल-तमांगे, नाचरंग, दावत, शिकार और राजकीय कार्यों में ही उसका सारा समय जाता था। उस के घर पर मेहमानों की बहुत खातिर होती थी। जब राजा नेदरलैण्ड मे रहते थे तो राजा के सब निजी मेहमान विलियम के नसाऊ राज-भवन में ही ठहराये जाते थे। वहाँ विलियम के खर्च पर उन सब की खातिर होती थी। राजा अपने मेहमानों की खातिर-दारी करने मे अपने को असमर्थ समझता था। विलियम के घर चौबीस सरदार और अट्टारह बड़े-बड़े घरों के नवयुवक रोज इन मेहमानों की सेवा के लिए हाज़िर रहते थे। रसोईघर इतना विशाल था कि एक दिन केवल खर्च कम करने के विचार से अट्टारह उस्ताद रसोइये निकाल दिये गये थे। जर्मनी के सारे राज-परिवार अपने रसोइयों को काम सिखाने के लिए विलियम के रसोईघर भेजते थे। एक दफा फिलिप ने विलियम के पास से एक रसोइया स्पेन बुलवाया था। रात-दिन उसके घर पर दावतें ही उडा करती। किसी समय कोई आवे, उसको खाना तैयार ही मिलता था। नई-नई और कीमती शराबें उडतीं। गरीब-अमीर सबकी उसके यहाँ एक सी खातिर होती थी और सभी मे वह अच्छी तरह मिलता। अभिमान का उसमे नाम न था। भूलकर भी कभी किसी से अपराध नहीं बोलता। नौकरों तक से सभ्य व्यवहार करता था। सब उसपर स्नेह रखते थे और अपनी सीठी दाणी से वह दरदार में जिससे जो चाहता करा लेता। उनके गिष्ट व्यवहार पर सभी जान देते थे। उसका खर्च बंदल दावतों

और शिकार मे ही नहीं होता था, बड़े-बड़े ओहदों पर नियुक्त होने के कारण भी उसका बड़ा व्यय होता था। जब वह सीमा प्रान्त पर सेनाधिपति नियुक्त हुआ था, तब उसे तीन सौ रुपये मासिक मिलता था। परन्तु तीन सौ में उसके नौकरों का वेतन भी पूरा नहीं हो पाता था। राजा फरडीनेएड को ताज लेकर जाने और पेरिस मे राजा हेनरी का सन्धि के समय मेहमान रहने में उसका पन्द्रह लाख खर्च हो गया था। ग्रेनविले के कथनानुसार इस छोटी-सी उम्र में इतनी जागीर होते हुए भी उसपर करीब आठ-नौ लाख का कर्जा था परन्तु यह आठ-नौ लाख का कर्ज उसका दिवाला नहीं निकाल सकता था। उसे अपनी जागीर से बहुत आमदनी थी। शाही खजाने पर भी उसका बहुत सा रुपया बाकी था।

सन् १५६० ई० के प्रारम्भ मे विलियम आँव् आरेञ्ज की यह दशा थी। वह उदार था, विशाल था, शानदार था, धनवान था, ममद्वशाली और बलवान था। इस छोटी उम्र मे ही उसने बड़े-बड़े काम कर दिखाये थे। बड़ी-बड़ी उलझी हुई समस्याओं को सफलता से सुलझा चुका था। विलियम बहुत ही सोच-विचार कर काम करता, यही उसकी महानता का सब से बड़ा कारण और रहस्य है। वह जोश मे आकर बिना समझे-बूझे कभी कुछ नहीं कर बैठता था। इसी लिए उसने एगमोएट की तरह कोई सेण्ट क्विगएटन की लड़ाई नहीं जीती परन्तु हाँ, देश के आने वाले राजनैतिक युद्ध में विजेता अवश्य हुआ। एगमोएट तलवार के जोर पर विजय प्राप्त करता था और आरेञ्ज बुद्धि के बलपर। लोगों में कहावत चल गई थी—‘आरेञ्ज की बुद्धि, एगमोएट की

तलवार'। शत्रु-मित्र सब एक-मुख से उसकी तीव्र वृद्धि की प्रशंसा करते थे। घोर से घोर शत्रु भी उसकी वृद्धिमत्ता, राजनीति-ज्ञता और कार्य-कुशलता का लोहा मानते थे। आरंभ गुप्तचुप मौन साध अपना मुँह लटका कर बैठने वाला मनुष्य नहीं था। जब कोई उससे मिलने जाता तो वह खूब हँसता, हँसी मजाक करता, गप्पें लडाता। उसमें बोलने और लिखने की अच्छी शक्ति थी। इतिहास का भी उसने काफी अध्ययन और मनन किया था। लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, फ्लेमिश और स्पेनिश पांच भाषायें वह अच्छी तरह जानता था।

डचेज ऑव् परमा केवल नाम के लिए सिंहासन पर बैठा ही नहीं थी। जिस मनुष्य के हाथ में वास्तव में देश की वाग-डोर थी उसका नाम ऐन्थनी पिरेनौट था। उस समय लोग उसको ऐरस के पादरी के नाम से जानते थे। आगे चलकर वह कार्डिनल ग्रेनविले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कार्यकारिणी की तीन सदस्यों की गुप्त-मण्डली कन्सल्टा का, जो डचेज के द्वारा वास्तव में देश पर राज्य करती थी, यही मनुष्य प्राण था। वह जो चाहता था 'कन्सल्टा' वही करती थी। ऐरस गरीब वश में पैदा हुआ था। उसका दाप चार्ल्स के यहाँ एक साधारण नौकर था। परन्तु ऐन्थनी छटा चतुर निकला। उसने तीन-चार विश्व-विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। २३ वर्ष की अवस्था में ही सात भाषाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। शासन और धर्म सम्बन्धी कानूनों का भी वह बड़ा ज्ञाता समझा जाता था। चार्ल्स, ट्रेसट में उसकी एक वक्तृता सुनकर इतना मुग्ध हो गया कि उसने तुरन्त ही उसे स्टेट कौंसिल का सदस्य बना दिया। बाद को

वह चार्ल्स का इतना प्रिय हो गया कि चार्ल्स उसे बहुत से विश्वास के कार्य सौंपने लगा। निस्सन्देह ऐरस विद्वान और चतुर था। हाज़िर-जवाब, मधुरभाषा, हिम्मत वाला, इरादे का पक्का और समय पर सूझ से काम करने वाला भी था। अपने ऊपर वालों को अपने हाथों में रखना और राजाओं को उल्लू बनाना भी उसे खूब आता था। जब वह फिलिप से बातें करता तो ऐसा भाव प्रकट करता मानों फिलिप और उसके विचार विलकुल एक ही हैं। फिलिप सदा अपने विचार प्रकट करने में असमर्थ रहता था। बिशप ऐरस फिलिप के विचार ताडकर उन्हें बड़ी सुन्दर भाषा में कह देता और फिलिप खुश हो जाता था। वह समझता कि मैं जो सोचता हूँ, ऐरस भी वही सोचता और करता है। ऐरस अत्यन्त मधुर धारा-प्रवाह व्याख्यान देने वाला था। परन्तु फिलिप को प्रसन्न करने के हेतु वह भी फिलिप की तरह छोटी-छोटी बातों के लिए लम्बे-लम्बे पत्र लिखा करता। कभी-कभी तो तीस-चालीस पृष्ठ के तीन-चार पत्र फिलिप के पास एक दिन में ही भेजता। फिलिप को स्वयं पत्र लिखने की बीमारी थी, इस लिए ऐरस के बहुत से लम्बे पत्र पाकर वह प्रसन्न होता था और स्वयं दिन भर क़लम लिए ऐरस की तरह सुन्दर पत्र लिखने का प्रयत्न किया करता परन्तु वेचारा ऐरस को कहाँ पा सकता था ? फिलिप ऐरस-जैसे चतुर और विद्वान मनुष्य का क्लार्क होने के भी योग्य नहीं था परन्तु वह अपनी मूर्खता में समझता यही था कि मैं जिधर चाहता हूँ ऐरस को चलाता हूँ। ऐरस के लम्बे-लम्बे खतों को फिलिप बड़े गौर से पढ़ता और प्रायः अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने के लिए उन पर अपनी

राय भी लिख देता था । मज्जा तो यह था कि राय वही होती थी जो ऐरस चाहता था और जिसकी तरफ वह अपने खतों में इशारा करता था। ऐरस ऐसी होशियारी से काम करता कि उसका मतलब निकल जाता । फिलिप बेचारा यही समझ कर खुश रहा करता था कि मैं राय देता हूँ और ऐरस मेरी राय पर चलता है । जो मैं कहता हूँ, वही हो रहा है । परन्तु वास्तव में बात उलटी थी, होता वह था जो ऐरस चाहता था । इस प्रकार ऐरस फिलिप और मार्गरेट दोनों को मूर्ख बना कर अपना उद्दू सीधा कर रहा था ।

जान पड़ता है कि राजनीति में ऐरस का एक ही सिद्धान्त था—जैसे बने राजा को प्रसन्न रखना चाहिए । वह निरकुश शासन का पक्का उपासक था वह कहा करता था कि परलोक में ईश्वर और इस लोक में फिलिप केवल दो मालिकों की सेवा करना ही मेरा उद्देश है । वह नेदरलैण्ड की जातीय स्वतन्त्रता का कट्टर शत्रु था । उसने फिलिप को स्पेन लौटने के पहले पचायतो को न्याता देते समय बहुत समझाया कि पचायतो का इकट्ठा करके नये कर के सम्बन्ध में उनमें कुछ भी सलाह लेना उचित नहीं है । उसकी राय थी कि पचायतो का रुपये—पैसे के सम्बन्ध में कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए । वह प्रायः कहा करता कि सुवराज्ञी मेरी ने अपने गान्धर्वाल में पचायतो के कर के सम्बन्ध में परामर्श करने की प्रथा चलाकर बड़ा भगड़ा स्पटा कर लिया है । जो लोग प्रान्तिक अधिकारों की पर्चा करते हैं उन्हें वह 'बग़दासी,' 'भङ्गर और जनता को सुप्त करने के अनिप्राय से बन्ने वाले कहा करता ।

जनता के 'जन्म-सिद्ध अधिकारों' का तो कोई जिक्र ही नेदर-लैंड में उस समय नहीं था। हाँ, जनता के जन्म-सिद्ध दुखों की चीत्कार और दासता की जजीरो की झनकार अवश्य ही चारों ओर सुनाई देती थी। "राजा परमेश्वर की ओर से प्रजा का शासक बन कर आता है," इस सिद्धान्त में ज़रा भी सन्देह करने की उस समय किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी। नेदरलैंड-वासियों के कुछ अधिकार अति प्राचीन काल से चले आते थे, ये अधिकार उनके पूर्वजों ने अपना खून बहाकर प्राप्त किये थे। इन अधिकारों को नेदरलैंड-वासी किसी प्रकार भी छोड़ने को तैयार न थे। वे अपनी पसीने की कमाई बिना अपनी इच्छा और सम्मति के कर में देने को कैसे तैयार हो सकते थे ? वे रोमन कैथलिकों की मूर्खता-भरी बातों पर विश्वास न करने के कारण अग्नि में पड़ने को तैयार न थे। ग्रेनविले का मत इन दोनों बातों में नेदरलैंड के लोगों के विरुद्ध था। उसे पचायतों के कर-सम्बन्धी हस्तक्षेप करने पर बड़ा क्रोध आता था। फिलिप से बहुत कह-सुन कर और जोर डाल कर ऐरस ने सन् १५५० ई० में बनाये हुए चार्ल्स के खूनी कानूनो को फिर से जारी करवा दिया था। सार्वजनिक अधिकारों का तो ऐरस क्या सम्मान कर सकता था, उसे 'जनता' शब्द तक से चिढ़ थी। घृणा और तिरस्कार से अक्षर मुँह बनाकर कहा करता—'जनता ! जनता !' 'जनता ! किस चिड़िया का नाम है ?' ऐरस के पास रुपया काफी हो गया था। सन् १५५७ ई० में उसके पास लगभग ढाई करोड़ का माल-असबाब और एक लाख नक्द था। फिर भी उसकी तृष्णा कम होने के बजाय

दिन पर दिन बढ़ती ही जाती थी। हमेशा बड़ी बेशर्मा से फिलिप से रुपया माँगता ही रहता। एक-दो दफा तो फिलिप ने उसे बहुत फटकार भी दिया। यह है उन लोगो का चित्र जिनके हाथ में नेदरलैण्ड का शासन-भार था। नेदरलैण्ड के अमीर-उमरा, और सरदारों का बुरा हाल था। जिस प्रकार विलियम आरेञ्ज रुपया उड़ाया करता था, उसी प्रकार नेदरलैण्ड के और भी सारे सरदार पानी की तरह रुपया बहाया करते थे। जिस ठाट-बाट से आरेञ्ज रहता था लगभग उसी ठाठ बाट से एग-मोण्ट भी रहता था। शान करने, ठाट बनाने, दावत देने और नाच-रग करने में सरदारों में आपस में खूब स्पर्द्धा रहती थी। जिनके पास रुपया होता वे तो अपने पास का रुपया खर्च करते; जिनके पास रुपया नहीं होता, वे कर्ज लेते और घर-बार फूँक-कर तमाशा देखते थे। फिलिप के नेदरलैण्ड छोड़कर चले जाने पर नाच रग और भी बढ़ गये। उसकी मौजूदगी में एक-दो महफिलें ही लगती थीं। परन्तु उसके चले जाने पर प्रत्येक अमीर के घर पर एक-एक महफिल लगने लगी। इन महफिलो में खूब शराबे उडती। पीते-पीते लोग बेहोश होकर गिरने लगते थे। विलियम को भी अभी तक नई जगती की बे-फिक्री थी। वह प्रायः इन शराबखोरो के गुलामपाडो में भी नम्मित हो जाता था। काउण्ट ब्रेडरोड नाम का एक बड़ा ही फक्कड़ सरदार था। वह रोज शराब पीकर खूब दिहाना और नादियाँ बजा करता। जर्मनी के सरदार भी इन नम्मितों में अक्सर भाग लेने आते। उनके आने पर शराब का दौर और भी जोरों से चलता था। क्योंकि वे धनी और शराबी मशहूर थे। शराब

जनता के 'जन्म-सिद्ध अधिकारों' का तो कोई जिक्र ही नेदर-लैंड में इस समय नहीं था। हाँ, जनता के जन्म-सिद्ध दुःखों की चीत्कार और दासता की जजोरो की झनकार अवश्य ही चारों ओर सुनाई देती थी। "राजा परमेश्वर की ओर से प्रजा का शासक बन कर आता है," इस सिद्धान्त में जरा भी सन्देह करने की उस समय किमी की हिम्मत नहीं हो सकती थी। नेदरलैंड-वासियों के कुछ अधिकार अति प्राचीन काल से चले आते थे, ये अधिकार उनके पूर्वजों ने अपना खून बहाकर प्राप्त किये थे। इन अधिकारों को नेदरलैंड-वासी किसी प्रकार भी छोड़ने को तैयार न थे। वे अपनी पसोने को कमाई बिना अपनी इच्छा और सम्मति के कर में देने को कैसे तैयार हो सकते थे ? वे रोमन कैथलिकों की मूर्खता-भरी बातों पर विश्वास न करने के कारण अग्नि में पड़ने को तैयार न थे। ग्रेनविले का मत इन दोनों बातों में नेदरलैंड के लोगों के विरुद्ध था। उसे पचायतों के कर-सम्बन्धी हस्तक्षेप करने पर बड़ा क्रोध आता था। फिलिप से बहुत कह-सुन कर और जोर डाल कर ऐरस ने सन् १५५० ई० में बनाये हुए चार्ल्स के खूनी कानूनों को फिर से जारी करवा दिया था। सार्वजनिक अधिकारों का तो ऐरस क्या सम्मान कर सकता था, उसे 'जनता' शब्द तरु से चिढ़ था। घृणा और तिरस्कार से अक्सर मुँह बनाकर कहा करता—'जनता ! जनता ! ..जनता ! किस चिड़िया का नाम है ?' ऐरस के पास रुपया काफी हो गया था। सन् १५५७ ई० में उसके पास लगभग ढाई करोड़ का माल-असबाब और एक लाख नकद था। फिर भी उसकी तृष्णा कम होने के बजाय

दिन पर दिन बढ़ती ही जाती थी। हमेशा बड़ी वेशर्मा से फिलिप से रुपया माँगता ही रहता। एक-दो दफा तो फिलिप ने उसे बहुत फटकार भी दिया। यह है उन लोगो का चित्र जिनके हाथ में नेदरलैण्ड का शासन-भार था। नेदरलैण्ड के अमीर-उमरा, और सरदारों का बुरा हाल था। जिस प्रकार विलियम आरेञ्ज रुपया उड़ाया करता था, उसी प्रकार नेदरलैण्ड के और भी सारे सरदार पानी की तरह रुपया बहाया करते थे। जिस ठाट-वाट से आरेञ्ज रहता था, लगभग उसी ठाठ वाट से एग-मोण्ट भी रहता था। शान करने, ठाट बनाने, दावत देने और नाच-रंग करने में सरदारों में आपस में खूब स्पर्द्धा रहती थी। जिनके पास रुपया होता वे तो अपने पास का रुपया खर्च करते; जिनके पास रुपया नहीं होता, वे कर्ज लेते और घर-बार फूँक-कर तमाशा देखते थे। फिलिप के नेदरलैण्ड छोड़कर चले जाने पर नाच-रंग और भी बढ़ गये। उसकी मौजूदगी में एक-दो महफिलों ही लगती थीं। परन्तु उनके चले जाने पर प्रत्येक अमीर के घर पर एक-एक महफिल लगने लगी। इन महफिलों में खूब शराबें उड़तीं। पीते-पीते लोग वेहोश होकर गिरने लगते थे। विलियम को भी अभी तक नई जवानों की बे-फिक्री थी। वह प्रायः इन शराबखोरों के गुलगपाडों में भी सम्मिलित हो जाता था। काउण्ट ब्रेडरोड नाम का एक बड़ा ही फक्कड सरदार था। वह रोज शराब पीकर खूब चिह्याता और गालियाँ धका करता। जर्मनी के सरदार भी इन महफिलों में अक्सर भाग लेने आते। उनके आने पर शराब का दौर और भी जोरों से चलता था। क्योंकि वे धनी और शराबी मशहूर थे। शराब

तक ही बात खत्म नहीं हुई, आगे भी बढ़ने लगी। अब जुआ भी शुरू हुआ। कम रुपया रखने-वाले सरदार अपनी जायदादें गिरवी रखकर जुआ खेलने लगे। जो जायदादें खो बैठते, वे और भी वेधडक होकर दुन्दुभचाले। पाठरियो को गालियाँ सुनाते और कहते कि 'कम्बख्त मुपन मे पड़े-पड़े मजे करते हैं। न फौज मे लड़ने जाते हैं और न और ही कुछ काम करते हैं। इन्हे जागीरो की क्या आवश्यकता है? इनका काम तो केवल माला फिराना और बैठे बैठे भजन करना है। इनसे जागीर छीनकर पौजी सरदारों को दे देनी चाहिए।' उनसे मालगुजारी न माँगी जाय, इस विचार से ये सरदार अक्सर ऋगड़े-टगटे भी खड़ा कर देते थे। यूरोप के उन सब देशो मे, जहाँ धार्मिक क्रान्तियाँ हुईं, बहुत से सरदार क्रान्तिकारियों मे केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के विचार से ही मिल गये। त्रिगडे हुए सरदारो के दाँत गिर्जा की जागीरो पर लग रहे थे। फिर भी नेदरलैण्ड की क्रान्ति को केवल इन स्वार्थी सरदारो की पैदा की हुई क्रान्ति नहीं कह सकते। इन सरदारों ने क्रान्ति मे अच्छा भाग लिया, इनके कारण नेदरलैण्ड मे क्रान्ति की आग भी भडकी परन्तु क्रान्ति के कारण और ही थे। नेदरलैण्ड के लोगो की बहुत बुरी दशा हो रही थी; चारों ओर जनता मे असन्तोष फैल रहा था, जनता के असन्तोष-सागर में सरदारो का असन्तोष तो केवल एक वूँद के समान था। सोलहवीं शताब्दी भी एक नया सन्देश लेकर आई थी। नई दुनिया अमेरिका का पता लगना, पुरानी दुनिया का नये विजेताओं के हाथ में आना, छापेखाने का आविष्कार, ये सब उथल-पुथल मचा देने वाली घटनायें केवल इसीलिए नहीं घटी थीं कि

दुनिया में मनुष्यो पर अत्याचार अधिक अच्छी तरह से किया जा सके ।

नेदरलैण्ड के लोग सदा से व्यापार ही करते आये थे । इसलिए उनके विचार और भाव खूब स्वतन्त्र थे । यूरोप के बीचोबीच होने के कारण चारों ओर के देशो के तिजारती माल के साथ-साथ उन देशो के समाचार और विचार भी नेदर-लैण्ड में आया करते थे । चार्ल्स के जारी किये हुए खूनी कानूनो को लोगो ने सहन तो कर लिया परन्तु माना नहीं था । शहीदो के खून की वर्षा ने नेदरलैण्ड की भूमि को नागरिक और धार्मिक स्वतन्त्रता की खेती के लिए भली-भाँति तैयार कर दिया था । रोज़ सैफ़दो मनुष्य सूली पर चढ़ाये जाते थे । परन्तु एक भी भय से अथवा प्राण के लोभ से अपना मत नहीं बदलता था । उन अज्ञात वीरो के नाम आज कोई भी नहीं जानता । न तो उन बेचारो के नाम किसी ने उनके जीवन मे ही जाने होंगे, न अपने विश्वास और स्वतन्त्र विचारो के लिए सूली पर मर मिटने के बाद ही आज उनके नाम कोई लेता है । उन्होने अपने सिद्धान्तो के लिए जो-जो कष्ट भेले, जो-कुछ सहा, वह किसी निर्मूल हवाई अथवा असत्य बात के लिए नहीं सहा था । उनके लिए सभी सत्य था । उनका अपना विश्वास सत्य था; चार्ल्स और उसके खूनी कानून सत्य थे, उनका गला काट लेने वाली तलवार सत्य थी, सूली पर चढ़ जाना सत्य था, पुरुषो का एक-दूसरे का हाथ पकड़े दहकती हुई भट्टियों में घुस जाना सत्य था; वीरता से रमणियो का गाते हुए कब्र में जिन्दा गड जाना भी सत्य था ।

नेदरलैण्ड में नवीन विचार बहुत दिनों से फैलने लगे थे ।

फ्रांस और जर्मनी से आ-आकर लोग नवीन विचारों का प्रचार किया करते थे। अमीर और गरीब दोनों में विभिन्न कारणों से असन्तोष की अग्नि सुलग उठी। इसी असन्तोष की दशा में सरकार ने चार्ल्स के 'खूनी कानून' भी जारी कर दिये। इन कानूनों के अनुसार किसी को लूथर अथवा उसके किले साथी की लिखी हुई कोई पुस्तक छापने, रखने अथवा पढ़ने का अधिकार नहीं था, न मेरी तथा अन्य सन्तों की मूर्तियाँ तोड़ने या गिर्जे के वजाय अपने घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना करने का अधिकार था। लूथर के विचार रखने वाले मनुष्यों के व्याख्यान सुनने का अधिकार भी नहीं था। धर्म-शास्त्रों का अध्ययन कर चुकने के किसी गुरु द्वारा मिले प्रमाण-पत्र के बिना धर्म-सम्बन्धी बातों पर मत प्रकट करने अथवा उनके सम्बन्ध में चर्चा करने का अधिकार नहीं था। अपराधियों को दण्ड देने की कानून में इस प्रकार योजना की गई थी कि यदि अपराधी पश्चाताप दिखाये तो पुरुष होने की दशा में उसका सिर तलवार से उड़ाया जाय; स्त्रियों को जीवित गाड़ दिया जाय। यदि धार्मिक अपराध करने वाले पश्चाताप न करें तो मनुष्य और स्त्रियाँ दोनों को चिन्दा आग में भोंक दिया जाय। अपराधियों का माल और जायदाद हर-हालत में जप्त कर ली जाय। कानून में यह भी लिखा था कि यदि कोई आदमी धार्मिक अपराधियों को छिपाने या किसी प्रकार की सहायता करने का प्रयत्न करेगा अथवा यह जानता हुआ कि अपराधी कहाँ छिपा है न बतलायेगा तो उसको भी प्राण-दण्ड दिया जायगा। यदि किसी पुरुष अथवा स्त्री पर कोई पादरी सन्देह करे कि उसके विचार नये मत के हैं तो उस स्त्री अथवा पुरुष को

तुरन्त ही शपथ खाकर इन्कार करना चाहिए अन्यथा उसे अपराधी समझ लिया जायगा और प्राण-दण्ड मिलेगा। अपराधियों को पकड़वाने के लिए लोगों को यह लालच भी दिया गया था कि जो कोई किसी अपराधी को पकड़वायेगा उसे, अपराधी की जागीर अथवा धन का आधा भाग—यदि वह सौ पौण्ड से अधिक न होगा—सरकार की ओर से पुरस्कार-स्वरूप दिया जायगा। जो कोई मनुष्य नये पन्थ वालों की गुप्त सभाओं में सम्मिलित होकर सभाओं की खबर सरकार को देगा वह सभाओं में सम्मिलित होने के कारण अपराधी नहीं समझा जायगा, न उसे किसी प्रकार का दण्ड ही मिलेगा। जजों और अन्य अधिकारियों को भी कड़े शब्दों में साफ-साफ बता दिया गया था कि यह न समझ लिया जाय कि कानून केवल प्रजा को डराने के लिए ही जारी किये गये हैं; न कानूनों को बहुत सख्त समझ कर सजायें ही कम अथवा नरम दी जायँ। जिस अपराध के लिए कानून में जो सजा है वही दी जाय। कानून में लिखी हुई सजा को जरा भी कम करने का अधिकार किसी न्यायाधीश को नहीं है। जो न्यायाधीश दया दिखायेगा, अथवा जो अधिकारी ऐसे अपराधियों का छोड़ देने की हमसे प्रार्थना करेगा, तुरन्त बरखास्त कर दिया जायगा और भविष्य में भी फिर कभी किसी पद पर नियुक्त न हो सकेगा। राजा अलग मिलेगी। ये सब हिटायतें फिलिप ने बड़े जोरदार शब्दों में अपने हाथ से लिखकर स्वयं सब सरदारों और अधिकारियों के पास भेजी थीं। गद्दी पर बैठने के बाद ही फिलिप ने नेदरलैण्ड को कानूनों का यह उपहार भेंट किया था। अधर्म पर चढ़ाई होने वाली थी, इसलिए धर्म की

डच प्रजातंत्र का विकास

सेना बढ़ाने की भी फिलिप को आवश्यकता मालूम हुई । पोप को लिखकर उसने नेदरलैण्ड में तीन नये मठन्तों की गदियाँ स्थापित करने की आज्ञा ले ली । कार्य को भली-भाँति सफल बनाने के लिए यह भी निश्चय हुआ कि स्पेन की जो सेनाये नेदरलैण्ड में मौजूद हैं, वे अभी वहीं रहे । सेना थी तो केवल चार हजार सिपाहियों की ही, परन्तु स्पेन के सैनिक बड़े उदरगड और छटे हुए साहसी जवान थे । उनके नेदरलैण्ड में रहने से लोगों पर धाक जमी हुई थी ।



आन्दोलन

नेदरलैण्ड के सरदारों और नगरों को प्राचीन काल से बहुत ने अधिकार और स्वतंत्रता मिली हुई थी। इस देश की गद्दी पर बैठने वाले राजा-गण प्रजा के इन अधिकारों को गद्दी पर बैठने के समय फिर से स्वीकार किया करते थे। इसी प्रथा के अनुसार फिलिप ने भी राज्याभिषेक के समय लोगों के इन अधिकारों को अक्षय माना था। इन अधिकारों के अनुसार सरदारों की पंचायतों और नागरिकों की सम्मति के बिना पुराने स्थापित मठों से अधिक न तो नेदरलैण्ड में नये मठ ही स्थापित किये जा सकते थे और न गृहों की संख्या ही बढ़ाई जा सकती थी, न तो राजा किसी मनुष्य को बिना साधारण अदालत में वाक्यादेश मुकदमा चलाये दण्ड दे सकता था और न विदेशियों को ही किसी पद पर नियुक्त कर सकता था। यदि राजा नागरिकों के इन अधिकारों को न मान कर स्वेच्छाचार करे तो लोगों को अधिकार था कि वे राज-भक्ति की सौगंध की चिन्ता न करके जिस प्रकार चाहे, राजा से व्यवहार करें। स्वतंत्रता और स्वाभिमान की इस हवा में पले हुए नेदरलैण्ड के लोगों पर जब यह अन्याय-पूर्ण 'खूनी कानून' लगाये गये, जिनकी सम्मति बिना एक भी नया मठ स्थापित नहीं किया जा सकता था, उनको जब एन्डम तीन महामठों और पन्द्रह छोटे मठों के स्थापित हो जाने

की एकाएक सूचना मिली; जब न्याय जैसी महान और पवित्र वस्तु क्षुद्र-हृदय महन्तों के हाथ में—जिनमें बहुत से तो विदेशी थे— दे दी गई, तो नेदरलैण्ड में एक छोर से दूसरे छोर तक खलबली मच उठी। गरीब और अमीर सभी के हृदयों पर एकमी चोट पहुँची। लोगों ने इन सारी बातों की जड़ विशप ऑक् ऐरस को ही समझा। इसी समय से ऐरस लोगों का घृणा-पात्र बना और दिन पर दिन आगे लोगों के हृदय से गिरता ही गया। सच बात तो यह थी कि फिलिप ने ऐरस से नये मठों की नेदरलैण्ड में स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई सलाह नहीं ली थी। चुपचाप पोप से सलाह करके मठ स्थापित कर दिये थे। फिलिप जानता था कि ऐरस बड़ा लोभी है। नये मठों के स्थापित होने से उसकी आमदनी कम हो जाने का डर है, इसलिए वह कदापि यह योजना पसन्द न करेगा। परन्तु लोगों को इन भीतरी बातों का क्या पता था? वे ऐरस को ही सारे अन्यायों की जड़ समझते थे। सारा दोष उसी के सिर थोपा गया। ऐरस के सम्बन्ध में लोगों का ऐसा विचार होना कोई अस्वाभाविक अथवा आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि वही नये शासन का अधिपति बनाया गया था और बड़े जोश के साथ उम्र नई व्यवस्था का समर्थन किया करता था। नेदरलैण्ड के लोगों ने एक स्वर से नई व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाई। इस आन्दोलन का अगुआ शाहजादा आरेञ्ज हुआ। आरेञ्ज स्वयं तो रोमन कैथलिक पन्थ में विश्वास रखता था, परन्तु वह अन्याय होते किसी पर भो न देख सकता था। उसे मालूम था कि फिलिप नेदरलैण्ड में धर्म के नाम पर भयकर अत्याचार करने का निश्चय कर चुका है। मठों की योजना-

अत्याचार की पहली सीढ़ी है । वह अच्छी तरह समझता था कि मठ और महन्त फिलिप के आने वाले अत्याचारों की वह मशीनें हैं जिनके द्वारा आगे चलकर देशवासियों को पीसा जायगा । उसने डचेज़ और ग्रेनविले दोनों ही के सामने नये मठों की इस नई व्यवस्था का घोर विरोध किया । फिलिप को भी उसने इस सम्बन्ध में पत्र लिखा । सरदार एगमोएट और वरघन ने भी आरेज़ का साथ दिया । सरदार वेरलामोएट ने भी पहले तो आरेज़ का पक्ष लिया । परन्तु बाद में डचेज़ परमा ने जब उसे सुझाया कि नये मठ स्थापित होने से तुम्हारे लड़कों को अच्छी नौकरियाँ मिल सकेंगी तब वह फिलिप के पक्ष में हो गया और कहने लगा—“ नई व्यवस्था से देश का कल्याण होगा । ” ग्रेनविले (ऐरस) ने फिलिप को पत्र लिखा कि ‘यहाँ सब लोग कहते हैं कि यह नई व्यवस्था मेरी ही करतूत है । मैं देश भर की घृणा का पात्र हो रहा हूँ । आप कृपा करके एक घोषणा निकाल दें कि इस नई व्यवस्था में मेरा कुछ भी हाथ नहीं है ।’ फिलिप ने उसकी इच्छानुसार घोषणा निकाल दी और स्वयं भी बहुत से लोगों से कहा कि ग्रेनविले का इस व्यवस्था में विलकुल हाथ नहीं था । ग्रेनविले ने प्रयत्न करके ‘खूनी कानून’ की भाषा भी नरम करवा दी । परन्तु लोगों ने कठोर कानूनों को नरम भाषा में भी स्वीकार करना पसन्द नहीं किया ।

स्पेन की फौज के सैनिकों को, लोग पहले से ही घृणा करते थे । उद्दण्ड स्वेच्छाचारी सिपाहियों की करतूतों से लोग तंग आ चुके थे । लोगों ने अनेक बार फिलिप से शिकायत की कि स्पेन के सैनिक लोगों से बहुत बुरा और अशिष्ट व्यवहार करते हैं ।

इनको देश से हटा दीजिए। पाठकों को याद होगा कि पहली बार राज्याभिषेक के समय जब फिलिप से सैनिकों को हटाने की प्रार्थना की गई थी तो वह क्रोध से उबल पड़ा था। परन्तु पीछे से स्पेन जाते समय पचायतो से वादा कर गया था कि तीन चार मास में ही फौजे अवश्य नेदरलैण्ड से हटा ली जायगी। वादा किये चौदह मास बीत चुके थे। परन्तु फौजें अभी नेदरलैण्ड में ही मौजूद थी। कोई न कोई बहाना फौजे न हटाने का बना दिया जाता था। नये कानून के जारी होने पर लोगों को विश्वास हो गया कि स्पेन की फौजें हम लोगों पर अत्याचार करने के लिए ही ठहराई जा रही हैं। उन्होंने आन्दोलन उठाया कि स्पेन की फौजों को तुरन्त देश से निकाल देना चाहिए। प्रत्येक वर्ष समुद्र के बाँधों की मरम्मत करने के लिए जेलैण्ड के लोग जाया करते थे। इस साल उन्होंने वहाँ जाने से इन्कार कर दिया। वे कहने लगे—“बाँधों की मरम्मत करके क्या करेंगे? स्पेन के सिपाहियों के रोज-रोज अत्याचार सहने से तो यही अच्छा है कि हम सब अपनी स्त्रियों-बच्चों-सहित बहकर समुद्र के गर्भ में चले जायँ। अपने माल-असबाब की रक्षा किसके लिए करें? क्या इन बदमाश सैनिकों के लिए, जो हमारे पसीने की कमाई मुफ्त में लूटकर ले जाते हैं?” सब लोगो ने मिलकर कसम खाली कि बाँधों की मरम्मत न होने से समुद्र भले ही हम पर चढ़ आये परन्तु हममें से कोई भी मनुष्य इस साल बाँधों की मरम्मत के लिए हाथ नहीं उठायेगा।

जेलैण्ड के लोग इतने भडक उठे कि ग्रेनविले को विश्वास हो गया कि स्पेन की फौजों को बिना देश से निकाले अब लोग हर-

गिज्र दम न लेंगे। उनको सम्माने-बुझाने की चेष्टा करना अथवा और कोई नया वहाना ढूँढकर फौजों को रोक रखने का प्रयत्न करना अग्नि में घी डालना है। पच्चीस अक्टूबर सन १५६० ई० को स्टेट कौंसिल की एक बैठक की गई। उसमें ग्रेनविले ने डचेज़ को बहुत जोरदार शब्दों में स्पेन की फौजों को नेदरलैण्ड से हटा लेने की आवश्यकता दिखलाई। डाक्टर विगिलियस ने भी उसका बड़े जोश से समर्थन किया। आरेज़ ने भी साफ-साफ कहा— “मैं तो अब एक दिन के लिए भी इन फौजों का सेनाधिपति नहीं रह सकता। मैंने और एगमोएट ने केवल इसी वादे पर इन सेनाओं का सेनापतित्व अपने हाथ में लिया था कि फौजें शीघ्र से शीघ्र यहाँ से हटा ली जायँगी।” अन्त में सर्व-सम्मति से स्टेट कौंसिल में निश्चय हुआ कि स्पेन की सेनायें शीघ्र से शीघ्र नेदर-लैण्ड से रवाना कर दी जायँ। डचेज़ की तरफ से फिलिप को ग्रेनविले ने पत्र लिखा— ‘फौजों को नेदरलैण्ड में रोक रखना असम्भव है। हम आपकी इच्छानुसार फौजें रोक रखने का कोई न कोई वहाना ढूँढने का बहुत प्रयत्न करते हैं। पर, अब वहाँ से काम नहीं चल सकता। यदि फौजें नेदरलैण्ड में रहेगी तो एक कौड़ी भी कर वसूल न हो सकेगा परन्तु यदि इन सेनाओं को नेदरलैण्ड से विलकुल हटा लेने को सरकार तैयार हो तो जनता उनका घेतन तक अपने पास से चुका देने के लिए तैयार है।”

सौभाग्य में दक्षिण प्रान्तों में फौजों की आवश्यकता पड़ी। सरकार को अपनी इज्जत बचाने का वहाना मिल गया। दक्षिण में सेनाओं की आवश्यकता हाने के वहाने से सेनायें नेदरलैण्ड से हटा ली गईं। नेदरलैण्ड को कुछ दिन के लिए साँस लेने का अव-

इन्को देश से हटा दीजिए। पाठकों को याद होगा कि पहली बार राज्याभिषेक के समय जब फिलिप से सैनिकों को हटाने की प्रार्थना की गई थी तो वह क्रोध से उबल पडा था। परन्तु पीछे से स्पेन जाते समय पचायतो से वादा कर गया था कि तीन चार मास में ही फौजे अवश्य नेदरलैण्ड से हटा ली जायँगी। वादा किये चौदह मास बीत चुके थे। परन्तु फौजें अभी नेदरलैण्ड में ही मौजूद थी। कोई न कोई बहाना फौजे न हटाने का बना दिया जाता था। नये कानून के जारी होने पर लोगों को विश्वास हो गया कि स्पेन की फौजें हम लोगों पर अत्याचार करने के लिए ही ठहराई जा रही हैं। उन्होंने आन्दोलन उठाया कि स्पेन की फौजों को तुरन्त देश से निकाल देना चाहिए। प्रत्येक वर्ष समुद्र के बाँधों की मरम्मत करने के लिए जेलैण्ड के लोग जाया करते थे। इस साल उन्होंने वहाँ जाने से इन्कार कर दिया। वे कहने लगे—“बाँधों की मरम्मत करके क्या करेंगे? स्पेन के सिपाहियों के रोज-रोज अत्याचार सहने से तो यही अच्छा है कि हम सब अपनी स्त्रियों-बच्चों-सहित बहकर समुद्र के गर्भ में चले जायँ। अपने माल-असबाब की रक्षा किसके लिए करें? क्या इन बदमाश सैनिकों के लिए, जो हमारे पर्साने की कमाई मुफ्त में लूटकर ले जाते हैं?” सब लोगो ने मिलकर कसम खाली कि बाँधों की मरम्मत न होने से समुद्र भले ही हम पर चढ़ आये परन्तु हममें से कोई भी मनुष्य इस साल बाँधों की मरम्मत के लिए हाथ नहीं उठायेगा।

जेलैण्ड के लोग इतने भडक उठे कि ग्रेनविले को विश्वास हो गया कि स्पेन की फौजों को बिना देश से निकाले अब लोग हर-

गिज दम न लेंगे। उनको समझाने-बुझाने की चेष्टा करना अथवा और कोई नया बहाना ढूँढकर फौजों को रोक रखने का प्रयत्न करना अग्नि में घी डालना है। पञ्चास अक्टूबर मन १५६० ई० को स्टेट कॉमिज़ को एक बैठक की गई। उसमें ब्रेनविले ने डचेज़ को बहुत जोरदार शब्दों में स्पेन की फौजों को नेदरलैण्ड से हटा लेने की आवश्यकता दिखलाई। टास्टर विलियम ने भी उनका बड़े जोश से समर्थन किया। आरंभ में भी माफ-माफ रहा—“मैं तो अब एक दिन के लिए भी इन फौजों का सेनाधिपति नहीं रह सकता। मैंने और एगमोंग्ट ने केवल डर्पा ब्रांड पर इन सेनाओं का सेनापतित्व अपने हाथ में लिया था कि गौज़े शीघ्र से शीघ्र यहाँ से हटा ली जायँगी।” अन्त में सर्व-सम्मति ने स्टेट कौंसिल में निश्चय हुआ कि स्पेन की सेनायें शीघ्र ने शीघ्र नेदरलैण्ड से खाना कर दी जायँ। डचेज़ की तरफ से फिलिप को ब्रेनविले ने पत्र लिखा—“फौजों को नेदरलैण्ड में रोक रखना असम्भव है। हम आपकी इच्छानुसार फौजें रोक रखने का कोई न कोई बहाना ढूँढने का बहुत प्रयत्न करते हैं। पर, अब वहाँ से काम नहीं चल सकता। यदि फौजें नेदरलैण्ड में रहेंगी तो एक कौड़ी भी कर वसूल न हो सकेगा परन्तु यदि इन सेनाओं को नेदरलैण्ड से विलकुल हटा लेने को सरकार तैयार हो तो जनता उनका वेतन तक अपने पास से चुका देने के लिए तैयार है।”

सौभाग्य में दक्षिण प्रान्तों में फौजों की आवश्यकता पड़ी। सरकार को अपनी इज्जत बचाने का बहाना मिल गया। दक्षिण में सेनाओं की आवश्यकता हाने के बहाने से सेनायें नेदरलैण्ड से हटा ली गईं। नेदरलैण्ड को कुछ दिन के लिए सौंस लेने का अव-

काश मिला । परन्तु सेनायें चली गईं तो क्या हुआ ? अत्याचार के मुख्य यत्र मठ और महन्त तो मौजूद थे । फिलिप स्पेन से डचेज और ग्रेनविले के पास छोटे-छोटे आदमियों तक के नाम-पते और उनके बारे में अन्य बहुत सी खबरे बराबर भेजा करता था । अमुक आदमी को फाँसी पर चढ़ाना, अमुक को आग में जलाना, अमुक मनुष्य ने अपने घर पर प्रार्थना की, अमुक के लूथर की किताब पढ़ने की खबर मिली है, इत्यादि जरा-जरा सी बातों की खबर फिलिप के गुप्तचरों की सेना उसके पास पहुँचा देती थी और फिलिप यह सारी खबरें ग्रेनविले के पास नेदरलैण्ड भेज देता था । फिलिप का मंत्री भी अपने मालिक के आदेशों पर अक्षरशः चलने का प्रयत्न किया करता । फिलिप ग्रेनविले को प्रायः लिखता कि “अब हम—तुम जैसे थोड़े ही लोग ससार में ऐसे रह गये हैं जिन्हें धर्म का कुछ ख्याल है । इसलिए हम लोगों को उचित है कि ईसाई-धर्म की रक्षा हृदय से करते रहे ।” ग्रेनविले उत्तर में लिखता—“मैं तो रात-दिन अधर्मियों को नष्ट करने का ही प्रयत्न करता हूँ । परन्तु क्या कर, न्यायाधीश इत्यादि लोगों को हिचकते हुए दण्ड देते हैं । यदि सब अधिकारी मिलकर दिल से काम करें तो परमात्मा का अटल-राज्य थोड़े ही दिनों में फिर दुनिया में स्थापित हो जाय ।”

ग्रेनविले की करतूतों के कारण दिन-दिन लोगों की घृणा उसके प्रति बढ़ती जा रही थी । आरेञ्ज, एगमोण्ट और ग्लेयन इत्यादि सरदार भी उसे अब अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखने लगे थे । शासन का सारा काम ‘कन्सल्टा’ के द्वारा चलाया जाता था । स्टेट कौंसिल के—जिसके आरेञ्ज इत्यादि सरदार सदस्य

थे—किसी काम का कुछ पता नहीं चलता था—कन्सल्टा में भी एक प्रेनविले हो के हाथ में सब कुछ अधिकार था। वह जो चाहता वही होता था। परन्तु स्टेट कौंसिल के सदस्य होने के कारण प्रत्येक शासन-कार्य का उत्तरदायित्व सरदारों पर भी रहता था। सरदारों को यह परिस्थिति अन्वहनीय हो उठी। प्रेनविले फिलिप को तो गिड-गिडाकर चालाकी और मक्कारी से जैसा चाहता चलाया करता परन्तु आरेञ्ज और एगमोएट इत्यादि सरदारों पर उसने खुदमखुद ही हुकम चलाना चाहा। यह बात भला सरदारों को कैसे सहन हो सकती थी। एगमोएट बड़ाही अभिमानी और अक्वड राजपूत था, उसमें अपना क्रोध न छिपाया गया और वह एक दिन स्टेट कौंसिल में ही डचेज के सामने तलवार खींचकर प्रेनविले पर दौड़ा। अगर आरेञ्ज ने उसका हाथ न पकड़ लिया होता तो प्रेनविले की जीवन-लीला उस दिन समाप्त हो चुकी थी। आरेञ्ज बहुत चतुर मनुष्य था। वह एगमोएट का तरह अपने हृदय के भाव क्रोध में प्रकट नहीं कर बैठता था। प्रेनविले और आरेञ्ज का आपस में खूब मित्रता का व्योहार था। प्रेनविले जबसे नेदरलैण्ड आया तभी से वह आरेञ्ज को सदा प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया करता था। यहाँ तक कि आरेञ्ज जब कभी कहीं बाहर से धूम-धामकर ब्रमेल्स आता तो वह अपने घर जाने से पहले प्रेनविले के घर जाता था। प्रेनविले भी बिना कोई सूचना भेजे ही आरेञ्ज के सोने के कमरे तक में घुस जाता था। वह अच्छी तरह जानता था कि आरेञ्ज बड़े महत्व का आदमी है। और इसी-लिए उसने उससे गाढ़ी मित्रता कर रखी थी। वह यह भी

काश मिला । परन्तु सेनायें चली गईं तो क्या हुआ ? अत्याचार के मुख्य यत्र मठ और महन्त तो मौजूद थे । फिलिप स्पेन से डचेज और ग्रेनविले के पास छोटे-छोटे आदमियों तक के नाम-पते और उनके बारे में अन्य बहुत सी खबरे बराबर भेजा करता था । अमुक आदमी को फाँसी पर चढ़ाना, अमुक को आग में जलाना, अमुक मनुष्य ने अपने घर पर प्रार्थना की, अमुक के लूथर की किताब पढ़ने की खबर मिली है, इत्यादि ज़रा-ज़रा सी बातों की खबर फिलिप के गुप्तचरों की सेना उसके पाम पहुँचा देती थी और फिलिप यह सारी खबरें ग्रेनविले के पास नेदरलैण्ड भेज देता था । फिलिप का मंत्री भी अपने मालिक के आदेशों पर अक्षरशः चलने का प्रयत्न किया करता । फिलिप ग्रेनविले को प्रायः लिखता कि “अब हम—तुम जैसे थोड़े ही लोग ससार में ऐसे रह गये हैं जिन्हें धर्म का कुछ ख्याल है । इसलिए हम लोगों को उचित है कि ईसाई-धर्म की रक्षा हृदय से करते रहे ।” ग्रेनविले उत्तर में लिखता—“मैं तो रात-दिन अधर्मियों को नष्ट करने का ही प्रयत्न करता हूँ । परन्तु क्या कर, न्यायाधीश इत्यादि लोगों को हिचकते हुए दण्ड देते हैं । यदि सब अधिकारी मिलकर दिल से काम करें तो परमात्मा का अटल-राज्य थोड़े ही दिनों में फिर दुनिया में स्थापित हो जाय ।”

ग्रेनविले की करतूतों के कारण दिन-दिन लोगों की घृणा उसके प्रति बढ़ती जा रही थी । आरेञ्ज, एगमोण्ट और ग्लेयन इत्यादि सरदार भी उसे अब अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखने लगे थे । शासन का सारा काम ‘कन्सल्टा’ के द्वारा चलाया जाता था । स्टेट कौंसिल के—जिसके आरेञ्ज इत्यादि सरदार सदस्य

थे—किसी काम का कुछ पता नहीं चलता था—कन्सल्टा में भी एक प्रेनविले ही के हाथ में सब कुछ अधिकार था। वह जो चाहता वही होता था। परन्तु स्टेट कौंसिल के सदस्य होने के कारण प्रत्येक शासन-कार्य का उत्तरदायित्व सरदारों पर भी रहता था। सरदारों को यह परिस्थिति अगहनाय हो उठी। प्रेनविले फिलिप को तो गिड-गिडाकर चालाकी और मक्कारी से जैसा चाहता चलाया करता परन्तु आरेञ्ज और एगमोएट इत्यादि सरदारों पर उसने खुद्दमखुद्दा ही हुकम चलाना चाहा। यह बात भला सरदारों को कैसे सहन हो सकती थी। एगमोएट बडाही अभिमानी और अक्वड राजपूत था, उसमें अपना क्रोध न छिपाया गया और वह एक दिन स्टेट कौंसिल में ही डचेञ्ज के सामने तलवार खींचकर प्रेनविले पर दौड़ा। अगर आरेञ्ज ने उसका हाथ न पकड़ लिया होता तो प्रेनविले की जीवन-लीला उस दिन समाप्त हो चुकी थी। आरेञ्ज बहुत चतुर मनुष्य था। वह एगमोएट की तरह अपने हृदय के भाव क्रोध में प्रकट नहीं कर बैठता था। प्रेनविले और आरेञ्ज का आपस में खूब मित्रता का व्योहार था। प्रेनविले जबसे नेदरलैण्ड आया तभी से वह आरेञ्ज को सदा प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया करता था। यहाँ तक कि आरेञ्ज जब कभी कहीं बाहर से घूम-घामकर ब्रमेल्स आता तो वह अपने घर जाने से पहले प्रेनविले के घर जाता था। प्रेनविले भी बिना कोई सूचना भेजे ही आरेञ्ज के सोने के कमरे तक में घुस जाता था। वह अच्छी तरह जानता था कि आरेञ्ज बड़े महत्व का आदमी है। और इसी-लिए उसने उससे गाढ़ी मित्रता कर रखी थी। वह यह भी

सोचता कि चार्ल्स से लेकर फिलिप तक सभी आरेञ्ज को मानते हैं। किसी न किसी दिन अवश्य ही आरेञ्ज कोई न कोई असाधारण पद प्राप्त कर लेगा। उस समय उसमें बहुत से काम निकल सकेंगे। वैसे भी बहुत से काम वह आरेञ्ज से योही करा लिया करता था। आरेञ्ज को बहुत से पदाधिकारियों को नियुक्त करने का भी अधिकार था। ग्रेनविले आरेञ्ज से कहकर अपने बहुत से आदमियों को इन पदों पर नियुक्त करा लिया करता था। आपस के इस घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण भीतर से दिल टूट जाने पर भी आरेञ्ज और ग्रेनविले का ऊपरी सम्बन्ध कुछ दिनों तक नहीं टूटा। ग्रेनविले चाहता था कि आरेञ्ज स्वयं ही क्रुद्ध होकर किसी प्रकार मुझसे लड़ बैठे। मगर आरेञ्ज ने इतने दिन चार्ल्स के साथ व्यर्थ ही नहीं गँवाये थे। वह राजनीति में पूर्ण निपुण था। वह किसी प्रकार अपनी तरफ से ग्रेनविले को शिकायत का मौका नहीं देना चाहता था। लेकिन यह वागज की नाव आखिर कब तक चलती? अन्त में भावों का स्रोत फूट ही पडा।

ऐगटवर्ष में मजिस्ट्रेटों की जगह खाली हुई थी। वहाँ मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का आरेञ्ज को बड़ा पुराना खान्दाना अधिकार था। परन्तु अबकी दफा चुपचाप 'कन्सल्टा' ने ही मजिस्ट्रेट नियुक्त करके मजिस्ट्रेटों के नामों की केवल सूची आरेञ्ज के पास भेज दी और लिख भेजा कि तुम और काउण्ट आरेम्बर्ग इस बात के लिए कमिश्नर नियुक्त किये जाते हो कि इन आदमियों को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दो। आरेञ्ज इस अपमान से जल उठा। उसकी इसी सम्बन्ध में ग्रेनविले से कुछ तू-तू मैं-मैं भी हो चुकी थी। जब डचेज़ का यह हुक्म उसके पास पहुँचा तो उसने यह कह-

कर वापिस कर दिया कि मैं डचेज़ का टहलुआ नहीं हूँ। वह किसी और को इम भले काम के लिए ढूँढ ले। स्टेट कौंसिल की बैठक में भी आरेञ्ज ने यही शब्द कहे। दोनों ओर से खूब कहा-सुनी हुई। आरेञ्ज ने कहा कि गेण्ट्रूप के मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का मेरा खान्दानी अधिकार है। उममें मुझ में कुछ पूछा तक नहीं गया? मुझ केवल इसलिए कमिश्नर बनाया जाता है कि मैं नियुक्त मनुष्यों को अधिकार दिला दूँ। ऐसे ऐसे आवश्यक मामलों को चुपचाप उस 'कन्सल्टा' में ही तय कर लेना, जिम में ग्रेनविले ही सब कुछ है, प्रत्यन्त अनुचित और अनधिकार-चेष्टा है। ग्रेनविले दात पीसकर कहने लगा—“अगर तुम कमिश्नर बनने को तैयार नहीं हो तो मैं और किसी मामूली आदमी को नियुक्त कर दूँगा। अभी तक हुआ मो हुआ, परन्तु अब शपथ खाता हूँ कि भविष्य में तुम-से घमण्डी सरदारों से किसी भी मामले में कभी सलाह नहीं लूँगा। प्रत्येक काम के लिए सदा छोटे-छोटे आदमियों को ही नियुक्त किया करूँगा।” क्रोध में इस प्रकार बकता हुआ ग्रेनविले कमरे से उठकर चला गया। आज से आरेञ्ज और ग्रेनविले का ऊपरी नाता भी टूट गया। पादरी ग्रेनविले और सरदारों का खुल्लमखुल्ला झगड़ा प्रारम्भ हो गया। आरेञ्ज और एगमोण्ट ने फ़्लिप को एक खत में लिखा—“हम लोग ड्यूक ऑफ़ सेवाय के समय का अनुभव कर चुके थे। हमें विश्वास था कि हम से केवल छोटी-छोटी बातों में ही सलाह ली जायगी। सब बड़े-बड़े मामले हमारी बिना सलाह के ही तय कर लिये जाया करेंगे। इसीलिए हम लोग स्टेट कौंसिल के सदस्य बनाने के लिए तैयार नहीं थे। परन्तु आपने जेलेण्ड में हम लोगों पर

स्टेट कौंसिल के सदस्य बनने के लिए बहुत दबाव डाला और विश्वास दिलाते हुए कहा था कि सारे काम स्टेट कौंसिल की राय से ही हुआ करेंगे। अगर कभी कोई मामला स्टेट कौंसिल के सामने न रक्खा जाय तो मुझे लिखना। मैं तुरन्त उसका उपाय करूँगा। आपके इस विश्वास पर ही हमने स्टेट कौंसिल के सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था। अब हम आप को सूचना देते हैं कि छोटी-छोटी बातों को छोड़कर अन्य किसी आवश्यक मामले में हम से सम्मति नहीं ली जाती है। और देश को दिखाया यह जाता है कि सब कुछ हम से पूछकर ही होता है। ऐसी हालत में या तो हमारा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए या ऐसी आज्ञा शीघ्र भेजिए कि सारे मामले स्टेट कौंसिल के सामने अवश्य रक्खे जाया करें।” फिलिप ने अपने स्वभाव के अनुसार उत्तर भेजा कि इस सम्बन्ध में मैं अपना मत काउण्ट हॉर्न के साथ, जो स्पेन से शीघ्र ही जाने वाले हैं, भेज दूँगा।

हॉर्न और ग्रेनविले का भी आपस में सम्बन्ध अच्छा नहीं था। ग्रेनविले का एक भाई हार्न की बहिन से विवाह करना चाहता था। हॉर्न बड़ा अभिमानी था। उसने ग्रेनविले के जैसे तुच्छ घगने के आदमी को अपनी बहन देना अपमानजनक समझा और विवाह करने से इन्कार कर दिया। हॉर्न बड़े उच्च घराने का था, फिलिप के जहाज्जी वेड़े का सेनाधिपति था। उसे क्या आवश्यकता पड़ी थी कि ग्रेनविले से प्रेम का नाता जोड़ता फिरता। ग्रेनविले की दशा का यथार्थ ज्ञान होने के कारण हॉर्न को उस से घृणा थी। ग्रेनविले ने भी हॉर्न से जलकर, उसके विरुद्ध बहुत सी चिट्ठियां गुप्त रूप से फिलिप को लिखी थीं। एक चिट्ठी में

उसने लिया था कि 'श्रीमान जो मठ इत्यादि नेदरलैण्ड में स्थापित करना चाहते हैं हॉर्न उमका कट्टर विरोधी है। उसने स्पेन में अपने मित्रों को पत्र लिखकर अपना विरोध बताया है। आप कृपया उसे यह न बतनाइएगा कि उसके सम्बन्ध में यह सूचना आपको मैंने दी है। आप स्वयं उसे इस विषय पर वातचीत करके उसके विचार जान सकते हैं।' यह समाचार पाकर हॉर्न से फिलिप इतना चिढ़ गया कि जब हॉर्न नेदरलैण्ड के लिए चलते समय फिलिप से मिलने गया और वात चलने पर सरदारों का पक्ष लेकर पादरी ग्रेनविले का विरोध करने लगा तो फिलिप चिढ़ाकर बोला—“क्या कहा। कम्बख्त तुम सब के सब इस पादरी के पीछे हाथ धोकर पड़ गये हो। सब क सब उसकी बुराई ही करते हो। परन्तु जब मैं उमका कोई कसूर पूछता हूँ तो कुछ भी नहीं बताते।” फिलिप के मुँह में ऐसे अपमानसूचक शब्द सुनकर हॉर्न घृणा और क्रोध से तमतमा गया। आवेश के कारण उसका सिर इतना भ्रम गया था कि कमरे से बाहर आने का रास्ता तक भूल गया। अन्य सब सरदारों के विरुद्ध भी ग्रेनविले इसी प्रकार बराबर खत लिख लिखकर फिलिप के कान भरता रहता था। एक बार उसने फिलिप को लिखा कि 'मुझे खबर मिली है कि एग्मोएट के घर पर एक दावत हुई, वहाँ मठों और महन्तों के विरुद्ध खूब ही जहर उगला गया। कुछ सरदारों ने तो कहा कि फिलिप को हम सब की इस मामले में सलाह लेनी चाहिए थी, कम से कम स्टेट कौंसिल के सब सदस्यों की तो अवश्य ही सम्मति लेनी थी। फिलहाल तो कुछ अच्छे लोग भी पादरी बनाकर भेजे गये हैं। मगर

पीछे से ज़रूर क्रूर मनुष्यों को चुन-चुनकर इन जगहों पर नियुक्त किया जायगा। पंचायतो को हरगिज फिलिप की योजना सफल नहीं होने देनी चाहिए। साराश यह कि, जैसी बातें यहाँ लोगों में स्पेन की फ्रौजेँ निकालने के समय आपस में होती थी अब फिर सब वैसी ही बातें करते हैं।' फिर कुछ दिन बाद उसने फिलिप को एक दूसरे पत्र में लिखा—“मेरी समझ से सरदारों के नेदरलैण्ड में बखेड़े खड़े करने के दो ही उद्देश्य हैं। एक तो वे आप को यह बतला देना चाहते हैं कि बिना उनकी मरजी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरे यह कि पंचायतों में आजकल वही सब कुछ है। आजकल छोटे छोटे पादरी यहाँ रहते हैं, उन्हें डरा-धमकाकर वे जो चाहते हैं करा लेते हैं। बड़े-बड़े महन्तों के नेदरलैण्ड में आ जाने से उनका हुक्म इस प्रकार न चल सकेगा। सरदार लोग श्रीमान् के पास एक पत्र भी भेजनेवाले हैं जिसमें वे यह दिखाने की चेष्टा करेंगे कि पूर्व अधिकारों के अनुसार नेदरलैण्ड में नये मठ स्थापित नहीं किये जा सकते। आप उसके उत्तर में केवल यह लिख दें कि मैंने कानून के परिणतों की इस विषय में सलाह ले ली है। मठों का स्थापित करना नेदरलैण्ड के पूर्व अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। तुम सब लोग मेरी योजना के अनुसार ही कार्य करो।' अस्तु, सरदारों का पत्र आने पर फिलिप ने उन्हें विलकुल पादरी ग्रेनविले की सलाह के अनुसार ही उत्तर लिख दिया। सरदारों के विरोध से फिलिप का क्रोध दिन-दिन बढ़ता ही गया। वह विरोधियों के नाम तक से घृणा करने लगा। उसने ग्रेनविले को लिखा कि हमारे पास किसी की प्रसन्नता और अप्रसन्नता पर विचार करने का समय नहीं है। खूब सख्ती से

सजायें दो । ये बदमाश डर में ही ठोक रास्ते पर आवेंगे ।’

सरकारी क्रोध का इन समय ऐसा बुरा हाल हो रहा था कि अत्याचारों के कारण भडक उठनेवाली अशान्ति को दबाने के लिए तथा सेना इत्यादि का नया प्रबन्ध करने के लिए क्रोध में पर्याप्त रूपया ही नहीं था । फिलिप का साम्राज्य तो सारे अमेरिका और लगभग आधे यूरोप पर था । उसके पाम पेरू और मैक्सिको की सोने-चाँदी और जवाहरात का बहुमूल्य खानों भी थीं । परन्तु कुप्रबन्ध को यह दशा थी कि आगामी दो वर्ष के व्यय के लिए एक करोड़ दस लाख रुपये की आवश्यकता थी; और साम्राज्य की दो वर्ष की कुल आय केवल तेरह लाख तोस हजार होती थी । इस आय में भी सबसे अधिक अर्थात् पाँच लाख की आय उन लोगों से थी जो धार्मिक उपवास न रखने के लिए जुरमाना देते थे । पचास हजार वार्षिक की आय दक्षिण अमेरिका से गुलामों को पकड़ ले जाकर बेचने वाले सौदागरों के ठेकों से होती थी । जिस राज्य में राज्य का शासन और प्रबन्ध केवल राजा के मौज पर ही निर्भर हो वहाँ इस दशा के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता था कि जवाहरात और सोने-चाँदी की खानों से तो कुछ भी लाभ न हो और राज्य का खर्च गुलामी के व्यापार और धार्मिक स्वतन्त्रता पर लगाये हुए करों से चले । इधर राज्य की तो यह कुव्यवस्था हो रही थी और उधर फिलिप एक ऐसा युद्ध छेड़ देने की फिक्र में था जो उसके जीवन-काल में ही क्या उसके पौत्र-प्रपौत्रों के जीवनकाल तक में समाप्त होनेवाला नहीं था । इस युद्ध में केवल सेना का ही खर्च दस लाख मासिक था । युद्ध के व्यय में से प्रायः ७० फी सदी

बीच के आदमी ही हड़प जाते थे । एक सिपाही लडने के लिए भेजा जाता था तो चार का नाम दिग्वाया जाना था । नेदरलैण्ड की आर्थिक दशा के सम्बन्ध में ग्रेनविले भी फिलिप को कुछ सन्तोष नहीं देता था । वह लिखता था—“सरकार को नेदर-लैण्ड में दस ड्यूकेट भी मिलना असम्भव है । समझ में नहीं आता क्या करें ? पचायतों रुपया तो बड़ा हाथ कस-कस कर देती हैं और हिसाब लेते वख्त जान निकाल लेती हैं । मैं उन्हें बहुत दफा समझा चुका हूँ कि यह तुम्हारी गलती है । मगर वे कस्यखत मानते ही नहीं । जिस प्रकार सेनाओं को यहाँ से निकालने में सब एक-से दृढ थे, उसी तरह इस आय-व्यय के हिसाब-किताब के सम्बन्ध में भी वे अटल हैं ।” फिलिप ने एक बार यह भी सोचा कि रांगे का रुपया बनाकर सिपाहियों को चुपचाप दे दिया जाय । मगर पंचायतों के विरोध और कुछ धार्मिक अडचनों के कारण अन्त में ऐसा नहीं किया गया ।

इस वर्ष—५६० ई० से ६१—की मुख्य घटनाओं में विलियम आरेञ्ज का दूसरा विवाह भी एक विशेष स्थान रखता है । २५ वर्ष की उम्र में ही सन् १५५८ ई० में विलियम की पहली स्त्री का देहान्त हो गया था । फिलिप-वश से निरुद्ध सम्बन्ध रखने वाली डचेज़ लॉरेन की पुत्री से एक साल बाद उसके विवाह की बातचीत चली । डचेज़ परमा, ग्रेनविले और फिलिप इत्यादि सब की ही राय थी कि यह सम्बन्ध अच्छा रहेगा । लडकी के भाई का विवाह फ्रान्स की राजकुमारी से हुआ था । विलियम ने सोचा कि इस लडकी के सम्बन्ध से मुझे भी अच्छा फायदा होगा । स्पेन और फ्रान्स दोनों के राज्य-घराने से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो

जायगा। लडकी की माँ डचेज लॉरेन एक महत्वाकांक्षिणी स्त्री थी। नेडरलैंड की गद्दी पर बैठने की भी उसकी लालसा थी। उसने भी सोचा कि यदि विनियम ने मेरी लडकी का विवाह हो गया तो मुझे एक बड़ा ज़रदस्त सहायक मिल जायगा। ऐसा मालूम पड़ता था कि परिस्थितियाँ और मनुष्य सभी इस सम्बन्ध के पक्ष में थे। ऊपर से तो ग्रेनविले और फिलिप दोनों विलियम से यही कहते रहे कि हम तुम्हारे इस विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु अन्दर-अन्दर उन्होंने मन्त्रणा की कि विलियम वैसे ही बड़ा मालदार और बलशाली है, इस विवाह से उसका बल और बढ़ जायगा। वन, विलियम ने डचेज लॉरेन से चुपचाप कह दिया कि यह सम्बन्ध हरगिज़ मत करना। उधर एक दिन बाग में टहलते-टहलते विलियम ने फिलिप ने कहा कि मैंने तो बड़ा प्रयत्न किया, परन्तु डचेज लॉरेन अपनी पुत्री का तुमसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। विलियम को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्योंकि डचेज लॉरेन से उसका बड़ा अच्छा सम्बन्ध था। अरेज़न लॉरेन को नेडरलैंड की नवाबी दिलाने का प्रयत्न कर रहा था। फिलिप ने विलियम को इशारा किया कि शायद लडकी ही तुम्हें पसन्द न करती है। परन्तु विलियम-जैमे बुद्धिमान मनुष्य को धोखा देना कुछ सरल काम नहीं था। वह जानता था कि कहीं ऐसे राजकीय विवाहों में लडकी की राय ली जाती है? और यदि राय ली भी जाती तो विलियम को पसन्द न करने का कोई कारण नहीं हो सकता था। अपने समय के मिद्ध वीर और राजनोतिज्ञ राजकुमार को वह लडकी क्यों नहीं पसन्द करती? विलियम फौरन ही ताड़ गया कि यह सब

फिलिप और ग्रेनविले की करतून है। डचेज़ लॉरेन को भी इस घटना से बहुत दुःख हुआ और जब डचेज़ परमा को नेदरलैण्ड की न्वाबी दे दी गई, तब तो उसकी सारी आशायें मिट्टी में मिल गईं।

फिर उसी वर्ष विलियम का विवाह जर्मन-राज्य-दरवार के प्रख्यात सरदार मौरिस की पुत्री से ठहरा। जितना सम्मान विलियम के घगने का नेदरलैण्ड में था उससे कहीं अधिक मौरिस के घराने का जर्मनी में था। मौरिस मर चुका था। उसकी लडकी एना अपने चचा के पास रहती थी। चचा ने लडकी की माँ से विवाह कर लिया था और इस प्रकार अपने भाई की सारी जागीर का मालिक हो गया था। वह चाहता था कि लडकी का विवाह जर्मनी से बाहर कहीं दूर हो तो अच्छा होगा, क्योंकि उसे भय था कि कहीं उसका पति जागीर में से कुछ हिस्सा लेने के लिए बखेडा न खडा करे। लडकी के दादा को यह सम्बन्ध पसन्द नहीं था क्योंकि लडकी प्रोटेस्टेण्ट थी और विलियम था रोमन कैथलिक। परन्तु यह वह समय था जब कि रोमन कैथलिकों और प्रोटेस्टेण्टों के बीच में सम-मौता होने का प्रयत्न हां रहा था। पोप भूले भटके लोगों को मिला लेने के लिए तैयार था और उसने वह प्रसिद्ध निमंत्रण-पत्र जर्मनी के सरदारों के पास भेज रखा था जिसमें उसने उन्हें 'मेरे प्रियपुत्र' सम्बोधित किया था और जिसका मज़ाक बढ़ाकर अन्त में सरदारों ने यह जवाब लिख भेजा—“हमें विश्वास है कि हमारी मातायें सद्धर्मिणी थीं और हमारे बाप तुम से अच्छे थे।” इसलिए इस समय विलियम और एना का

सम्बन्ध हो जाने में किसी को कुछ बाधा नहीं दीखती थी। परन्तु फिलिप के दिल में यह सम्बन्ध भी खटकता था। लडकी के पिता मौरिस ने फिलिप के बाप, चार्ल्स को जंगलों में खड़े-खड़े मारा था। मौरिस ने ही जर्मनी के पक्ष में पसाऊ की सन्धि चार्ल्स से नाक रगडवाकर करवा ली थी। मौरिस ने ही जर्मनी से कैथलिक चर्च की जड उखाड डाली थी। मौरिस ने ही फिलिप को रोमनों का राजा नहीं बनने दिया था। फिर भला फिलिप को यह कैसे सहन हो सकता था कि विलियम मौरिस की पुत्री से विवाह करे। विलियम ने देखा कि मेरी परिस्थित ऐसी है कि किसी न किसी को हर हालत में अप्रसन्न करना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि मैं किसी की प्रसन्नता का विचार न करूँ। और जो मुझे लाभदायक प्रतीत हो वही करूँ। आखिरकार उसने यह विवाह तय कर लिया और बड़ी धूम-धाम से खूब दावतो, खेल-तमाशों और नाचरंग के साथ एना से विलियम आरेञ्ज का विवाह हो गया।

(६)

‘इनक्विज़िशन’

धार्मिक विचारों के सम्बन्ध में जॉच-पडताल होने से लेकर अपराधी को दण्ड देने तक जो क्रिया होती थी उसका नाम ‘इनक्विज़िशन’ था । ‘इनक्विज़िशन’ के तीन प्रकार थे । परन्तु तीनों प्रकारों में कुछ अधिक भेद नहीं था । साधारणतया उसका यह अर्थ था कि किसी के विचार पादरियों को यदि पसन्द न आवें तो उसे तुरन्त आग में झोंक दिया जाय । पहले पहल यह संस्था पोप अलेक्जेंडर षष्ठम और फ़रडीनेण्ड ने स्पेन में मूर और यहूदी लोगों को दण्ड देने के लिए स्थापित की थी । पीछे से ईसाई मत के ‘अधर्मियों के’ लिए भी इसका उपयोग होने लगा । ‘इनक्विज़िशन’ के पहले अधिकारी ने अपने अठ्ठारह वर्ष के शासनकाल में १०२२० मनुष्यों को अग्नि में जलाया था और ९७३०१ मनुष्यों को देश-निकाला, आजन्म-कारावास, और जायदाद-जबती इत्यादि की सजायें दी थीं । इस एक राक्षस ने ही लगभग ११४४०१ कुटुम्ब नष्ट कर डाले थे । फिर भी ‘इनक्विज़िशन’ बढ़ता ही जाता था । इससे बड़ा कोई न्यायालय न था । जो पादरियों की यह मण्डली निश्चय कर देती थी, बस वही होता था । ‘इनक्विज़िशन’ के विरुद्ध कहीं कोई अपील नहीं हो सकती थी । उसका कार्य विचारों के लिए दण्ड देना था, कामों के लिए नहीं । पादरियों के दूत लोगों के दिनों और दिमागों में

धुस-धुमकर उनके विचारों का पता लगाने का प्रयत्न किया करते। जिनके विचार अनुचित पाये जाते, उसे फौरन प्राण-दण्ड दे दिया जाता था। ‘इनक्विजिशन’ का छोटा-मा एक साधारण नियम यह था कि किमी को भी सन्देह में पकड़ा जा सकता था। कष्ट दे-देकर उसमें किसी प्रकार अपराध फव्वल करवा लिया जाता था और फिर आग में डालकर उसे जलाया जाता था। दो गवाह मिलते ही किमी भी मनुष्य को काल-कोठरी में ठूस दिया जाता था। वहाँ उसे थोड़ा-थोड़ा खाना खिलाकर भूखा रक्खा जाता; किसी से बोलने का मौका न दिया जाता और जब वह मनुष्य अधमरा हो जाता तो उसमें पूछा जाता था कि ‘कहो अपराधी हो या नहीं?’ अगर वह मान लेता तो रंग, वर्ना दो और गवाह मिलते ही उसे फाँसी पर चढ़ा दिया जाता था। एक-गवाह मिलने पर अपराधी को शिकंजे में कस दिया जाता। अपराधी को केवल गवाही सुना दी जाती थी, गवाह सामने नहीं लाया जाता था। रात्रि के समय अन्धेरे में धोमी-धीमी मशीनों की रोशनी में बदन में काला कम्बल लपेटे, मुँह छिपाये जल्लाद आता था और शिकंजे में कसे हुए अपराधी की धीरे धीरे हड्डियाँ तोड़ता था। उन अभागों मनुष्यों के कष्टों का वर्णन करने में कलम रुकती है।

ईश्वर ! मनुष्य के दिमाग ने किस हृदय से मनुष्यों को कष्ट पहुँचाने के लिए ऐसे यत्न सोच निकाले ? कैसे मनुष्य के हृदय ने मनुष्यों पर ऐसे भीषण अत्याचार करने की इजाजत दी ? काल कोठरी के कष्टों की कोई मीयाद या मुदत निश्चित नहीं होती थी। जबतक अपराधी अपना अपराध स्वीकार न कर लेता,

था तबतक बराबर उसे कष्ट दिया जाता था। कुछ वीरों ने तो पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष तक काल कोठरी की इन अमानुषिक यातनाओं को सहा और अन्त में अपने विश्वासों के साथ अग्नि में भस्म हो गये। जबतक अपराधी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता था, मारा नहीं जाता था। क्योंकि रोमन कैथलिक पन्थ के अनुसार मरने से पहले अपने जीवन-भर के अपराध स्वीकार कर लेना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक था। अपराध स्वीकार करते ही अपराधी को प्राण दण्ड सुना दिया जाता। परन्तु एक-दो अपराधियों को ही नहीं जलाया जाता था। जब बहुत-से अपराधी एकत्र हो जाते थे तब जलसा लगता, राजा, राव, सरदार, पादरी, साधारण मनुष्य सब इकट्ठे होते थे। अपराधी को एक कुरता—जिस पर शैतान के चित्र बने होते थे—पहिनाकर कोठरी से निकाला जाता था। उसके सिर पर एक कागज को शूण्डाकार टोपी रक्खी जाती थी जिसपर अग्नि में जलते हुए मनुष्य का एक चित्र होता था। फिर उसकी जवान बाहर खींच कर सलाख भोंक दी जाती थी, जिससे न तो उसका मुँह बन्द हो सके और न जवान ही अन्दर जा सके। फिर उसके सामने तश्तरियों में अच्छे-अच्छे खाने रखकर उसे चिढ़ाया जाता था—“कीजिए जनाव। नाश्ता कीजिए !” फिर उसका सब के सामने से होकर बड़ी शान से जुन्दूस निकाला जाता था। आगे-आगे स्कूलों के छोटे-छोटे बच्चे होते, उनके पीछे अपराधियों का मुण्ड होता। उनके बाद मजिस्ट्रेट और सरदार लोग आते थे और सब के पीछे पादरी। ‘इनक्विजिशन’ के अधिकारी सब से पीछे घोड़ों पर सवार हाथ में खूनी लाल फण्डियाँ फहराते हुए

आते और उनके दोनों ओर फरडीनेगड एवं अलेक्जेंडर के— जिन्होंने पहले-पहल ‘इनक्विजिशन’ चनाया था—चित्र होते थे। जुलूस के पीछे साधारण मनुष्यों को भीड़ आती। सब सूनी के चारों ओर खड़े हो जाते। फिर एक व्याख्यान दिया जाता, जिसमें ‘इनक्विजिशन’ की प्रशंसा होती और अपराधियों पर फटकार पड़ती थी। जो अपना अपराध मान लेते थे मानो उन-पर बड़ी कृपा करके प्राण निकालकर उन्हें अग्नि में डाल दिया जाता। जो नहीं मानते थे उन्हें जिन्दा ही अग्नि में भोंक दिया जाता था। पादरियों का विचार था कि जलने के दुःख से गैतान अपराधियों का शरीर छोड़कर भाग जाता है और अपराधियों के शरीर पवित्र हो जाते हैं। इसलिए पापियों को अग्नि में डालकर पवित्र करने का पादरियों ने सरल उपाय ढूँढ निकाला था। ‘इनक्विजिशन’ की अदानत सर्वोच्च अदालत थी। राजा और रङ्क कोई भी उससे मुक्त नहीं था। जिस प्रकार गराव अपनी मॉपड़ी में इसके डर से काँपता था उसी प्रकार राजा-राज अपने महलों में काँपते थे। यह स्पेन का ‘इनक्विजिशन’ था। नेदरलैंड में आज तक ऐसा ‘इनक्विजिशन’ कभी प्रचलित नहीं हुआ था।

नेदरलैंड में पहले-पहल चार्ल्स ने ही यह सस्था स्थापित की। उसी ने पहली बार ‘इनक्विजिशन’ के अधिकारी नियत किये थे, जिन्हे उसने अपराधियों को पकड़ने, सजा करने और जलाने तथा फाँसी पर चढ़ाने तक के सब अधिकार दे दिये। छोटे-बड़े सब राज्य-पदाधिकारियों को भी चार्ल्स ने लिख भेजा कि इसके अधिकारियों को हर प्रकार से सहायता की जाय।

और यदि कोई अधिकारी उनकी सहायता देने में ढिलाई करेगा तो वह भी अपराधी समझा जायगा और उसको भी फाँसी की सजा दी जायगी। नेदरलैण्ड का यह 'इनक्विज़िशन' भी क्रूरता में स्पेन से कुछ कम नहीं था। फ्रान्स के युद्ध के समय उसकी सख्ती कम कर दी गई थी। फिलिप ने गद्दा पर बैठते ही फिर सख्ती शुरू कर दी। 'इनक्विज़िशन' के अधिकारियों में टिटेलमैन नाम का एक अधिकारी अपने जुल्म के लिए बड़ा मशहूर था। इसका अधिकार फ्लेण्डर्स, ड्यूचे और ट्वेन्ते नाम के नेदरलैण्ड के सबसे हरे-भरे और आबाद प्रान्तों पर था। उस समय के वर्णनों में उसके सम्वन्ध में लिखा है कि वह रात-दिन भयानक राक्षस की तरह अकेला घोड़े पर घूमा करता और बेचारे भय-भीत किसानों के सिर गदा से फोड़ता फिरता था। लोगों को केवल सन्देह मात्र पर ही घरों में सोते हुए विस्तरों से घसीट-घसीट कर ले आता और जेल में ठूँस देता था। जेल में इन लोगो को पहले तो खूब कष्ट दिये जाते, बाद में बिना किसी मुकदमे, वारण्ट अथवा दिखावटी ढकोसले के सूली पर चढ़ाकर अथवा अग्नि में मोककर मार डाला जाता थे। शासन-विभाग का एक अधिकारी, जिसका सदा लाल-डण्डा बाँधने के कारण लाल-डण्डा नाम ही पड़ गया था, टिटेलमैन को एक दिन रास्ते में मिला। आश्चर्य-चकित होकर पूछने लगा—“आप कैसे अकेले या एक ही दो नौकरो को लेकर लोगों को पकड़ते फिरते हैं? मैं तो बिना हथियारबन्द सिपाहियों की एक अच्छी सख्या लिये अपने काम पर जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। फिर भी जान का डर लगा ही रहता है।”

टिटेलमैन ने हँसकर कहा — ‘अर भाई लाल-डण्डा ! मेरा काम बड़ा सरल है । मुझे हथियारबन्द सिपाहियों की आवश्यकता नहीं होती । तुम्हें बंदमाशों से काम पडना है । मैं तो ऐसे भोले-भाले बेगुनाह आदमियों को पकड़ना फिरता हूँ जो बेचारे मेमनो की तरह चुपचाप मेरे साथ चलें आते हैं ।’ लाल-डण्डा ने कहा—“भाई ! यदि यही हाल रहा कि तुम बेगुनाहों को मारते फिरे और मैं बंदमाशों को तो फिर दुनिया में रह कौन जायगा ।” पता नहीं उत्तर में टिटेलमैन ने क्या कहा परन्तु वह राजस यह जानते हुए भी कि ‘मैं बेगुनाहों को पकड़ता फिरता हूँ’ अपना काम बड़ी मोज से निर्द्वन्द्व होकर करता ही रहा । जितने आदमियों के अकेले उसने प्राण लिये, उतने मनुष्य नेदरलैण्ड के रोमाञ्चकारी इतिहास में ‘इन्क्विजिशन’ के किसी अधिकारी ने नहीं मारे । एक दफा उसने एक स्कूल के मास्टर को पकड़ बुलाया और उस पर ‘अधर्म’ का दोषारोपण करके कहा कि, ‘तुम अपना दोष स्वीकार करके अभी क्षमा माँगो’ । मास्टर ने कहा—“मेरा कुछ भी अपराध नहीं है । मैं क्षमा किस-लिए माँगूँ ?” टिटेलमैन बोला—“मालूम होता है तुम्हें अपनी स्त्री और बाल-बच्चों में प्रेम नहीं है ।” मास्टर बोला—“स्त्री और बाल-बच्चे से प्रेम ! अरे उन्हें तो मैं इतना प्यार करता हूँ कि यदि सारी दुनिया सुवर्णमयी होती और मेरे कब्जे में होती तो भी मैं वह सुवर्ण की दुनिया अपने स्त्री-बच्चों के पास रहकर सूखी रोटी और केवल पानी पर जीवन व्यतीत करने के लिए बड़ी प्रसन्नता से त्याग सकता था ।” टिटेलमैन बोला—“तो फिर क्यों हिचकते हो ? उनके पास आनन्द से रहो । केवल यह

कह दो कि मेरे विचार गलत थे । मैं क्षमा मांगता हूँ ।” वह बहादुर मास्टर बोला—“स्त्री, पुत्र, तन, धन, समार किसी के लिए धर्म और भगवान् को मैं नहीं छोड़ सकता ।” इस उत्तर के बाद वह सूली पर चढा दिया गया और उसकी लाश अग्नि में फेंक दी गई । इसी प्रकार टिटेलमैन ने टामस कैलवर्ग नामक जुलाहे को केवल इस अपराध के लिए पकडकर जिन्या जला दिया कि उसने जेनेवा मे छपी हुई एक पुस्तक से ईश्वर की कुछ प्रार्थनाये नकल कर ली थी । एक दूसरे आदमी को एक भोथर तलवार से उसकी स्त्री के सामने ही इस बुरी तरह मारा गया कि उसको स्त्री से वह भयानक दृश्य सहन न हो सका और वह बेचारी वहीं गिरकर मर गई । एक और वाल्टर कैपेल नाम का अमीर आदमी, जो गरीबों को बहुत सहायता क्रिया करता था, अपने नवीन विचारो के कारण जला दिया गया । जिस समय उसको जलाने के लिए खम्भे से बाँधा जा रहा था एक गरीब आदमी—जिसकी उसने कभी सहायता की थी—चिल्लाता हुआ भीड़ से निकला और बोला—“खून के प्यासे जल्लादो ! बेचारे वाल्टर कैपेल ने इसके अतिरिक्त और क्या अपराध किया है कि मुझ जैसे गरीबो का पेट भरता रहा है ?” यह कहकर वह भी वाल्टर के साथ भस्म हो जाने के विचार से अग्नि मे कूदा परन्तु लोगों ने उसे पकडकर र्खींच लिया । दूसरे दिन वह फिर आया और वाल्टर की जली हुई ठठरी खम्भे से उतार अपने कन्धे पर रखकर सारे नगर मे धूमता कचहरी पहुँचा और मजिस्ट्रेटों के सामने उसे रखकर बोला—“जल्लादो ! तुम ने इसका मौंस तो खाही लिया है । यह लो, बची-खुची इड्डियाँ

भी खालो।” मालूम नहीं टिटेलमैन ने इस भिखारी को भी यमराज के यहां भेजा या नहीं। नेदरलैण्ड के शहीदों की लम्बी सूची में ऐसे छोटे-छोटे आदमियों का इतिहास लिखा जाना असम्भव था।

आये दिन का अत्याचार और मरुती भी लोगों के हृदय में ‘खूनी क्लाननों’ और ‘इनक्विजिशन’ के प्रति कोई प्रेम पैदा न कर सकी। अत्याचार में लोगों के दिल दहलते थे। परन्तु विरोध की आग भी बढ़ती जाती थी। वरट्रेण्ड नाम के एक आदमी ने तो टिटेलमैन और अन्य सब लोगों की आँखों के सामने ही अपनी जान पर खेलकर एक बड़ा कौतुक कर डाला। उस रोज ‘बड़ा दिन’ था। टूर्ने के गिर्जाघर में खूब भीड़ थी। वरट्रेण्ड ने अपनी स्त्री और बच्चों में आज प्रातः काल ही कह दिया था कि तुम लोग प्रार्थना करना कि मैं जो कार्य करने वाला हूँ उसमें मुझे सफलता मिले। गिर्जे में वरट्रेण्ड भी भीड़ से मिलकर एक ओर खड़ा था। जैसे ही पादरी ने पवित्र पानी से भरा हुआ पूजा का प्याला हाथ में उठाया वह भीड़ चीरकर निकला और दौड़कर पादरी के हाथ से प्याला छीन लिया एवं उसे पृथ्वी पर पटककर बोला—“मूर्ख मनुष्यो ! यह क्या स्वाग रचते हो ? क्या यही ईसा-मसीह ने सिखाया था ? ऐसे ही मोक्ष मिलेगा ?” यह कहकर उसने प्याले के टुकड़ों को अपने पैरों से कुचल डाला। उसे भाग जाने का मौका था। परन्तु वह दृढ़ भाव से वहीं खड़ा रहा। सब लोग उसके इस निर्भीक कार्य पर दंग रह गये। वाद में जब उसका अभियोग हुआ और उससे क्षमा मांगने को कहा गया तो उसने कहा,—“माफी ? धर्म और ईसा के नाम को कलंक लगाने से बचाने के लिए मैं एक क्या-ऐसे-ऐसे सौ जीवन

भी देने को तैयार हूँ ।” अधिकारियों को सन्देह था कि इतना निर्भीक कार्य्य केवल एक आदमी ही अकेला अपने बल पर नहीं कर सकता । अतएव उसके अन्य साथियों के नाम पूछने के लिए उसे बड़े-बड़े कष्ट दिये गये । परन्तु उसका इस कार्य्य में और कोई साथी न था इसलिए वह किसी का नाम नहीं बता सका । तत्र उसके मुँह में एक सलाख घुसेड़ दी गई और उसे टट्टर पर डालकर घसीटते हुए बाजार लेजाया गया । वहाँ उसके दाहिने हाथ और पैर को जलाकर दो दहकती हुई सलाखों में डालकर रम्सी की तरह ऎँठ दिया गया । बाद में उसकी ज्वान जड़ से उखाड़ ली गई । फिर भी वह भगवान का नाम लेने का प्रयत्न करता ही रहा, इसलिए उसके मुँह में एक और सलाख ठूसी गई । अन्त में उसके हाथ और पाँव मिलाकर पीठ के पीछे बाँध दिये गये और एक जंजीर से उलटा लटका धीमी-धीमी आँच पर मुला-भुजाकर भून डाला गया । बड़े आश्चर्य की बात है कि उसने इन सारे कष्टों को अन्त तक जीवित रहकर सहा और एक बार मुँह से उफू तक नहीं की ।

दूसरे वर्ष टिटेलमैन ने फ्लैण्डर्स के रॉवर्ट ओगियर नाम के एक गृहस्थ को, उसकी स्त्री और दो पुत्रों के साथ, इसलिए पकड़ लिया कि उन्होंने गिर्जे की प्रार्थना में सम्मिलित होने के बजाय घर पर ही प्रार्थना कर ली थी । उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा—“हम लोग मूर्तिपूजा को बुरा समझते हैं इसलिए गिर्जे में नहीं जाते ।” उनसे पूछा गया कि घर पर तुम लोग किस ढंग से प्रार्थना करते हो ? ओगियर के छोटे से भोले लड़के ने कहा—“हम लोग घुटने टेककर भगवान से प्रार्थना

करते हैं कि भगवन् हमें बुद्धि दो और हमारे पाप क्षमा करो । हम अपने राजा के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसका साम्राज्य बड़े और उसका जीवन शान्ति-मय हो । हम लोग अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनको रक्षा करें ।” उस नन्हें बच्चे के मुँह से ये भोले भाले शब्द सुनकर न्यायाधीश की आँखों में आँसू आ गये, फिर भी बाप और बड़े बेटे को जीवित जला देने का हुक्म सुनाना ही पडा । जब खम्भे पर लडका जलने लगा तो वह प्रार्थना करने लगा—“हे परमपिता जगदीश्वर ! प्यारे ईश्वर के नाम पर हमारे जीवन की बलि स्वीकार करो” । जो पादरी आग सुलगा रहा था उसने क्रोध से मुँहलाकर कहा, “बदमाश ! तू भूटा है । तेरा पिता शैतान है । परमात्मा नहीं ।” जब अग्नि की ज्वालार्ये चढने लगी तो लडके ने फिर चिल्लाकर कहा—“देखां । देखो, पिता जी ! हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं । सहस्रा देवता हमारे आगमन के लिए खुशियां मना रहे हैं । हम लोगों को भी हँसते हँसते ही प्राण दे देना चाहिए क्योंकि हम लोग मृत्यु के लिए जान दे रहे हैं ।” वही पादरी फिर चिल्लाकर बोला—“अरे मूठे ! अरे मूठे ! तुम्हें नरक का द्वार खुलता हुआ दिखाई दे रहा होगा । सहस्रा देव नहीं होंगे, यमराज के भयंकर दूत दिखाई दे रहे होंगे ।” आठ दिन के बाद आगियर की स्त्री और दूसरा लडका भी जला डाला गया ।

एक दिन टिटेल्मैन एक घर में घुसकर एक गृहस्थ को, उसकी स्त्री, चार पुत्रों और दो उसी समय के विवाहे हुए दम्पतियों सहित पकड़ लाया और उन पर घर में बैठकर बाइ-

बिल पढ़ने का अपराध लगा तुरन्त भट्टी में भोका दिया । इसी प्रकार किसी को चरणामृत न पीने, किसी को घर में प्रार्थना करने, अथवा धाड़बिल पढ़ने, किसी को मूर्ति-पूजा न करने इत्यादि के अपराधों के लिए पकड़-पकड़कर रोज अग्नि में भोका जाता था । स्पेन के 'इनक्विजिशन' और नेदरलैण्ड के 'इनक्विजिशन' में केवल इतना अन्तर था कि स्पेन में सुधारक गुप्त रहते थे इसलिए उनका पता लगाना कठिन होता था । नेदरलैण्ड के लोग छिपकर कुछ भी नहीं करते थे । पकड़े जाने पर मूठ नहीं बोलते थे, इसलिए यहाँ लोगों को पकड़ना और जलाना अधिक आसान था । अन्यथा फिलिप के दो शब्दों में नेदरलैण्ड का 'इनक्विजिशन' स्पेन से कहीं अधिक भयंकर और क्रूर था । अत्याचारों से लोगों के दिल पक गये थे । जनता और सरदार सभी एक स्वर से 'इनक्विजिशन' के घोर विरोधी थे । क्योंकि नेदरलैण्ड में यह चार्ल्स के समय से प्रारम्भ तो हो गया था परन्तु जनता ने इसे किसी कानूनी वा स्थायी सस्था के तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया था । लक्ज़मबर्ग और प्रोनिजन प्रान्तों में तो कभी इसका पदार्पण ही नहीं हुआ । जेल्डरलैण्ड प्रान्त ने चार्ल्स के अधिकार में आते समय ही शर्त कर ली थी कि जेल्डरलैण्ड में कभी 'इनक्विजिशन' जारी नहीं किया जायगा । ब्रैण्ट वालो ने अपनी भुजाओं के बल से इस बीमारी को अपने यहाँ घुसने से रोक दिया था परन्तु फिलिप ने किसी भी बात की कुछ परवाह न की । अपना आरा सभी प्रान्तों में आंखें मीचकर एक-सा चलाना प्रारम्भ कर दिया । प्रेनविले। जानता। था कि जनता मुझे

घृणा करने लगी है। मुख्य-मुख्य सरदारों से भी उसका झगड़ा शुरू हो गया। डचेज़ परमा भी उससे नाराज़ रहने लगी क्योंकि ग्रेनविले डचेज़ को ज़रा भी परवाह न करके वेरलामौएट और विग्लियस की सलाह से ही सब काम कर लेता था। डचेज़ ने फिलिप को लिखा कि मुझे तो इस पादरी ने निरी कठपुतली बना रक्खा है। फिलिप के लिए यह कौनसा नई सूचना थी? वह तो नत्राव ही इसलिए बनाई गई थी कि ग्रेनविले के हाथ की कठपुतली बनकर रहे। फिलिप ग्रेनविले से बहुत प्रसन्न था क्योंकि वह बड़ी स्वामि-भक्ति और उत्साह से फिलिप का काम करता था। मारक्विज़ वरघन को, जो वेंलेशियों का गवर्नर था, इस मार-काट के काम से बड़ी घृणा थी। इसलिए वह प्रायः अपनी जागीर से बाहर रहा करता था। ग्रेनविले ने उसके विरुद्ध फिलिप को चिट्ठी लिखी—“सरदार वरघन आपके काम का विरोध करते हैं। सब के सामने कहते हैं कि धार्मिक विचारों के लिए किसी की जान लेना न्याय सगत नहीं है जब हमारे अधिकारी ही ऐसे हैं तो फिर हम लोग किस प्रकार इस शुभ धार्मिक कार्य में सफल हो सकते हैं?” इसी समय ग्रेनविले को पता चला कि वेलेशिस में दो पादरी नये पन्थ का प्रचार करते हैं। उसने तुरन्त उनका प्राणदण्ड की आज्ञा दी। इतना जोश तो फैल ही चुका था कि धर्म के लिए दण्ड भोगने वालों की जय-ध्वनि बोल-बोलकर लोग खूब उत्साह बढ़ाने लगे थे। इन सर्वप्रिय पादरियों के प्राणदण्ड की आज्ञा सुनकर वेले-शिस में एकदम आग-सी लग गई। पादरियों के गिरफ्तार होते ही रोज बड़ी-बड़ी सभायें होने लगीं। प्रति दिन बड़े-बड़े जुलूस

निकलते थे और जेल पर—जहा पादरी क्रैद थे—दिन-रात जनता की भीड़ लगी रहती थी। लोग जेल के बाहर से चिह्ला-चिल्लाकर कहते कि 'घबराना मत। अगर तुम्हे जलाने का प्रयत्न किया जायगा तो हम सब बलवा करके तुरन्त तुम्हे छुडा लेंगे।' अधिकारी लोग छः-सात महीने तक बलवा हो जाने के डर से पादरियों को न जला सके। अन्त में एक दिन जलाने की चेष्टा की गई तो जनता की भीड़ ने आकर पादरियों को छीन लिया।

जब जनता के पादरियों को छुडा ले जाने की यह खबर ब्रसेल्स पहुँची तो प्रेनविले क्रोध से जल उठा। उसने तत्क्षण वेल्लेशीस के उद्दण्ड लोगो को ठीक करने का संकल्प कर लिया। फौरन ही वेल्लेशीस में फौजें भेजकर हज़ारो आदमियों को कत्ल करवा दिया गया। उनमे से एक पादरी नगर मे मिला, उसे पकड़कर तुरन्त जला दिया गया। दूसरा कहीं दूसरी जगह भाग गया था। जेलों, मे इतने आदमी भर दिये गये कि जगह तक न रही।

दिन-रात ऐसे-ऐसे दृश्य देखकर प्रेनविले के प्रति लोगों की घृणा बढ़ती ही जाती थी। आजकल हमारे ज़माने मे समाचार-पत्र सरकार के अन्याय और निरकुशता के विरुद्ध आवाज़ उठाकर लोगों को सजग करते हैं। लोगों के विचारो को सरकार के कानों तक पहुँचाते हैं। उस ज़माने मे समाचार-पत्र नहीं थे। परन्तु लगभग उतनी ही उपयोगो 'वक्तव-मण्डल' नामकी संस्थायें प्रत्येक नगर की गली-गली में स्थापित थीं। इन में गरीब अमीर सभी एकत्र होकर व्याख्यान देते, कवितायें पढते, अभिनय करते और खाँग

रचते थे। इन व्याख्यानों, कविताओं, अभिनय और स्वाँगों में सरकार के अन्याय और क्रूरता का विवेचन होता था। पादरियों, महन्तों और मठों का खूब मजाक उड़ाया जाता और ग्रेनविले की तो हटकर खबर ली जाती थी। इन कविताओं और व्याख्यानों की भाषा बड़ी असभ्य, अश्लील और कटु होती थी। कविता, अभिनय और भाषण करने वाले प्रायः दुकानदार, कारीगर और मजदूर-पेशा लोग होते थे। कवि और सुलेखकों की माहित्य-गोष्ठी के लिए स्थान नहीं थे। ग्रेनविले ने बड़ा प्रयत्न किया कि इन मण्डलों को वन्द करवा दे। इसके लिए नये कानून बनवाये, फिलिप को लिखा, फॉमिया दीं, अन्य बहुत से यत्न किये। परन्तु कुछ फल न हुआ। ऐसा प्रतीत होता था, मानों लोगों ने संकल्प कर लिया है कि यदि और कुछ नहीं तो कम से कम हम जान पर खेलकर भी ग्रेनविले का अपमान तो अवश्य ही करेंगे। बात बढ़ने लगी। एक दिन एक मनुष्य ग्रेनविले के हाथ में एक अर्जी रखकर चला गया। उस अर्जी में कोई शिकायत अथवा प्रार्थना नहीं थी। ग्रेनविले के लिए अश्लील गालियाँ थीं। एक वेदगा व्यंग-चित्र था, जिसमें उसे मुर्गा बनाकर नीचे बहुत से अण्डे रक्खे थे। अण्डों में से नवीन स्थापित मठों के महन्त कोई टाँग निकाले, कोई हाथ निकाले और कोई सिर पर महन्ती की पगड़ी बाँधे बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे। ग्रेनविले के सिर पर शैतान का चित्र था, और शैतान के मुँह के सामने लिखा था—‘ग्रेनविले मेरा प्रिय सुपुत्र है। ऐ मेरे लोगो! उसका कहना मानो।’ ग्रेनविले की निन्दा में लिखी हुई कवितायें उसका अपमान करने के लिए दीवारों पर चिपका दी जातीं

अथवा हाथों-हाथ घुमाई जाती थीं । परन्तु इन छोटी छोटी बातों से लोगों में बड़ा जोश फैलता और ग्रेनविले तथा 'इनक्विजिशन' के विरुद्ध आन्दोलन बढ़ता जाता था । एक कविता इतनी सस्व निकली कि ग्रेनविले तिलमिला उठा । उसने फिलिप को लिखा "यह काम निस्सन्देह मेरे वैरी रिनार्ड का है और इस में एग्मोएट, मैसफील्ड इत्यादि सरदारों का भी अवश्य हाथ है ।" सब सरदार ग्रेनविले के विरुद्ध हो रहे थे । आरेञ्ज, एग्मोएट और हर्न ने तो खुल्लमखुल्ला ही विरोध शुरू कर दिया था । अपने विचार फिलिप को भी लिख दिये थे । मैसफील्ड और उसके लड़के भी इन लोगों के साथ हो गये थे । एयरशॉट और अरेम्बर्ग इनसे अलग रहते थे । परन्तु उनकी भी सहाभूति ग्रेनविले के साथ नहीं थी । इधर से कुछ बड़े सरदारों ने वेरलामोएट से ग्रेनविले की भाँति वादा किया कि हम तुम्हारे लड़कों को अच्छी नौकरियाँ दिलाने का प्रयत्न करेंगे । इसीलिए वह भी डगमगाने लगा । थोड़े से खुशामदी लोगों के अतिरिक्त जिन्हें, ग्रेनविले से बहुत फायदा हो चुका था और आगे लाभ की आशाये थीं, कोई और उसका साथी न था । डाक्टर विग्लियस बड़ा विद्वान था । परन्तु उसे इन सब झगडे-टण्टों से अपनी किताबों में अधिक आनन्द आता । वह 'खूनी कानूनो' के पक्ष में तो था परन्तु अपने देशवासियों का मिजाज भी अच्छी तरह पहचानता था । उसे मालूम था कि जवतक सहते हैं सहते हैं । जिस रोज लोग विगडे, खैर नहीं है । उसको आखें थीं । वह देख रहा था कि फिलिप का अत्याचार देश को किधर लिये जा रहा है । स्टेट कौंसिल का प्रमुख रहना जनता के क्रोध का

पात्र बनना था। उसने बहुत-सा रुपया जोड़ लिया था। उसका मिर विद्वत्ता का खजाना था। वह अपनी विद्वत्ता और रुपये-पैसे के दोनों खजानों में से किसी एक को भी खतरे नहीं ढालना चाहता था। उसकी हार्दिक इच्छा पेन्शन लेकर आनन्द से जीवन बिताने की थी। अनेक बार उसने फिलिप को लिखा। लेकिन फिलिप ने नहीं माना। उसकी तन्व्वाह ब्रदाने का वादा कर दिया। लालची डाक्टर रुपये के लालच से ठहर गया और ग्रेनविले का मित्र बना रहा। परन्तु तूफान से बचने के लिए सरदारों और ग्रेनविले में गममौता कराने का भी प्रयत्न करता रहा। डाक्टर सदा इस बात की चेष्टा करता कि सत्य और असत्य के बीच का सुखद और सुविधा का मार्ग मुझे मिल जाय तो मैं उस पर दोनों तरफ के भय से सुरक्षित होकर आनन्द से चलता रहूँ परन्तु सत्य और असत्य का मार्ग सचमुच भूमिति की रेखा है। इतने पतले मार्ग को ढूँढ़ निकालना सर्वथा असम्भव है।

ग्रेनविले विरोध की परवाह न करके आरेञ्ज और एग्मोण्ट इत्यादि को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता। किसी काम में कोई सलाह इन लोगों से न लेता। विग्लियस और परमा के साथ बैठकर सब-कुछ स्वयं ही तय कर लेता। आरेञ्ज को यह भी सन्देह होने लगा था कि ग्रेनविले अवश्य हम लोगों के विरुद्ध फिलिप के भी कान भरता होगा। उन दिनों सरदारों में यह भी अफवाह फैली की ग्रेनविले ने फिलिप को लिखा है कि जबतक नेदरलैण्ड के सात-आठ खास-खास सरदारों के मिर नहीं उड़ाये जायँगे तबतक नेदरलैण्ड में शान्ति नहीं होगी। ग्रेनविले और परमा ने कई दफा लोगों को विश्वास

दिलाने का प्रयत्न किया कि यह अफवाह झूठी है, मगर लोगों को विश्वास न हुआ। ग्रेनविले ने फिलिप को भी लिखा कि लोग मेरे बारे में ऐसी झूठी खबरें उड़ाते हैं। कृपया आप उन सब को समझाइये कि मैंने कभी आपको ऐसी बात नहीं लिखी। फिलिप ने परमा को, यह लिखते हुए कि सरदारों को मेरी तरफ से समझा दो कि ग्रेनविले ने कभी मुझे ऐसा नहीं लिखा, यह भी लिखा कि ग्रेनविले ने तो नहीं लिखा है, मगर बात ठीक मालूम होती है। जबतक इन कमबख्त सरदारों में से दस-पाँच को सूली पर नहीं चढ़ाया जायगा, शान्ति नहीं होगी। ग्रेनविले के सम्बन्ध में जनता में भी बड़ी विचित्र खबरें उड़ा करतीं। कोई कहता कि उसने हाथ जोड़कर आरेञ्ज से प्राणभिक्षा ली है। कोई कहता, एग्मोएट के पैरो पर मिर रखकर चमा माँगी है। कई बार ग्रेनविले को मार डालने की भी धमकी दी गई। परन्तु वह स्वभाव का बड़ा निर्भीक था। उसका मकान शहर के बाहर एक सुन्दर बाग में था। प्रायः अकेला ही अथवा दो-एक नौकरोंके साथ रोज रात को गलियों में होकर वहाँ जाता और बड़ी निर्भयता से अपना काम करता था।

इसी समय फ्रान्स में राजा और प्रजा का गृह-युद्ध छिड़ा। फिलिप ने अपने पूर्व वचनों के अनुसार प्रजा का दलन करने के लिए फ्रान्स के राजा के पास सेना भेजी। परमा को लिखा कि नेदरलैण्ड से कम से कम दो हजार सिपाही फ्रान्स भेजे जायें। जब यह प्रस्ताव स्टेट कौंसिल में रक्खा गया तो इसका बड़ा विरोध हुआ। यहाँ तक कि डाक्टर विग्लियस और वेरलामौएट तक ने इसका विरोध किया। अन्त में यह समझौता हुआ

कि सिपाहियों के वजाय रुपया भेज दिया जाय । नेदरलैण्ड की जेब काटकर फ्रान्स के राजा को अपनी प्रजा का सिर कुचलने के कार्य में सहायता दी गई । डचेज़ परमा बेचारों को बड़ी बुरी दशा थी । गेहूँ और पत्थर के बीच में जो दशा घुन की होती है वही दशा एक ओर सरदार एवं जनता और दूसरी ओर फिलिप तथा ग्रेनविले के बीच में उसकी थी । उसकी तबीयत ख़राब उठी थी । वह चाहती थी कि ‘कसल्टा’ के अतिरिक्त किसी बड़ी सभा में नेदरलैण्ड की अवस्था पर विचार किया जाय जिसमें उसके सिर सारा बोझ न आये । फिलिप और ग्रेनविले पचायतों को एकत्र करने के विरुद्ध थे । इसलिए ‘गोल्डन फ्लीस’ सभा की बैठक बुलाई गई । सब उपस्थित सरदारों के सामने नेदरलैण्ड की अवस्था पर विचार शुरू हुआ । डाक्टर विगिलियस ने सरकार की ओर से एक बड़ा सुन्दर भाषण करते हुए नेदरलैण्ड के असन्तोष के बहुत से कारण बताये । असन्तोष दूर करने के कुछ उपाय भी बताये । परन्तु सबसे मुख्य कारण ‘इनक्विजिशन’ की कोई चर्चा नहीं की गई । न उपायों में ही उसका कुछ जिक्र आया । सरदारों से यह कहकर कि आप लोग विचार कर उत्तर दें, सभा विसर्जित कर दी गई । सरदार जैसे असन्तुष्ट आये थे वैसे ही उठ कर चल दिये । उन्होंने देखा कि मुख्य बात ‘इनक्विजिशन’ को कोई चर्चा नहीं होती । सभा समाप्त होने पर आरेञ्ज ने विगिलियस और ग्रेनविले को छोड़कर अन्य सब सरदारों को अपने यहाँ एकत्र किया और परमा ने असन्तोष और उसके कारण एवं उपायों की जो बात उठाई थी उसपर आपस में विचार प्रारम्भ हुआ । एक तरफ से ग्रेनविले पर दोषारापण

किया गया, दूसरी ओर से उसका पक्ष लिया गया। वादविवाद बहुत बढ़ गया और कुछ निश्चय न हुआ। कुछ दिन बाद बैठक फिर हुई। परमा ने 'इनक्विज़िशन' के विरोधी और ग्रेनविले के पक्ष वालों में समझौता कराने का बड़ा प्रयत्न किया, परन्तु कुछ परिणाम न निकला। हाँ, एक बात अवश्य तय हुई कि प्रान्तिक पंचायतों के पास रुपये के लिए प्रार्थना की जाय और देश की दशा का वास्तविक ज्ञान कराने के लिए फिलिप के पास प्रतिनिधि भेजे जायँ। जब पंचायतों के पास रुपये की प्रार्थना भेजी गई तो पंचायतों ने यह कहकर इन्कार कर दिया कि फ्रान्स का गृहयुद्ध समाप्त हो रहा है, रुपया भेजने की कुछ जरूरत नहीं है। पंचायतों का यह उत्तर ग्रेनविले को छुरी-सा लगा। वह कहने लगा कि हर बात में रोड़ा अटकाने की पंचायतों की आदत पड़ गई है। स्पेन भेजने के लिए हॉर्न का भाई मौएटनी चुना गया। वह हॉर्न से अधिक चतुर, आरेख का मित्र और ग्रेनविले का कट्टर शत्रु था। वह स्वयं रोमन कैथलिक पन्थ में विश्वास करता था परन्तु 'इनक्विज़िशन' की वर्चस्वता उसे असह्य थी। पहले हॉर्न को भेजने की बात चली, परन्तु हॉर्न को याद था कि ग्रेनविले के खरा भी विरुद्ध बोलने से फिलिप कितना विगड़ गया था। अब फिर जाकर यदि वह उसके विरुद्ध बोलेगा तो न जाने फिलिप क्या करेगा। इसलिए उसने जाना स्वीकार नहीं किया।

ग्रेनविले रोच लम्बे-लम्बे खत फिलिप को लिखकर सब सरदारों के विरुद्ध कान भरता था। "सब के सब सरदार आपको और परमा को नीचा दिखाना चाहते हैं। सब कहते हैं कि

‘फिलिप ने हमारी बगैर गलाह के मठ स्थापित करने का हुक्म पोप से कैसे मंगा लिया ? फिलिप है कौन । देखें वह हमसे बिना पूछे नेदरलैण्ड में क्या कर सकता है ?’, उन लोगों ने अपने ऊपर बड़े कर्जे बढ़ा लिये हैं और जब कर्जे वाले रुपया माँगते हैं तो कहते हैं कि हम कहाँ से दें, फिलिप ने बहुत दिनों से हमारा वेतन नहीं दिया । इस तरह आप को बढ़नाम करते हैं । छोटे लोगों को भड़काकर अपना काम बनाना चाहते हैं । जनता के हित का ध्यान इन सरदारों को कुछ नहीं है, सब बनानटी बातें हैं । स्वयं रुपया और अधिकार चाहते हैं । आप से जलते हैं । आपके अधिकार छीनना चाहते हैं । मुझे सूचना मिली है कि किसी सरदार ने यह भी कहा कि फिलिप से तो अच्छा यह है किसी दूसरे को अपना राजा चुन लें । इस सरदार के नाम का मुझे पता नहीं चला है । मगर सूचना एगमोएट के घर से एक विश्वस्त सूत्र द्वारा मिली है । सुना है कि एगमोएट बोहेमिया के राजा को प्रायः पत्र लिखता है, मगर मैं यह सब गप्प समझता हूँ । न बोहेमिया के राजा की हिम्मत है कि नेदरलैण्ड पर आक्रमण करे और न यह लोग ही आपको इस प्रकार यहाँ से निकाल सकते हैं । सुनते हैं यह भी चर्चा हुई कि बाहर से वह राजा आक्रमण करे और अन्दर से लोगों को भड़काकर क्रान्ति कर दी जाय । मगर मुझे ये सब बातें झूठी लगती हैं ।” ग्रेनविले बड़ा चतुर था । वह फिलिप के हृदय में एगमोएट की तरफ से डर भी बैठाना चाहता था और खुल्लमखुल्ला नाम भी नहीं लेना चाहता था । हॉर्न के वारे में उसने लिखा कि वह स्वयं तो सच्चा आदमी है मगर आरेञ्ज इत्यादि दूसरे सरदारों के बहकाने में

आ जाता है। ग्रेनविले फिलिप को यह तो लिखता नहीं था कि सब सरदार 'इनक्विज़िशन' के विरुद्ध हैं। वह यह दिखाने की चेष्टा करता था कि सरदार स्वार्थी और सत्ता के भूके हैं, लोगों को अधर्म के लिए दण्ड न देकर इसलिए खुश रखना चाहते हैं कि आपके विरुद्ध आसानी से उन्हें भडका सकें। उसने फिलिप को यह भी लिखा कि मौएटनी जब स्पेन पहुँचे तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाय ? फिलिप से सलाह करके परमा और ग्रेनविले ने सरदारों में फूट डलवाने का भी प्रयत्न किया। आरेञ्ज का एगमोएट से अधिक रुपया सरकारी खजाने पर चाहिए था। परन्तु एगमोएट को इस साल आरेञ्ज से अधिक रुपया इसलिए दिया गया कि आरेञ्ज को बुरा लगे और वह एगमोएट से घृणा करने लगे। रोम में राजा का चुनाव होने वाला था। वहाँ जाने की आरेञ्ज की इच्छा थी। परन्तु आरेञ्ज को नीचा दिखाने के लिए एयरशॉट को भेजा गया। जिमसे आपस में मनोमालिन्य हो जाय। फिलिप को यह भी सन्देह हो चला कि आरेञ्ज इतना सोच-विचार क्यों किया करता है। अवश्य ही मेरे विरुद्ध कुछ-न-कुछ षड्यन्त्र रच रहा होगा। उसने बहुत पता लगाने का प्रयत्न किया कि आरेञ्ज क्या सोचा करता है, मगर बेचारे को कुछ भेद नहीं मिला।

जब मौएटनी स्पेन पहुँचा तो फिलिप उससे बड़ी अच्छी तरह मिला। जैसा ग्रेनविले ने लिखा था उसी के अनुसार मौएटनी को सम्मानने का प्रयत्न करने लगा। "स्पेन का 'इनक्विज़िशन' नेदरलैण्ड में स्थापित करने की मेरी हरगिज इच्छा नहीं है। नये कानून जारी करने में ग्रेनविले का कोई हाथ नहीं

था। न उमकी राय से ये स्थापित किये गये हैं। स्थापित करने का मेरा द्विचार तो बहुत दिनों से था। और जब मैं इंग्लैण्ड मे मेरी से विवाह करन गया था तभी मैंने वरघन से इस सम्बन्ध मे वातचीत की थी। ग्रेनविले मुझमे सरदारों की कभी चुगई नहीं करता। मुझे नेदरलैण्ड पर बहुत स्नेह है। मैंने लोगो को धार्मिक धनाने के विचार से उन्ही के हित के लिए ‘इनक्विजिशन’ स्थापित किया है।” मौएटनो ने फिलिप की बातो से समझा कि फिलिप दय से बोल रहा है। परन्तु ग्रेनविले के सम्बन्ध में, जिसको वह खूब अच्छी तरह जानता था और हृदय से घृणा करता था, वह अपने विचार न बदल सका और बोला—“ग्रेनविले बड़ा स्वेच्छाचारी, लालची, दिखावटी और निरंकुश है। देश भर के लोग उसके सम्बन्ध मे यही सम्मति रखते हैं। ‘इनक्विजिशन’ से लोग दहल उठे हैं और नये मठों को सब बड़ी घृणा से देखते हैं। ग्रेनविले, ‘इनक्विजिशन’ नये मठ और महन्त यही तीनों चीजें नेदरलैण्ड के सारे असन्तोष की जड हैं।” इस साफ-साफ बोलने के लिए आगे चलकर मौएटनी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दिसम्बर सन १५६२ ई० को वह नेदरलैण्ड लौट आया और उसने फिलिप का उत्तर ‘स्टेट कौंसिल’ में सुनाकर कहा—“फिलिप ने कहा है कि सरदार लोग धर्म की रक्षा करने में मेरी सहायता करें। मैं उन सबका वेतन भेज दूँगा”। आरेञ्ज का चेहरा लाल हो गया। उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि जो गुप्त निश्चय फ्रान्स के राजा के साथ फिलिप ने किया था और जिसका भेद शिकार खेलते समय

जगल में गलती से हेनरी ने मुझे बताया था, उसे अक्षरशः पूरा करने का और निर्दोष जनता के खून की नदियों बहाने का फिलिप पक्का इरादा कर चुका है। शाहजादा आरेञ्ज ने सोचा कि अब इस तरह काम न चलेगा। उसने कहा कि या तो ग्रेनविले ही नेदरलैण्ड में रहेगा या मैं ही रहूँगा। एग्मौएट, हार्न, मौएटनी, वरघन इत्यादि सब बड़े सरदारों ने उमका साथ देने का वचन दिया।

११ मार्च सन १५६३ ई० को आरेञ्ज, हार्न और एग्मौएट ने मिलकर फिलिप को एक पत्र लिखा। उममें उन्होंने लिखा कि अब तक हमने ईमानदारी में आप की सेवा की, परन्तु ग्रेनविले जैसे मनुष्य के द्वारा नित्य अपमानित होकर अब एक दिन भी काम करना हमें असह्य है। जनता तो ग्रेनविले से इतनी दुःखी हो गई है कि अगर अब तक हम लोग न समझाते रहते तो न जाने क्या हो जाता? हम आपको पहले भी एक पत्र लिख चुके हैं। यदि आपको एक मनुष्य को प्रसन्न करके देशभर को नाराज करना है तो आपकी खुशी। हमारे विषय में शायद यह समझा जाय कि हम लोग सच्चा क भूके हैं। इसलिए हम लाग स्टेट कौंसिल से इस्तीफा देते हैं। एअरशाट अरेम्बर्ग और वेरलमौएट के अतिरिक्त सब सरदारों ने इस पत्र को पसन्द किया। परन्तु ऐसे जोरदार पत्र पर हस्ताक्षर करने की आरेञ्ज, एग्मौएट और हार्न के अतिरिक्त किसी की हिम्मत नहीं पडा। वरघन और मौएटनी का भी, जो इस आन्दोलन में खूब भाग ले रहे थे, इस पत्र पर दस्त-खत करने का साहस न हुआ। एग्मौएट और हार्न बड़े जोश ले थे। उन्होंने इस बात का कुछ विचार नहीं किया कि इस पत्र का

क्या परिणाम हो सकता है। सम्भव है फिलिप हमारा सदा के लिए जानी दुश्मन हो जाय। परन्तु दूरदर्शी आरंज ने सब समझ-चूझकर, और सब परिणामों के लिए कमर कसकर, खुनी आँखों से, यह जानते हुए कि आज ससार के सबसे बड़े शक्तिशाली मनुष्य से लड़ाई मोल ले रहा हूँ, पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये थे। एग्मोएट तो इतने जोश में था कि ऐअरशॉट और अरेम्बर्ग से अपने दल में न मिलने पर वाद-विवाद करते करते लड़ बैठा। वह हर जगह हर मनुष्य से कहता फिरता था कि सब लोग मिलकर आन्दोलन करो। मेल की बड़ी आवश्यकता है। बिना मेल के स्वतन्त्रता का युद्ध सफल नहीं हो सकता। शीघ्र ही इस पत्र की खबर हर जगह फैल गई। इस पर एग्मोएट और भी त्रिगडा। परमा के सामने ही एक दिन अरेम्बर्ग से भिड़ गया कि तुमने ही सारा भेद खोला है। अरेम्बर्ग सौगन्द खाकर बोला कि मैं मच कहता हूँ मैंने किसी से इन सम्बन्ध मैं अपनी ज्वान भी नहीं खोली है। मगर भेद खुला गया तो आश्चर्य क्या है। हर गली कूचे में सबसे डांग हाँकने फिरते हो। एग्मोएट ने फिर कहा—“नहीं तुम्हीं ने विश्वासघात किया है।” इसपर अरेम्बर्ग को इतना क्रोध आया कि उसने अपनी तलवार की मूँठ पकड़कर कहा—“यादे फिर कोई मुझपर विश्वासघात का दोषारोपण करेगा तो बस तलवार से ही फैसला होगा।” लोगों ने बड़ी कठिनाई से बीच-बिचाव किया, नहीं तो वहीं एक-आध की जान चली गई होती। एग्मोएट के जोश का पार न था। हर जगह जो उसके मन में आता बक देता। वह स्वभाव से सिपाही था, रणक्षेत्र का वीर था। आरंज की तरह राजनीति की शत-

रज के दाव-पेंच नहीं जानता था। उसकी इन सब छोटी से छोटी बातों की खबर परमा और ग्रेनविले फिलिप के पास भेजकर उसके विरुद्ध फिलिप का क्रोध भड़काते रहते थे। वेरलामोएट ने पत्र का विरोध किया था। परन्तु सरदारो ने उसके पुत्रों को अच्छी नौकरियाँ दिलवाने का वादा कर दिया इसलिए वह सरदारों को भी अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। ग्रेनविले से उसने मिलना छोड़ दिया था। एक वर्ष से ग्रेनविले से एक बात नहीं की थी। इसका फल यह हुआ कि दोनों पक्षों को प्रसन्न रखने के यत्न में उसपर दोनों पक्षों का विश्वास नहीं रह गया।

छ महीने के बाद फिलिप ने सरदारो के पत्र के उत्तर में लिखा—“आप लोगों का मेरे प्रति श्रद्धा और प्रेम तो मैं बहुत पसन्द करता हूँ, मगर बिना किसी कारण के मैं ग्रेनविले को कैसे निकाल दूँ ? आप लोगों ने उसके कोई अपराध तो साफ-साफ लिखे ही नहीं हैं। ऐसी बातें पत्र-व्यवहार से तय होनी कठिन होती हैं। आप में से कोई एक स्पेन आकर मुझ से सब बातें कर जाय।” फिलिप की तो आदत ही हर काम में टाल-मटोल करने की थी। किसी बात का निश्चयात्मक उत्तर देना उसने सीखा ही न था। वह जानता था कि ग्रेनविले नेदरलैण्ड में सबकी घृणा का पात्र बन रहा है। मगर यह सब लोग ग्रेनविले से इसीलिए तो घृणा करते थे कि वह फिलिप की इच्छानुसार कार्य करता था। यदि फिलिप को लोगों की इच्छा का ही विचार होता तो उसे अपनी इच्छा का विचार छोड़ना चाहिए था, अन्यथा ग्रेनविले के पक्ष में खड़ा होना उसका कर्तव्य था। परन्तु फिलिप अपने स्वभाव के अनुसार

न तो नेदरलैण्ड रो ‘इनक्विजिशन’ हटाना चाहता था, न खुझम-खुत्ना ग्रेनविले का पक्ष लेना चाहता था। इसलिए उसने कुछ साफ-साफ उत्तर न देकर एक सरदार को स्पेन बुलाया। डचेज को उसने लिखा—‘मैं सरदारों में फूट डालना चाहता हूँ। तुम जहाँ तक हो एगमौएट को यहाँ भेजना, वह सीधा आदमी है। मेरी बातों में आकर आरेञ्ज। इत्यादि से अलग हो जायगा।’

सरदारों में फिलिप के उत्तर से बड़ा असन्तोष फैला। ग्रेनविले के बाप दादे लोहार थे। इसलिए लोगों ने उसके घर का नाम तिरस्कार से ‘लोहिये की दूकान’ रख दिया था। पत्र पढ़कर कुछ सरदार बोले—“भाई फिलिप बेचारा क्या करे ? यह पत्र तो ‘लोहिये की दूकान’ का गढा होगा।” वास्तव में बात भी यही थी। जैसा ग्रेनविले ने उमे लिखा था, उसने उत्तर दे दिया था। परमा ने एगमौएट से कहा कि फिलिप तुम्हें बुलाते हैं। एगमौएट बोला—“मुझे जाने में कोई बाधा नहीं है, परन्तु अपने मित्रों से सलाह कर लूँ। पत्र सबकी सलाह से लिखा गया है।” सब सरदारों की राय हुई कि फिलिप का कुछ करने का इरादा नहीं है केवल समय नष्ट करना चाहता है। उन्होंने आरेञ्ज के द्वारा फिलिप को यह उत्तर लिखवा दिया कि हममें हरएक आपके पास आने को सदा तैयार है, परन्तु इतना लम्बी यात्रा करके ग्रेनविले के अपराध आरोपों बताने को हममें से किसी को आवश्यकता नहीं। हमारा इच्छा कभी आपको किसी के दोष अथवा अपराध बताने की नहीं थी, न भविष्य में ही हम किसी के ऊपर कोई दोषारोपण करना चाहते हैं। हमने तो लोगों

की शिकायतें आपको लिखी थीं। हमें विश्वास था कि हमारी पिछली सेवाओं के कारण आपका हम पर इतना विश्वास हो गया होगा कि आप हमारी शिकायतें सचची मान लेंगे। अपने मुँह से हम किसी के विरुद्ध विशेष कुछ नहीं कहना चाहते। अगर आपको अपराध जानने की इच्छा होगी तो खोजने पर आपको बहुत से अपराधों का पता चल जायगा। हमारा निवेदन है कि अब हम 'स्टेट कौंसिल' के सदस्य नहीं रह सकते, क्योंकि हम दूसरे के कृत्यों का और उनके परिणामों का अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं हैं। ये बातें सबकी ओर से आरेञ्ज ने परमा से भा कह दी और आरेञ्ज, एग्मौण्ट तथा हॉर्न तीनों ने 'स्टेट कौंसिल' में जाना बन्द कर दिया।

हॉर्न ने एक निजी पत्र लिखकर भी फिलिप को समझाया कि ब्रेनविले से लोग इतनी घृणा करने लगे हैं कि अब वह आपकी कोई सेवा इस देश में अच्छी तरह नहीं कर सकता। आप उसे कहीं दूसरी जगह भेज दीजिए। पुराने धर्म की रक्षा करने को हम सब सरदार तैयार हैं। परमा ने भी अपने मन्त्रों को स्पेन भेजकर फिलिप को समझाने की चेष्टा की कि ब्रेनविले के रहने से नेदरलैण्ड में अशान्ति बढ़ जायगी। पत्र भेजने के कुछ दिन बाद सरदारों ने मिलकर शिकायत के तौर पर परमा को एक अर्जी दी कि "देश का युग हाल है। न राजा का भला हो रहा है, न प्रजा का। खजाने में पैसा नहीं है, प्रजा में असन्तोष बढ़ रहा है। सीमाप्रान्त के किले बेमरम्मत पड़े हैं। सरकार पर बर्ज़ होने के कारण दश के व्यापारियों को दूमरे

देश वाले कैद कर लेते हैं। पचायतो को एकत्र करके उनकी सलाह से काम किया जाय तो सब कुञ्ज ठीक हो सकता है। सरकार की राय पचायतो को एकत्र करने की नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ‘स्टेट कौंसिल’ के कार्य में भाग लेना व्यर्थ समझकर वहाँ आना बन्द कर दिया है। आप इसका कुञ्ज और अर्थ निकानकर बुग न मानें। अपने प्रान्तों में सरकार का काम हम लोग चलाते रहेंगे। आपकी अन्य सेवाओं के लिए भी हम लोग हाज़िर हैं।” सरदारों का यह पत्र जब फिलिप के पास पहुँचा तो वह अपने स्वभाव के अनुसार टाल-टून करने लगा। उसने पत्र उठाकर ड्यूक ऑफ़ एलवा के पास भेज दिया और उसकी इस सम्बन्ध में राय पूछी। एलवा एक खूँखार आदमी था, आकर फिलिप से कहने लगा—“जब मैं इन कम्बख्त सरदारों के पत्र ग्रेनविले की शिकायत के सम्बन्ध में पढ़ता हूँ तो गुस्से से पागल हो जाता हूँ। इन बदमाशों का सिर उड़ा देना चाहिए। खैर, जब तक सिर उड़ाने का मौका नहीं मिलता आप इन लोगों को सीधा उत्तर न दीजिए। एगमोंट की पीठ ठोककर अपनी ओर निलाने का प्रयत्न कीजिए। शायद वह फूट आये।”

इधर ग्रेनविले बराबर फिलिप को लिखता—“धर्म का कार्य पूरी तरह से नहीं हो पाता। आरेञ्ज, हार्न, एगमोंट इत्यादि अपने दल में सब छोटे-बड़े सरदारों के मिलाने का रात-दिन प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे रोज़ अपमान सहना पड़ता है। खैर, उसकी तो मुझे चिन्ता नहीं, क्योंकि मैं श्रीमान् की सेवा में अपना जीवन बर्बाद प्रसन्नता से दे सकता हूँ। परन्तु मुझे चिन्ता एक

वात की है, और वह यह कि मेरा विरोध तो सरदारों का केवल ऊपरी दिखावा है। उनका भीतरी आशय कुछ और ही है। एक दिन आरेञ्ज, एगमौएट हार्न, मौएटनी और वरघन गुप्त रूप से एक जगह बहुर ढेर तक सलाह करते रहे। पता नहीं चला कि उन्होंने क्या निश्चय किया है? इन गुप्त मन्त्रणाओं में कोई बड़े भेद की बात अवश्य है। शायद उनका इरादा नेदरलैण्ड पर से आपका राज्य हटा देने का है। मुझे यहाँ से निकालकर यह काम बड़े सुभीते से हो सकेगा। इसलिए पहले मुझे निकाल देना चाहते हैं। मैंने सुना है कि वे लोग प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करने की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उन्हीं का हुक्म चले, आप कुछ न कर सकें। आरेञ्ज विनियम प्राय बड़ी डींग हॉका करता है कि मैं दूसरे देशों से सहायता माँग लूँगा। मेरा जर्मनी से बड़ा सम्बन्ध है। कुछ जर्मन सेनायें सीमा पर इकट्ठी भी हो रहीं हैं। अभी कुछ दिन हुए एक आदमी आरेञ्ज के यहाँ थोड़े दिन ठहरकर आया था। वह कहता था कि हार्न और मौएटनी भी आरेञ्ज के घर पर ठडरे हुए थे। एक दिन खाना खाते समय मौएटनी ने इस मनुष्य से पूछा कि 'तुम्हारे यहा वरगण्टी में कितने नवीन मत वाले हैं?' उसने बहा—'एक भी नहीं।' मौएटनी बोला 'वरगण्टी के सब लोग मूर्ख मान्द्रम होते हैं। जिनमे कुछ भी बुद्धि है वह सब आजकन नये मत के पक्ष में हैं।' आरेञ्ज ने उसे चुप करने का प्रयत्न करते हुए कहा कि वरगण्टी वाले जैसे हैं जैसे ही अच्छे हैं। इस पर मौएटनी बोला कि मैंने तो हाल ही में नवीन पन्थवालों की इतनी कथाओं और प्रार्थनाओं में भाग लिया है कि तीन मास तक के लिए काफी हैं। सम्भव है यह

सब भौएटनी ने मजाक मे कहा हो । परन्तु जो मनुष्य मजाक में धर्म के सम्बन्ध में ऐसे विचार प्रकट कर सकता है, वह टूने का अधिकारी होकर वहाँ पुराने धर्म की रक्षा क्या करता होगा ? एअरशॉट के ड्यूक को बरबन अपने दल में सम्मिलित न होने और राजभक्त रहने पर रात-दिन छेडा करता है । एक दिन तो तमाम नौकर-चाकरों के सामने सबने मिलकर उसका बहुत मजाक उडाया । एअरशॉट के यह पूछने पर कि अगर फिलिप ने कहना न माना तो आप लोग क्या करेंगे, बरबन क्रोधित होकर बोला—“कहना न माना तो क्या करेंगे ? हम फिलिप को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं ?” जेनेवा के एक वदमाश ने यहाँ कत्ल कर डाला था । उसे मैंने देश-निकाला का हुक्म दिया था । परन्तु हार्न ने उसे अपने घर पर मेरा कत्ल कराने को रख छोडा है । यदि सत्य और परमात्मा हमारी तरफ है, यदि सनातन धर्म की रक्षा हमारे हाथों होनी है, तो हार्न और जेनेवा का वदमाश दोनों मेरी जान लेने में असफल रहेंगे । यदि उन्होंने मुझे मार भी डाला तो भी मुझे विश्वास है कि उनकी आशायें पूर्ण न होंगी ।” इस प्रकार ग्रेनविले फिलिप जैसे शकी आडमी के सब सरदारों के विरुद्ध गोज कान भर-भरकर उसके दिल में सरदारों के विरुद्ध घृणा और भय उपजाने का प्रयत्न करता रहता था । चालाक तो इतना कि साथ-साथ यह भी लिख देता था कि “किसी के खिलाफ श्रामान के कान भरने की मेरी इच्छा नहीं । मैं तो केवल आपनो इस देश की स्थिति का पूर्ण ज्ञान कराने के लिए आपके पास छोटे से छोटे समाचार भेजता रहूँगा । जन माधारण विलकुत राजभक्त हैं । ये सरदार

लोग उनको भडकाकर अपना मतलब मिद्ध करना चाहते हैं। अगर श्रीमान् इस देश में स्वयं पधारें तो सब अमन्तोष दूर हो जायगा। लोग सरदारों का साथ छोड़ देंगे” ग्रेनविले की गय में फिलिप का नेदरलैंड में आ जाना नेदरलैंड के सब लोगों का इलाज था। फिलिप ने आना तो स्वीकार कर लिया, परन्तु नेदरलैंड में आने से वह बड़ा घबराता था। जहाँतक बने टालना चाहता था। विलियम भी चाहता था कि फिलिप नेदरलैंड आवे तो अच्छा है। फिलिप को देश की दशा अपनी आखों देखने का मौका मिलेगा और उसे मालूम हो जायगा कि ग्रेनविले कहाँ तक सच्ची खबरें भेजता था, और क्या-क्या झूठ लिखता था।

सन १५६३ ई० की ये घटनायें देखकर उस समय प्रतीत होता था कि शीघ्र ही तूफान आने वाला है। ग्रेनविले को कुछ समय के लिए विजय मिल गई थी। आरेञ्ज, हार्न और एग्मौएट ‘स्टेट कौंसिल’ से निकल आये थे। फिलिप कुछ निश्चय ही नहीं कर पाया था कि क्या करना ठीक होगा। एतना, नेदरलैंड के लोगों और सरदारों की धृष्टता पर दाँत पीसता था। परमा भी ग्रेनविले से ऊब उठा थी। ग्रेनविले भी सोचने लगा था कि स्वयं नेदरलैंड में सकुशल निकल जाऊँ तो अच्छा है। जनता का क्रोध दिन-दिन उसके प्रति बढ़ रहा था। इसी समय एक और घटना हो गई। सरकारी कोषाध्यक्ष के यहाँ सब सरदारों की दावत थी। वहाँ ग्रेनविले की खूब हँसी उड़ाई गई। ग्रेनविले अपने नौकरों को सुनहरे कपड़ों की कामदार वर्तियाँ पहनाकर खूब शान से रखता था। सरदारों ने निश्चय किया कि हम लाग

अपने नौकरो को विलकुल सादी वर्दियों पहनायेंगे। वर्दियों पर कुछ ऐसे चिन्ह बना देंगे जिससे सब लोग समझ जावें कि ग्रेनविले का मजाक उठाने के लिए वर्दियाँ निकाली गई हैं। एग्मौएट के घर से शुरू होकर कुछ ही दिनों में नौकरो का नया-नया फैशन सारे शहर में फैल गया। जिधर देखो उधर ही सरदारों के नौकर लम्बे-लम्बे ढाले-ढाले साठे कपडे के अगारखे पहने, विद्रूपकों की सी लम्बी टोपी लगाये शहर में घूमते फिरते थे। लोग खूब ठट्टा मारकर हँसते और दिल भरकर ग्रेनविले का मजाक उडाते। सब अमीरों ने अपने नौकरों को ऐसी ही पोशाकें सिलवा दी। बजाजखाने में वर्दियों के मेल का कपडा खत्म हो गया। वर्दियों की दूकानों पर रात-रात भर सिलाई हुई। परमा भी ग्रेनविले के अपमान पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और आरेञ्ज, एग्मौएट इत्यादि से उसने इस सम्बन्ध में कुछ शिकायत नहीं की। ग्रेनविलेने सब हाल नमक-मिर्च लगाकर फिलिप को लिख भेजा।

आरेञ्ज, एग्मौएट और हार्न फिलिप से अपने पत्र का उत्तर न पाकर रुष्ट हो रहे थे। आरेञ्ज ने अपने जासूस फिलिप के राजभवन तक में ग्व छोडे थे। उसके पास सारी गुप्त मन्त्रणाओं की खबरें, और आवश्यक पत्रों की नकलें तक आजाया करती थीं। जितनी खबर फिलिप की चालों की परमा को भी नहीं रहती थी, उतनी आरेञ्ज को रहती थी। अन्त में फिलिप ने ड्यूक ऑव् एलवा से सलाह करके निश्चय किया कि ग्रेनविले को नेदरलैण्ड से हटा लेना ही अच्छा है। ग्रेनविले की जान भी खतरे से बच जायगी और लोगों को सन्तोष भी हो जायगा परन्तु राजाघना-द्वारा ग्रेनविले को हटाने से जनता का दिल बढ़ता

अतएव चुपचाप ग्रेनविले को लिख दिया गया कि अपनी माता को रखने का बहाना करके लम्बी छुट्टी ले लो और चल दो। अस्तु, जब ग्रेनविले छुट्टी लेकर चला तो देश भर में आनन्दोत्सव होने लगे। किसी ने उसके घर छोड़कर चलने के एक दिन पहले ही मांटे-माटे अक्षरों में उसके द्वार पर लिख दिया 'बिक्री के लिए।' जब ग्रेनविले शहर छोड़कर जाने लगा तो सरदार ब्रेडरोड और ह्यूसट्रेटन अपने ठण्डे नेत्र करने के लिए शहर के एक द्वार पर जा चढ़े। दुश्मन को मुँह काला करके देश से जाते देख उनके हृदय गद्गद हो रहे थे। जब ग्रेनविले उस द्वार से निकल गया तो दौड़कर दोनों एक ही घोड़े पर चढ़कर गाड़ी के पीछे दौड़े। लड़कों की तरह बहुत दूर तक पीछे दौड़ते हुए गये। गाड़ी को दूर तक निकालकर लौट आये। मसखरा ब्रेडरोड तो नंगे पाँव ही घोड़े पर चढ़ बैठा था। ग्रेनविले के चले जाने पर भी लोगों को भय रहा कि छुट्टी खत्म होते ही शायद वह फिर लौट आयगा मगर विलियम ऑव् आरेञ्ज अच्छी तरह समझता था कि जब फिलिप को ग्रेनविले का नेदरलैण्ड में रखना कठिन हो गया तो वापस बुलाकर फिर रखना तो और भी कठिन है। ग्रेनविले चला गया था परन्तु लोगों का उसका अपमान करने में दिल नहीं भरा था। कई महाने वाद एक दिन काउण्ट मैन्सफील्ड के यहाँ दावत में ग्रेनविले का स्वाँग बनाया गया। दिन-भर उसकी हँसी उड़ाई गई। एक आदमी दाढ़ी लगाकर आया। उसके पीछे एक मनुष्य ग्रेनविले का वेश धारण कर आया और उसके पीछे शौचान के रूप में एक मनुष्य ने आकर ग्रेनविले को खूब काड़े लगाये। परमा

भी ग्रेनविले के चले जाने से प्रसन्न थी। ग्रेनविले ने उसे विलकुल कठपुतली बना रक्खा था, अब वह स्वतन्त्र हो गई। खोई हुई सत्ता उसे फिर मिल गई। उसने फिलिप को लिखा—

“अभी तक देश की दशा का मुझे यथार्थ ज्ञान ही नहीं हो पाता था। ग्रेनविले के चले जाने पर अब मुझे मालूम हुआ है कि स्वार्थी सेवकों ने अपना काम बनाने के लिए देश की दशा कितनी विगाड डाली है। क्रान्ति हो जाने की विलकुल सम्भावना है।” उधर परमा ने ग्रेनविले को भी लिखा—“तुम्हें मैं सदा से भाई की तरह प्यार करती हूँ। तुम्हारे चले जाने पर मुझे बड़ा खेद है।” अब परमा आरेञ्ज इत्यादि से भी अच्छी तरह मिलने लगी थी। डाक्टर विग्लियम सदा ग्रेनविले का साथ दिया करता था। अब परमा उसकी भी खूब खबर लेने लगी। ग्रेनविले नेदरलैण्ड से जाकर फिर नहीं लौटा। फिलिप जानता था कि नेदरलैण्ड में उसे कोई नहीं चाहता। उसे वापस भेजना तूफान खड़ा करना है। इसलिए फिलिप ने उसे नेपिरस का वाइसराय बनाकर भेज दिया। फिर आवश्यकता पड़ने पर स्पेन बुचा लिया। अन्त तक ग्रेनविले स्पेन की राजधानी में ही रहा। २१ सितम्बर सन् १५८६ ई० को सत्तर वर्ष की अवस्था में उसका देहान्त हो गया।

ग्रेनविले के वाद

ग्रेनविले के चले जाने पर आरेञ्ज, हॉर्न और एग्मौएट 'स्टेट कौंसिल' के कार्य में फिर भाग लेने लगे। बड़ी मेहनत से काम करते—प्रायः रात तक बैठे रहते। आरेञ्ज ने परमा और फिलिप दोनों को अच्छी तरह समझा दिया था कि यदि ग्रेनविले लौटा तो हम सब फिर तुरन्त काम छोड़ देंगे। आरेञ्ज की अवस्था इस समय तीस वर्ष की थी। परन्तु चिन्ता और सोच-विचार के कारण उसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थीं। शरीर भी पतला और पीला पड़ चला था। जिस ऐश-आराम में लोटने वाले आरेञ्ज का हम पहले चिक्र कर चुके हैं अब यह वह आराम से चिन्दगी बिताने वाला आरेञ्ज न था। उमे दिन-रात चिन्ता रहती थी कि अत्याचार, अन्याय और अराजकता से देश को किस प्रकार रक्षा की जाय। अभी तक न्याय खुले आम विक्रता था। अमीर बड़े-से बड़ा कसूर करने पर भी बचे रहते थे। गरीब निर्दोष होने पर भी कोड़े खाने और जेल में ठूँस दिये जाते। राज्य के बड़े-से-बड़े अधिकारी तक रिश्वत लेते थे। यहाँ तक कि डचेज परमा भी प्राइवेट सेक्रेटरी आरमे-एट्रोज की सहायता से धार्मिक और राजकीय ओहदों को बेच-बेचकर खूब रुपया जोड़ रही थी। एग्मौएट इन सब बातों की अधिक परवाह नहीं करता था। डचेज इत्यादि के साथ दावतें

छडाने में ही प्रसन्न और सन्तुष्ट रहता था। परन्तु यह दशा देखकर आरेञ्ज का हृदय फटना था। आरेञ्ज चाहता था कि 'पंचायतो' की बैठक बुलाई जाय, धार्मिक 'खूनी कानूनों' की सख्ती कम कर दी जाय और अन्य सब समितियों को तोड़कर सारी सत्ता 'स्टेट कौंसिल' के हाथों सौंप दी जाय। परन्तु इन सुधारों को अमल में लाना सरल काम न था। 'पंचायतो' की बैठक बुलाना और 'खूनी कानूनों' को नरम करना फिलिप की निरकुशता की जड पर कुठाराघात करना था। चारों तरफ अन्धाधुन्ध वेईमानी और लूट का बाजार गरम था। इस भयकर अन्धकार में केवल एक दीपक टिमटिमा रहा था। आरेञ्ज अराजकता और अन्याय को समूल नष्ट कर डालने के लिए कमर कम रहा था।

इसी समय एगटवर्प में एक घटना हो गई। अक्टूबर मास में नये पन्थ के एक बड़े साधु पादरी को सूली पर चढ़ा देने का हुक्म दिया गया। जनता उस पादरी को बहुत आदर और स्नेह की दृष्टि से देखती थी। लोगों को उसका सूली पर चढ़कर जान गँवाना सहन न हो सका। जब पादरी सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो चारों ओर से लोगों ने उमड़कर सिपाहियों और मजिस्ट्रेटों पर हमला कर दिया। जल्लाद तो जल्दी से पादरी को सूली पर चढ़ाकर और हथौडों से उसका सिर फोड़कर भाग गया। सिपाही और मजिस्ट्रेट भी जान बचाकर भाग गये। परन्तु फिलिप ने जब यह समाचार सुना तो जल उठा। परमा को लिखा कि बलवे में शरीक होने वालों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि उन्हें याद रहे। बहुत से आदमियों को

फॉसियाँ देकर यह मामला तो ठण्डा पडा। मगर डयर जनता टिटेलमैन के जो धर्म से विमुख होने वालों को दण्ड देने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया था, अन्याय से घबरा उठी थी। जनता की तरफ से लफैण्डर्स की पंचायतों ने फिलिप को एक प्रार्थनापत्र भेजा कि 'टिटेलमैन' बड़ा अन्याय करता है। दोषी-निर्दोष जिसपर ज़रा नाराज़ हो जाता है उसी को घर से वसीट मगाँ, और गवाहों से जो जी में आता है ज़बरदस्ती कहलवाकर धर्म के नाम उन्हें सूली पर चढा देता है। कृपया ऐसा प्रवन्ध कर-दीजिए कि कम से कम गवाहों पर ज़बरदस्ती न की जाय। परन्तु इस प्रार्थनापत्र का फिलिप की ओर से कुछ उत्तर न मिला। उल्टा फिलिप ने परमा को यह लिखा कि अधर्मियों को दण्ड देने में बहुत सुस्ती दिखाई जा रही है। ट्रेण्ट में होनेवाली पादरियों की महान पंचायत ने जिस सख्ती से अधर्मियों को दण्ड देना निश्चय किया है उसी प्रकार नेदरलैण्ड में अधर्मियों को दण्ड दिया जाय। परमा की गति साँप छहूँदर की सी हो रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि नेदरलैण्ड की प्रजा इतनी ऊब उठी है कि यदि और अधिक सताई जायगी तो उबल पड़ेगी। डाक्टर विग्लियस की राय थी कि अधर्मियों के साथ ज़रा भी नरमी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। 'स्टेट कौंसिल' में निश्चय हुआ कि ट्रेण्ट की पादरियों की सभा के उस निश्चय के अनुसार, जिसे यूरोप के किसी देश ने स्वीकार नहीं किया है, नेदरलैण्ड में दूसरे मत वालों को दण्ड देना असम्भव है। यह भी निश्चय हुआ कि फिलिप को समझाने के लिए एगमोण्ट को स्पेन भेजा जाय। डाक्टर विग्लियस को एगमोण्ट के कागजात तैयार करने

का काम सौंपा गया । जब उन कागजातों पर 'स्टेट-कौंसिल' में चर्चा चली तो और सब सदस्यों ने तो कुछ न बोलकर कागजातों को एग्मोएट के साथ स्पेन भेजने के लिए केवल अपनी राय दे दी परन्तु विलियम आरेञ्ज, जो प्रायः बहुत कम बोला करता था, आज दिज्ञ खोलकर बोला । उसने कहा—“अब साफ-साफ बोलने का समय आ गया है । एग्मोएट-जैसा यूरोप का प्रख्यात मनुष्य फिलिप के पास इसी विचार से भेजा जा सकता है कि फिलिप को सब हात सच्चा-सच्चा बताकर उसको इस देश की यथार्थ परिस्थिति का परिचय करा दिया जाय । मैं समझता हूँ कि फिलिप से हम लोगों की तरफ से अब यह बात साफ-साफ कह दी जाय कि फाँसी, सूली, महन्त, जल्लाद, खूनी कानून, धार्मिक दण्ड और मुखबिरों के द्वारा शासन करना नेदरलैण्ड में एक प्रल भर के लिए कठिन है । इन सब असहनीय अत्याचारों की तुरन्त अन्त्येष्टि-क्रिया हो जानी चाहिए । अत्याचार का दिन उठ चुका है । नेदरलैण्ड स्वतन्त्र भूखण्ड है । उसके चारों ओर स्वतन्त्र देश हैं । और नेदरलैण्ड के लोग अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा जान पर खेलकर करने को तैयार हैं । फिलिप को यह भी साफ-साफ कह देना चाहिए कि उसके अधिकारी इस देश में लूट मचा रहे हैं । चारों तरफ रिश्वत का वाजार गर्म है, न्याय की विक्री होती है । इन सब बातों का भी तुरन्त ही अन्त हो जाना अत्यन्त आवश्यक है । 'स्टेट कौंसिल' के अतिरिक्त और सब समितियों को तोड़ देना चाहिए और 'स्टेट कौंसिलो' में ही दस-बारह और ऐसे सदस्य को नियुक्त कर देना चाहिए जो देश-सेवा, ईमानदारी और

योग्यता के लिए प्रख्यात हो। ट्रेण्ट के पादरियों के जिस निरवय को मारे यूरोप ने ठुकरा दिया है उसपर नेदरलैण्ड में अमल नहीं किया जा सकता। मैं स्वयं रोमन कैथलिक हूँ परन्तु मैं दूसरों की आत्मा पर शासन करने के पक्ष में नहीं हूँ। धर्म में मतभेद होने के कारण किसीको जान लेना मुझे असहनीय है। एग्मोण्ट भेजा जाता है तो हमारा यह सन्देशा भी फिलिप के पास साफ-साफ शब्दों में भेज दिया जाय।” आरेञ्ज का यह व्याख्यान शाम के सात बजे समाप्त हुआ। कौंसिल को बैठक दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सब पर आरेञ्ज के व्याख्यान का बड़ा प्रभाव पड़ा। डाक्टर विग्लियस को पूरा विश्वास हो गया कि इस व्याख्यान को सुनकर सबका मत फिर जायगा। उसे रात भर नींद नहा आई। बेचैनी से करवटें बदलता रहा। विग्लियस को अपनी वक्तव्य और तर्क-शक्ति पर बड़ा भरोसा था। रात भर पड़ा-पड़ा सोचता रहा कि कल मेरा ऐसा तर्कपूर्ण भाषण कौंसिल में होना चाहिए कि आरेञ्ज के व्याख्यान का सारा प्रभाव मिट जाय। प्रातःकाल अंधेरे हो उठा, और कौंसिल में जाने के लिए कपड़े पहनने लगा। रात-भर सोच-विचार और चिन्ता के कारण नींद नहीं आई थी। इसलिए दिमाग की रगों में खून दौड़ पड़ा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। नौकरों ने उठाकर चारपाई पर लिटा दिया।

विग्लियस कार्य करने के बिलकुल अयोग्य हो गया, इसलिए उसकी जगह एक दूसरा विद्वान् हौपर नियुक्त कर दिया गया। आरेञ्ज के विचारों के अनुसार एग्मोण्ट के कागजात में कुछ फेर-फार तो किया गया परन्तु इस थोड़े से

फेरफार से आरेख को अधिक सन्तोष नहीं हुआ। एग्मोएट ने बड़ी शान के साथ नेदरलैंड से बिदाई ली। मित्रों ने खूब दावतें दीं। एक दावन में ब्रेडरोड, ह्यूउट्ट्रेटन, छोटा मेन्सफील्ड इत्यादि ने उत्पात भी मचा डाला। ग्रेनविले के मित्र एक पादरी को दावत में बुलाकर उसका मजाक उड़ाया गया। सलाह ठहरी कि पादरी का खूब शराब पिलाकर मेज के नीचे बन्द कर दिया जाय। एक ने पादरी की टोपी उतारकर अपने सिर पर रख शराब पा और फिर दूमरे को टोपी दे दी। उसने भी उसी तरह शराब पीकर तीसरे को टोपी दे दी। शराब के प्याले के साथ-साथ बेवारे पादरी का टोपी भी चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। किसी ने पादरी के ऊपर पानी भी उड़ाने दिया। पादरी को बहुत क्रोध आया। एग्मोएट ने बड़ी कठिनाई से झगड़ा होते-होते बचा लिया। जहाँ ब्रेडरोड साहब पधारते थे, वहाँ ऐसे उत्पातों को कभी कमी नहीं रहती थी। चलते समय ब्रेडरोड सैफ़ों कसमें खाकर एग्मोएट को विश्वास दिलाने लगा कि, यदि स्पेन में तुम्हारा बाल भा बाँका हो गया तो ग्रेनविले और उसके सारे साथियों की जान ले ली जायगी। तुम्हारी सेवा के लिए मैं परमात्मा को भी छोड़ सकता हूँ।

स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुँचने पर एग्मोएट का बड़ी धूमधाम से स्वागत हुआ। जैसे ही वह महल में पहुँचा, फिन्निप 'कार्यकारिणी समिति' से उठकर भागता हुआ आया। एग्मोएट को घुटनों पर बैठने अथवा प्रणाम करने का अवकाश न देकर उसके गले में चिपट गया और बड़े स्नेह से अलिंगन किया। दरवार में नवने उमकी बड़ी खातिर की। भला जिसकी

खातिर करने का स्वयं राजा को इतना ध्यान था उसकी खातिर में दरबारी एक दूसरे से स्पष्टी क्यों न करते ? एगमोएट को फिलिप रोज अपने साथ खाना खिलाता और अपनी गाड़ी पर साथ-साथ टहलाने ले जाता था । रुइगामज के घर पर एगमोएट के ठहरने का प्रबन्ध किया गया था । गोमज एक चालाक आदमी था । रोज एगमोएट को सरकार की तरफ फोड लेने का प्रयत्न किया करता । ग्रेनविले की सलाह के अनुसार फिलिप एगमोएट से व्यवहार करके, जिस कार्य के लिए एगमोएट आया था, उसे निष्फल करने का प्रयत्न करने लगा । खाने-पीने, हँसी-मजाक और खेल-तमाशो में ही सारा समय बीत जाता । जब एगमोएट मतलब की बात चलाता तो फिलिप उससे बाल-बच्चों का समाचार पूछने लगता अथवा और इधर-उधर की बातें करके मुख्य विषय टाल देता । एगमोएट पर बहुत-सी मालगुजारी और सरकारी कर्जा चढ़ गया था । फिलिप ने सब माफ कर दिया और लगभग एक लाख रुपये के मूल्य की भिन्न-भिन्न वस्तुयें भी एगमोएट को भेंट में दीं । दावतें देकर, भेंट चढाकर और खूब खातिर करके फिलिप ने एगमोएट का हृदय जीत लिया । एगमोएट फिलिप के व्यवहार से प्रसन्न होकर अपना कार्य भूल गया । नेदरलैण्ड चलते समय फिलिप ने परमा के लिए उसे एक पत्र देकर कहा—“डचेज परमा से कहना कि नेदरलैण्ड में अधर्मियों का जोर बढ़ते देखकर मुझे बड़ा दुःख होता है । कौंसिल का तुरन्त एक विशेष बैठक बुलाकर शास्त्रियों, पण्डितों और महन्तों की सलाह से विचार करना चाहिए कि ट्रेण्ट के निश्चय पर किस प्रकार अमल हो सकता है । जिससे अधर्मियों की वाढ भी

रुक जाय और उनको शहीद बनकर सम्मान पाने का मौका भी न मिल सके।” एगमोएट पर ऐसी जादू की लकड़ी फिर गई थी कि वह ये सब बातें बड़े सन्तोष से खडा चुपचाप सुनता रहा। फिलिप ने और किसी सम्बन्ध में कोई बात न छोड़ी। एगमोएट ने फिलिप के व्यवहार से समझा कि फिलिप नेदरलैण्ड की भलाई के लिए बड़ा उत्सुक है। मीधा-सादा एगमोएट फिलिप के कौटिल्य में फँस गया। ब्रमेल्स लौटकर उसने फिलिप की महानता, दयाशीलता और आतिथ्य-सत्कार के बड़े गुण गाते हुए कौंसिल में कहा—“फिलिप वास्तव में नेदरलैण्ड के हित के लिए बहुत चिन्तित है। यहाँ के सरदारों से जरा भी नाराज नहीं हैं। अन्य समितियों को तोड़कर ‘स्टेट कौंसिल’ को बढ़ाना उसकी राय में देश के लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए वह ऐसा करने को तैयार नहीं। अधर्मियों के दण्ड के सम्बन्ध में महागज ने डचेज़ परमा के पास सन्देशा भेज कहा है कि धर्मशास्त्रियों और विद्वानों की सभा करके यह सारा मामला तय कर लिया जाय।” आरेञ्ज और उसके साथियों को एगमोएट की बातें सुनकर सन्तोष नहीं हुआ। परन्तु वे चुप बैठे रहे।

कुछ समय बाद फिलिप की तरफ से परमा के पाम धार्मिक मामले में सख्ती करने और कठोर दण्ड देने के सम्बन्ध में नये आदेश आये। इस पर आरेञ्ज और उसके साथियों को बड़ा क्रोध आया। वे कड़ने लगे कि एगमोएट से बड़ी मोठी बातें हुई थीं। बड़े दया के भाव दिखाये गये थे। और एगमोएट की पीठ फिरते ही ये नये क्रूर आदेश आते हैं। फिलिप पर कैसे विश्वास किया जाय ? एगमोएट की भी आँखें खुनीं। फिलिप के धोका देने पर

उसे बड़ा क्रोध आया और जलकर कौंसिल में उसने खूब कड़ी वार्ते सुनाई । आरेञ्ज ने एग्मोएट को फटकारकर कहा कि 'तुमने स्पेन में खूब मजे उड़ाये । अपनी मुट्टी गर्म की । देश और साथियों को भूल गये ।' अपने प्रिय मित्र आरेञ्ज के मुख से ये शब्द सुनकर एग्मोएट को बड़ा दुःख हुआ । कई दिन तक वह घर से नहीं निकला और कहने लगा कि अब ऐसे कार्यों का भार मैं कभी अपने ऊपर नहीं लूँगा ।

फिलिप के आदेशानुसार शास्त्रियों और पण्डितों की एक सभा की गई । उसमें यह निश्चय हुआ कि धार्मिक मामलों में उसी कठोरता से काम लिया जाय जिस कठोरता से ३५ वर्ष से काम लिया जाता रहा है । अन्यथा सच्चे सनातनधर्म का नाश हो जायगा । जनता के लिए दिन-प्रति-दिन अन्याय असह्य होता जा रहा था । नागरिक प्रायः म्युनिसिपल्टियों पर दोषारोपण करते थे कि म्युनिसिपल्टियाँ हमें इस जुल्म से क्यों नहीं बचातीं । टिटेलमैन और उसके साथियों ने पूरा रावण-राज्य स्थापित कर रखा था और फिर भी असन्तुष्ट थे । फिलिप को लिखते थे कि 'सरकारी कर्मचारी हमारी हृदय से सहायता नहीं करते, इसलिए हम पूरी तरह परमात्मा की सेवा करने में असमर्थ हैं । अधर्म की बाढ बढ़ रही है । हमारी जान खतरे में है । कृपया हमारी सहायता कीजिए ।' फिलिप ने लिखा—“अधर्मियों को जनता के सामने सूली पर चढ़ाना ठीक नहीं है क्योंकि जनता जय-घोष से उनका उत्साह बढ़ाती है । मरते समय उन्हें सन्तोष मिल जाता है । रात के समय घुटनों के बीच सिर बाँधकर, कालकोठरी में अपराधियों को पानी की नौदों में डुबा-डुबाकर दम घोटकर

मारना चाहिए ।” टिटेलमैन को अपने हाथ से स्वयं पत्र लिखकर फिलिप ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और लिखा—“मैं तुम्हारी रुपये-पैसे और आदमी से हर समय सहायता करने को तैयार हूँ । धर्म और ईश्वर के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ ।” डचेज़ को फिलिप ने लिखा—‘मैंने एगमोएट से बातचीत करके उन्हें जो विश्वास दिलाया था उसके अतिरिक्त कोई भी नवीन आदेश नहीं है । धार्मिक मामलों में किसी पर रियायत नहीं की जायगी । शास्त्रियों और पण्डितों की सभा ने जो निश्चय किया है, उसी के अनुसार अमल किया जाय । छोटे-बड़े किसी भिन्न मत-वाले को छोड़ा न जाय । सब सरकारी नौकरों के पास नये फ़रमान भेज दो कि खूब सख्ती से काम लें । टिटेलमैन और उसके साथियों की हर प्रकार से फ़ौरन सहायता पहुँचाओ ।” एगमोएट को भी फिलिप ने एक पत्र लिखा—“धर्म के सम्बन्ध में ढिलाई और कमजोरी दिखाना पाप है । शास्त्रियों ने जो फैसला किया है, वह उपयुक्त है । मुझे विश्वास है कि इस धार्मिक कार्य में तुम मेरी पूरी सहायता करोगे ।”

इन नये आदेशों के कारण देश-भर में एक आग भडक उठी । बहुत से जोश दिलाने वाले परचे जनता में चारों ओर वँटने लगे । आरेञ्ज और एगमोएट के घरों पर भी लोग लिख-लिखकर कागज़ लगा जाते थे—“अब क्या सोचते हो ? समय आ गया है । देश और जाति का साथ दो ।” सरदारों के घरों पर दावतों में सरकार की तीव्र आलोचना होने लगी । नौजवान एक दूसरे से देश की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञायें लेने लगे । ‘स्टेट कौंसिल’ में फिलिप के नये आदेशों पर चर्चा चली ।

सरकार की तरफ से कहा गया कि इन आदेशों पर अमल होना चाहिए। शाहजादा आरेज ने उठकर कहा कि 'हुक्म उदूलो' और 'हुक्म मानने' की बीच अब कोई रास्ता बचा नहीं है। फिलिप के आदेश ही ऐसे हैं कि उनको मानने के अतिरिक्त चर्चा के लिए स्थान नहीं है। परन्तु हम इतना कह देना चाहते हैं कि इन आदेशों से देश में जो दुष्परिणाम होंगे उसके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं हैं। हार्न और एग्मोएट ने आरेज का अनुमोदन किया। डाक्टर विग्लियस खूनी कानूनों का रचयिता था। सदा से वह धार्मिक मामलों में सख्ती करने का पक्षपाती था। आरेज इत्यादि को जिम्मेवारी से अलग होते हुए देख और आने वाले तूफान का विचार करके वह भी घबरा गया, एवं कहने लगा कि जब आरेज-जैसे सरदारों की राय है कि इन आदेशों पर अमल करने से देश में बड़ी दुर्घटनाएँ होंगी, तो सरकार को इस मामले में जल्दी नहीं करना चाहिए। परन्तु, फिलिप के आदेशों में ढिलाई करने की गुञ्जाइश नहीं थी। अस्तु, निश्चय हुआ कि फिलिप के हुक्म के अनुसार नगर-नगर, ग्राम-ग्राम में खूनी कानूनों की घोषणा कर दी जाय और अधिकारियों की आज्ञा दे दी जाय कि सख्ती से काम लें। डचेज इस जुल्म के परिणाम से घबराती थी। परन्तु भाई की आज्ञा भंग करना भी उसकी शक्ति के बाहर था। आरेज ने अपने पडासी के कान में मुककर कहा—“भाई! अब ऐसा भयंकर दृश्य आरम्भ होने वाला है जिसका हम लोगों ने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया होगा।” आरेज की आज की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई।

इसी वर्ष सरदार मौण्टनी और डचेज परमा के पुत्रों के चडी धूमधाम से विवाह हुए। दावतों और खेज-तमाशों के शौकीन नेदरलैण्ड के सरदार इन मौकों पर सदा की भांति एकत्र हुए। परन्तु अब की बार सब सरदार केवल नाच-रंग देखकर चले जाने के लिए ही नहीं आये थे। कुछ नौजवानों के हृदय सरकार के अत्याचार के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा करने के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने इन मौकों का फायदा उठाया। आपस में बात-चीत करके एक से विचार के कुछ नौजवानों ने निश्चय किया कि सरकार के अत्याचार के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा करने के लिए एक 'गुप्त सस्था' बनाली जाय। एक शपथ-पत्र भी तैयार किया गया, जिम पर लोगों ने हस्ताक्षर कर दिये। यह भी निश्चित हुआ कि जा लोग हम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हों, उन सब के हस्ताक्षर करा लिये जायँ। शपथ-पत्र पर सबमे पहले ब्रेडरोड, मैसफील्ड और आरेञ्ज के छोटे भाई लुई ने हस्ताक्षर किये। कहा जाता है कि शपथपत्र की भाषा सेण्ट एल्डगोएडे ने लिखी थी। एल्डगोएडे उस समय का प्रख्यात देशभक्त-कवि, लेखक और राजनीतिज्ञ था। आगे चलकर आरेञ्ज को एल्डगोएडे से बड़े-बड़े कठिन अवसरों पर अच्छी सहायता मिली। एल्डगोएडे लुई का घनिष्ठ मित्र था। उसकी अवस्था भी लुई के बराबर ही थी। परन्तु इन अट्ठाईस वर्ष की अवस्था में ही एल्डगोएडे ने बहुतसी भाषाओं में पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त कर लिया था। विद्वत्ता में बड़े-बड़े शास्त्रियों के कान काटता था। सरकारी अत्याचार और धार्मिक जुन्म का घोर विरोधी था।

लुई में पूर्व समय के आदर्श योद्धाओं के सारे गुण थे । वह सज्जन, उदार और दयावान था । युद्ध में जाने से पहले सदा अपनी माता की भेजां हुई प्रार्थनायें पढता था । लड़ाई के मैदान में शत्रु पर सिंह की तरह झपटता था । कठिन से कठिन सग्राम में उसकी भौंहों पर बल नहीं पडता था । बड़ी दृढ़ता से लडता था । अपने प्रसन्न स्वभाव से लुई मित्रों और भाइयों सभी को प्यारा था । वह ब्रेडरोड की तरह ठट्टे भी लगाता । परन्तु, ब्रेडरोड के अवगुण उसमें नहीं थे । उन्नीस वर्ष की अवस्था में ही उसने एग्मोएट के साथ सेंट क्विगटेन की लड़ाई में बड़ी वीरता दिखाई थी । जब लुई ने देश की स्वतन्त्रता के लिए खड्ग उठा लिया । तो फिर अन्त तक चैन से नहीं बैठा । आयु के हिसाब से उसका जीवन छोटा हुआ, काम के अनुसार बहुत बडा । शाहजादा आरेञ्ज ने उसके सहारे और बल पर बड़े-बड़े काम किये । जब देश के लिए लड़ता-लडता वह लडाई में मारा गया, तब आरेञ्ज की बांह-सी कट गई । लुई का कद छोटा था, बदन गठा हुआ था, मुख पर सदा हंसी रहती थी । वह युद्धकला में प्रवीण था ।

गुप्त-संस्था के प्रथम कार्यकर्ताओं में निकलस नाम का एक मनुष्य था । यह भी बडा जोशीला था और सरकार का उद्दण्ड विरोध करना उसके स्वभाव में शामिल हो गया था । 'गोल्डन फ्लीस' संस्था का नौकर होने के कारण उसे उस संस्था का एक मन्त्रा मिला था । उसे लगाकर वह व्याख्यान देता फिरता । जिससे सरकार के विरुद्ध सर उठाने में लोग यह विचार कर न करें कि जब सरकारी संस्था के पुरुष ही सरकार का विरोध करते फिरते हैं तो फिर हमें क्या डर है ? उसकी राय थी कि हथियार और

मनुष्यों के लिए इन्तज़ार करने में समय बिताना ठीक नहीं है। सरकार पर तुरन्त हज़ा बोल देना चाहिए। आरंज के साथी निकलस के अन्ध जोश पर असन्तोष प्रकट करते थे। इसलिए उसने दुःखी होकर लुई को लिखा—“लोगों की राय है कि सरकारी भेडियों के प्रति हम लोग केवल अपना असन्तोष प्रकट करें। हम मीठे-मीठे शब्दों में उन्हें समझाने का प्रयत्न करें, वे हमारे सिरों पर आरेचलायें, हमें अग्नि में भोंकें। अच्छा तो फिर ऐसा ही होने दीजिए। वे तलवार लें, हम कलम सम्हालें। उनकी तरफ से काम हो, हमारी ओर से शब्दों की बौद्धार हो। वे हँसे, हम आँसू बहायें। ईश्वर हो कृपा करे। मेरी तो छाती फटी जाती है।” इस पत्र से निकलस के भावों का पता चलता है। मैसफील्ड कुछ ही दिन बाद गुप्त-संस्था से अलग हो गया।

गुप्त-संस्था के शपथ-पत्र में कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिस पर हस्ताक्षर करने में किसी कैथलिक मत वाले को आपत्ति हो सके। केवल इतना लिखा था—“फिलिप के विदेशी कर्मचारी धर्म के नाम की ओट में लोगों पर अत्याचार करते हैं। लोगों का माल ज्वत्त करके अपना घर भरते हैं। इस अन्याय से एक दूसरे की रक्षा करने और राजा को बदनामी से बचाकर उसकी सच्ची सेवा करने की हम सब शपथ खाते हैं।” आरंज, हॉर्न, एग्मोएट, वरधन, मोएटनी इत्यादि गुप्त-संस्था में सम्मिलित नहीं हुए। उनसे इन संस्था के बनाने के सम्बन्ध में भी कोई राय नहीं ली गई थी। आरंज को अपने भाई लुई और सेण्ट ऐल्ड-गोएडे पर विश्वास था। परन्तु ब्रेडगेड-जैसे मनुष्यों पर उसे भरोसा नहीं था। कुछ ही दिनों में शपथ-पत्र पर बहुत से लोगों

के हस्ताक्षर करा लिये गये । छोटे-छोटे सरदारों के अतिरिक्त दुकानदारों, सौदागरों और कारोगरों के पाम भी यह शय्य-पत्र घुमाया गया । सरदारों में अधिकतर छोटे सरदारों और नव-युवकों ने ही हस्ताक्षर किये थे । इन सरदारों में से कुछ तो ऐसे थे जो वास्तव में कैथलिक मत के थे परन्तु अत्याचार के विरुद्ध थे । कुछ नये पन्थ के कट्टर पक्षपाती थे । कुछ तमाशा देखने के शौक से सम्मिलित हो गये थे । कुछ बिगड़े हुए सरदार अपनी जायदादें नाच रंग में उड़ा चुकने पर इस विचार से आ मिले थे कि महन्तों की जायदादें हमें मिल जायेगी । आरेञ्ज इत्यादि ने इस संस्था में सम्मिलित न होकर अच्छा ही किया । जिस संस्था में ऐसे भिन्न-भिन्न स्वार्थ रखने वाले लोग आ मिले थे उससे देश-हित होना तो दूर रहा उलटे कार्य में बाधा पडने की ही अधिक सम्भावना थी । गुप्त-संस्था के सदस्यों की संख्या बढ़ जाने से इन लोगों का जोश भी बढ़ा । सभाओं में, दावतों में, जहाँ कहीं संस्था के दो-चार सदस्य एकत्र हो जाते, सरकार की कड़ी आलोचना होने लगती । तोखी कडवी, अश्लील और अण्डबण्ड बातें सरकार के विरुद्ध कही जातीं । स्पेन के जासूस हर जगह लगे ही रहते थे । ज़रा-ज़रा सी बात की खबर फिलिप के पास पहुँचा दी जाती । इवर विलियम आरेञ्ज ने भी अपने जासूस फिलिप के शयनागार तक में लगा रक्खे थे । फिलिप के सन्दूक, कोट, जाकेट की जेबों और तकिये के नीचे रक्खे हुए गुप्त पत्रों तक की नज़रें विलियम के पास आ जाती थीं । कुछ लोग यह दोषारोपण करने का प्रयत्न कर सकते हैं कि विलियम-जैसे साधुचरित्र मनुष्य को ऐसा चाणक्य-व्यवहार करना उचित

नहीं था। परन्तु यदि विलियम ने कुटिल नीति का प्रयोग न किया होता तो उस कुटिल काल में स्पेन-जैसे महान् साम्राज्य के हथ-कण्डों से देश की रक्षा करना असम्भव था। फिलिप के चंगुल में फँसकर अन्य प्रख्यात नेताओं की तरह उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता और देश का भी कुछ कल्याण न हो पाता। गुप्त-सूत्रों द्वारा फिलिप की मन्त्रणाओं का पता लगाकर विलियम आरेञ्ज आने वाली आपत्तियों से बचने का पहले ही से उपाय सोच लेता था। उसकी इस सजगता से फिलिप की बहुत-सी चालें व्यर्थ हो जातीं और देश का बड़ा कल्याण होता। बड़े-बड़े सरदार गुप्त-मस्था में सम्मिलित नहीं हुए थे। परन्तु सरकार की नीति के विरुद्ध उन्होंने भी अपना मत जाहिर कर दिया था। वरघन ने डचेज के पास इस्तीफा भेजकर लिख दिया— “धार्मिक मामलों में राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया जा सकता।” मेवम ने भी डचेज को ऐसा ही पत्र लिख भेजा। एग्मोएट ने डचेज से कहा कि अगर मुझे पता होता कि फिलिप ऐसी अनीति करेगा तो मैं स्पेन में ही उसके हाथ पर इस्तीफा रख देता। आरेञ्ज तो लिख ही चुका था। मौएटनी, क्यूलेम्बर्ग इत्यादि अन्य सरदारों ने भी इस्तीफे भेज दिये। बंचारी डचेज परमा की सॉप और छट्टूँ दर की सी गति हो रही थी। बड़ी धम-राती थी। फिलिप को खत पर खत लिखती कि “काले कानूनों पर अमल नहीं किया जा सकता। लगभग सारे प्रान्तों के गव-र्नरों ने आज्ञा पालन करने से इन्कार कर दिया है। सारा देश एक स्वर से कह रहा है कि ऐमे क्रूर कानून आज तक कभी नेद-रलैण्ड में जारी नहीं हुए।” फिलिप के सम्मुख दो ही मार्ग थे।

या तो वह नेदरलैण्ड-निवासियों की इच्छानुसार काले-कानूनों को रद्द कर दे या तनवार के जोर पर आज्ञा-पात्रन कराने का प्रयत्न करे। फिलिप ने दूमरा मार्ग चुना। नेदरलैण्ड में तलवार चमकाने की तैयारियाँ शुरू कर दीं। स्पेन में फौजों की भरती होने लगी। डचेंज परमा के प्राण मूखने लगे।

आधे-दिन के कष्टों से तग आकर लोग देश छोड़-छोड़ भाग पड़े। परदेशी व्यापारियों ने अपना माल-असबाब समेटकर घरों की राह ली। नेदरलैण्ड के आबाद नगरों में उल्लू बोलने लगे। केवल एक देश इंग्लैण्ड में ही नेदरलैण्ड के लगभग तीन हजार कारीगर जा बसे। इंग्लैण्ड के होशियार लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। कारीगरों का बस जाने के लिए हर प्रकार की सुविधायें दी गईं, परन्तु साथ साथ एक शर्त भी लगा दी गई कि प्रत्येक कारीगर परिवार को काम सिखाने के लिए कम से कम एक अगरेज अपने यहाँ रखना पड़ेगा। दूरदर्शी इंग्लैण्ड ने इस प्रकार नेदरलैण्ड के कारीगरों से कला-कौशल सीखकर अपने देशको मालामाल कर लिया। स्पेन-वाला ने नेदरलैण्ड के लोगों का खून बहाकर धर्म क पवित्र नाम को अपवित्र किया, इतिहास में कलंकित हुए और अपनी मूर्खता से अपना साम्राज्य भी खोया। विलियम आरंज के कथनानुसार इस समय तक सरकार लगभग पचास हजार आदमियों का वध कर चुकी थी। जब देश में इस प्रकार दिन दहाड़े मनुष्यों का शिकार खेना जा रहा हो तब व्यापार और उद्योग-धन्धे क्योकर फल-फूल सकते हैं? नेदरलैण्ड का उजड़ जाना स्वाभाविक ही था।

जन-साधारण और छोटे सरदारों का खूनी कानूनों के विरुद्ध

आन्दोलन शुरू हुआ। निश्चय हुआ कि पहले उच्च परमा के पास एक प्रार्थना-पत्र भेजा जाय। आरेख ने सोचा कि लोग कहीं उपाय न कर बैठें। इसलिए उसने आन्दोलन उठाने वालों की एक सभा बनाई। अन्य बड़े सरदारों को भी बुलाया। आरेख ने सब को यह समझाने का प्रयत्न किया कि, 'उद्वेग से काम लेना अनुचित है।' राजा के प्रति अपमान अथवा अश्रद्धा भी नहीं दिखानी चाहिए। नरमी से काम निकल सकता है। परन्तु लोगों ने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। सब बड़े आदेश में थे। क्रोध से परिस्थिति भयकर हो चली। आरेख ने उच्च परमा को परिस्थित का यथार्थ ज्ञान करा देने का विचार किया। आन्दोलनकारियों की गुस्ताखी पर सरदार मेवम को बड़ा क्रोध आ गया। बोला—“ये सब बड़माश और राजद्रोहो हैं। उच्च परमा को धमकाकर अपमानित करना चाहते हैं। यदि महाराज क्लिप मेरो सहायता करें तो मैं सबका सिर उडवा दूँ।” आरेख ने झिडककर कहा कि पायजामे से बाहर होने से काम नहीं चलेगा। इनमें अनेक जिम्मेदार आदमी भी हैं। आरेख ने प्रयत्न करके प्रार्थनापत्र की भाषा नरम करवा दी। परन्तु, इसके अतिरिक्त लोगों ने उसकी और कुछ सलाह नहीं मानी। मेवम, आरेख से अलग हाकर सरकार के पक्ष में हो गया। 'कार्यकारिणी-समिति' में प्रार्थनापत्र के आन्दोलन का जिक्र छिड़ा। सरदार मेवम लम्बी चौड़ी बात बनाकर कहने लगा—“लोगों ने बड़ा भारी पढ्यन्त्र रचा है। मैंने विश्वस्तसूत्र से सुना है कि देश के भीतर-बाहर सब मिलाकर आन्दोलनकारियों के पास ३५ हजार फौज हो गई है। इसी मत्ताह पन्द्रह सौ अस्त्र-शस्त्रों से सु-

सज्जित मनुष्य डचेज परमा के पास आने वाले हैं ।” एगमोट ने भी उसकी उन वे-सिर-पैर की गाँवों में हाँ-मे-हाँ मिलाते हुए कहा—“मुझे भी पता चला है कि पड्यन्त्र के सरदार, कप्तान, नायक सब नियत हो चुके हैं । शीघ्र ही उपद्रव उठने वाला है । एरमवर्ग और बेरलमोट की राय हुई कि प्रार्थनापत्र लेकर आने वाले मनुष्यों को महल में घुसने न दिया जाय । यदि घुसने से न रोका जा सके तो घुस आने पर सबके मिर कटवा लेने चाहिए । आरेज ने कहा कि, ‘ऊल-जलूल काम करने से मामला बिगड जायगा । प्रार्थनापत्र लाने वालों की शिकायतें आदरपूर्वक सुननी चाहिए । उनमें बहुत से सरदार हैं; अच्छे-अच्छे कुलों के मनुष्य हैं । प्रार्थनापत्र लाने का अधिकार तो भिखारी तक को है । फिर इन सरदारों की प्रार्थना न सुनकर उन्हें अपमानित क्यों किया जाय ?’ परमा आन्दोलन का हाल सुनकर घबरा उठी । फिलिप को लिखा—“अब जनता की बात मानकर खूनी कानून रद्द करने या सैनिकों की सहायता से शासन करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है । मेरी राय से खूनी कानूनों की कठोरता कम कर देनी चाहिए ।” परमा की राय हुई कि ब्रसेल्स में उत्पात होने का डर है इसलिए मुझे किसी दूसरे नगर में चला जाना चाहिए । सरदारों ने कहा कि ऐसा करने से जनता पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा । आपको ब्रसेल्स छोड़कर नहीं जाना चाहिए ।

प्रार्थना-पत्र का आन्दोलन खडा करने वालों ने निश्चय किया था कि परमा के पास प्रार्थना पत्र लेकर सरदार ब्रेडरोड जायँ । उनके पीछे तीन सौ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मनुष्य

हो। ब्रेडरोड का कुछ परिचय पाठकों को मिल चुका है। उसका हालैण्ड के सब से प्राचीन राजवंश में जन्म हुआ था। शायद इसीलिए वह समझता था कि स्पेन से आने वाले फिलिप में हालैण्ड का राजा बनने का मुझे अधिक अधिकार है। ब्रेडरोड जितना स्पेन वालों का शत्रु था, उतना ही पानी पीने का भी शत्रु था। शराब की बोतलों पर बोतलें हर वक्त लुढ़काता रहता था। शराब के प्याले की सहायता से विदेशियों का राज्य नष्ट कर ढालने का उसे विश्वास था। बड़ा हिम्मत वाला भी था। परन्तु देश के लिए फौसी चढ़ना अथवा युद्ध में प्राण गँवाना उसके भाग्य में नहीं था। उद्दण्ड, उद्धत, शराबी और ऐयाश होते हुए भी वह सहृदय और दयालु था। हालैण्ड के अत्यन्त प्राचीन शराबी, लड़ाकू और लूटमार करने वाले राजवंशों का वह एक नमूना था। सोलहवीं सदी के वजाय यदि वह ग्यारहवीं सदी में पैदा हुआ होता तो देश के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होता। परन्तु, ब्रेडरोड में नेता बनने के गुण नहीं थे। राजकुमार तथा अक्खड़ होने के कारण लोगों ने उसे अगुआ बना लिया था।

३ अप्रैल सन् १५६६ ई० के दिन ब्रेडरोड स्वयं कमर में पिस्तौल लगाये, और अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित तीन सौ सवारों को साथ लिए, संध्या समय राजधानी ब्रसेल्स में घुसा। शहर में शोर मच गया। लोगों ने जयघोष के साथ उसका स्वागत किया। ब्रेडरोड का कद लम्बा था। शरीर सुढौल-सुन्दर और गठीला था। तीन सौ जवानों की टुकड़ी के साथ आता हुआ ऐसा फत्रता था, मानों प्राचीन समय का कोई राजपूत वीर रणचण्डी का पूजन करने निकला हो। ब्रसेल्स में ब्रेडरोड लुई नसाऊ के महल में ठहरा था।

५ एंप्रल को सरदार क्यूलमवर्ग के महल में, जो परमा के राज-गृह से कुछ ही दूर था, सब सरदारों की एक सभा हुई। सभा समाप्त होते ही सब अपने-अपने दरवागी कपडे पहनकर दो-दो की लाइन में राजभवन की ओर चले। सबसे पीछे हाथ में हाथ मिलाये लुई और ब्रेडरोड थे। महल के आगे असंख्य मनुष्यों की भीड़ जमा हो गई थी। देश को परतन्त्रता की जजीरों से

क्त कराने का प्रयत्न करनेवाले वीरो को आता देख लोग जय-जयकार करने लगे। सब सरदार परमा के सामने पहुँचकर खड़े हो गये। परमा ने देखा कि नेदरलैण्ड के बड़े से बड़े परिवारों के सम्बन्धी आन्दोलन में शरीक होकर आये हैं। उसे बड़ा धक्का लगा। ब्रेडरोड ने आगे बढ़कर परमा को मुककर सलाम किया और कहा—“हुजूर! मैं जानता हूँ लोगों ने हमारे सम्बन्ध में आपसे बहुत-सी भूठी-सच्ची बातें कहीं हैं और चारो ओर अफवाह फैलाई गई है कि ‘हम लोग राजद्रोही हैं, षड्यन्त्र रच रहे हैं, धमकियाँ देकर आपका अपमान करना चाहते हैं, शासन में अड़चनें डालना चाहते हैं, विदेशों से मिलकर फिलिप का राज्य उलट देने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह सब सफेद मूठ है। हमारी प्रार्थना है कि जो लोग आपसे ऐसी बातें कहते हैं, उनके नाम आप प्रकट कर दें। और हमारी व्यर्थ बदनामी करने वालों को समुचित दण्ड दें।” इतना कहकर ब्रेडरोड ने प्रार्थना-पत्र परमा के सामने रख दिया। प्रार्थनापत्र में लिखा था—
“खूनी कानूनों से नेदरलैण्ड के लोग उकता उठे हैं। हम लोग समझते थे कि पचायतें प्रयत्न करके इन कानूनों को रद्द करवा देंगी। परन्तु हम लोग प्रतीक्षा करते-करते थक गये हैं। कानूनों

की कठोरता में जरा भी कमी नहीं होती। हमें भय है—देश में विद्रोह हो जायगा। यदि विद्रोह हो गया, तो हमी लोगों को सब से अधिक मुसीबत उठानी पड़ेगी। हमारे घर-बार और जायदादे लुट जायँगी। हमें बड़ी चिन्ता है। इस चिन्ता के कारण ही हम लोग आपके पाम प्रार्थना करने आये हैं। खूनी कानूनो के कारण भी हमारी जायदादें और जोवन प्रत्येक क्षण खतरे में रहते हैं। कानूनो के अनुमार जो मनुष्य धर्म के विरुद्ध चलने वाले अपराधी को पकड़वायेगा, उसको अपराधी को जायदाद मिल जायगी तथा अपराधी को प्राण दण्ड मिल जायगा। धार्मिक मुकदमों में गवाहों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी जायदादों पर दाँत रखने वाले किसी मनुष्य के झूठमूठ शिफायत कर देने पर ही हमें प्राणदण्ड हो सकता है। भला जब हमारा जानो-माल इस प्रकार अधिकारियों के स्वेच्छान्तर पर छोड़ दिया गया है, तब हम चुप कैसे बैठ रहे ? श्रीमतीजी से हमारी नम्र प्रार्थना है कि महाराज फिलिप को सब बातें समझाकर खूनी कानूनो को शीघ्र से शीघ्र रद्द करवा दिया जाय। जब तक महाराज का उत्तर नहीं आता, तब तक अपनी ओर से तुरन्त आदेश निकालकर खूनी कानूनो के अनुमार लोगों के प्राण लेना बन्द करवा दीजिए।” प्रार्थनापत्र सुनकर डेवेज परमा का रंग पीला पड गया उसकी आँखों में आँसू आ गये। बड़ी कठिनता से सम्हलकर बोली—“अच्छा, आप लोग जाइए। मैं सलाह करके उचित उत्तर दूँगी।” ब्रेडरोड और उसके साथी एक-एक करके परमा के सामने आये और फर्शी सनाम करके बाहर चले गये। वाद को स्टेट कौंसिल में बहुत देर तक चर्चा हाँती रही। विलियम

आरेख ने परमा को शान्त करने के विचार से कहा—“वाग्ध्व मे प्रार्थनापत्र लाने वाले लोग वागी नहीं हैं। सब अच्छे कुटुम्बों के राजभक्त मनुष्य हैं। आपके पास अर्जी इस विचार से लाये हैं कि उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई तो देश बहुत-सी आपत्तियों से बच जायगा। वेरलामोण्ट ने परमा से कहा—“क्या हुजूर, इन भिखारियों से डर गई? इन लोगों को कौन नहीं जानता? अपनी जायदादें कुप्रबन्ध से नष्ट करके सरकार को सुप्रबन्ध का पाठ पढ़ाने आये हैं? मेरी राय है कि इनकी प्रार्थना का उत्तर हुजूर को तलवार से देना चाहिए। जितनी शीघ्रता से ये लोग महल पर चढ़कर आये थे उससे अधिक शीघ्रता से उन्हें वापिस भेजना चाहिए था।” एरेम्बर्ग ने कहा कि ‘सब आन्दोलनकारियों को तुरन्त ब्रसेल्स से निकाल देना चाहिए।’ वहस जोरों से हो रही थी। शायद हाल में पीछे रह जाने वाले ब्रेडरोड के कुछ माथियों ने चर्चा का कुछ अंश सुन लिया।

६ एप्रिल को ब्रेडरोड फिर बहुत से साथियों के साथ प्रार्थनापत्र का उत्तर लेने आया। परमा की तरफ से यह उत्तर पढ़ा गया—“द्वेज परमा महाराज फिलिप के पास आप लोगों की प्रार्थना मंजूर कराने के लिए एक आदमी भेजेंगी। महाराज फिलिप जो कुछ कर सकते हैं, करेंगे। धार्मिक कानूनों की सख्ती कम करने के लिए स्टेट कौंसिल एक मसविदा तैयार कर रही है। आप लोग जानते ही हैं कि इससे अधिक और कुछ करना श्रीमती के हाथ में नहीं है। महाराज से प्रार्थना की जायगी कि खूनी कानून रद्द कर दिये जायें। श्री महाराज का उत्तर आने तक उनकी तरफ से अधिकारियों को नर्मी से काम लेने का हुक्म भेज दिया

जायगा। आशा की जाती है कि तब तक आप लोग भी कोई ऐसा व्यवहार न करेंगे जिससे प्रतीत हो कि सनातन धर्म में परिवर्तन कराने की आपकी इच्छा है।”

८ एप्रिल को ब्रेडरोड फिर अपने साथियों सहित इस उत्तर का प्रत्युत्तर लेकर डचेज़ के पास गया और कहा—“सनातन-धर्म की रक्षा के लिए पचायतो की राय से जो कुछ महाराज निश्चय करेंगे, हम सब मानने और करने को तैयार हैं। कोई ऐसा कार्य हमारी तरफ़ से नहीं होगा, जिससे हुजूर को शिकायत का मौका मिले। परन्तु, यह हुक्म अभी निकल जाना चाहिए कि जब तक महाराज फिलिप का उत्तर नहीं आता किसी मनुष्य को धर्म के नाम पर पकड़ा अथवा सूली पर चढ़ाया नहीं जायगा।” डचेज़ ने कहा—“जो कुछ मैं कह चुकी हूँ उससे अधिक और नहीं कर सकती। पहले हुक्म के अनुसार अधिकारियों को पत्र लिखे जा चुके हैं। यदि वह पत्र आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं।” सरदार कुछ देर तक आपस में सलाह करते रहे। फिर परमा से प्रार्थना की गई कि ‘कम से कम यह घोषणा तो कर दी जाय कि प्रार्थनापत्र लाने वालों ने कोई कार्य अनुचित अथवा महाराज फिलिप को अपमानित करने के लिए नहीं किया है।’ परमा ने रूखे स्वर से कहा—“इसका फैसला मैं नहीं कर सकती। काल और आपके भविष्य कार्य इस बात के साक्षी होंगे। मैं जो कुछ उत्तर दे चुकी हूँ, उसमें एक अक्षर अधिक नहीं जोड़ सकती।” यह रूखा उत्तर पाकर सरदार चैन दिये।

परन्तु विजय जन-पक्ष की हुई। डचेज़ परमा ने कहा तो था

कि 'धार्मिक कानून' रद्द करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है; लेकिन वह रद्द करने पर लगभग राजी हो गई थी। उसने स्वीकार कर लिया था, कि अन्य कानूनों की तरह धार्मिक कानून भी पंचायतो की राय से ही बनाये जायँगे। लोगो को और क्या चाहिए था ? नेदरलैण्ड वाले जो अधिकार चाहते थे, उन्हें मिल गये। लोगो को खून की एक घूँट भी नहीं बहानी पडी और न त्याग की भट्टी में ही जलना पड़ा। देखते-देखते ही नेदरलैण्ड मे धार्मिक और राजनैतिक क्रान्ति सफल हो गई। ब्रेडरोड और उसके साथियो ने रंग-विरंगे कपड़े पहिनकर और डचेज परमा के पास प्रार्थना-पत्र ले जाकर ही देश की स्वाधीनता का संग्राम जीत लिया था। परन्तु यह सब स्वप्न था। अभी स्वाधीनता बहुत दूर थी। नेदरलैण्ड को रक्त की नदियों मे तैरकर निकलना था। कपटो के पहाड़ टूटने थे। स्वतन्त्रता देवी के मन्दिर का मार्ग बडा कठिन है।

ब्रेडरोड ने विजय की खुशी में क्यूलमवर्ग के राजभवन में मित्रों को एक ठाठ की दावत दे डाली। तीन सौ सरदार दावत में आये। शराव की बोटलो पर बोटलें चली। सरलता से विजय मिल जाने के कारण लोग उन्मत्त हो रहे थे। लोगो की राय हुई कि अपने दल का कुछ नाम रख लेना चाहिए। किसी ने कहा दल का नाम 'मित्र-मण्डली' उचित होगा। किसी ने कहा नहीं, 'स्वतन्त्रता के सिपाही' नाम अधिक उपयुक्त होगा। ब्रेडरोड शराव का प्याला लेकर उठा और बोला—“भाइयो, सरदार वेरलामौएट ने स्टेट कौंसिल की बैठक मे हम लोगो को भिखारी बताया। अपने दल का नाम 'भिखारियो का दल' बहुत उप-

युक्त होगा।” अधिकतर सरदारों को यह बात नहीं मालूम थी। ब्रेडरोड के मुँह में जब उन्होंने सुना कि वेरलामौण्ट ने हम लोगों को ‘भिखारी’ कह कर पुकारा था, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। परन्तु ब्रेडरोड ने सबको शान्त करके कहा—“भाइयो! इसमें नाराज होने की क्या बात है? इन ‘खूनी क्लानूनों’ का विरोध करते-करते हमें भिखारी बन जाना पड़े तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। भिखारी की उपाधि हमें खुशी में धारण कर लेनी चाहिए।” ब्रेडरोड ने तुरन्त नौकर से एक खप्पर मँगवाया। खप्पर को लवालब शराब से भरकर बोला—“बोलो ‘भिखारियों’ की जय” और एक घूंट में सब शराब चढ़ा गया। लोग ‘भिखारियों की जय’ ‘भिखारियों की जय’ जोर-जोर से चिल्लाने लगे। सब सरदारों ने ब्रेडरोड की तरह उठकर खप्पर-खप्पर भर शराब चढ़ाई।

मञ्चाक ही मञ्चाक में वेरलामौण्ट के क्रोध और ब्रेडरोड के परिहास से निकला हुआ ‘भिखारी’ शब्द नेदरलैण्ड वालों के लिए जादू भरा शब्द हो गया। जबतक नेदरलैण्ड में स्वतन्त्रता का सपना जारी रहा, तबतक इस शब्द की गूँज कोने-कोने से आती रही। ‘भिखारी’ शब्द का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि अमीरों के राजभवनों से लेकर गरीबों के झोपड़ों तक विद्रोह की लहर वह उठी। फिलिप को मालूम हो गया कि जिम जाति को उसने छेड़-छेड़कर पागल बना दिया था, वह किन वीरों की बनी थी। शराब पी चुकने पर खप्पर बीच के एक थमले में लटका दिया गया। सब सरदार उठे और खप्पर में थोड़ा-थोड़ा नमक डालकर एक साथ गाने लगे—

“इस नमक, इस रोटी, इस खापर की कप्तम है,
कोई कितने ही टॉन पीसे ये भिखारी न बढ़ेंगे।”

यह तुकबन्दी उसी समय वहाँ किमी ने गढ़ ली थी।

इसके बाद भी दावत समाप्त नहीं हुई। सरदार नशे में चूर हो रहे थे। किसी ने टोपी उलटकर लगा ली। किमी ने जाकट उल्टी करके पहिन ली। कुछ सरदार कुर्भियो और मेजों पर चढ़-चढ़ कर नाचने लगे। इतने में सरदार आरेञ्ज और एगमोएट भी आ पहुँचे। आरेञ्ज वहाँ इस विचार से आया था कि हो सके तो लोगों को समझा-बुझाकर उनके इस तमाशे को बन्द कराये और ह्यूसट्रेटन को अपने साथ ले जाय। एगमोएट ब्रेड-रोड से पहिले ही लड़ चुका था। एगमोएट इन सब तमाशा करने वाले सरदारों को घृणा की दृष्टि से देखता था फिर भी आज की इस दावत में आने के कारण एगमोएट पर आगे चनकर सरकार की ओर से राजद्रोह का दोषारोपण किया जायगा और उसे अपनी जान से ही हाथ धोने पड़ेंगे। ‘भिखारियों’ ने आरेञ्ज और एगमोएट के घुमते ही जय-घोष के नाद से आकाश गुँजा दिया। आरेञ्ज और एगमोएट को भी थोड़ी-थोड़ी शराब पीने पर बाध्य किया गया। अन्त में आरेञ्ज के बहुत कहने-सुनने से ‘भिखारियों’ की सभा विसर्जित हुई। ह्यूसट्रेटन को साथ लेकर आरेञ्ज और एगमोएट ‘स्टेट कौंसिल’ की बैठक में सम्मिलित होने डचेज के महल में चले गये। डचेज ने आरेञ्ज को सरदारों का तमाशा बन्द करा देने के लिए धन्यवाद दिया। ‘भिखारियों’ ने अपने दल के लिए खाली कपडे की एक नई वर्दी भी निश्चित कर ली थी। उसीको पहिने-पहिने बाजार में इधर-

उधर घूमते फिरते थे । बहुत से लोग उनको देखने को जुड़ जाते थे । जब ब्रेडरोड ब्रसेल्स से अपने सवारों के साथ वापिस चलने लगा, तब लोगो की बडी भीड इकट्ठी हो गई और मवने खूब जयध्वनि के साथ उसको बिदाई दी । ब्रेडरोड के सब सवारों ने एक साथ पिस्तौलो का फैर करके जनता को सलामी दी । रास्ते में एण्टवर्प इत्यादि नगरों में भी ब्रेडरोड ऐसे ही दृश्य रचाता गया । शगत्र का प्याला हाथ में ले-लेकर हर स्थान पर उसने लोगो के सामने कसमें खाई कि 'जबतक दम में दम है ब्रेडरोड खूनी कानूनों का विरोध करता रहेगा । तुम्हारे अधिकारों के लिए लडता रहेगा । एण्टवर्प से ब्रेडरोड उत्तर-हालेण्ड चला गया और वहाँ से लुई को एक पत्र मे लिखा कि 'भिखारियों की सख्या रेत के कणो की तरह असंख्य हो गई है ।' लोगो मे चारों तरफ गगम खबर फैल रही थी कि सरदारों के प्रार्थनापत्र का अच्छा प्रभाव पडा है । डचेज परमा ने अधिकारियों को हुकम भेज दिये हैं कि अधिक सखती न की जाय । स्टेट कौंसिल कानूनो को बदलने का विचार कर रही है । थोड़े ही दिन में 'खूनी कानून' रद्द हो जायेंगे ।

भिखारियों के इस आन्दोलन, सभा, दावत इत्यादि चरा-चरा सी बात की सब खबरें फिलिप के पास स्पेन भेज दी गई थीं और वहाँ सब बातें शाही दफतर में यहाँ तक लिखकर रख ली गई थीं कि ब्रेडरोड ने शुक्रवार के व्रत के रोज ब्रसेल्स में मांस खाया । यह व्रत के रोज मांस खाने की बात कुछ ऐसी छोटी नहीं है, जो इतिहास मे लिखने के अयोग्य हो । ऐसी-ऐसी खबरें पाकर ही तो फिलिप आग बबूना हो जाता था । भारत-

लिया था। चार्टर्स की रखेली स्त्री से पैदा परमा आज एक गरीब आदमी का नाम लिखना भी अपनी शान के खिलाफ समझने लगी थी। प्रभुता पाकर नीच मनुष्यों का दिमाग आसमान पर चढ़ जाता है।

खूनी कानूनों को नरम बनाने के प्रयत्न होने की जो गरम खबर सारे देश में फैल रही थी, उसका भी हाल सुनिए। प्रीवी कौंसिल ने अपने बुद्धिमान सलाहकारों की राय से खूनी कानूनों में यह नरमी कर दी कि सनातन-धर्म के विरुद्ध चलने वालों को लोहे की गरम सलाखों पर भूनने के स्थान में फाँसी पर लटकाया जाय। खुले शब्दों में घोषणा कर दी गई कि सनातन-धर्म के अतिरिक्त किसी धर्म में विश्वास रखने का अधिकार किसी को नहीं है। 'सनातन-धर्म' का विरोध करने वालों को कहीं मिल-वैठकर बातें करने अथवा सभा करने का भी अधिकार नहीं है। सनातन-धर्म के विरुद्ध लेख लिखकर यदि कुविचार फैलाने का प्रयत्न किया जायगा तो, जैसे बनेगा, सरकार इन लेखों को भी दबाने का प्रयत्न करेगी। धार्मिक ग्रन्थों के सम्बन्ध में संदेह करने या विचित्र प्रश्न पूछने अथवा कोई नई शोध करने का भी किसी को अधिकार नहीं है। अपराधियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। एक साधारण अपराधी, दूमरे जनता को भड़काने वाले अपराधी। साधारण अपराधियों पर कुछ दया दिखाई जा सकती थी, परन्तु भड़काने वालों को बिना पूछे नाछे तुरन्त फाँसी पर लटका देने का हुक्म था। नेदरलैण्ड-वासियों की जानें सरकारी अधिकारियों के हाथ में दे दी गई थीं। अधिकारी जब चाहें कोई न कोई इलजाम लगाकर हर किसी को फाँसी

पर लटका सकते थे। 'धर्म की चर्चा' करने वालों को प्राण-दण्ड का हुक्म था। किसी सुविख्यात धार्मिक विद्यालय से 'धर्मशास्त्री' की उपाधि बिना प्राप्त किये धार्मिक ग्रन्थावलोकन करने वाले को प्राण-दण्ड मिलता था। सनातन धर्म के विरुद्ध दल के पादरियों को घर में छिपाने वालों को प्राण-दण्ड था। जिसके घर पर सनातन-धर्म के विरुद्ध कोई घटना अथवा कार्य हो जाय उसको प्राण दण्ड था।' हाँ इतनी दया अवश्य हो सकती थी कि अपराध मान कर क्षमा प्रार्थना करने वाले अपराधी को गला घोटकर मारने के बजाय सिर काटकर मारा जा सकता था।

सुधार की सिफारिश की प्रार्थना करने के लिए फिलिप के पास तिनिधि भेजना निश्चय हुआ। पहिले एग्मोएट को भेजने की वान चली परन्तु एग्मोएट ने जाने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि मेरे पिछली बार स्पेन जाने का ही क्या फल हुआ ? इसलिए मौएटनी और वरघन स्पेन भेजने के लिए चुने गये। ये दोनों सरदार हृदय से प्रेनविले की तरह कट्टर सनातनधर्मी थे। इसलिए उन्हें फिलिप से कोई आशंका नहीं हो सकती थी। परन्तु ये अभाग्ये स्पेन जाकर फिर न लौटे। मातृभूमि के उनके यह अन्तिम दर्शन थे। मौएटनी का विवाह हुए तो एक ही वर्ष हुआ था। इस समय उसकी स्त्री गर्भिणी थी। परन्तु उसकी कोख से जन्म लेने वाले बालक के भाग्य में पिता का मुख देखना नहीं था। रास्ते में पेरिस में रहने वाले स्पेन के राजदूत ने मौएटनी को समझाया भी कि नेदरलैंड के आन्दोलन में भाग लेने के कारण फिलिप तुम पर कुपित है। स्पेन जाने में तुम्हारी खैर नहीं। किसी बीमारी-बीमारी का बहाना करके टाल जाओ। परन्तु

मौएटनी को विश्वास नहीं हुआ। उसकी समझ में ही नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या दोष किया है कि जिसके कारण फिलिप मुझ पर क्रुद्ध हो सकता है।

चलने से पहिले डचेज़ परमा ने उन्हें सब बातें समझाते हुए १८ अध्याय का एक व्याख्यान दिया और उनके पहुँचने के पहले ही एक विशेष दूत द्वारा नेदरलैण्ड का सब हाल फिलिप के पास पहुँचा दिया। नेदरलैण्ड में रहने वाले फिलिप के अलेञ्जो केएटो नाम के एक जासूस ने भी फिलिप को लिखा कि यही दोनों सरदार, जो आपके पास आ रहे हैं, नेदरलैण्ड के सारे उपद्रवों की जड़ हैं। ग्रेनविले ने फिलिप को एक पत्र में लिखा—“वरघन और मौएटनी से अधिक अच्छे प्रतिनिधि नेदरलैण्ड की ओर से और कौन हो सकते थे? उन्हींका खड़ा किया हुआ सारा उत्पात है। इसलिए सारा हाल वही आपको अच्छा बतला सकते हैं।” ये सब पत्र फिलिप के पास पहुँच चुके थे। परन्तु जब वरघन और मौएटनी १७ जून को मेडिड पहुँचे तो फिलिप ने बड़े स्नेह में स्वागत किया। तुरन्त आकर उनसे मिला। फिलिप तो भीतर ही भीतर षडयन्त्र रचने वाला मनुष्य था। अपने ऊपरी वर्ताव से आन्तरिक विचार कभी आसानी से प्रकट नहीं होने देता था। इन दो सरदारों से मुक्ति पाने के उसने जो काले उपाय रचे थे, वे अब तीन सौ वर्ष बाद जाकर कहीं संसार को मालूम हो पाये हैं। बेचारे सीधे-सच्चे सहज वीर कैसे समझ सकते थे कि फिलिप के मीठे व्यवहार के भीतर विष भरा हुआ था।

सन् १५६६ ई० की ग्रीष्म ऋतु के साथ-साथ नेदरलैण्ड का सार्वजनिक आन्दोलन भी गरम हो उठा। हज़ारों दुकानदार,

किसान, कारीगर, गरीब, अमीर, सब पुराने ढंग की बन्दूकें, भाले, फरसे और तलवारें ले-लेकर मैदानों में खुल्लमखुल्ला सुधारकों के व्याख्यान सुनने के लिए इकट्ठे होने लगे। सार्वजनिक विद्रोह का नेदरलैंड में पहला अव्याय प्रारम्भ हुआ। सरकार के किसी हुक्म और कानून की परवाह न करके लोग खुल्लमखुल्ला विद्रोह करने लगे। सरकार की तरफ से यह भी विज्ञप्ति निकाली गई थी, कि जो कोई किसी मरे या जीवित सुधारक पादरी को सरकार के सामने हाजिर करेगा, उसे ७००) रु० इनाम दिया जायगा। परन्तु सुधारक पन्थों के जो पादरी पहले छिप-छिपकर प्रचार करते थे, अब मैदानों में व्याख्यान देने लगे। ७००) रु० के लालच से कोई उन्हें पकड़ाने की चेष्टा नहीं करता था। पहले की अपेक्षा अत्याचार भी कुछ कम हो गया था। प्रार्थना-पत्र-आन्दोलन की घटनाओं ने भी लोगों का उत्साह कुछ बढ़ा दिया था। नवीन दल के लोगों की संख्या भी काफी बढ़ गई थी। इन सब कारणों से लोगों को उपद्रव करने की हिम्मत हो उठी। जिधर देखो उधर मैदानों नवीन युग के प्रचारक दुन्दुभी बजाते नज़र आते थे। २८ वीं जून सन् १५६६ ई० की रात को ग्यारह बजे टूरनी नगर के निकट एक पुल पर छ. हज़ार आदमी एम्ब्रोज़ विले नाम के—एक नवीन दल के पादरी का व्याख्यान सुनने इकट्ठे हुए। यह पादरी यूरोप के नवीन युग के विधाता स्वयं महात्मा काल्विन से दीक्षा लेकर आया था, और बड़े निर्भीक स्वर से नवीन मत का प्रचार करता था। ७ जुलाई को फिर उसी पुल पर इन पादरी का व्याख्यान हुआ। बीस हज़ार आदमियों की भीड़ एकत्र हुई। एम्ब्रोज़ का सिर लाने के

लिए सरकार ने इनाम लगा रक्खा था। परन्तु जनता का प्रत्येक मनुष्य हथियारों से सुसज्जित होकर व्याख्यान सुनने आता था। एम्ब्रोज की रक्षार्थ जनता के सौ सशस्त्र सवार उसको चारों ओर से घेरकर चلتे थे। एम्ब्रोज ने बडा ही निर्भीक और ओजस्वी भाषण देते हुए कहा कि 'भाइयो सरकार के डर से धर्म मत गवाँ बैठना। मुझे तो मौत का कुछ डर नहीं है। मैं मर जाऊँगा तो क्या? मेरे रक्त से पचास हजार मेरा बदला लेने वाले पैदा हो जायँगे।'

ढचेज हुकम भेजती थी कि अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित सभायें न हों। परन्तु उसके हुकमों का पालन करने वाले कहाँ थे? नये विचारों की बीमारी गरीब, अमीर, सौदागर, साहूकार, धुनिये, जुनाहे, कोली, चमार सभी में फैल गई थी। सब बड़े चाव से सभाओं में आ-आकर नवीन व्याख्यान सुनते थे। जिन सरकारों फौजों के देशों सिपाहियों को सभायें भग करने की आज्ञा भेजी जाती थी, वे स्वयं श्रोता बने हुए सभाओं में पहले ही से मौजूद होते थे। नागरिकों का बच्चा-बच्चा सभाओं में पहुँचता था। शहर खाली हो जाते थे। फ्लेण्डर्स भर में ऐसे ही दृश्य देखने में आते थे। सभायें क्या थीं, फौजी पड़ाव लगते थे। प्रत्येक मनुष्य नखसिख हथियारों से लैस होता था। सभा-स्थल के चारों ओर गाड़ियों, शाखाओं और तखनों का परकोटा बना लिया जाता था। प्रत्येक द्वार पर सवारों का पहरा होता था। दूर-दूर तक खतरे की खबर देने को जामूस लगे रहते थे। फेरी लगाने वाले खुल्लमखुल्ला ज़ब्त कितायें बेचते फिरते थे। फ्लैण्डर्स के बाद वेल्स प्रान्तों में होती हुई यह उपद्रव की हवा

उत्तर की तरफ पहुँचो । जिस समय हालैण्ड प्रान्त मे हारलेम के निकट नवीन मत की प्रथम सभा एकत्र होने की घोषणा हुई, तो मारे हालैण्ड मे विजली-सी दौड गई । अधिकारी घबरा उठे । ग्रामों से हजारो आदमियों की भीडें शहर की ओर उमड़ चलीं । अन्य नगरों से भी हजारो आदमी एक रात पहले ही हारलेम मे आ जमे । प्रात काल अधिकारियों ने नगर के द्वार ही नहीं खोले । परन्तु जनता तो जोश से उन्मत्त थी । लोग खाईं तैरकर, दीवारों पर चढकर और फाटक तोड़कर अन्दर घुस आये । आज का व्याख्यानदाता भी हजारों में एक था । था ता पतला-टुवला, छोटासा, दो हड्डी का मनुष्य, परन्तु चार घण्टे तक उसने वह धारा-प्रवाह वक्त्रता दी कि लोगों के दिल हिल उठे । आँखों से आँसू वह निकले । जिस समय उसने हाथ ऊपर को उठाकर अपने गरीब, अत्याचार से पीड़ित देशवासियों और अत्याचार करने वाले अधिकारियों और फिलिप के लिए भगवान से प्रार्थना की तो सबकी आँखों से आँसू झर उठे । इसके बाद इसी प्रकार की सभायें हालैण्ड के नगर-नगर में होने लगीं ।

शाहजादा आरेञ्ज अब तक नवीन पन्थ के पक्ष में नहीं था परन्तु कुछ कुछ उसकी वृत्ति भी बदल चली थी । परमा बडे चक्कर में थी । आन्दोलन इतना बढ गया था कि सभाओं का बन्द करना असम्भव था । नई कौञ्ज खडी करते भी वह बहुत डरती थी । फिलिप का अभी तक कुछ उत्तर नहीं आया था । बिना आज्ञा पाये नई फौज भरती करने से उसके क्रुद्ध हो जाने का भय था । दूसरे, परमा यह भी अच्छी तरह जानती थी कि

यदि मैंने एक फौज खड़ी की तो जनता की तरफ से दस फौज उठ खड़ी होंगी। आन्दोलन बढ़ जायगा। फौजें खड़ी करने का निश्चय भी कर लेती तो पास रुपया नहीं था। खजाने में चूहे लोट रहे थे। लोगो का विचार था कि एग्मोएट जनता का नेता बनकर सरकार का सामना करेगा। परन्तु एग्मोएट न तो सरकार की तरफ से लोगों पर हाथ उठाने को तैयार था और न लोगों के आन्दोलन का ही नेता बनने को तैयार था। फ्लेण्डर्स में आन्दोलन बहुत बढ़ गया था। जनता की ओर से किसी भी क्षण चालीस पचास हजार फौज खड़ी हो सकती थी। सनातन धर्मियों के प्राण सूखने लगे थे। इसलिए परिस्थिति सम्भालने के लिए एग्मोएट फ्लेण्डर्स चला गया। एगटवर्प में भी उत्पात हो उठे थे। मशहूर 'भिखारी' ब्रेडरोड अपने बहुत से साथियों सहित इस नगर में उपस्थित था। वह इधर उधर 'भिखारियों' की वर्दी पहने घूमता फिरता था। मेघम और एरमबर्ग भी शहर में आये हुए थे। परन्तु उनके सम्बन्ध में लोगों में खबर फैल रही थी कि वे जनता के ऊपर हमला करने की योजना कर आये हैं। जनता और डचेज़ परमा दोनों की राय थी कि ऐसे कठिन समय में शाहजादा आरेज़ ही स्थिति सम्हाल सकता है। इस लिए आरेज़ को एगटवर्प भेज दिया गया। जिस समय आरेज़ एगटवर्प में घुमा चारों तरफ से हजारों आदमियों की भीड़ उसका स्वागत करने को आई। सड़कों के दोनों ओर घरों पर जिधर देखे उधर आदमी ही आदमी नज़र आते थे। सरदारों को लेकर ब्रेडगेड शाहजादे की अगवानी को पहुँचा। आरेज़ का सामना होते ही ब्रेडरोड और उसके साथियों ने पिस्तौल का वार करके

आरेञ्ज को सलामी दी । पिरतौल छूटते ही चारों ओर मे शाह-ज्जादे की जयध्वनि होने लगी । लोग आरेञ्ज को 'हमारा रक्षक' 'हमारा पिता' 'हमारी एकमात्र आशा' पुकार-पुकारकर चिल्लाने लगे । एक तरफ से 'भिखारियों की जय' ध्वनि भी उठी । परन्तु आरेञ्ज ने तुरन्त फटकारकर कहा—“मैं आप लोगों को शीघ्र ही यह शब्द भुला दूँगा ।” आरेञ्ज को व्यर्थ का शोर गुल बहुत नापसन्द था । जब लोगों को यह मालूम हो गया तो बहुत से लोग तुरन्त अपने-अपने घरों को चले गये । अपने 'रक्षक' और 'पिता' को पाकर लोगों की जान में जान आई । आने वाली आपदाओं से बचने का कुछ विश्वास हुआ ।

आरेञ्ज ने एगटवर्ष में पहुँचते ही सब दलों से मिलकर लोगों का आपस का मनमुटाव मिटाने और शान्ति स्थापन करने का प्रयत्न शुरू कर दिया था । अन्त में सब की राय से निश्चय हुआ कि नगर के अन्दर नये मतवाले प्रचार न करें । नगर के बाहर कर सकते हैं । आरेञ्ज की राय थी कि नगर में शान्ति कायम रखने के लिए बारह सौ आदमियों की एक सेना रक्खी जाय और उसका खर्च नगर की तरफ से दिया जाय । परन्तु जनता के प्रतिनिधि राजी नहीं हुए । उन्होंने कहा कि नगर में शान्ति रखने की हम अपने ऊपर जिम्मेदारी ले सकते हैं । परन्तु फौज खड़ी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं ।

जुनाई और अगस्त भर आरेञ्ज शान्ति स्थापन करने का प्रयत्न करता रहा । शान्ति कायम रखना परमा का कर्तव्य था, परन्तु वह इस कार्य के विलकुल अयोग्य थी । उसकी और सुधारक दल की, दोनों की राय थी कि बस आरेञ्ज ही एक ऐसा

मनुष्य है जो जनता के उठते हुए तूफान को संभाल सकता है। आरेञ्ज राजा और प्रजा में फैसला कराने का प्रयत्न कर रहा था। परमा और फिलिप उसको प्रशसापूर्ण पत्र पर पत्र लिखते थे। फिलिप ने इसी समय आरेन्ज को अपने हाथ से एक पत्र लिखा उसमें आरेञ्ज के बड़े गुण गाये। एन्टवर्प में शान्ति स्थापन करने में सफल होने के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसका इस्तीफा नामंजूर करके लिखा कि मेरा तुम पर अत्यन्त विश्वास है। आरेञ्ज खूब जानता था कि फिलिप उसपर कितना विश्वास करता है। इसलिए यह पत्र उसे भुलावे में न डाल सका। इधर परमा ने, जो फिलिप की ही तरह आरेञ्ज को बहुत से पत्र लिख-लिखकर उस पर अपना विश्वास जताती थी। फिलिप को एक पत्र में लिखा कि 'आरेञ्ज ही इन सारी आपत्तियों की जड़ है। शायद वह इस प्रदेश पर अधिकार जमाकर अपने भाई बंदों में बाँट लेना चाहता है।' यह विलकुल वे सिर पैर का दोषारोपण था। आरेञ्ज का व्यवहार शुरू से सीधा और सच्चा रहा था। जनता की माँग थी कि पंचायत बुलाई जाय। फिलिप के हाथ में था कि पंचायत की बैठक करके जनता को शांत कर देता। परंतु यदि फिलिप जनता की बात मान लेता तो फिर फिलिप फिलिप ही न होता। और यदि शाहजादा आरेञ्ज उसको इस मार्ग पर लानेकी चेष्टा करना छोड़ देता तो आरेञ्ज आरेञ्ज न होता। यदि आरेञ्ज फिलिप को मार्ग पर ले आने में सफल हो गया होता तो न तो हालैण्ड में विद्रोह ही हुआ होता और न प्रजातंत्र की स्थापना हो पाती। कमा-कमी अत्याचारियों का हठ संसार को बड़ा लाभदायक होता है।

क्रान्ति के पथ पर

विद्रोह की अग्नि दिन पर दिन भड़कती जाती थी । यदि आरेञ्ज विद्रोह दवाने का प्रयत्न करना भी चाहता तो अब असम्भव था । जो कुछ शांति स्थापित करने का प्रयत्न हो सकता था आरेञ्ज करता था । तरह-तरह की अफवाहें उठती थीं । अमुक स्थान पर सरकारी फौज जनता पर आक्रमण करने को इकट्ठी हो रही हैं । अमुक दिशा से अत्याचार करने के लिए फौज बुलाई जा रही है । ये अफवाहे और भी अनर्थ कर डालती थीं । सरकार को ओर से दमन होने की खबर सुनकर दस-बारह हजार आदमियों के स्थान पर पच्चीस-पच्चीस हजार आदमी सुधारकों के व्याख्यान सुनने के लिए शहर के बाहर मैदानों में आकर एकत्र हो जाते थे । एक दिन एक ऐसी ही सभा में एक साधारण प्रचारक, जिसे शास्त्रों इत्यादि का अधिक ज्ञान नहीं था, व्याख्यान दे रहा था । एक सनातनी परिडत ने जाकर उससे प्रश्न पूछे और उसके अज्ञान का मजाक उड़ाया । जनता को यह सहन न हुआ । लोगों ने सनातनी परिडत को पकड़कर उसकी कुन्दी कर डाली । जनता में से ही उठकर यदि कुछ लोग परिडत की रक्षा न कर लेते तो उसकी जान चली गई होती ।

आरेञ्ज ने परिडत को उसकी इस उद्दण्डता पर बहुत फटकारा और एक दिन के लिए इस विचार से जेल में बन्द कर दिया कि कहीं लोग उसे पकड़कर मार न डालें । जब तक शाहजादा आरेञ्ज राजधानी में रहा, विद्रोह का स्फोट-जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी रुका रहा । परन्तु उधर आरेञ्ज

की जागीर हालैण्ड और जेलैण्ड में उपद्रव होने लगे थे । मैदानों में बड़ी-बड़ी सभायें होने लगीं थीं । एमस्टर्डम के निकट हथियारों से सुसज्जित मनुष्यों की इतनी बड़ी-बड़ी सभायें एकत्र होती थीं कि वे सरकारी अफसरों को संभाल के बाहर हो गईं थीं । शाह-जादा को स्वयं अपनी जागीर में देखभाल करने की आवश्यकता थी । वह अपने प्रान्त में जाना चाहता था । परन्तु परमा उसे जाने नहीं देती थी । एण्टवर्प इत्यादि में उत्पातों के भय के अतिरिक्त सरदारों का गण्डल भी उलफन खड़ी कर रहा था । ऐसी अवस्था में परमा आरेञ्ज की सहायता के बिना कर ही क्या सकती थी ? सौ सरदारों ने जुलाई मास में मिलकर एक सभा कर डाली थी । उस सभा में हर एक सरदार अपने अपने लड़ैत जवानों को साथ लेकर आया था । ऐसी सभा में शान्ति से विचार होना तो असम्भव ही था । तलवारें और ढालें खटकती थीं । अण्टसण्ट व्याख्यानों के साथ-साथ भाले भी घूम उठते थे । खैर, किसी प्रकार सभा में दो घातों पर विचार हुआ । एक तो यह कि सरदारों ने जो 'प्रार्थना-पत्र' भेजा था, यदि वह मंजूर हो जाय तो आगे और मागे रखनी चाहिएँ अथवा नहीं । दूसरी इस बात पर विचार हुआ कि क्या सरकार से वादा ले लेना चाहिए कि किसी सरदार से इस आन्दोलन में भाग लेने के कारण बदला नहीं लिया जायगा । दो प्रस्ताव भी पास हुए । एक तो यह कि यदि जनता पर सरकार अत्याचार करे तो हम लोगों को उसकी रक्षा करनी चाहिए । दूसरा यह कि चार सवार और चालीस कम्पनियों की जर्मन लिपाहियों की एक फौज खड़ी कर लेनी चाहिए । यह सब प्रबन्ध सरदार आत्मरक्षा के विचार से कर

रहे थे । उनका विचार था कि यदि राजा ने नेदरलैण्ड पर आक्रमण किया तो पहले प्रबन्ध कर लेने से उसका सामना करने के लिए सामग्री तैयार रहेगी ।

परमा के बहुत प्रार्थना करने पर आरेञ्ज १८ जुलाई को सरदारों के प्रतिनिधियों से डफल मे मिला । एग्मोएट भी उसके साथ था । सरदारों के प्रतिनिधि ब्रेडरोड और क्यूलमबर्ग इत्यादि थे । आरेञ्ज ने कहा कि 'परमा ने आप लोगों की बात मानकर दो आदमियों को राजा से सलाह करने स्पेन भेज दिया है । जब तक परमा अपने वादे पर डटी है तब तक आप को भी अपने वादे के अनुसार शान्ति रखनी चाहिए । हथियारों से सुसज्जित जनता की सभाओं को धन्द करने का आप लोगों को प्रयत्न करना चाहिए । परन्तु आप लोग तो स्वयं जनता को सभाओं में हथियार ले-लेकर आने का मार्ग दिखाते हैं । यदि आप इन उद्दण्ड सभाओं को रोकने का हृदय से प्रयत्न करने का विश्वास दिलावें तो डचञ्ज परमा सरकार की ओर से यह कह देने को तैयार है कि आप लोगों के प्रार्थनापत्र से फायदा हुआ है ।'

परन्तु सरदारों की ओर कहा गया कि 'सरकारी वादों का क्या ठीक है ? जो वादे आज किये जाते हैं कल तोड़ डाले जाते हैं । परमा के दो तरह के व्यवहार से हमारा विश्वास उठ गया है । सरकारी अत्याचार बराबर जारी हैं । सरकार की ओर से 'नम्रता' का व्यवहार करने के लिए अफसरों को पत्र भेजे गये थे उन सबको अफसरों ने न मालूम घूरे में फेंक दिया या क्या हुए ? सुधारक दल के प्रचारकों के मिर काटकर लाने के लिए इनाम जारी कर दिये गये हैं । मानों वे हिंसक जन्तु हैं । स्पेन से

आक्रमण होने की बराबर धमकी दी जा रही है। कानूनों को ताक पर रखकर पंचायतों की बैठक ही रोक दी गई है। लोग हताश हो गये हैं। सरकार के दुर्व्यवहार के कारण ही लोग सीमा लम्बे ज़ांघर हज़ारों की सख्या में मैदानों में एकत्र होने लगे हैं। हमारे व्यवहार का जनता पर कुछ असर नहीं पड़ा है। परन्तु लाग राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने के उद्देश से एकत्र नहीं होते हैं। ईश्वरोपासना के लिए आते हैं।”

इस बातचीत का कुछ संतोषजनक फल न हुआ। मास के अन्त में सरदारों की घोर से लुई एक पत्र लेकर परमा के दरवार में हाज़िर हुआ। पत्र में लिखा था कि ‘यवनों से संग्राम करने को हम लोग सदा तैयार हैं। परन्तु अपने देश-वासियों पर हम लोग कभी हाथ नहीं उठावेंगे। यदि हमको विश्वास दिला दिया जाय कि परमा का दिल सच्चा है, पिछली बातों का बदला नहीं निकाला जायगा, हान, एगमोट और आरेञ्ज की मलाह से सब काम किये जायेंगे, पंचायतों की बैठकें बुलाई जायेंगी तो हम सब लोग शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न करने का वचन दे सकते हैं, अन्यथा नहीं।’ परमा पत्र पढ़कर जल गई। बोली—“मैं खूब ममकती हूँ। तुम सब लोग शासन अपने हाथ में लेकर स्वयं राजा बनना चाहते हो।”

इसी समय एक और घटना घट गई, जिसमें मामला और बिगड़ गया। नेदरलैंड धनवान देश था। सदियों से लोगों ने कारीगरी कर-करके सैकड़ों सुंदर-सुंदर गिरजे बनाये थे। एण्डवर्प के मुख्य गिरजे का मध्य स्तम्भ तीन सौ फुट ऊँचा था उसकी कला और कारीगरी का वर्णन पढ़कर मालूम होता है

कि उसमें भी ताजमहल की तरह पत्थरों में कविता की गई थी । उसके धन और जवाहरातों का हाल सुनकर सोमनाथ की याद आती है । १८ अगस्त को सदा की भांति इम वर्ष भी गिरजे से बेबी मेरी का जुलूम धूमधाम से निकला । धार्मिक अत्याचारों से उकताकर लोग धार्मिक चिन्हों में घृणा करने लगे थे । मेरी के जुलूस के पीछे ठलुए और अवागों की एक भीड़ लग गई । यह लोग मुँह बना-बनाकर मेरी को गालियाँ सुनाने लगे । कोई बोला 'बच्ची मेरी तुम्हारा समय आ गया है' ! किसी ने कहा 'देवी यह तुम्हारी अन्तिम सवारी है । नगर तुममें घबरा उठा है ।' जुलूस जब लौटकर आ गया तो पुजारियों ने डर के कारण सदा की भांति मूर्ति को खुले में न रखकर एक सोखचों के कठवरे में रख दिया । दूसरे दिन सुबह फिर ठलुओं की भीड़ गिरजे में आ जमी । मेरी को कठवरे में रक्खा देख ठलुए हंसकर कहने लगे—“बच्ची मेरी ! डर गई ? वस इतनी जल्दी डर गई ? घोंसले में जा घुसी ! क्या वहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता ? होशियार हो जाओ बच्ची ! अब तुम्हारा समय आ पहुँचा है ।” एकाएक भीड़ को चीरकर चीथड़े लपेटे हुए एक आदमी निकला और पुजारी की चौकी पर चढ़ गया । फिर बाइबिल हाथ में लेकर वह मनुष्य के धार्मिक प्रवचनों का नकल करके एक बड़ा बेहूदा व्याख्यान झाड़ने लगा । कुछ लोग तालियाँ पीटकर उसका उत्साह बढ़ाने लगे । कुछ धिक्कारने लगे । किसी ने टाँगें पकड़ कर उसे नीचे खींचना चाहा । किसी ने इधर-उधर जो कुछ पड़ा मिला उठाकर उसके मारा । परन्तु वह सब की लात का उत्तर लात और बात का उत्तर बात से देते हुए अपना अश्लील व्याख्यान

झाड़ता ही रहा। इसपर एक सनातनी मल्लाह को बड़ा क्रोध हा आया। मल्लाह ने गरदन पकड़कर उसे दे मारा। दोनों ज़मीन पर लोटकर कुश्ती लड़ने लगे। मल्लाह को उस मनुष्य से लडता देख दर्शक मल्लाह पर टूट पडे। मुश्किल से कुछ लोग मल्लाह का जान बचाकर उसे बाहर निकाल ले गये। दूसरे दिन फिर उसी प्रकार एकत्र होकर लोग धार्मिक अत्याचारों से प्रपीड़ित हृदयों की जलन मेरी को गालियाँ दे-देकर निकालने लगे। गिरजे के सामने वर्षों से एक बुढ़िया बैठकर पूजा-पत्री का सामान बेचा करती थी। कुछ लोग जाकर उसे चिढाने लगे, 'बस, तुम्हारी तिजारत के दिन हो चुके। तुम्हारी मेरी और तुम दोनों ही हमारे हाथों शीघ्र ही नष्ट होने वाली हो।' इस पर बुढ़िया चिढ़कर गालियाँ देने लगी और उठा-उठाकर लोगों के सामान मारने लगी। लोग उमड कर गिरजे में घुस पडे। सीखचे तोड़कर मेरी की मूर्ति निकाल ज़मीन पर पटक दो गई। क्षण भर में तोड-फोड़ और घसीट-घसीट कर मूर्ति के टुकड़े-टुकड़े कर डाले गये। मोती और जवाहरात चारों ओर बिखेर दिये गये। कुछ लोग मूर्तियों और पुजारियों के पवित्र कपडे निकाल लाये और उन्हें पहन-पहनकर नाचने लगे। किसी ने बडी मेहनत और कारीगरी से बनाई हुई मूर्तियों, मिम्कणियों और खिड़कियों को तोड़ फोडकर चकनाचूर कर दिया। किसी ने राजाओं के मस्तक पर लगने वाले 'पवित्र-तेल' को निकालकर जूतों पर मला। चारों तरफ कुल्हाड़ी, हथौडों और घनों की आवाज ठनठनाने लगी। भयंकर कोलाहल था। बन्दरो की तरह कूद कूदकर उन लोगों ने डब सुन्दर गिरजा घर के सदियों के एकत्र किये हुए सारे सौंदर्य को

क्षण भर में मिट्टा में मिला दिया। लेकिन मूर्तियों और पत्थरों पर ही क्रोध उतारा गया। किसी मनुष्य के रक्त से किसी ने हाथ नहीं रंगे। न एक पैमे की चीज ही कोई उठाकर घर ले गया। क्रोध और पागलपन की यह लहर धार्मिक अत्याचार के विरुद्ध आई थी। इसलिए पहला आक्रमण उन धार्मिक चिन्हों पर ही किया गया जिनके कारण रोज मनुष्यों को जानें ली जाती थीं। इन दिनों तक शाहजादा आरेख को व्यवहार-कुशलता और चातुर्य के कारण एन्टवर्प का उजालामुखी फटने से रूका रहा था। इस घटना के समय वह वहाँ नहीं था। उसके बहुत मना करने परमाने राजकार्य में सहायता लेने के लिए उसे ब्रसेल्स चुना लिया था।

एन्टवर्प के उपद्रव की खबर फैलते ही अन्य स्थानों में भी इसी प्रकार के बलबे खड़े हो गये। हर जगह मूर्तियों और मन्दिरों पर ही हमला हुआ। लेकिन कहीं जरा भी लूटमार नहीं हुई। और न किसी आदमी पर हाथ ही उठाया गया। छ सात दिन में नेदरलैंड में हजारों गिरजे तबाह हो गये। अकेले पनेएडर्स के प्रान्त में ४०० गिरजे नष्ट कर डाले गये। उपद्रव के समय हर जगह सौ डेढ़-सौ लघु श्रेणी के मनचले आदमी तोड़-फोड़ का काम करते थे। शेर हजारों को सड़ग में खड़े-खड़े तमाशा देखते थे। परन्तु यह लघु श्रेणी के मनुष्य भी होते अपनी लगन के बड़े सच्चे थे। जवाहरान, साना, चांदी बिल्वरी पडी रहती थी। परन्तु कोई किसी चीज पर हाथ नहीं लगाता था। उन्हें तो मूर्तियां नष्ट करने की धुन होती थी। किसी एक मनुष्य ने केवल चार पाच रुपये की कोई छोटी-सी चीज चुरा

ली थी। उसी के लिए लोगो ने तुरन्त उसे फांसी पर लटका दिया।

आखिरकार प्रजा ने सरकार के अन्याय से घबरा कर क्रान्ति के पथ पर कदम रख दिया था। यह उपद्रव क्रान्ति के मार्ग पर पहला कदम था। फिलिप ने जब स्पेन में उपद्रव का हाल सुना तो क्रोध से दाढी नोच कर बोला—“इस उद्दण्डता के लिए लोगों को खूब सजा चखना पड़ेगा। अपने बाप की कसम खाकर कहता हूँ—कि लोगों को खूब सजा चखना पड़ेगा।” ब्रिसेल्स में भी उपद्रव न हो जाय इस डर से परमा राजधानी छोड़कर भागने पर तैयार हो गई थी। आरेञ्ज, हार्न, एगमोएट इत्यादि ने उसे समझाया कि आपके भागने का जनता पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। सरदारों ने अपनी जिम्मेदारी पर बड़ी कठिनता से परमा को भागने से रोक पाये। परन्तु परमा ने डरकर जनता को शांत करने के विचार से २५ अगस्त को यह घोषणा निकाल दी कि ‘इन्कविज़िशन बन्द हो जायगा। पिछले कामों के लिए किसी को कुछ सजा नहीं मिलेगी। सुधारक लोग जिन-जिन स्थानों पर उपामना करते हैं वहाँ-वहाँ उनको उपासना करने की इजाजत है।’ इस घोषणा ने जनता का दिन और भी बढ़ा दिया। नेदरलैण्ड भर में क्षण भर के लिए आनन्द का सागर उमड़ पड़ा। लोग समझे—‘हमारी जीत हो गई।’

प्रारम्भिक चिनगारिया

आरेञ्ज, एगमोएट और हार्न को इस उपद्रव के हो जाने से बड़ा दुःख हुआ। यह सब सरदार अपने सूत्रों में शांति स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। मौएटनी और बगघन फिलिप से नेदरलैण्ड के सम्बन्ध में चर्चा करके स्पेन से अभी तक नहीं लौटे थे। फिलिप ने मुलावा देने के लिए उनका खूब स्वागत किया था। रोज़ बुलाकर उनसे मीठी-मीठी बातें करता था। परन्तु अन्दर ही अन्दर दोनों के लिए ऐसा जाल रचा जा रहा था कि वेचारे फिर लौटकर अपने देश के दर्शन भी नहीं कर पाये। ये दोनों वीर बड़े अभागे थे। उन्हें फिलिप के आन्तरिक भावों का ज़रा भी पता नहीं था। बातों-बातों में सरल स्वभाव से कभी कभी कह देते थे कि 'नेदरलैण्ड के लोग ऐसे निर्बल नहीं हैं कि अन्याय चुपचाप सह लें।' उनके ऐसे-ऐसे वाक्यों से फिलिप की आन्तरिक हिसक वृत्ति और भी प्रज्वलित हो उठती थी। डचेज़ परमा ने नेदरलैण्ड से फिलिप को इस आशय का एक त्रिलकुल मूठा पत्र लिखा था कि 'यहां के सरदारों ने मुझे कैद करके सुधारकों को रियायतें दे देने की घोषणा मुझसे करवा दी है। हार्न तो सब महंतों और पुजारियों को मार डालने पर ही उतारू हो गया था। आरेञ्ज ने कह दिया था कि यदि परमा

शहर छोड़कर चली जायगी तो मैं पचायतों की बैठक बुला लूँगा। एगमोएट ने ६० हज़ार फौज लेकर मुझे घेर लेने की धमकी दी थी। इस प्रकार विलकुल लाचार होकर मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध जान बचाने के विचार से घोषणा निकालने का पाप कर डाला है। आशा है महाराज मुझे क्षमा करेंगे, रुपया और फौज भेजेंगे तथा स्वयं नेदरलैण्ड आकर इन बदमाशों से बदला लेंगे। यदि शीघ्र ही सहायता न आई तो मेरी जान चली जायगी। नेदरलैण्ड भी हाथ से जाता रहेगा।' इस पत्र की बातों में लेशमात्र भा सत्य नहीं था। फिलिप ने जब यह पत्र पढ़ा तो हिंसक जन्तु की तरह वह व्याकुल हो उठा। परमा की घोषणा मान लेने का सदेश तो फिलिप को नेदरलैण्ड भेज ही देना पड़ा। परंतु हृदय में नेदरलैण्ड की सारी प्रजा को घोर दण्ड देने का संकल्प उसने कर लिया। इस संकल्प को पूरा करने के लिए फिलिप ने उस युग के प्रचण्ड महारथी ड्यूक आर्व् एलवा को नेदरलैण्ड जाने के लिए सेना सजाने की आज्ञा दी।

आरेञ्ज, एगमोएट और हार्न फिलिप का नया फरमान पाकर अपने-अपने सूत्रों में शांति और सुव्यवस्था करने चले गये थे। एगमोएट में इस समय के बाद से एक विलकुल विलक्षण परिवर्तन हो गया। वह सदा का हृदय से कट्टर सनातनी था। लोगों के मूर्तियां तोड़ने से उसके हृदय पर बड़ी चोट पहुँचायी। क्रोध में भरा हुआ अपने सूत्रों में पहुँचा और सुधारकों को पकड़-पकड़कर फाँसी पर लटकाने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया सैकड़ों खानदान फ्लैण्डर्स प्रान्त छोड़-छोड़ भागने

लगे। एगमोएट प्रारम्भ से ही कभी प्रजा का दृढ़ नेता नहीं रहा था। उच्च कुल का अभिमानी मनुष्य होने के कारण देश के शासन में विदेशियों का हस्तक्षेप उसे असह्य था। उसकी वीरता के कारण लोग उसमें प्रेम करते थे। सर्व-साधारण की आशा थी कि एगमोएट जनता का पक्ष लेकर लोगों का नेता बनेगा। फ्लैण्डर्स में साठ-साठ हजार मनुष्य अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित हो-होकर सभाओं में आने लगे थे। यदि एगमोएट ने इन लोगों का नेता होना स्वीकार किया होता तो एक वृहत् सेना खड़ी करके उसने फिलिप को नाकों चने खववा दिये होते। फिलिप को बैठकर दर्जनों पत्र लिखने का अवकाश न दिया होता। परन्तु लोगों का पक्ष न लेकर जब यह जनता का हृदय-वीर परमा की आज्ञा अथवा सहायता के बिना ही लोगों के सिर उड़ाने लगा तो लोग आश्चर्य-चकित रह गये। सबको बड़ी निराशा हुई। आरेञ्ज और हार्न अपने-अपने सूत्रों में फिलिप के नई रियायतों वाले समझौते के अनुसार चलने का प्रयत्न कर रहे थे। परन्तु स्पेन से रुपये और फौज की सहायता आ जाने से परमा का ढग बदल गया। वह हार्न के कार्य में अडचनें डालने लगी। वास्तव में फिलिप तथा परमा किसी की इच्छा रियायतें देने की नहा थी। रियायतों का ढकोसला केवल इसलिए खड़ा किया गया था कि अत्याचार की नई सामग्री एकत्र करने के लिए सरकार को अवकाश मिल जाय। जैसे ही थोड़ी-सी फौज आ गई। टूर्नी नगर के लोगों के हथियार रखवा लिये गये। आरेञ्ज, एगमोएट और हार्न को परमा बराबर पत्रों में लिखती रहती थी कि मेरा और महाराज फिलिप का आप

लोगों पर अटल विश्वास है। जिस राजभक्ति से आप लोग कार्य कर रहे हैं उसके लिए वधाई है। फिलिप को लिखती थी कि आरेञ्ज, हार्न और एगमोएट आपका राज्य छीन लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। सारे सनातनधर्मियों का कत्लआम कर डालने का निश्चय कर चुके हैं। मैं अपनी जान के डर से उन पर प्रकट रूप से अविश्वास नहीं दिखा सकती। एगमोएट को सेनापति रखना ही पडता है। परन्तु उसके नीचे रहने वाले हर एक सिपाही को सरकार का शत्रु ही समझना चाहिए। एगमोएट अपने सूत्रों में सनातनधर्म की वेदी पर दिन रात लोगों की भेंट चढा रहा था। जनता हाहाकार कर रही थी। परन्तु यह औरत एगमोएट को सनातन धर्म का कट्टर शत्रु और सनातनियों के कत्लआम का पड़यत्र रचने वाला बता-बताकर फिलिप के हाथों उसकी ब्रत तैयार करवा रही थी। दुर्भाग्य इसको कहते हैं। परन्तु इसको किसका दुर्भाग्य कहे ? एगमोएट का ? फिलिप का ? परमा का ? सनातन धर्म का ? अथवा इतिहास का ? बेचारा हार्न भी दिन दिन मकड़ी के जाल में फँसता चला जा रहा था। हार्न समझता था कि फिलिप और परमा ने सच्चे हृदय से रियायते दे दी हैं। इसलिए वह समझौते के अनुसार काम करने का प्रयत्न कर रहा था। परन्तु परमा हार्न के प्रत्येक कार्य का अर्थ फिलिप को उल्टा समझा-समझाकर उसको गड्डे में ढकेलने का प्रयत्न कर रही थी। आरेञ्ज अपनी स्थिति और सरकार की चालों अच्छी तरह समझता था। परमा तथा फिलिप के मीठे शब्द उसे मुलावे में नहीं डाल सकते थे।

आरेञ्ज शान्ति स्थापित करने का भरसक प्रयत्न करता था। नेदरलैण्ड के व्यापारिक केन्द्र एण्टवर्प में नई रियायतों का बुनियाद पर उसने शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न किया था। कुछ लोगों को उपद्रव करने के अपराध में फौसी का हुक्म दिया गया। उसका भी उसने ज़रा विरोध नहीं किया। कई बार अपना जीवन खतरे में डाल अकेला ही तलवार देकर उपद्रवकारियों की भीड़ में घुस गया। और सब को ज़ण भर में तितर-वितर कर डालता था। उसके प्रान्त में भी बखेड़े उठ रहे थे। उसका वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी था। परन्तु एण्टवर्प के अधिकारियों की राय थी कि यदि शाहज़ादा आरेञ्ज चला गया तो सारे सनातनधर्मी सन्त, पण्डे और पुजारी तुरन्त मार डाले जायेंगे। व्यापारी आरेञ्ज की पीठ फिरते ही जानोमाल के डर से शहर छोड़कर भाग जायेंगे। शान्ति स्थापित करने के प्रयत्न में संलग्न रहने पर भा आरेञ्ज सरकार के अपने प्रति विचार अच्छी तरह जानता था। कुशाग्र बुद्धि आरेञ्ज अपनी तीव्र दृष्टि से लोगों के हृदय के भाव फौरन ताड़ लेता था। वह अच्छी तरह जानता था कि परमा और फिलिप के मधु-माखन से सने हुए शब्दों के भीतर प्रतीकार वैर और कपट का विष भरा हुआ है। उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि विदेशी सेनाओं की सहायता से शीघ्र ही नेदरलैण्ड पर आक्रमण किया जायगा। वह समझता था कि फिलिप उसके तथा अन्य कई सरदारों के प्राण लेने का निश्चय कर चुका है। यदि आरेञ्ज के सन्देश सच्चे थे तो उसे अपनी और अपने देश की रक्षा के लिए अब इधर-उधर सहायतार्थ देखना उचित था। उसको अपना मार्ग निश्चित कर लेने का समय आ गया था।

आरेञ्ज के भाग्य मे अन्ध-अत्याचार का शिकार बनना, विद्रोही होकर मारे-मारे फिरना और निर्वासन के दुःख सहना लिखा था। भविष्य को सूँघकर पहचान लेने वाले विलियम ने सोचा कि अब इस बात का निश्चय करने मे देर करने का समय नहीं कि मुझे जनता का साथ देना है अथवा सरकार का। आरेञ्ज जैसे देशभक्त के लिए एक ही मार्ग था। जैसे बने वैसे अत्याचार से अपने देश की रक्षा करने का दृढ निश्चय उसने कर लिया। अभी तक वह विलकुल राजभक्त रहा था। केवल प्रजा पर अनुचित अत्याचार करने के विरुद्ध था। परन्तु अब उसने जाना कि विदेशियों के राज्य में राजभक्त और देशभक्त दोनों होना असम्भव है। आज से उसके हृदय में विद्रोह का स्रोत फूटा। विदेशियों के अत्याचार से देश की रक्षा करने को यदि बगावत कहा जा सकता है तो आज से विलियम आरेञ्ज अवश्य वागी हो गया। उसने चुपचाप एक आदमी भेजकर एग्मोएट को अपने सारे सन्देह बतलाये और कहलवाया—“देश की यह लड़ाई सुधारक और सनातनियों का झगड़ा नहीं है। देश वालों और विदेशियों का युद्ध है। विदेशी सिपाहियों की सहायता से नेदरलैण्ड में अपने पैर मजबूत कर चुकने पर फिलिप सुधारक और सनातनियों को अत्याचार की चक्को में एकसा ही दलेगा। अत्याचार का यह दृश्य देखने के लिए मैं तो देश में नहीं ठहरूँगा। हाँ, यदि तुम और हार्न मेरी सहायता करने का वचन दो तो पचायतों की सहायता से देश की रक्षा करने का प्रयत्न मैं करूँ ?

एग्मोएट के पास से कुछ उत्तर नहीं आया। परन्तु जब आरेञ्ज हालेण्ड की तरफ चल पडा तो रास्ते में एक जगह हार्न,

एग्मोण्ट, ह्यूसट्रेटन और काउण्ट लुई उससे आकर मिले। दो तीन घण्टे तक बातचीत होती रही। एलवा का अभी हाल में परमा को भेजा हुआ एक गुप्त पत्र इन लोगों के हाथ लग गया था। पत्र में ड्यूक ऑव एनवा ने परमा को लिखा था कि 'आरेञ्ज, एग्मोण्ट और हार्न से ऊपरी प्रेम का व्यवहार बनाये रखे। काम निकल चुकने पर महाराज फिलिप ने मौका मिलते ही पहले इन तीनों को प्राण-दण्ड का पुरस्कार देने का निश्चय कर लिया है। आप इन लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करती रहें जैसा स्पेन में मौएटनी और वरघन के साथ किया जाता है। उन दोनों से बातें ता यहाँ हँस हँसकर की जाती हैं परन्तु उन्हें जिन्दा घर लौट जाने का मौका नहीं दिया जायगा।' इस पत्र के सम्बन्ध में भी चर्चा चली। परन्तु दुर्भाग्य से किसी को विश्वास नहीं हुआ कि पत्र वास्तव में एलवा का लिखा हो सकता है। सब ने सोचा कि यह किसी जासूस का काम है। देश की रक्षा करने की बात उठी। लुई की राय हुई कि जर्मनी से सेना की भरती करनी चाहिए। परन्तु एग्मोण्ट के सिर पर मौत खेल रही थी। उसने कहा—“फिलिप-जैसे सहृदय राजा पर सन्देह करना ठीक नहीं है। उसने कभी जनता पर अन्याय नहीं किया है। जिन लोगों को भय लगता हो वे स्वयं देश छोड़कर चले जायँ।” सरदार मिलकर किसी एक बात का निश्चय न कर सके। खा-पीकर घोडा पर सवार हो सब ने अपनी अपनी राह पकड़ी। आज से इन सरदारों के मार्ग भिन्न हुए। एग्मोण्ट के सर पर ऐसा राजभक्ति का भूत सवार हो गया था कि अन्त को वह उसे मृत्यु के मुँह में खोंच ही ले गया।

एगमोएट की सहायता के बिना स्पेन से होने वाले आक्रमण का विरोध सगठित करना स्वप्न-सा लगता था। हार्न सारे भगड़ों से उकताकर वैराग्य ले लेने का विचार करने लगा था। अकेला आरेञ्ज मैदान में रह गया था। सरदारो का सघ भी तितर-बितर हो चला था। संघ ने गुल-गपाड़ा मचाकर सरकार से कुछ रियायतें पा ली थीं। रियायतों के मिलते ही उसने समझ लिया कि हमारा काम समाप्त हो गया। जो सरदार जतता को स्वतंत्र करने चले थे वे सरकार से समझौता करके ज़रूरत के वक्त चुप हो बैठे, अपनी जागिरों में जा-जा सुधारकों को पकड़कर दण्ड देने लगे थे। क्यूलम्बर्ग की तरह कुछ ने गिरजों और मूर्तियों को तोड़ कर सनातनियों को अपमानित करना ही अपना कर्तव्य समझ लिया था। सब मुख्य ध्येय को भूल बैठे थे। आरेञ्ज को ये बातें कैसे अच्छी लग सकती थीं ? उसे एक दल का दूसरे पर अत्याचार अमह्य था क्योंकि इससे देश में मनोमानिन्य, अविश्वास और फूट का विष फैलता था। संघ में कुछ सरदार ज़रूर ऐसे थे जो आगे चलकर अपने देश के लिए वीरता से लड़े। लुई आँव नसाऊ मार्निक्स आँव सेण्ट, एल्डगोएडे, और बर्नार्ड डेमेरोड इत्यादि के नाम नेदरलैण्ड के इतिहास में सुवर्ण-चरों लिखे हुए हैं। परन्तु संघ के अधिकांश सरदार बेसब्र, ठसुक, और जल्दबाज़ थे। विलियम आरेञ्ज के बस के बाहर थे। लुई कहता था—“फिलिप को अपनी मेना लेकर नेदरलैण्ड में आने भी दो। ज़रा रीछ, का नाच शुरू होने तो दो !” ब्रेडरोड अपने विद्रूपकपने से विद्रोह की आग तो भड़काता था परन्तु काम भी बिगाड़ता था। व्यर्थ लोगों को जान खतरे में डालता फिरता

था। आरेञ्ज ऐसी अदस्था में क्या करता ? उसकी बातें सुनने और समझने वाला ही कोई नहीं था। जो सरदार पहले बड़ी-बड़ी हीगें हाँककर कहा करते थे कि एक बड़ी फौज जर्मनी से मँगवा लेगे, साठ हजार मेना देश में एकत्र कर लेगे आज जल्द-रत के समय कावा काटकर अलग हो गये।

आरेञ्ज को एग्मोएट पर बड़ा भरोसा था। स्व की राय थी कि एग्मोएट की वीरता पर लोग इतने मुग्ध हैं कि वह जब चाहे ६० हजार देश के सैनिक लेकर एक झपटे में नेदरलैण्ड पर अधिकार जमा सकता है। यदि इस सुअवसर पर एग्मोएट और आरेञ्ज मिल गये होते तो शायद नेदरलैण्ड में वेगुनाहो के रक्त की नदियाँ न बहती। देश कष्ट और यातनाओं की खाड़ी का एक छल्लों में लॉकर स्वतंत्र हो गया होता। परन्तु स्वतंत्रता एक छल्लों में नहीं मिला करती। बद्रिकाश्रम पहुँचने से पहले सकट, आपदा और यातनाओं से परिपूर्ण पथ पार करना पड़ता है।

विलियम आरेञ्ज को सरकार की सारी आन्तरिक गोष्टियों की खबर रहती थी। फिलिप सारे कागजात स्वयं बक्स में बन्द करके चाबी अपनी जेब में रखकर सोता था। परन्तु रात को चाबी उसकी जेब से चुपचाप निकालकर बक्स में लग जाती थी और कागजों की नकलें विलियम के पास नेदरलैण्ड पहुँच जाती थी। चाणक्य नीति के पुजारी फिलिप के साथ आरेञ्ज ने ऐसा व्यवहार न किया होता तो उसे भी एग्मोएट और हार्न की तरह अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। नेदरलैण्ड के त्राणकर्ता विलियम आरेञ्ज के उठ जाने पर नेदरलैण्ड अनाथ हो गया होता। नहीं तो कम से कम सदियों तक सदा

गुलामी में पड़ा होता । यदि एग्मोएट को राज-भक्ति की धुन न ममाई होती, यदि हार्न ने फिलिप पर विश्वास न करके आरेञ्ज का कहा मान लिया होता तो इन वीरों को व्यर्थ अपनी जान न गंवानी पडती । साथियों के विछुड जाने पर आरेञ्ज ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया । जिस अत्याचार का वह विरोध करता था उसी अत्याचार की मशीन का पुर्जा कैसे बना रह सकता ? पद त्याग करने की इच्छा तो उसने बहुत दिन पहले ही दिखलाई थी परन्तु अब सरकार से कुछ सम्बन्ध न रखने का उसने दृढ संकल्प कर लिया । और फिलिप की गोष्ठियों की अधिक सजगता से खबर रखने लगा । वर्ष के अन्त में देश की परिस्थिति पर अपने विचार भी छपवाकर वँटवाये ।

सन् १५६६ ई० का साल नेदरलैण्ड के लोगों और उनके अभागे वाल-वच्चों के लिए शान्ति का अन्तिम वर्ष था । सरकार ने प्रारम्भ में जितनी ढील ढाल दिखाई थी, अब उतनी ही कठोर हो चली थी । सरदारों का संघ छिन्न-भिन्न हो चुका था । पहले जितना शोरगुन उठा अब उतनी ही शान्ति थी । टूर्नी नगर ने सरकार की भेजी हुई नई सेना को अपने यहाँ रखना चुपचाप स्वीकार कर लिया । कान भी नहीं हिलाये । एग्मोएट प्रत्येक नगर को सरकारी फौज रखने पर बाध्य कर रहा था । फ्लेण्डर्स और आर्टोयज प्रान्तों के सारे नगरों में सरकारी फौज मजे से अपने पैर जमाती चली जा रही थी । परमा खुशी से फूच रही थी ।

हेनाल्ट के मूवे में फ्रांस की सीमा पर महाराज वेलेन्शियन का बसाया वेलेन्घेनीज नाम का एक शहर था । इसमें भागे

हुए अपराधियों को आकर पनाह लेने का अधिकार था । हर जगह के भागे हुए चोर, लुटेरे, डाकू एवं इत्यारों का डम नगर में जमघट रहा करता था । पुरानी प्रथा के अनुसार सरकार उन्हें नहीं छेड़ती थी । आजकल सनातनधर्म के विरुद्ध पाप करने वालों का वेलेन्सेनीज अड्डा हो रहा था । लुटेरे और कातिल दण्ड पाने से बच जायँ यह तो सरकार सहन कर सकती थी । परन्तु यह असह्य था कि ईश्वर का राज्य पलटने का प्रयत्न करने वाले वेलेन्सनीज में रहकर जान बचालें । अतः सुधारकों की खबर लेने के लिए वेलेन्सनीज मे फौज भेजी गई । परन्तु सदियों से स्वतन्त्रता की हवा चखने वाले वहाँ के मदमाते लोगों ने अपने जन्ममिद्ध अधिकारों के अनुसार नगर में विदेशी फौज रखने से साफ इन्कार कर दिया । सरकार ने घोषणा कर दी कि “वेलेन्सनीज नगर बागी हो गया है । वहाँ के लोग गिरजों में घुस-घुसकर नये मत का प्रचार करते हैं । सरकारी फौज शहर में रखने से इन्कार करते हैं ।” घोषणा निकलते ही सरकारी फौज ने चारों ओर से घेरा डालकर शहर का दूमरी जगहों से सम्बन्ध काट दिया । सरकारी सेना का सरदार नोयरकामेन्स था । सरदारों के संघ ने नागरिकों को सहायता देने का वचन दिया । आरेञ्ज ने भी नागरिकों को अपने सत्य अधिकारों के लिए लडने की उत्तेजना दी । ब्रेडरोड ने जहाँ-तहाँ फिर ऊधम मचाना शुरू कर दिया था । परन्तु नागरिकों का सारा भरोसा अपने हाथ के हथियारों और हृदय के उत्साह पर ही था । लोग बड़ी वीरता से युद्ध की तैयारी करने लगे । आसपास के महन्तों को लूटकर लड़ाई का सामान

एकत्र कर लिया गया। एक भागा हुआ नागरिक सरकार की ओर से संधि का संदेश लेकर आया उसे तालियां पीटकर भगा दिया गया। शहर के बीच में बहने वाली शेल्ड नदी पर तोड़ी गई मूर्तियों के पत्थरों का एक पुल बांधकर घृणा से उसका नाम 'बुतों का पुल' रक्खा गया। चारों तरफ नगर में जोशीले व्याख्यानों की भरमार थी। लोगों की नसों में वीर रस की विजली दौड़ रही थी। अड़ोस-पड़ोस में होने वाले उत्पातों से नागरिकों को सारे देश में आग लग जाने की आशा थी। परन्तु वेचारों की यह आशा पूरी न हुई। नगर से कुछ ही दूर लेनोय नाम के स्थान पर एक लोहार की अभ्यक्षता में वेलेन्सेनीज के बन्धुओं की सहायता करने के इरादे से तीन हजार सुधारक कुल्हाड़ियों, गदा और तोड़ेदार बन्दूकें ले-लेकर आ डटे। इस असङ्गठित भीड़ में किसान, विद्यार्थी और फौज से निकाले हुए सिपाही सभी प्रकार के लोग सम्मिलित थे। एक ओर ये लोग थे, दूसरी ओर वाटरेलोत्स नाम के स्थान पर भी इसी प्रकार बारह सौ सुधारकों का एक मुण्ड एकत्र हो गया। आशा की जाती थी कि वाद को बहुत से लोग इकट्ठे हो जायेंगे और दोनों मुण्ड वेलेन्सेनीज में मिलकर एक हो जायेंगे। कुछ बेफिक्रे शेखी बघारते फिरते थे कि शीघ्र ही तीस हजार आदमी सरकारी सेना का मुकाबला करने के लिए मैदान में आने वाले हैं। नोयरकार्मस् के धीरे-धीरे काम करने के कारण नागरिकों ने उसका और उसके छ. सरदारों का नाम 'सात पिनकी' रख दिया था। परन्तु १५९७ ई० के जनवरी मास में 'सात पिनकियों' ने एकाएक दो टुकड़ियों में बटकर लेनोय और वाटरेलो-

टस् में एकत्र सुधारकों के झुण्डों पर छापा मारा। नोयरकार्मस् की सेना को एकाएक आते देख सुधारक हथियार डालकर भागे। नोयरकार्मस् ने भागते हुए लोगों को रेतों, गिरजों और नदी में घेर कर मारा। घण्टे भर में २६ सौ आत्मियों की लाशें पृथ्वी पर गिर पड़ी। नेदरलैंड की स्वतन्त्रता के लिए युद्ध करने वालों का पहली लड़ाई में ऐसा बुरा हाल हुआ। देशभक्तों के दिल बैठ गये। सरकारी पक्ष के लोग खुशियां मनाने लगे। ड्यूक एअरशॉट और काउण्ट मेघम ने तो जीत की खुशी में लोगों को दावतें दीं। वेलेन्सेनीज़ के लोगों ने अपनी सहायता के लिए आने वाले लोगों की इस भयंकर हार का जब हाल सुना तो उनके चेहरे भय से पीले पड़ गये। फिर भी नागरिकों ने बड़े साहस से नगर की चहारदीवारी की रक्षा करने के लिए हथियार उठाये। जिन मजदूर और कारीगरों ने कभी रणक्षेत्र के स्वप्न में दर्शन नहीं किये थे उन्होंने वेलेन्सेनीज़ में रणघोर योद्धाओं की भाँति युद्ध किया। नोयरकार्मस् नगर की ओर बढ़ा। आस-पास के ग्रामों को उसने इस विचार से उजाड़ डाला कि नागरिकों को किसी ओर से कोई सहायता न पहुँच सके। बेचारे ग्रामवासी लूट डाले गये। जाड़े के दिनों में काँपते हुए दरिद्र बालकों के शरीरों पर से चोथड़े तक उतार लिये गये। स्त्रियाँ और कुवारी बच्चियाँ नगाड़े की चोट पर बाज़ार में नीलाम कर दी गईं। बोमार और धायलों को धीमी आग पर भून-भून कर सैनिकों ने मनोरंजन किया। और यह सब परमात्मा और धर्म के नाम पर हो रहा था। पीड़ित लोगों का बस इतना अपराध था कि वे रोम की प्रथा को न मानकर अपनी प्रथा के

अनुसार उपासना करते थे। उस समय जो पर्चे निकलते थे, उनमें अधिक तत्व की बात नहीं होती थी। जिस प्रकार सन् १९०१ की असहकार की आँधी में “बोल गई माई लाड कुकडू कू” नाम की सरकार की मजाक उड़ाने वाली एक निरर्थक, ऊटपटाँग तुकबन्दी की लाखों प्रतियाँ विक गई थीं, उसी प्रकार सरकार की हँसी उड़ाने वाले ब्रेडरोड के प्रेस से निकले हुए पर्चों की खूब खपत होती थी। इन पर्चों का जनता पर बड़ा भयकर असर होता था। ब्रेडरोड के पीछे खुफिया पुलिस का कोई न कोई आदमी वेश बदले हमेशा लगा रहता था परन्तु सरकार की उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। सरकार का विचार था कि ब्रेडरोड ने विद्रोह की बड़ी तय्यारियाँ कर ली हैं। परमा के हृदय में दहशत बैठ गई थी। परमा ने विलियम आरेञ्ज से प्रार्थना की कि ब्रेडरोड को शान्त करने में मुझे सहायता करो। परन्तु आरेञ्ज नहीं आया। अब उसके शब्दों से सरकार के प्रति घृणा टपकने लगी थी। जो कुछ किया जा सकता था उसने एण्टवर्प में शान्ति स्थापित करने के लिए किया था। वहाँ से अवकाश मिलते ही आरेञ्ज, हालैण्ड, जेलैण्ड और यूट्रेक्ट को शान्त करने चला गया था। एण्टवर्प की तरह उन प्रान्तों के नगरों में भी उसने नई रियायतों के अनुसार जनता से समझौता कर लिया था। सुधारकों को इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिला था कि जिन स्थानों पर वे उपासना करते थे—उन स्थानों पर उपासना करें। सनातनियों ने कुछ खोया नहीं था। उनकी जागीरें और मठ ज्यों के त्यों बने थे। परमा ज़रूरत पड़ने पर शान्ति स्थापित करने में

आरेञ्ज की सहायता तो हमेशा लेता थी परन्तु नोयाकार्मस् की विजय से सरकार का दिल बड़ गया था। आरेञ्ज के पीठ फेरते ही नगरों में किये हुए उसके समझौते को परमाने कुछ सप्ताह में ही उलट डाला। हुक्म निकाल दिया गया कि किसी शहर के भीतर कोई सुधारक उपासना नहीं कर सकता। सरकार के एक अन्य नये कृत्य के कारण भी आरेञ्ज को खुल्लमखुल्ला विरोध करने पर उतारू हो जाना पडा। सरकार की तरफ से एक प्रतिज्ञा-पत्र आया था जिस पर सब अधिकारियों को हस्ताक्षर करना आवश्यक थे। प्रतिज्ञा यह लेनी थी कि सरकार की जो आज्ञा होगी उसका अधिकारी पालन करेंगे। सरदार मेन्सफील्ड ने बड़े उत्साह से प्रतिज्ञा ले ली। एअरशॉट मेघम वेरलामोएट और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एग्मोएट ने भी प्रतिज्ञा ले ली। परन्तु आरेञ्ज ने प्रतिज्ञा लेने से साफ इन्कार कर दिया। उसने कहा कि मैं ऐसी अन्धी प्रतिज्ञा कभी नहीं ले सकता। मैं वह आज्ञा कदापि नहीं मानूँगा जो मेरी समझ में राजा की मर्यादा के विरुद्ध, जनता के लिए अहितकर और मेरे लिए अपमानजनक होगी। आरेञ्ज को सारे पदों और अधिकारों को तिलांजलि दे देनी पड़ी परन्तु उसने यह सहर्ष स्वीकार कर लिया। डचेज ने उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। वह जानती थी कि आरेञ्ज की सहायता के बिना देश में शान्ति स्थापित करना असम्भव है। वह उसका इस्तीफा वापिस ले लेने के लिए समझाने लगी—“तुमको तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे ब्रेडरोड उपद्रव करना बन्द कर दे। परन्तु तुमने तो उल्टे उसे,—मैंने सुना है, हथियार भेजे हैं।” शाहजादे ने घृणा से

उत्तर दिया—“अक्छा । अब तो ज़रा-ज़रा सी बातों की ख़बर रक्खी जाती है । बहुत दिन हुए मैंने ब्रेडरोड को तीन बन्दूकें देने का वादा किया था । ये बन्दूकें मैंने भेजी थीं । भगवान की कृपा से हमें इस देश में कम से कम अपने मित्रों को, जो चाहे भेंट देने का अधिकार रहा है । ब्रेडरोड आक्रमण के डर से अपनी रक्षा की व्यवस्था कर रहा है । यह कौन बुरा काम है ? अपनी रक्षा का प्रबन्ध करने का उसे अधिकार है ।” ब्रेडरोड जैसे फक्कड़ की मित्र कहकर उसका बचाव करना आरेञ्ज के लिए नई बात थी । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आरेञ्ज सरकार से अब विलकुल निराश हो चुका था । ब्रेडरोड फक्कड़ सही परन्तु अत्याचार का विरोध तो करता था । आरेञ्ज ने सोचा कि जब सरकार का मार्ग मैं नहीं रोक सकता तो ब्रेडरोड के मार्ग में ही मैं क्यों आऊँ ?

फरवरी के प्रारम्भ में ब्रेडरोड, ह्यूसट्रेटन और हार्न इत्यादि आरेञ्ज से मिलने ब्रेडा आये । वहाँ ब्रेडरोड ने एक नया आन्दोलन खड़ा करने के सम्बन्ध में आरेञ्ज से सलाह मांगी । आरेञ्ज ने उसका कुछ उत्साह नहीं बढ़ाया । परन्तु ब्रेडरोड निराश नहीं हुआ । उसने अकेले ही जाकर परमा के पास एक दूसरा प्रार्थना पत्र भेजा कि, ‘सुधारकों को नगरों में प्रचार करने का अधिकार है । अपनी अगस्त की घोषणा के अनुसार आपको उस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । परमा ने उत्तर भेजा “जाओ, चुपचाप जाकर अपने सूवे के प्रबन्ध में लगे । सरकारी काम में हस्तक्षेप करते इधर-उधर मत घूमो । वरना फिर जैसा मुझे सूमेगा तुम्हें समझूँगी ।” इस उत्तर

के बाद ब्रेडरोड एण्टवर्प में जाकर चुपचाप फौज की भरती करना लगा। उसने समझ लिया कि अब स्पेन से आक्रमण हुए बिना न रहेगा। उसने सोचा कि शीघ्र ही तैयारी करके वालचरेन के टापू पर कब्जा कर लेना चाहिए। स्पेन के आक्रमण से बचाव करने का एक यही मार्ग था। आरेञ्ज के चले जाने पर सरकार की ओर से एण्टवर्प का शासन ह्यूसट्रेटन के हाथ में सौंप दिया गया था। ह्यूसट्रेटन स्वयं धार्मिक स्वतंत्रता का पक्षपाती और आरेञ्ज का बड़ा मित्र था। परन्तु विद्रोहियों को खूब कुचलता फिरता था। आरेञ्ज की तरह सौम्य स्वभाव का नहीं था। कई विद्रोहियों को तो पकड़कर रात ही रात उसने बिना मुकद्दमा चलाये फाँसों पर लटका दिया था। अब आरेञ्ज भी लौटकर एण्टवर्प में आ गया था। लेकिन अब वह कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं था। एण्टवर्प उसकी मौरूसी जागीर थी। इसलिए वह जागीरदार को हैसियत से प्रबन्ध देखने आया था। उसने ब्रेडरोड को फौज भरती करने से नहीं रोका। मगर जब परमा की तरफ से बार-बार पैगाम आने लगे तो उसने ब्रेडरोड के आदमियों को शहर छोड़कर चले जाने का हुक्म दिया। अपनी जागीर के सारे नगरों को भी उसने आज्ञा भेज दी कि बिना मेरे हुक्म के सरकारी फौजों को शहरों में न दाखिल होने दिया जाय।

इसी बीच ब्रसेल्स में एक नया वखेड़ा खड़ा हो गया। वीर मार्निम्स एल्डगोएडे का छोटा भाई मार्निक्म थोल्ड्र भी बड़ा जोशीला था। वह अपना कालेज छोड़कर चला आया था। और असुन्तुष्ट लोगों की एक छोटी-सी सेना बनाकर ब्रसेल्स के निकट इधर-उधर घूम रहा था। एक दिन यह टोली नावों में बैठकर एण्टवर्प

से एक मील दूर शेल्ड नदी के किनारे आस्ट्रेवैल नाम के एक ग्राम में आ डटी। यहाँ ये लोग खाइयाँ खोदकर युद्ध की तैयारियाँ करने लगे। चारों तरफ से आदमी भी आ-आकर उनमें शामिल होने लगे। परमा ने सरदार डेवी वीयर के साथ आठ सौ चुने हुए लड़कों की एक सेना इन लोगों का सामना करने के लिए भेजी। मार्निक्स के लोग एकाएक इस सेना को आते देख घबराकर भाग उठे। डेवीवोयर ने युद्ध क्या किया, भागते हुए आदमियों का आखेट किया। ज़रा देर में सैकड़ों की लाशें मैदान में लोटने लगीं। सैकड़ों ने शेल्ड में कूदकर जान गँवाई। सात-आठ सौ भागकर एक खलियान में जा छुपे। डेवी वीयर ने खलियान में आग लगाकर सब को भीतर ही भून डाला।

मार्निक्स के टुकड़े टुकड़े कर डाले गये। प्रातःकाल से केवल १० वजे तक यह युद्ध चला था, उसी में सब कर्म हो गये।

एगटवर्ष में लगभग ४० हजार सुधारकों के साथी थे। शहर की दीवारों पर चढ़े हुए हज़ारों आदमी अपने भाइयों के इस भीषण रक्तपात को आँखों से देख रहे थे। मार्निक्स की स्त्री शहर की गलियों में चिह्लाती फिरती थी—“चलो, चलो, अपने भाइयों की जान बचाओ।” लोगों में अशान्ति भड़क उठी। दस वजे के करीब लगभग दस हजार आदमी तीर-कमान, कुल्हाड़े, फरसे और हथौड़े ले-लेकर लाल दरवाजे पर इकट्ठे हो गये और बाहर मैदान की तरफ जाने का प्रयत्न करने लगे। शाहजादा आरेञ्ज को फिलिप का ताज बचाने की अब तनिक भी चिन्ता नहीं थी। ताज की रक्षा का भार तो अब उन किराये के टट्टुओं पर था जो दिन-रात प्रजा का रक्त बहा रहे थे। परन्तु हाँ, नगर की जनता

की रक्षा का भार आरेञ्ज ने अपने ऊपर लिया था। आरेञ्ज घोड़े पर सवार होकर अकेला ही लाल दरवाजे पहुँचा और १० हजार क्रोध से उबलती हुई प्रजा के सम्मुख जा खड़ा हुआ। लोग उसे गालियाँ सुनाने लगे। 'यह आया पोप का गुलाम। परमात्मा का दुश्मन।' एक आदमी ने कमान पर तीर चढ़ाकर आरेञ्ज की छाती पर निशाना लगाते हुए कहा कि 'बदमाश तेरे ही कारण आज हमारे भाइयों की उस मैदान में जानें गई हैं। ले तू भी अब मृत्यु का मज्जा चख।' परन्तु तीर छूटने के पहले ही भीड़ में से किसी ने उसकी कमान छीन ली। विलियम सब की गालियाँ चुपचाप सुनता रहा। अपनी जान को ज़रा परवाह न करके वहीं खड़ा-खड़ा लोगों को समझाने लगा,—'भाई! वह सब तो उस मैदान में खप चुके हैं। तुम्हें अब वहाँ जाकर अपनी भी जान दे देने से क्या फायदा होगा? ह्यूसट्रेटन भी आ पहुँचा था। बहुत से आदमी विलियम का कहना मानकर लौट गये। परन्तु पाँच सौ मनुष्यों ने कहना न माना। दरवाजे से निकलकर मैदान में पहुँच ही गये। उन्हें अपनी ओर आते देख और शहर का कोलाहल सुनकर डेवीवीयर ने समझा कि शायद शहर की ओर से हम लोगों पर आक्रमण होने वाला है। उसने अपने आठ सौ योद्धाओं को तुरन्त एकत्र करके रणक्षेत्र में पकड़े हुए ३०० कैदियों को क्षण भर में कत्ल कर डाला। फिर शहर की तरफ दौड़ा। शहर से आये हुए—पाँचसौ आदमियों ने जब डेवी वीयर की सेना को अपनी ओर आते देखा तो दौड़कर तुरन्त फिर शहर में घुस गये। डेवी वीयर ने शहर की दीवार के पास आकर झण्डे गाड़ दिये और धौंसा बजाकर नागरिकों को युद्ध की

चुनौती देने लगा, परन्तु शहर से निकलकर उससे किसी ने युद्ध नहीं किया डेवां वीयर लौट गया ।

शहर के भीतर तूफान बढ़ने लगा था । १५ हजार कालविनिस्ट नगर के राजपथ मीयर पर आ डटे थे । बोटें और गाडियाँ उलटकर चारों ओर एक परकोटा बना लिया गया था । मेग-जोन तोड़कर हथियार निकाल लिये गये थे । जेलखाने के फाटक गिराकर कैदियों को मुक्त कर दिया गया था । कैदी भी हथियार ले-लेकर लोगों में आ मिले थे । भीड़ केवल कालविनिस्टों की ही नहीं रही थी । चोर, लुटेरे और कातिलों की मिलकर एक बड़ी सेना तैयार हो गई थी । सब अमीर सनातनियों को लूट लेने और गिरजों को तोड़कर नष्ट कर डालने की धमकियाँ दी जाने लगीं । चारों ओर से भीत स्त्री-बच्चों की हृदय-विदारक आवाज आती थी । तीन दिन और रात यह भीड़ परकोटे के भीतर बन्दूकें भरे और हथियार लिए पड़ी रहीं । अपने प्राण हथेली पर रखकर विलियम ने किमा प्रकार लोगों को यह विश्वास दिलाकर बड़ो कठिनता से शान्त किया कि 'सुधारकों को अपने स्थानों में उपामना करने का अधिकार है । सरकारी सेना एण्ट-वर्ष में कभी नहीं घुसेगी ।' परन्तु परमा ने आरेञ्ज का यह सम-मौता स्वीकार नहीं किया । वह आरेञ्ज-जैसे शान्तिप्रिय मनुष्य के इन प्रयत्नों का अर्थ ही नहीं समझ सकती थी । उसके चारों ओर तो एरम्बर्ग, मेघम, नोयरकार्मस और डेव्री वीयर जैसे मनुष्य रहते थे जो रात-दिन उसे उलटी-सीधी समझाकर सरकार को युद्ध के पथ पर लेजाने का प्रयत्न कर रहे थे । इन सरदारों का भला युद्ध में ही था । उन्हें शान्ति क्यों प्रिय लगती ? वे तो देश

डच प्रजातंत्र का विकास

को अशान्ति का फायदा उठाकर अपनी जेब भरना चाहते थे । डेव्री वीयर ने डचेज को लिखा था, कि 'मैंने मार्निक्स को पराजित किया है, उसको और उसके भाई को सारा जागीर मुझे मिलनी चाहिए ।' मेघम और एरम्बर्ग अपनी फौजें लिये डघर-उघर लूटमार मचाते फिरते थे ।

अत्याचार की पराकाष्ठा

वैलेन्सनीज का भाग्य भी बाहर की अन्य घटनाओं पर निर्भर था। मार्निक्स थौलूज की पराजय और ब्रेडरोड के सरकार का ध्यान बटाने के सब प्रयत्न असफल हो जाने पर सरकार की तरफ से एग्मोएट और एयरशॉट की अध्यक्षता में वैलेन्सनीज का सर नीचा करने के लिए एक सेना भेजी गई। सरकार की ओर से नागरिकों से अन्तिम बार कहा गया कि नगर के दरवाजे खोलकर सरकारी सेना को अन्दर रख लेने और सनातन रोमन धर्म के अतिरिक्त और किसी धर्म पर न चलने का वादा करो तो सरकार तुम्हारे पिछले सब अपराध क्षमा कर देने को तैयार है। नागरिकों के यह बात स्वीकार न करने पर एग्मोएट शहर पर गोलाबारी करके सब नागरिकों को उड़ा देने का हुक्म देकर ब्रसेल्स लौट गया। वहाँ पहुँचकर उसने परमा को सब हाल सुनाया और फिलिप को एक लम्बा-चौड़ा राजभक्ति-पूर्ण पत्र लिखा कि वैलेन्सनीज के सब बदमाशों को मैंने तोप से उड़ा देने का हुक्म दे दिया है। इधर नोयरकार्मस ने जैसे ही शहर पर गोलाबारी शुरू की पहले ही दिन इतने समय तक बहादुरी से दुःख सहन करने वाले नागरिकों ने घबराकर हारमान ली। केवल यह शर्त ठहरी की शहरवालों की जान न ली जाय। लेकिन जब नोयरकार्मस की फौजें एक बार शहर के अन्दर घुस

गई तो फिर कौन इस शर्त को मानता है ? कल्ले आम तो नहीं हुआ लेकिन अमीरों की खूब खबर ली गई । एक लेखक के अनुसार दो वर्ष तक बराबर प्रत्येक सप्ताह आठ-दस आठ-दस को फॉसिया होती रही ।

वेलेन्सनोज के घुटने टेकते ही सारे सुधारक दल का दिल टूट गया । एक के बाद एक सब शहरों ने सरकारी फौजें रखना स्वीकार कर लिया । जितने जोश के तूफान उठे थे सब ठण्डे हो गये । उत्साहहीनता की वायु देश में चारों ओर बहने लगी । एण्टवर्प ने भी ऑरेंज के पीठ फेरते ही सरकार की सब शर्तें कबूल कर लीं । मैन्सफील्ड ग्यारह कम्पनियां लेकर एण्टवर्प में दाखिल हुआ । पीछे परमा भी वहाँ पहुँची । नागरिकों ने उनका बड़ा स्वागत किया । ऐसा मादूम होने लगा मानो देश में जरा भी विद्रोह नहीं हुआ था । लोग सुधार की बातें भूल-सी गये । इसी समय स्पेन में यह निश्चय हुआ कि ड्यूक ऑव एल्वा फौजें लेकर नेदरलैण्ड जाय । जब परमा ने यह समाचार सुना तो उसे बड़ा दुःख हुआ कि विद्रोह तो सब मैंने दबा दिया है अब एल्वा को उसका श्रेय लेने के लिए क्यों भेजा जा रहा है ? उसने लिखकर तथा आदमी भेजकर फिलिप पर अपना दुःख प्रकट भी किया । मगर फिलिप ने उसकी एक न सुनी, उल्टे उसको फटकार बतवाई । फिलिप तो एल्वा को भेजकर नेदरलैण्ड का अच्छी तरह गला घोटने का दृढ निश्चय कर चुका था ।

ऑरेंज का कार्य समाप्त हो चुका था । देश में शान्ति स्थापित करने, लोगों को धार्मिक स्वतन्त्रता दिलाने और उनकी

अत्याचार से रक्षा करने, देश की प्राचीन स्वाधीनता सुरक्षित रखने और फिलिप की सेवा करने के लिए जो कुछ वह ईमानदारी से कर सकता था सच्चे हृदय से करने का उसने पूर्ण प्रयत्न किया था। वह स्पेन से आने वाले नये प्रतिज्ञा-पत्र पर आखें मीचकर हस्ताक्षर करने और इस प्रकार अत्याचार का हथियार बनने को तैयार नहीं था। उसने अपने सब पद त्याग दिये थे। परन्तु फिलिप और परमा उसका त्यागपत्र मजूर नहीं करते थे। एग्मोण्ट इत्यादि की तरह वे दोनो ऑर्रेञ्ज से भी अपने अत्याचार में सहायता लेना चाहते थे। परन्तु ऑर्रेञ्ज उनके जाल में नहीं फँसता था। वह बार-बार लिखता था कि कृपया मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लीजिए। परमा ने अपने मन्त्री बरटी को ऑर्रेञ्ज को समझाने भेजा। बरटी ने जाकर बड़ी होशयारी से नमक-मिर्च मिली भाषा में ऑर्रेञ्ज को त्याग-पत्र वापिस कर लेने के औचित्य पर व्याख्यान सुनाना शुरू किया। कुछ देर तो ऑर्रेञ्ज सुनता रहा। फिर उससे न रहा गया। वह बोला—“आपका क्या मतलब है ? क्या मैं नई प्रतिज्ञा लेकर यह बात स्वीकार कर लूँ कि मैंने पिछली प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं किया है। क्या मैं यह प्रतिज्ञा ले लूँ कि जब सरकार हुक्म देगी तो जनता के प्रति का हुई अपनी पिछली प्रतिज्ञायें मैं तोड़ डालूँगा ? क्या मैं खूनी कानूनों का, जिनको मैं हृदय से घृणा करता हूँ, मानने की प्रतिज्ञा ले लूँ ? क्या मैं जह्लाद बन भिन्न मत के ईसाई वन्धुओं का खून घहान की प्रतिज्ञा ले लूँ ? क्या मैं एक ऐसी प्रतिज्ञा ले लूँ जिसके कारण मुझे अपनी स्त्री तक के भी प्राण केवल इसलिए ले लेने पडे कि वह सुधारक पन्थ की है ? क्या मैं ऐसी प्रतिज्ञा

ले लूँ जिसके अनुसार मुझे फिलिप के प्रतिनिधि को अपना सरताज मान लेना पड़े चाहे वह मेरी शान के खिलाफ ही हो ? क्या विलियम ऑरेञ्ज ऐतवा से आदेश लेगा ?” आखिरी वाक्य बहुत घृणा से बोलकर वह चुप हो गया। बेचारा बरटी अपनी सब वक्तृता और सट्टी-पट्टी भूल गया। दठकर चलने लगा तो बोला कम से कम एयरशॉट, मैन्सफील्ड और एग्मोएट से मिलने में तो आपको कुछ आपत्ति न होगी ?

एगटवर्प और ब्रसेल्स के बीच एग्मोएट और ऑरेञ्ज की अन्तिम भेंट हुई। मैन्सफील्ड भी साथ था। एयरशॉट नहीं आ सका था। दोनो सरदार ऑरेञ्ज को समझाने का प्रयत्न करने लगे। परन्तु ऑरेञ्ज ने कहा कि मैं तो सारे पदों से त्याग-पत्र दे चुका हूँ। अब जर्मनी जाने की तैयारी है। ऑरेञ्ज ने अन्तिम बार एग्मोएट को समझाने की चेष्टा की जिससे उसका प्यारा मित्र आने वाली आपत्ति से बचने के लिए देश छोड़कर चला जाय। उसने कहा—“हाय एग्मोएट ! जिस राजा के अनुग्रह के तुम इतने गीत गाते हो वही तुम्हें नष्ट करने का निश्चय कर चुका है। भगवान करे मेरा विचार भूटा निकले मगर मुझे तो साफ दीखता है कि स्पेनवाले तुम्हे पुल बनाकर तुम पर से पार उतरेंगे और फिर काम निकल जाने पर तुम्हीं को नष्ट कर डालेंगे।” ये शब्द कहकर ऑरेञ्ज एग्मोएट को छाती से चिपटाकर इम भाँति रोने लगा मानो यह उसकी अन्तिम भेंट हो। एग्मोएट की आँखों से आँसू बहने लगे। फिर भी एग्मोएट आने वाली आपत्ति न देख सका और उसे फिलिप में विश्वास बन्त रहा। अगर एग्मोएट ने ऑरेञ्ज की बात मान ली होती तो उसे आगे

चलकर चुरी तरह प्राण न गवाने पड़ते। यदि उसे मरना ही पड़ा होता तो देश के लिए लड़ते हुए रणक्षेत्र में उसने वीर-गति पाई होती। यदि एग्मोएट ने अपनी तलवार अत्याचारी राजा के पक्ष में न उठाकर देश और जनता के लिए ऊंची की होती तो वह लोगों के हृदय का अमर वीर बनकर नेदरलैण्ड के इतिहास में स्वर्णचरों में ख्याति पाता। ऑरेञ्ज ने कुछ दिन बाद फिलिप को फिर एक पत्र लिखा—“मैंने त्यागपत्र भेज ही दिया है। अब मैं देश छोड़कर जर्मनी जाता हूँ।” नेदरलैण्ड की सीमा छोड़ने से पहले उसने एग्मोएट और हार्न को एक एक पत्र लिख कर उनसे फिर विदा मागी। हार्न को उसने लिखा कि “देश के विरुद्ध और मेरी आत्मा के विरुद्ध होने वाले आये दिन के अत्याचार अब मुझसे अधिक नहीं देखे जा सकते। सरकार देश के ऊपर काठी रख-रखकर देश को जीन और लगाम पहनने के लिए तैयार कर रही है। मेरी पीठ इतना भार सहन करने में असमर्थ है, मैं जाता हूँ। निर्वासन में जो यातनायें आयेंगी, सह लूँगा परन्तु जिनको हम सदा से दोषी समझते आये हैं उन के अत्याचार की मशीन का पुर्जा नहीं बनूँगा।”

एग्मोएट को उसने याद दिलाया कि “तुम धार-वार मुझे लिखते हो कि मैं देश छोड़कर न जाऊँ। मैं तो बहुत दिन पहले ही यह निश्चय कर चुका था। मित्रों ने कह भी चुका था। मैं नई प्रतिज्ञा लेने को विलकुल तैयार नहीं हूँ। फिर मैं अकेला बिना प्रतिज्ञा लिये विद्रोही बनकर देश में रहना नहीं चाहता। क्योंकि सब की नजरें मेरी ही तरफ पड़ती हैं। जो कुछ आपत्ति

आयेगी मैं भुगत लूंगा परन्तु मातृभूमि की स्वाधीनता और अपनी आत्मा का हनन करके मैं दूसरों को प्रसन्न करने को तैयार नहीं हूँ। एग्मोएट। मुझे आशा है कि अब तुम सब कारण अच्छी तरह समझकर मेरा जाना अनुचित न समझोगे, शेष सब परमात्मा के हाथ है। जैसी उसकी मर्जी होगी करेगा। एग्मोएट। विश्वास रखना तुम्हारा मुझ सा हितैषी दूसरा मित्र नहीं। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अगाध प्रेम है, तुम भी सदा की भांति अपने हृदय में मेरे लिए जगह बनाये रखना।”

१३ अप्रैल को यह पत्र लिखकर २२ को आरेञ्ज जर्मनी में अपने पूर्वजों के निवासस्थान डिलनबर्ग चला गया। एग्मोएट पर जब आरेञ्ज के मिलने पर ही कुछ असर नहीं हुआ था तो इस पत्र का क्या असर होता ? उसके सर पर तो मृत्यु नाच रही थी। वह सोचता था कि नोयरकार्मस मेरे कामों की प्रशंसा करता है, उचेञ्ज प्रशंसा करती है, फिलिप का अभी हाल में पत्र आया है कि “भाई एग्मोएट। तुम्हारे कार्यों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रतिज्ञा लेने की तुम्हारे लिए जरूरत नहीं थी। परन्तु तुमने प्रतिज्ञा लेकर बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई है क्योंकि यह दूसरों के लिए अच्छा आदर्श होगा।” मकारा की हद थी। यह पत्र फिलिप ने उन्हीं हाथों से लिखा था जिनसे वह अभी कुछ ही दिन पहले एग्मोएट के मृत्यु-दण्ड का हुक्म लिखकर एल्वा को सौंप चुका था और जिसे एल्वा अपने साथ लेकर नेटरलैण्ड को चल भी पड़ा था। हार्न अपनी एकान्त गुफा में ही चुपचाप सुस्त पढ़ा-पढ़ा स्पेन से आने वाले मनुष्यों का आखेट खेलने वाले शिकारियों की राह देखने लगा। आरेञ्ज जैसे ही जर्मनी

पहुँचा उसे अपने स्पेन के गुप्तचर, फिलिप के निजी मन्त्री का एक पत्र मिला कि मैंने फिलिप के एल्वा को लिखे हुए पत्र पढ़े हैं। उनमें एल्वा को सलाह दी गई है कि जितना शीघ्र हो ऑरेंज को पकड़ लेना और २४ घण्टे से अधिक उसके मुकदमे में मत लगाना।

ब्रेडरोड ने मार्निक्स थोल्डज की टोली को तैयार करके भेजा था। जब वह नष्ट हो गई तब वह वियान और एम्सटर्डम में ही रहने लगा। वह अधिकारियों, सनातनियों और सुधारक पन्थ के समझदार लोगों—सबको असन्तुष्ट करता फिरता था। शैतानियों बहुत करता परन्तु लोगों को उससे कुछ आशा नहीं बंधती थी। गभोर आदमी उसके साथ नहीं रहते थे। जागीरें उड़ा चुकने वाले सरदार, दिवालिये व्यापारी और सब प्रकार के अपराध करके भागे हुए निकम्मे लोगों का गुट उसके चारों ओर जमा रहता था। भिखारियों की प्रचण्ड जयघोष के साथ खूब शराब उड़ा करती थी। परमा ने उसको शहर से निकालने के लिए अपने मंत्री को यह आदेश देकर भेजा कि यदि वह नमाने तो सरदार मैन्सफील्ड को खबर कर देना, डण्डे के जोर से उसे वहाँ से निकाल देगा। मन्त्री को ब्रेडरोड इतना अच्छी तरह पहचानता था जितना अपने बाप को। परन्तु वेचारा मंत्री परमा के पत्र में डण्डे का जिक्र होने से पत्र ब्रेडरोड को मांगने पर न दिखा सका। ब्रेडरोड ने उसे फटकारकर कहा—‘तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्यों मूठ बकते हो कि तुम्हारे पास परमा का हुक्म है फिर ब्रेडरोड ने परमा को भी खूब गालियाँ सुनाई। मंत्री को कैद करके दो-तीन दिन तक हवालात में

रक्खा । यह बात उस समय की है जब ऑरेंज एगटवर्प में विद्रोह के तूफान को शान्त करनेका प्रयत्न कर रहा था । पीछे से जब मारा देश घुटने टेकने लगा तब ब्रेडरोड ने भी एगटवर्प को लिखा कि 'मेरा सरकार से समझौता करवा दो । मैं सब शर्तें मानने को तैयार हूँ ।' परन्तु परमा की तरफ से कुछ आशाजनक उत्तर न मिलने से ब्रेडरोड एक रात को चुप-चाप देश छोड़कर जर्मनी चला गया । वहा हार्डनवर्ग किले में उत्साह हीन होकर पड़ा पड़ा शराब पीता था और क्रोध करके कहता था कि 'गरीब सिपाही की तरह हाथ में तलवार लिये मैं देश के लिए लड़ता-लड़ता लुई के चरणों में मर जाऊँगा ।' परन्तु एक सान्त में ही अपनी जीवन लीला समाप्त करके ब्रेडरोड चल बसा । उसके देश से चले जाने पर उसके सब फक्कड़ साथी भी इधर-उधर बिखर गये थे । सरदारों का सघ टूट ही गया था । जिन सरदारों को और लोग आशा से आखे उठाये देख रहे थे उनमें से कुछ तो सरकार से जा मिले थे, कुछ देश छोड़कर चले गये थे और कुछ जेलों में पड़े सड़ रहे थे । बरघन और मौएटनी स्पेन जाकर लौटे ही नहीं थे । बरघन तो सौभाग्य से मर चुका था । परन्तु बेचारा मौएटनी अपनी नव-विवाहिता स्त्री और उस बच्चे के लिए, जिस अभागे के भाग्य में अपने बाप का मुख देखना नहीं लिखा था,—स्पेन में पड़ा-पड़ा तड़पता था परन्तु उसे घर लौटने की आज्ञा नहीं मिलती थी ।

'ऑरेंज के देश से चलते ही नेदरलैण्ड पर घटायेंघिर आई । देश अनाथ हो गया था । लोग भय से कापते थे । वे सब मनुष्य जिनका पिछले विद्रोहों में कुछ भी हाथ रहा था, अथवा जिनपर

अधिकारी सन्देह करते थे देश छोड़-छोड़कर भागने लगे थे । सेना छाड़कर भागने वाले सिपाहियों को पकड़-पकड़कर उनके चीथड़े उडवा दिये गये थे अथवा खदेड़-खदेड़कर नदियों में कुत्तो की तरह डुबा दिये गये थे । कारीगर, कलाकार, व्यापारी देश छोड़-छोड़कर भागने लगे थे । नेदरलैण्ड फिर वैसा ऊजड़ दीखने लगा था जैसा मनुष्यों के बसने के पहले था । सुधारक-पन्थ के जो लोग भाग नहीं सके थे वे इधर-तधर छिप रहे थे । किसी शहर में नये पन्थ का कोई चिन्ह नहीं दीख पड़ता था । नये पन्थ के प्रचारक और मुख्य मुख्य सदस्य पकड़कर फाँसी पर लटका दिये गये थे । उनके अनुयायियों को लोहे की छड़ों से पीट-पीटकर मार डाला गया था । जो फाँसीसे बच गये थे वे माल-असवाब जन्त करके जेलों में ठूस दिये गये थे । अगणित आदमियों के धर्म के लिए प्राण लिये जा चुके थे । उस समय का एक लेखक लिखता है कि 'शायद ही कोई ऐसा गाँव छूटा हो जहाँ सौ, दो सौ या तीन सौ आदमियों को प्राणदण्ड न मिला हो ।' नये पन्थ के गिरजे ढा दिये गये थे । ढाये हुए गिरजों की लकड़ी से फाँसी के तख्ते तैयार किये गये थे । जिन तख्तों की छत के नीचे सुधारक लोग बैठकर अपनी रीति से भगवान का भजन करना चाहते थे उन्हीं तख्तों पर चढाकर उनके प्राण लिये जाते थे । जिन्होंने मजाक में अपना नाम 'भिखारी' रखा था वे सच-मुच भिखारी बना दिये गये थे । जिन्हें अपने धर्म से अपना माल अधिक प्यारा था वे तुरन्त पक्के मनातनी बनकर मजे से रोज सुबह-शाम गिरजों में जाने लगे थे ।

२४ मई को परमाने 'खूनी कानून' की एक नई आवृत्ति

प्रकाशित कर लोगों को इस प्रकार दण्ड देने की घोषणा की—

“जिन्होंने अपने घरों में नये मत का प्रचार कराया है उनको फाँसी दी जाय । जिनके बच्चों और नौकरों ने सभाओं में भाग लिया है उनको भी फाँसी मिले । बच्चों और नौकरों को लोहे की छड़ों से पीट-पीटकर मार डाला जाय । जिन्होंने अपने सस्वन्धियों की मृत्यु पर स्वयं प्रार्थना पढी है, जिन्होंने अपने नये बच्चों का सनातनी परिदंतों के अतिरिक्त किसी और से नामकरण कराया है अथवा अन्य किसी मित्र को इस काम में सहायता दी है, जो धार्मिक पुस्तकें बेचे या खरीदें उन्हें फाँसी दी जाय । जो सनातनी परिदंतों का मजाक उढायें, उन्हें प्राणदण्ड दिया जाय और सब की जायदाद जब्त कर ली जाय ।” यह घोषणा निकलते ही लोग प्राण बचाने के लिए देश छोड़-छोड़कर भागने लगे परन्तु सरकार की तरफ से जहाज वालों को हुक्म दे दिया गया था कि जो लोगों को भागने में सहायता देगा उसे भी प्राण-दण्ड होगा । फिलिप को परमा की घोषणा से सन्तोष नहीं हुआ । उसे परमा की नरमी पर बहुत क्रोध आया और उसने परमा को तुरन्त एक पत्र लिखकर बड़ी फटकार बताई कि “ईश्वर और अपने प्यारे सनातन रोमन धर्म के विरुद्ध सारे अपराध मुझे बिलकुल असह्य हैं । तुमने ईसा के धर्म के विरुद्ध यह क्या घोषणा निकाली है ? जिन लोगों को जिन्दा भूनना चाहिए उन्हें केवल फाँसी की सजा दी है । बहुत से ऐसे छिद्र भी छोड़ दिये गये हैं जिनसे लोग प्राण बचाकर भाग सकते हैं ।” आने वाले कथण और भयानक नाटक की यह तो भूमिका थी । नेदरलैण्ड में

अब ऐसा नाटक आरम्भ होने वाला था जिसमें त्राहिमाम् त्राहिमाम् की वेदनापूर्ण चीत्कार, सत्य और असत्य के लिए मनुष्य का त्याग, वीरत्व और सहन-शक्ति के दृश्य देखकर हृदय काँप उठता है। ससार के इतिहास में बहुत कम ऐसे पृष्ठ मिलते हैं।

पशुता का नगा नाच

अब एक ही उपाय रह गया था । और वह यह कि नेदरलैण्ड पर स्पेन की सेना लेकर चढाई कर दी जाय । निश्चय तो इस बात का फिलिप बहुत दिन पहले कर चुका था परन्तु अपने स्वभाव के अनुसार बहुत धीरे-धीरे चक्र लगाकर वह रास्ते पर आया करता था । आखिरकार फरडिनेण्ड अल्बरेज दाटोलेडो ड्यूक ऑव एल्वा को स्पेन साम्राज्य के चुने हुए दस हजार सिपाही लेकर नेदरलैण्ड जाने का हुक्म हुआ । एल्वा इस समय का यूरोप का सब से प्रख्यात सेनापति था । जब वह चार ही वर्ष का था, तभी उसका बाप एक लड़ाई में मर गया था । उसके दादा ने उसे पाला था । बचपन से ही उसे अस्त्र-शस्त्र चलाने की अच्छी शिक्षा दी गई थी । जबसे उसने होश सम्हाला था अपने बाप का बदला लेने को उसका चित्त बेचैन था । सोलह वर्ष की अवस्था में फौएटारेविया की लड़ाई में वह इस वीरता से लड़ा कि लोग देखकर दाँतों तले उँगली दवाने लगे थे । १५३० ई० में वह चार्ल्स की अध्यक्षता में तुर्कों से ऐसी वीरता से लड़ा था कि बादशाह बाह-बाह कर उठा था । १५३५ ई० में उसने बादशाह के साथ ट्यूनिस पर हमला किया । १५४६-४७ ई० में, जब चार्ल्स का समलकालिडयन संघ के साथ युद्ध हुआ तो, वह चार्ल्स की मारी सेना का अध्यक्ष बनाया गया । एल्वा इतनी लड़ाइयाँ लड़ चुका था

और इतने युद्धों का अनुभव रखता था कि उसकी बखबरी करना तो दूर रहा उस समय के यूरोप के सारे सेनापति उसके चरणों की रज लेने के योग्य भी नहीं थे। उसकी बहादुरी का यह हाल था कि एक बार उसने आस्ट्रिया से स्पेन और फिर स्पेन से आस्ट्रिया तक का कुल रास्ता १७ दिन में दौड़ते हुए ढोड़े पर अपनी नव-विवाहिता स्त्री से कुछ घण्टे मुलाकात करने के लिए तै किया था। युद्ध-शास्त्र में पूर्ण परिणत और शस्त्र-विद्या में पारंगत एल्वा अब साठ वर्ष की अवस्था प्राप्त कर चुका था। वह लम्बे कद का था। शरीर पतला परन्तु बिल्कुल सीधा था। सूखे पोले-पोले गाल, छोटा-सा सिर और छोटी-छोटी काली आँखें थीं। लम्बी सफेद दाढ़ी दो भागों में उसकी छाती पर फहराती थी। १५५४ ई० में वह फिलिप के साथ इंग्लैण्ड गया था। बाद को इटली का वायसराय बना दिया गया। परन्तु सेण्ट क्रिस्टेन की लड़ाई के बाद जब एग्मोण्ट की वीरता का सूर्य एकदम ख्याति के शिखर पर चमक उठा तो एल्वा की छाती पर सॉप लोटने लगे थे। फिलिप ने अपने साम्राज्य की सोने की चिड़िया नेदरलैण्ड के पर कतरने के लिए अपने युग के प्रचण्ड शिकारी एल्वा को चुना था। एल्वा को बचपन से ही धर्म के विरुद्ध चलने वाले काफिरों से बड़ी घृणा थी। उसका यह भी विश्वास था कि यदि नेदरलैण्ड के काफिरों को कड़ी-कड़ी सजायें दी जायें तो वहाँ से स्पेन की ओर सोने की गंगा बह सकती है। अपने इरादों को पूरा करने के लिए भगीरथ प्रयत्न करने का दृढ़ संकल्प करके एल्वा स्पेन से चला था। उसे अपने पुराने शत्रु एग्मोण्ट के, जिसने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाकर एल्वा की प्रतिष्ठा का महत्व

कम करने का अनजान परन्तु घोर पाप किया था, नीचा दिखाने की बहुत दिनों की लालसा पूरी करने का अवसर भी अब हाथ आ गया था ।

एल्वा यूरोप के १० हजार सर्व-श्रेष्ठ सैनिकों की सेना लेकर स्पेन से चला । सब सैनिक सोनहले कवच पहने सरदार ने जँचते थे । पहले-पहल 'मसकेट' बन्दूक का यूरोप में प्रयोग इन्हीं सिपाहियों ने किया था । रणक्षेत्र के अतिरिक्त इनकी बन्दूके नौकर लेकर चलते थे । सेना की तरह ही सङ्गठित साथ में दो हजार रण्डियों का झुण्ड भी था । पूरा रावण का दल था । पहाड़ों के टेढ़े-मेढ़े तग और कठिन मार्ग पार करती हुई सेना नेदरलैण्ड पहुँच गई । नेदरलैण्ड-वासी यदि वास्तव में विद्रोही होते, यदि एगमोण्ट सचमुच विद्रोह करने पर उतारू होता तो किसी दर्रे के मुह पर खडा होकर छोटी-सी सेना से वह एल्वा की सारी वीर सेना के टुकड़े-टुकड़े कर सकता था । एक आठमी ऐमा न बचता जो लौटकर फिलिप को कहानी सुना पाता । पर बात ऐसी न थी ।

परमा एल्वा के आने से बहुत दु खी थी । एल्वा के नेदरलैण्ड में घुसते ही लोग जा-जाकर उससे मिलने लगे । और उसका स्वागत करके उसे प्रसन्न करने का इसलिए प्रयत्न करने लगे कि वह पुराने उपद्रवों की बात भूल जाय । परन्तु एल्वा इन खुशामदियों की कुछ परवा नहीं करता था । अपने आदमियों से कहता था कि 'लोग स्वागत करें या न करें । एल्वा नेदरलैण्ड में है इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है । अरे ! मैंने लोहे के मनुष्यों से नाकें रगड़वा ली हैं । ये बेचारे मोम के पुतले क्या

हैं ?' सरकार को तरफ से वेरलमौएट और नोयरकार्मल ने जाकर एल्वा का स्वागत किया। टिरलामोएट स्थान पर एग्मोएट भी एल्वा से मिलने पहुँचा। साथ में कुछ सुन्दर घोड़े भी भेंट के लिए लेता गया था। उसके आने की खबर सुनकर एल्वा जोर से अपने आदमियों से बोला—'यह आता है अधर्मी काफिरों का सरदार। जरा देखना।' यह बात एग्मोएट ने भी सुन ली। मिलने पर भी एल्वा ने एग्मोएट से ऐसा शुष्क और विचित्र व्यवहार किया कि एग्मोएट की तरह अन्धा और बहरा बना रहने का दृढ संकल्प न कर चुकने वाला कोई और आदमी होता तो उसके हृदय में तुरन्त सन्देह हो गया होता। एल्वा परमा से मिलने गया तो परमा अपनी घृणा न छिपा सकी। एग्मोएट, वेरलामोएट और एयरशॉट के सामने ही एल्वा से बड़ी कठोरता से पेश आई। उससे बैठने तक को नहीं कहा। सवने खड़े-खड़े ही आध घण्टे तक बातचीत की।

एल्वा को फिलिप ने अधिकार दिया था कि बिना डचेज की सहायता के वह जिस-जिस नगर में जितनी सेना रखना मुनासिब समझे रख सकता है। इस सम्बन्ध में एल्वा का पूरा-पूरा हुक्म मानने के लिए सब अधिकारियों के नाम फिलिप का हुक्म भी एल्वा अपने साथ ही ले आया था। अपने अधिकारों की सूचना एल्वा ने परमा के पास भेज दी और परमा के हस्ताक्षर हुक्म पर कराकर हुक्म की नकलें अधिकारियों के नाम भेज दी गईं। फिर एल्वा ने खास-खास शहरों में अपनी इच्छानुसार फौजे बाँट दीं। स्पेन में ग्रेनविले और स्पिनोजा ने एक पूरा नक्शा तैयार किया था कि किस तरह 'इन्क्विज़िशन' का

विरोध करने वाले दल के नेताओं को मारा जाय, कैसे नेदरलैण्ड के लोगो को अच्छी तरह कुचलकर स्पेन में बैठे हुए सात-आठ विदेशी मनुष्यों का सटा के लिए दास बना दिया जाय, किस तरह ऑरेञ्ज, एग्मोएट, हार्न, ह्यूमट्रेटन इत्यादि को पकड़कर तुरन्त फाँसी पर लटक़ा दिया जाय और ऐसी होशियारी से काम किया जाय कि इन लोगों को पहले से पता न लगे और वे देश छोड़कर भाग न सकें। इसी नकशे के अनुसार कार्य करने का निश्चय करके एल्वा स्पेन से चला था। नगरों में फौजें बाँटना इस भयङ्कर आयोजना का श्रीगणेश था। ऑरेञ्ज तो जाल फैलाने से पहले ही वायु सूँघकर चल दिया था। परन्तु ऑरेञ्ज अभागे एग्मोएट को नहीं समझा सका था। कैसे आश्चर्य की बात है कि एग्मोएट को चारों तरफ से सचेत होने की चेतावनियाँ मिलीं परन्तु वह निश्चिन्त बना बैठा रहा। पोर्च्युगीज सरदार डेविल्ली सरकारी काम पर स्पेन गया था। वहाँ से लौटकर जैसे ही वह ब्रमेल्स आया तुरन्त एग्मोएट के घर पहुँचा और एग्मोएट से बोला- “सरदार एग्मोएट, तुम तुरन्त एल्वा के आने से पहले ही देश छोड़कर चले जाओ। तुम्हारे सम्बन्ध में स्पेन में बड़ी बुरी-बुरी खबरें उड़ रही हैं,” परन्तु एग्मोएट खिल-खिलाकर हँस पड़ा, मानो डेविल्ली ने वेसिर पैर की बात कह डाली हो। इर्मा डेविल्ली ने हार्न को जाल में फसाने के लिए यह पत्र लिखा था कि फिलिप तुमसे बहुत खुश है और तुम्हें शीघ्र ही किसी बड़े पद पर नियुक्त करेगा, परन्तु एग्मोएट को वह रोज समझाता था कि तुम देश छोड़कर भाग जाओ। प्रतीत होता है उसका एग्मोएट पर सच्चा स्नेह था। लेकिन एग्मोएट डेविल्ली की चेता-

वनियों की कुछ परवाह नहीं करता था और डेविल्ली को इच्छा के विरुद्ध एल्वा के स्पेन में घुसने पर एल्वा का स्वागत करने गया था। फिर वहाँ एग्मोएट ने एल्वा का शुष्क व्यवहार देखा और तीक्ष्ण बातें सुनीं। एल्वा के सैनिकों का अपने प्रति निरादरपूर्ण व्यवहार देखा और आपस में ये बातें करते भी सुना कि एग्मोएट सुधारक और राजद्रोही है, सरकार का अब वह इतना विश्वासपात्र नहीं है जितना बनना चाहता था। फिर भी एग्मोएट के हृदय में कुछ सन्देह नहीं हुआ।

वाद को एल्वा और उसका लड़का डॉन फर्डिनेण्ड, जो एल्वा के साथ सेना में सरदार होकर आया था, एग्मोएट से खूब हिलने-मिलने लगे। रोज दावतें उड़ने लगीं। हर जगह एल्वा और एग्मोएट साथ-साथ फिरते। स्पेन और फ्रान्स से एल्वा के लिए फलों की जो पारसलें आती वे एग्मोएट के घर भी भेजी जातीं। डॉन फर्डिनेण्ड का तो सचमुच एग्मोएट पर स्नेह था। उसने बचपन ही में एग्मोएट की वीरता की कहानियाँ सुनी थीं और उनसे उसे बड़ा उत्साह मिला था। मगर एल्वा जाल में फँसाने के लिए एग्मोएट पर स्नेह दिखाता था। एग्मोएट को सन्देह करने का कोई कारण नहीं दीखता था। डॉन को भी इसी प्रकार ऊपरी स्नेह दिखा-दिखाकर एल्वा फँसा रहा था। एग्मोएट के विश्वास से भरे हुए पत्र पढ़कर डॉन का विश्वास भी अटल हो रहा था।

फिर एग्मोएट को चेतावनी मिली। ८ सितम्बर की रात को स्पेन का एक उच्च अधिकारी चुपचाप उसके घर आया और उससे कहा—“आप सुबह होते-होते भाग जाइए। मैं बड़ी गम्भीरता से कहता हूँ। इसी में आप की खैर है।” दूसरे दिन डॉन फर्डि

नेगड ने एग्मोएट और हॉर्न को एक वृहत भोज दिया । भोज में नोयरकार्मस और वायकौएट मेगट इत्यादि भी आये थे । ३ बजे एतवा का एक सन्देशा आया कि दावत खत्म होने पर मेहमान मेरे घर पधारने की कृपा करें, मुझे एक आवश्यक सलाह लेनी है । पास में बैठे हुए फर्डिनेण्ड ने झुककर एग्मोएट के कान में कहा—‘तुम तेज से तेज घोड़ा लेकर तुरन्त यह स्थान छोड़कर भाग जाओ । वस अब तुम्हारी खैर नहीं है ।’ एग्मोएट यह बात सुनकर घबरा उठा । उसे एकदम विचार आया कि मैं कितनी चेतानियाँ सुनी अनसुनी कर चुका हूँ । एग्मोएट मेज छोड़कर उठा और पास के कमरे में चला गया । नोयरकार्मस एग्मोएट के चेहरे पर विह्वलता के चिन्ह देखकर ताड़ गया कि अवश्य कुछ दाल में काला है । वह भी उठकर एग्मोएट के पीछे-पीछे कमरे में पहुँचा और एग्मोएट से पूछा—“क्या बात है ?” एग्मोएट ने सारी बात कह सुनाई । नोयरकार्मस सुनकर बोला—“अरे एग्मोएट ! उस यवन की बात पर विश्वास मत करना । वह तुम्हें कुएं में डकेलने का प्रयत्न कर रहा है । एतवा और सारा स्पेन तुम्हारे इस तरह भाग जाने का क्या अर्थ निकालेगा ? क्या वे नहीं समझेंगे कि तुम अपने अपराध के डर के कारण भाग गये ? क्यों व्यर्थ अपने सर विद्रोह का इत्जाम लेते हो ?” इस नीच की यह बात सुनकर एग्मोएट का विचार बदल गया । कहाँ तो एक विदेशी ने अपनी जानपर खेलकर एग्मोएट को भाग जाने की सलाह दी थी, कहाँ देश का ही एक मनुष्य अपने देश के एक नररत्न के प्राण लेने का प्रपच रचता है ।

एग्मोएट फिर दावत में जा बैठा । चार बजे हॉर्न नोयर-

कार्मस इत्यादि के साथ एल्वा के घर गया। एल्वा कुछ देर इधर-उधर की बातें करता रहा और फिर एक दम तबीयत खराब हो जाने का बहाना करके अन्दर चला गया। सात बजे शाम तक सरदार लोग बैठे-बैठे आपस में बातचीत करते रहे। जब चलने का समय हुआ तो एल्वा की सेना के एक अधिकारी ने एग्मोएट से कहा—“कृपया आप जरा ठहर जाइए। कुछ काम है।” जब एग्मोएट अकेला रह गया तब एक-दो साधारण बात करके अधिकारी एकदम बोला—“अपनी तलवार रख दो।” एग्मोएट को पहलेही चेतावनी मिल चुकी थी। फिर भी अधिकारी की यह बात सुनकर वह चौंक पड़ा। एग्मोएट की समझ में कुछ नहीं आया कि क्या करूँ। वह सटपटा गया। अधिकारी फिर बोला—“मुझे तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म हुआ है। तलवार रख दो।” पास का एक द्वार खुला और उसमें से सिपाहियों ने आकर एग्मोएट को घेर लिया। अपने को चारों ओर से घिरा देखकर एग्मोएट ने हसरत से यह कहते हुए तलवार रख दी कि ‘इस तलवार ने कभी बादशाह की सेवा की थी।’ इसके बाद एग्मोएट को छत पर ले जाकर एक कमरे में बन्द कर दिया गया। कमरे में चारों तरफ जँगले लगा दिये गये थे। काले-काले परदे डालकर कमरा अन्धेरा बना दिया गया था। इसी कमरे में ९ से २४ सितम्बर तक १४ दिन एग्मोएट बन्द रहा। किसी को उससे मिलने की आज्ञा नहीं दी गई। हॉर्न को भी इसी प्रकार पकड़कर एक दूसरे कमरे में बन्द कर दिया गया था। उसके साथ भी यही व्यवहार हुआ। २२ तारीख को बहुत से सिपाहियों के साथ दोनों एग्मोएट के किले में भेज दिये गये।

इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ-साथ उसी दिन एग्मोएट का मन्त्री बेकरव्हील, हॉर्न का मन्त्री, एण्टवर्प का एक अमीर और एण्टवर्प नगर का कोतवाल इत्यादि भी गिरफ्तार कर लिये गये थे । एग्मोएट और हॉर्न के घरों की तलाशियां लेकर उनके सारे कागज-पत्र भी कब्जे में कर लिये गये थे । जब फिलिप के पास इन गिरफ्तारियों की खबर पहुँची तो उसे बड़ा हर्ष हुआ । परन्तु ग्रेनविले और पेन्शनर टिटेलमेन को आरेञ्ज के न पकड़े जाने से बड़ा खेद रहा । टिटेलमेन तो बोला—“आरेञ्ज नहीं पकड़ा गया इसलिए हमारा यह हर्ष कुछ अधिक दिन नहीं रहेगा । वह जर्मनी से जरूर कुछ तूफान खड़ा करेगा ।” ह्यूंसट्रेटन सौभाग्य से बच गया । उसको भी उसी तिथि पर ब्रसेल्स बुलाया गया था परन्तु चलते समय चोट लग जाने के कारण वह वहाँ नहीं जा सका था । जब उसने इन गिरफ्तारियों का हाल सुना तो तुरन्त देश छोड़कर चला गया । एग्मोएट के मन्त्री को एग्मोएट के विरुद्ध राजद्रोह के प्रमाण देने के लिए जेल में शिकजे में कसकर यातनायें दी जाने लगीं । परन्तु एग्मोएट ने षड्यन्त्र किया हो तब तो प्रमाण मिले ।

अभागे वरघन और मौएटनी जब से स्पेन गये थे लौटने ही नहीं पाते थे । एल्वा के स्पेन से कूच करते ही इन दोनों के भाण्डों पर भी मुहर लग गई थी । वरघन तो ऐसा बीमार पड़ा कि कुछ ही दिनों में चल बसा । भगवान जाने उसे निराशा का धक्का लगा अथवा जहर देकर मार डाला गया । स्पेन के उन नारकीय जेलखानों के रहस्य तो तभी खुल सकते हैं जब मुर्दे जीवित होकर स्वयं अपनी-अपनी कहानी सुनाये । वरघन ने

मरते समय फिलिप के सलाहकार प्रिन्स इवीली को—जिसे वह अपना बड़ा मित्र समझता था—बुलाकर कहा था—“जिस आदमी को अब मैं अपना राजा नहीं कह सकता उससे मेरी तरफ से कह देना कि मैं सदा राज-भक्त रहा। मुझ पर सन्देह करके जिस तरह मुझे अपमानित किया गया, जिम तरह आज मैं मर रहा हूँ उसका फैसला भगवान करेंगे। शायद मेरे मरने के बाद लोग मुझे समझेंगे। परन्तु मरने के बाद समझने से क्या फायदा ?” इवीली फिलिप की सलाह से वरघन की मृत्यु-शय्या पर झूठे आँसु बहाकर क्रूर और बीभत्स नाटक का पटाक्षेप करने लगा था। वरघन की आखिरी साँस निकलने से पहले ही परमा के पास संदेशा लेकर दूत रवाना कर दिया गया था और यह भी लिख दिया गया था कि वरघन की सारी जागीर पर सरकारी कब्जा कर लिया जाय और उसके नातेदारों और भतीजों को विद्रोह के सन्देह में गिरफ्तार कर लिया जाय। मौएटनी पर भी अधिक कड़ी दृष्टि रखी जाने लगी थी। ऐसा प्रबन्ध कर दिया गया कि वह किसी प्रकार निकलकर न भाग जाय। मौएटनी और उसके भाई हॉर्न दोनों की बड़ी करुण कहानी है। दोनों बेचारे एक दूसरे को खतरे से दूर समझते रहे। हॉर्न समझता था अन्ध्रा है, मौएटनी स्पेन में है, अत्याचार का शिकार होने से बचा रहेगा। मौएटनी समझता था कि मेरा भाई स्पेन नहीं आया, अन्ध्रा किया, नेदरलैण्ड में रहने से बच जायगा।

जिस पत्र में एल्गाने फिलिप को हॉर्न और एग्मोएट इत्यादि की गिरफ्तारियों की खबर दी थी उसी में उसने यह भी लिखा था कि मैं एक नई कचहरी खडो करने वाला हूँ जो नेदरलैण्ड

में होने वाले उपद्रवों में भाग लेने वालों का न्याय करेगी । इस कचहरी का नाम एल्वा ने 'आपत्तियों की कचहरी' रक्खा था परन्तु देश के इतिहास में यह कचहरी 'खूनी कचहरी' के नाम से प्रख्यात है । इस कचहरी के बनने की न तो फिलिप ने ही फरमान निकालकर कोई आज्ञा दी थी, न एल्वा ने ही कचहरी बनाने का कोई बाकायदा फरमान निकाला था । यह एल्वा की घरेलू पंचायत थी । एल्वा स्वयं कचहरी का प्रमुख बन बैठा था । वेरलामोण्ट, नोयरकार्मस इत्यादि कचहरी के सदस्य तो बहुत थे परन्तु वोट देने का अधिकार केवल दो स्पेन-वासियों को ही था । ये दो स्पेन-निवासी केवल अपनी क्रूरता के कारण कचहरी के सदस्य बनाये गये थे । एक तो इनमें से स्वभाव का पूरा बधिक था । छुटपन में उसने अपने आश्रय में रहने वाले एक अनाथ बच्चे का गला घोट डाला था । बड़ा होने पर रक्तपात के अतिरिक्त उसे कुछ और सुहाता ही नहीं था । उसकी राय में मनुष्य का खून बहाना सबसे महान कार्य्य था । एल्वा का खूनी कार्य्य वह ऐसी लगन से करता था कि देखकर शैतान भी शरमा जाय । लोगों का दिन-रात रक्त बहता था । असहायों की चीत्कार से आकाश फटा जाता था । परन्तु यह राक्षस बैठे-बैठे ठट्टे लगाया करता था । इन दोनों स्पेन वालों की राय मानने अथवा न मानने का अधिकार भी एल्वा ने अपने हाथ में रक्खा था । कचहरी के एक देशी सदस्य पर भी एल्वा बहुत प्रसन्न था । उन सज्जन का यह हाल था कि दिन भर बैठे-बैठे कचहरी में ऊँचा करते थे । जब अपराधी को दण्ड देने के विषय में सम्मति ली जाती थी तो आँख मींचते हुए बोल उठते थे—'फाँसी, फाँसी पर ले

जाओ !' इन सदस्य महाशय का नाम हेसल्ल था । यह फ्लेमिंग्स के निवासी थे । एक दिन इन की स्त्री ने इनकी इस क्रूरता से घबराकर कहा कि आप सोते जागते हमेशा फॉसी का ही विचार करते रहते हैं । कहीं एक दिन यह आपके ही गले न आ पड़े । स्त्री का भय सच्चा हुआ । खूनी कचहरी बड़ी विचित्र अदालत थी । देश के सारे कानूनों के विरुद्ध प्राचीनतम अधिकारों को कुचलकर एल्वा ने अपनी स्वेच्छा से बना ली थी । इस कचहरी में ही कानून बनते थे; कचहरी ही कानूनों का अर्थ करती थी और कानूनों के अनुसार वही दण्ड भी देती थी । एल्वा ने इस कचहरी की आवश्यकता बताते हुए फिलिप को लिखा था कि इसकी आवश्यकता इसलिए है कि साधारण कचहरियाँ तो केवल उन्हीं अपराधों के लिए दण्ड दे सकती हैं जो साबित हो जायँ । परन्तु भला कहीं साम्राज्य ऐसी साधारण कचहरियों के बल पर चल सकते हैं ? यही बात जनरल डायर ने कही थी । संसारभर में साम्राज्यवाद का एक ही सिद्धान्त रहा है । हिंसा उसका एक मात्र सहारा है ।

२० सितम्बर को एल्वा के घर पर खूनी कचहरी की पहली बैठक हुई । इसके बाद रोज सात घण्टे कचहरी में बैठकर एल्वा खून के पनाले बहाने लगा । जिस प्रकार बिना किसी कायदे अथवा कानून की परवाह किये कचहरी बना ली गई थी उसी प्रकार कचहरी के कार्य-संचालन की कोई प्रणाली निश्चित करने की भी जरूरत नहीं समझी गई । सब सदस्यों से प्रत्येक बात गुप्त रखने की कसमें ले ली गई थी । सारे नेदरलैण्ड के लिए बस यह एक ही कचहरी थी । हजारों जासूस ऐसे लोगों की टोह में चारों तरफ

घूमते फिरते थे जिन्होंने सनातन धर्म के विरुद्ध मनसा बाचा-कर्मणा कभी कोई कर्म किया हो। सब से बड़ा पाप अमीर होना था। एल्वा रुपये वालों को किसी न किसी वहाने पकड़ ही लेता था। वह नेदरलैण्ड में केवल खून वहाने ही नहीं आया था बल्कि वहां से एक गज गहरी सोने की गंगा बहाकर स्पेन की मरुभूमि सींचने का इरादा करके आया था। उसने फिलिप को विश्वास दिला दिया था कि लोगों की ज़रूरतों से स्पेन के शाही खज़ाने की कम से कम ५ लाख सालाना की आय बढ़ जायगी।

कानून विल्कुल रौलट ऐक्ट की तरह थे। किसी को किसी समय पकड़कर दण्ड दिया जा सकता था। नेदरलैण्ड के प्रत्येक मनुष्य को अपना सिर कन्धे पर हिलता नज़र आता था। अमीरों के लिए तुरन्त देश छोड़कर भाग जाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। परन्तु देश छोड़कर भाग जाना विल्कुल असम्भव था। सब नाके बन्द कर दिये गये थे। जहाज़ और गाड़ी-घोड़े वालों को हुकम हो गया था कि यदि किसी को भागने में सहायता दोगे तो प्राण-दण्ड मिलेगा। कचहरी के कुछ सदस्यों को ऑरेञ्ज, लुई, ब्रेडरोड, एग्मोएट, हॉर्न, व्मूलम्बर्ग, बरघन और मौएटनी के विरुद्ध मिसिल तैयार करने का काम खास तौर पर सौंपा गया था। जो साधारण मुकदमे प्रतिदिन आते थे उनकी मिसिलें साधारण सदस्य ही तैयार करते थे। परन्तु यदि कोई सदस्य फाँसी से कम सज़ा की सिफारिश करता था तो उस पर कड़ी फटकार पड़ती थी। प्रत्येक नगर, ग्राम और नगले के रजिस्ट्रों से पता चलता है कि सैकड़ों पुरुष, स्त्री और बच्चों की भेंट नेदरलैण्ड पर अधिकार प्राप्त कर लेने वाले इस मानव-राक्षस

के ऊपर रोज चढ़ाई जाती थी। विरले ही मनुष्य इस योग्य समझे जाते थे जिनका मुकदमा सुना जाय। फिर जिस प्रकार मुकदमा होता था उसे मुकदमा कहना भी हास्यास्पद है। अधिकतर मनुष्य योंही भट्टी में जिन्दा झोंक दिये जाते थे। साम्राज्य-वाद का भड़भूँजा मनुष्यों को पत्तो की तरह भाड़ में झोंकता था। परन्तु भड़भूँजा भी पत्तों को अपना समझकर, जरा ठिठककर हाथ लगाता है। यहाँ उस 'अपने-पन' का सर्वथा अभाव था। एक त्योहार के दिन लोग आनन्दोत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। सरकारों फौज ने जाकर उनमें लगभग ५०० का गिरफ्तार कर लिया। रंग में भग पड़ गया। सब को तुरन्त फाँसी पर लटकाकर त्योहार का अन्त कर दिया गया। सच है, विदेशियों के राज्य में त्योहार सर देकर ही मनाये जा सकते हैं ? गुलामी में फाग रचाना अपनी हँसो उड़ाना है। खैर, जिन असंख्य अभागों ने नेदरलैण्ड में इस प्रकार जान देकर यमपुरी का रास्ता नापा, उन की सूची बनाने का दुःखप्रद कार्य आज इस बीसवीं सदी में कौन करे ? वे मर मिटे और उनकी मिट्टी भी अपना काम पूरा कर चुकी। जिस भूमि पर उनका रक्त बहा था वहाँ आज स्वतंत्रता की ध्वजा फहराती है। और गुलामी में पड़े हुए लोगों का स्वाधीनता के रक्त-रञ्जित मार्ग की याद दिलाकर दृढता से कदम बढ़ाने के लिए आवाहन करती है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती कि खूनी बचहरी के सामने आये हुए मुकदमों में पुलिस की रिपोर्ट पर ही प्राण-दण्ड हो जाता था। मुलजिम की बात सुनने का समय ही किसे था ? जल्लाद इतने उत्सुक और सचेत रहते थे कि

कभी-कभी आज्ञा आने से पहले ही अपराधी को फाँसी पर चढ़ा देते थे। इस समय के पत्रों में एक आदमी का चिक्र आता है कि जब उसका मुकदमा कचहरी में पेश होने की बारी आई तो पता चला कि उसे तो फाँसी भी हो चुकी है। कागजात देखने से पता चला कि मनुष्य इतना निर्दोष था कि वह खूनी कानून की लम्बी बाहों में भी नहीं आता था। एल्वा का जल्लाद, ठट्टे लगाने वाला वासगास हँसकर बोला—“अच्छा है, वह निर्दोष गया है तो ईश्वर के यहाँ न्याय में उसे कम कष्ट होगा ?” एक दूसरे मनुष्य को इसलिए प्राण-दण्ड मिला कि उसने एक बार विद्रोहियों को सरकारी अफसरों पर गोली चलाने से रोक लिया था। यह इस बात का पक्का सबूत समझा गया कि उसका विद्रोहियों पर अवश्य प्रभाव रहा होगा। एक औरत को इसलिए फाँसी हुई कि उसने एक मूर्ति का अपमान किया था और दूसरी औरत को इसलिए कि वह इस कार्य को खड़ी देखती रही थी। एक कैदी फाँसी पाने से पहले ही जेल में मर गया था। हकीम पर डाँट पड़ी कि ऐसा इलाज क्यों किया गया कि अपराधी फाँसी पर न चढ़ाया जा सका। पाशविक सन्तोष की पूर्ति के लिए उसकी लाश कुर्सी पर बिठाई गई और उसका सर उडवा दिया गया। वीभत्स प्रतिहिंसा की पराकाष्ठा था। सारा देश हड़्डी और मुर्दों का भाण्डार बन रहा था। कोई परिवार ऐसा नहीं बचा था जिसमें से कोई न कोई फाँसी पर न चढ़ा हो, कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ से क्रन्दन-ध्वनि न आती हो। एल्वा के देश में पदापरण करने के कुछ ही मास बाद सारे देश की आत्मा हताश होकर रुदन करने लगी थी। जिन नेताओं से त्राण

की आशा थी वे परलोक, जेल या निर्वासन में जा चुके थे। सिर मुकाने से कुछ लाभ न होता था, भागने के मार्ग बन्द थे। अत्याचार का राक्षस डरहा लिए चारों ओर शिकार ढूँढता फिरता था। गली-गली में तथा प्रत्येक सड़क पर सूलियाँ गड़ी थीं। चौराहों और लोगों के मकानों के द्वारों पर जली-कटी लाशें लटका करती थीं। बागों में पेड़ों पर चारों ओर शवों के भयकर फल लटकते थे। लोगों को किसी तरफ भागने का मार्ग नहीं था। अत्याचार के प्लेग ने ऐसा सर्वनाश कर डाला था कि जिन बाजारों में भीड़ के कारण कन्धा से कन्धा रगड़ता था वहाँ सदैव मध्य रात्रि-सा सन्नाटा छाया रहता था और सड़को पर घास उग चली थी। परन्तु चापलूस डाक्टर विगिलियस अपने देश की इस दशा पर इतना सन्तुष्ट था कि उसने इसी समय के एक पत्र में किसी मित्र को लिखा है—“लोग एल्वा की बुद्धि और दयाशीलता को बड़ी सराहना करते हैं।”

डचेज़ परमा एल्वा के आकर उसके मारे अधिकार हड़प लेने पर बड़ी क्रुद्ध थी। उसे नेदरलैण्ड में दूध की मक्खी बना रहना गवारा नहीं था। अस्तु, उसने इस्तीफा दे दिया। फिलिप ने इस्तीफा मजूर कर लिया। परमा को वर्तमान ८ हजार वेतन के स्थान पर १४ हजार को पेंशन दे दी गई। एल्वा को उसकी जगह पर नेदरलैण्ड का नवाब बना दिया गया। एल्वा ने १४ लाख रुपये की लागत का एक ऐसा दुर्ग दो प्रख्यात इटली के इंजीनियरों की देख-रेख में एण्टवर्प में बनवाना प्रारम्भ कर दिया था जिसमें बहुत-सा गोला-बारूद लड़ाई का सामान और सेना रक्खी जा सके। इस किले को पांच भागों में विभाजित किया गया था।

चार भागों का नाम एल्वा ने अपने नाम पर रक्खा था। एक का नाम ड्यूक, दूसरे का फर्डिनेण्ड, तिसरे का टोडेडो और चौथे का एल्वा। पाँचवें भाग का नाम इंजोनियर के नाम पर 'पचेको' रक्खा गया था। मुख्य द्वार पर एल्वा की एक विशाल मूर्ति थी।

अक्तूबर में यह क्लिना बनकर तैयार हो गया। एल्वा ने उसमें प्रवेश किया। ऑरेञ्ज लुई, काउण्ट वाडेनवर्ग, ह्यूसट्रेटन, क्यूलमबर्ग और मौण्टनी इत्यादि के पास एल्वा के सामने हाचिर होने के लिए सम्मन भेज दिये गये थे। ऑरेञ्ज पर दस अपराध लगाये गये। उनका सार यह था कि ऑरेञ्ज विद्रोहियों का सरदार रहा। फिलिप के नेदरलैण्ड से पोड फेते ही उसने नेदरलैण्ड पर अपना अधिकार जमा लेने, और यदि फिलिप लौटकर आये तो उसे डण्डे के जोर से निकाल बाहर करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया था। ऑरेञ्ज लोगों का यह कहकर भड़काता था कि स्पेनका सा 'इन्क्विजिशन' नेदरलैण्ड में भी स्थापित होने वाला है। उसने ब्रेडरोड और सरदारों के सब को सरकार का विरोध करने की उत्तेजना दी। एण्टवर्प में वक्त्रे के समय उसने लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देकर अधर्म करने के लिए उत्साहित किया।

कैसे मज्जे की बात है। जो 'इन्क्विजिशन' लोगों का दिन-रात खून चूम रहा था उसका नाम लेना लागो को भड़काना था ? परमा के किये हुए समझौते के अनुसार एण्टवर्प के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देने के लिए ऑरेञ्ज अपराधी गिना जाता है। परमा को ८ हजार की जगह १४ हजार की पेंशन मिलती

है। सरदारों ने सम्मन मिलने की कुछ परवाह नहीं की। कोई एल्वा के सामने हाजिर नहीं हुआ। भला जान-बूझकर वे मौत के मुंह में पग क्यों रखते ? ऑरेञ्ज ने उत्तर में लिख भेजा कि "मैं जर्मन-साम्राज्य का सदस्य हूँ। फ्रान्स में मुझे युवराज के अधिकार हैं, 'गोल्डन पलीस' सस्था का भी मैं सदस्य हूँ, नेदर-लैण्ड का स्वतंत्र नागरिक हूँ। मैं एल्वा और उसकी इस घरेलू पंचायत का सम्मन भेजकर मुझे बुलाने का अधिकार नहीं मानता। जर्मनी के महाराज और उनकी कौंसिल अथवा 'गोल्डन पलीस' सस्था के सम्मुख अपना न्याय कराने के लिए उपस्थित होने को तैयार हूँ।" मालूम पड़ता है इस समय तक ऑरेञ्ज फिलिप के विरुद्ध हथियार उठाने को तैयार नहीं था। ऑरेञ्ज-जैसे बुद्धिमान मनुष्य ने भी एक बड़ी भूल की थी। खुद तो देश छोड़कर चला आया था परन्तु अपने १३ वर्ष के सबसे बड़े लड़के को लोवेन के प्रख्यात विद्यालय में पढ़ता छोड़ आया था। फिलिप ने उस लड़के को गिरफ्तार करके स्पेन मँगवा लिया। लड़के से कहा गया कि सम्राट फिलिप अत्यन्त स्नेह के कारण तुम्हें स्वयं अपनी देख-रेख में शिक्षा देना चाहते हैं जिससे तुम उच्च पदों के योग्य बनकर महान राज-पदों को भोग सको। वह नासमझ छोकरा भी राजसी ऐशोआराम में पढ़कर सध-कुछ भूल गया और मौज करने लगा। स्पेन में रखकर फिलिप ने उसकी आदत ऐसी बदल दी कि जब वह २० वर्ष बाद देश का लौटा तो उसकी भयंकर आकृति अथवा क्रूर स्वभाव देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह उसी वंश में पैदा हुआ होगा जिसमें ऑरेञ्ज और लुई-जैसे वीरों ने जन्म लिया था।

अत्याचार की आँधी ने जोर पकड़ा। रोम का जत्लाद पोप सोचता था कि अगर सारे नेदरलैण्ड वालों के सिर एक ही गरदन पर होते तो अच्छा होता। एक ही हाथ में सब आसानी से उड़ा दिये जाते। खैर जो हो, उसने अपने मतलब के लिए सारे नेदरलैण्ड वालों के सिरों का एक गरदन पर होना मान लिया था। १३ फरवरी सन् १५६८ ई० को धर्म्म-चार्य्य पोप की ओर से सारे नेदरलैण्ड को कुफ्र के लिए प्राण-दण्ड का हुक्म हुआ। सारे नेदरलैण्ड को। दस दिन बाद फिलिप ने 'इनक्विज़िशन' की इस आज्ञा का समर्थन करते हुए फरमान निकाला। तीन करोड़ स्त्री-पुरुष और वध्वों को तीन सतरों में फाँसी पर लटका देने का हुक्म लिख दिया गया। अधिकारियों को हुक्म हुआ कि 'पोप की आज्ञा पर फौरन अमल होना चाहिए। और किसी की उम्र, जाति और अवस्था का कुछ ध्यान न किया जाय।' जब से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तब से शायद ही कोई ऐसा राजा उपन्न हुआ हो जिसने ऐसा हुक्म निकाला हो। यह आज्ञा सुनते ही नेदरलैण्ड वालों के होश उड़ गये। यह ठीक है कि वास्तव में सबको फाँसी दे नहीं जा सकता था और इस हुक्म का यही अर्थ निकाला जा सकता था कि वह लोगों पर आतंक जमाने के लिए निकाला गया है। फिर भी यह तो स्पष्ट था कि इस आज्ञा के अनुसार किसी को भी किसी समय पकड़कर फाँसी पर लटकाया जा सकता है। अधिकारी अब इसके उदाहरण उपस्थित करने लगे। मुकदमों का जो एक दिखावा था, वह भी दूर हुआ। हाँ, 'खूनी कचहरो' में इस बात की जाँच-पड़ताल अवश्य होती थी

कि फाँसी चढ़ने वाले मनुष्यों के पास कितना धन है। सरकार का विश्वास था कि फाँसियाँ यदि सोच-समझ और देख-भालकर दी जाँयगी तो एक सोने की फसल काटी जा सकती है। बहुत से नागरिक अमीरी के अक्षम्य पाप के लिए पकड़ लिये गये। पहले उनके हाथ पीठ के पीछे बाँध दिये जाते, फिर वे घोड़े की दुम से लटकाकर देर तक घसीटे जाते और अधमरे हो जाने के बाद फाँसी पर चढ़ा दिये जाते। गरीबी से भी कोई बचाव न था। मजदूरों की भी ऐसी ही दुर्गति होती थी। लोग फाँसी पर जाते समय अपने हृदय के उद्गार चिल्ला-चिल्लाकर कहते थे। सुनने वालों में सनसनी फैलती थी। उपद्रव हो जाने की सम्भावना रहती थी। इससे अपराधियों की जवान बन्द करने का एक नया उपाय तुरन्त सोचा गया। अपराधियों की जिब्हा में एक छल्ला डालकर जिब्हा गर्म लोहे से दाग दी जाती थी जिससे मांस फूलकर छल्ले में भर जाता था। और अपराधी बोलने के अयोग्य हो जाता था। यह ठीक है कि इस समय तक नेदर-लैण्ड के लोग एक संघटित सर्वदेशीय क्रान्ति करके विदेशियों को निकाल बाहर करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी मनुष्य थे। कहां तक चुपचाप अत्याचार सहते ? कुछ लोगों के हृदय की भीतर धधकने वाली ज्वाला ने भयकर रूप धारण कर लिया था। लूट-मार करने वाला एक मुण्ड रूठ खड़ा हुआ। इन लोगों ने अपना नाम 'जंगली भिखारी' रख लिया। ये लोग सनातनी अमीरों, महन्तों और पण्डों को लूटते फिरते थे। सरकारी खजानों पर भी छापा मारते थे। सनातनी पंडितों की नाक-कान काट लेना तो उनके साधारण कार्यक्रम था। प्रायः पंडितों को

घोड़ों की पूँछ से बाँधकर भी घसीटते थे। एल्वा ने एक सेना भेजकर बड़ी कठिनाई से इन्हें दवाया।

हॉर्न और एग्मोण्ट महीनो से जेल में बन्द थे। न उन्हें किसी वकील से मिलने दिया जाता था, न साफ-साफ उनका अपराध ही बताया जाता था। फैसला होने के पहले ही जागीर जब्त हो जाने के कारण, राजसी ठाठ से रहने वाली एग्मोण्ट की स्त्री अपने छोटे-छोटे ग्यारह बच्चों के साथ भूखो मरने लगी थी। बेचारी रोटियों के लिए एक मठ में जा पड़ी। वह राज-वंश में पैदा हुई थी, राजवंश में व्याह कर आई थी। उसने ऐसा कष्टों का पहाड़ कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था। तब भी उसने बड़े धैर्य से काम लिया। फिलिप, एल्वा, जर्मनी के शहशाह, अपने भाई जर्मन सरदार पेलेगटाइन और 'गोल्डन पलीस' के सरदारों को उसने कई पत्र लिखे कि मेरे पति को यदि छोड़ा नहीं जा सकता तो कम से कम उनका न्याय निष्पक्ष अदालत के सामने होना चाहिए। संस्था के सरदारों ने फिलिप को लिखा-एग्मोण्ट 'गोल्डन पलीस' संस्था का सदस्य है। उस संस्था के नियमों के अनुसार एग्मोण्ट का मुकदमा उसी संस्था के समक्ष होना चाहिए। नेदरलैण्ड के नागरिक की हैसियत से भी एग्मोण्ट का अभियोग देश के कानूनों के अनुसार नगर की पंचायत के सामने ही आना चाहिए था। परन्तु 'कानून' और 'अधिकारों' का चिह्न ही वहाँ कहाँ था? राज्य की ओर से प्रजा के कार्य-कर्ताओं पर जो अभियोग चलाये जाते हैं उनमें 'न्याय' का ध्यान नहीं रक्खा जाता। एक दूसरे ही, 'न' से शुरू होने वाले शब्द 'नीति' का ध्यान रक्खा जाता है। फिलिप की नेदरलैण्ड के प्रति

‘नीति’ निश्चय हो चुकी थी। एल्वा इन सरदारो को फाँसी पर लटका देने का हुक्म भी फिलिप के हस्ताक्षर कराके लेता आया था। भेडिया बकरी के बच्चे को किसी न किसी बहाने खाने का निश्चय कर चुका था। मुकदमे की तैयारी तो ढोंग की पूर्ति थी। जर्मनी के सम्राट के पत्र के उत्तर में फिलिप ने लिखा कि ‘चाहे नेदरलैण्ड मेरे हाथ से निकल जाय आकाश-पाताल एक हो जाँय, परन्तु मैंने जो निश्चय कर लिया है वही करूँगा। मुझे विश्वास है पीछे से दुनिया मेरे कार्य का सराहना करेगी।’ एल्वा को उसने लिखा कि ‘मेरे पास चारों ओर से हॉन और एग्मोण्ट को छोड़ देने की प्रार्थनाएँ आ रही हैं। काम शीघ्र ही क्यों नहीं तमाम करते?’ हॉन की बूढ़ी माँ बेचारी भी अपने बच्चे को छुड़ाने का प्रयत्न कर रही थी, चारों ओर सब का निहोरा करती फिरती थी। एग्मोण्ट के नागरिक अधिकारों की तो सरकार को कुछ चिन्ता नहीं थी। परन्तु ‘गोल्डन फ्लीस’ के नियम ‘खूनी कचहरी’ के सामने इन सरदारो का अभियोग लाने में कुछ बाधक हो रहे थे। यह अड़चन नेदरलैण्ड के धुरन्धर विद्वान डाक्टर विगिलियस ने दूर कर दी। उसने कहा कि मेरी अटल राय है कि ‘गोल्डन फ्लीस’ के नियम इस अभियोग में लागू हो ही नहीं सकते। गुलामी इसी का नाम है कि अपने ही अपनों का गला घोटें। सरकार की चिन्ता दूर हुई। इसी बीच मुकदमा ‘खूनी कचहरी’ के सामने आया। नेदरलैण्ड में होने वाली सभी घटनाओं का दोष एग्मोण्ट और हॉन के सिर मटा गया। उन बेचारों ने अपने को निर्दोष बताते हुए अपनी राजभक्ति और जन्म-भर की अपनी राज-सेवा का दोहाई दी किन्तु इन बातों पर कौन

वगावत का झण्डा

विलियम ऑरेञ्ज ने अत्याचार से तंग आकर आखिरकार विद्रोह का झण्डा खड़ा किया। सरकार ने विद्रोही करार देकर विलियम की सारी जागीर जब्त कर ली थी और उसके लड़के को कैद कर लिया था। अब क्या रह गया था जिससे विलियम आगे बढ़ने से हिचकता ? देश पर होने वाले अत्याचार को देखते-देखते उसका हृदय पक गया था। जर्मनी में लोगों से मिलकर नेदरलैण्ड से भागे हुए व्यक्तियों की सहायता से वह सेना और धन इकट्ठा करने लगा। डेमोस्थनीज व्याख्यान दे-देकर लोगों को फिलिप के विरुद्ध उकसाता फिरता था। ऑरेञ्ज ने एक विचित्र अधिकार-पत्र लिखकर लुई को फिलिप की, मेवा के विचार से, स्पेन की सेनाओं को नेदरलैण्ड से निकाल देने के लिए फौजें खड़ी करने को आज्ञा दी थी। वाएडेनबर्ग और ह्यूसट्रेटन को भी इसी प्रकार के अधिकार दे दिये गये थे। जिस प्रकार नेदरलैण्ड की क्रान्ति का हृदय विलियम ऑरेञ्ज था, उसी प्रकार उसका छोटा भाई लुई क्रान्ति का दाहिना हाथ था। ऑरेञ्ज की राय में सब काम के लिए दो लाख रुपये की आवश्यकता थी। एक लाख रुपया तो नेदरलैण्ड के नगरों से आ गया। शेष सरदारों ने आपस में चन्दा कर लिया। ऑरेञ्ज ने अपना सामान इत्यादि बेचकर ५० हजार दिये। ह्यूसट्रेटन ने ३०

इरादे और उसकी फौज का नफ़सा दुश्मन को बता दिया । यद्यपि इतनी नीचता करने पर भी उसकी जान न बची ।

लुई अपने छोटे भाई एडोल्फस के साथ फ़ोसलैण्ड में झण्डा उडाता हुआ घुसा । झंडे पर लिखा था 'स्वदेश और स्वधर्म के लिए' । घुसते ही उसने प्रान्त के सूबेदार एरेल्बर्ग के किले के बड़े पर छापा मारकर अधिकार जमा लिया । देखते-देखते ही डैम और स्लौचटेरेन पर भी लुई का झंडा फहराने लगा । चारों ओर से लोग आ-आकर उसके झंडे के नीचे एकत्र होने लगे । प्रोनिंजन नगर के लोगों से लुई ने कुछ रुपया भी वसूल किया जिमसे वह अपने दल का खर्च चला सका । परन्तु एल्वा भी सो नहीं रहा था । उसे सब हाल मालूम था । एरम्बर्ग के फ्रान्स से लौटते ही एल्वा ने उसे फौज लेकर इधर रवाना किया । एरम्बर्ग के साथ ४ हजार छटे हुए जवान थे । सरदार मेवम ने भी उससे आगे मिल जाने का वादा किया था । डैम के निकट होनीगरली नाम का एक मठ था । यह मठ एक ऊँचे स्थान पर था । और चारों ओर नीचे खेत थे । खेतों में से घास खोद-खोदकर जजाने के लिए निकाल ली गई थी । इसलिए उनमें गहरे गड्ढे हो गये थे । गड्ढों में पानी भरा रहता था । पानी की सतह पर एक प्रकार की हरी फफूँदी घास की तरह उगी दीखती थी । लोग फफूँदी को घास समझकर धोका खाकर गड्ढों में गिर सकते थे । लुई ने युद्ध के लिए यह स्थान चुनने में बड़ी होशियारी की थी । स्वयं तो अच्छी ऊँची जगह पर जा डटा था । आक्रमण करने वाले शत्रु के लिए यह धोखे की दृष्टियों से भरा हुआ मैदान छोड़ दिया था । एरम्बर्ग अपनी सेना के साथ यहाँ पहुँच-

कर रुक गया। वह स्वयं नेदरलैण्ड का निवासी था और इसी प्रान्त का सूबेदार था। इसलिए वह इस स्थान से खूब परिचित था। उसने सोचा कि मेघम एक-दो दिन में आ पहुँचेगा। तब-तक शत्रु पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। परन्तु स्पेन के सिपाही हाल की जीतों के नशे में चूर थे। और तुरन्त हमला करके शत्रुको छाँट डालने के लिए पागल हो उठे। लोग एरम्बर्ग पर फिकरे कसने लगे कि 'कायर है; आगे बढ़नेकी हिम्मत नहीं होती। घबराता है।' एरम्बर्ग अच्छी तरह जानता था कि इस मैदान में कूदना जान-बूझकर मौत के मुँह में कूदना है। परन्तु वह भी वीर था, गठिया के दर्द में चारपाई से उठकर लड़ने आया था। एरम्बर्ग से स्पेन वालों के ताने न सुने गये। उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उसने सोचा कि यदि स्पेन के सिपाही मौत के मुँह में कूदने को उत्सुक हैं तो नेदरलैण्ड के सेनापति का उन्हें वहाँ ले चलने में आगा-पीछा करने की क्या जरूरत है? लुई बड़ी शान्ति से मौका देख रहा था। एक दिन पहले ही उसके सिपाहियों में वेतन न मिलने से बलवा होते होते बच गया था। परन्तु लुई ने बहुत समझा-बुझाकर सैनिकों को शान्त कर लिया था। और आज वह सब सैनिक जी-जान से लुई के लिए लड़ने को तैयार थे। एरम्बर्ग की फौज ने आगे बढ़कर देशभक्तों पर गोलाबारी शुरू की। लुई की सेना शत्रु को धोखा देने के लिए इधर-उधर भाग उठी। शत्रु को फँसाने के लिए लुई ने यह चाल चली थी। लुई की सेना को भागती देख स्पेन वाले अपने को काबू में न रख सके। अपने नायक का हुक्म न मानकर शत्रु की तरफ दौड़े। दौड़ते ही सब के सब दलदल और

गड्डों में जा फँसे । जब वे गड्डों से निकलने का प्रयत्न कर रहे थे, लुई की सेना ने निकलकर ऊँचे स्थान पर खड़े होकर स्पेन वालों को भूतना शुरू कर दिया । जो गड्डों से निकलकर भागने लगे उन्हें दूसरी तरफ से एक टुकड़ी ने निकलकर छोट डाला अथवा फिर दलदल में भगाकर कुत्तों की तरह मारना शुरू किया । देखते-देखते स्पेन की सेना नष्ट हो गई । युद्ध में एरम्बर्ग और एडोल्फस का सामना हुआ था । एडोल्फस ने एरम्बर्ग पर पिस्तौल चलाई । एरम्बर्ग के गोली लगी परन्तु उसने झपटकर एडोल्फस को मार डाला । एरम्बर्ग का घोड़ा मरकर गिर पड़ा था । फिर भी वह घावों से भरपूर शरीर की चिन्ता न करके महाभारत के योद्धाओं की तरह अन्त तक खड़ा-खड़ा लड़ता रहा । स्पेन के जिस कर्नल ने एरम्बर्ग को कायर कहकर ताना मारा था, सबसे पहले वही भाग खड़ा हुआ । सरदार मेघम युद्ध-स्थल के बहुत निकट आ पहुँचा था । परन्तु जब उसने इस सर्वनाश की खबर सुनी तो उलटे पाँव प्रोनिजन लौट गया । प्रोनिजन नगर युद्ध की दृष्टि से प्रान्त की कुर्जी था । देश-भक्त लुई ने विजय तो प्राप्त कर ली थी परन्तु यह शुष्क विजय थी । सन्नाजी-जैसे सिंह को खोकर शिवाजी को सिंहगढ़ की विजय पर अधिक उल्लास नहीं हुआ था । एडोल्फस की आहुति देकर लुई और ऑरेञ्ज भी हीलीगरली की विजय पर आनन्द न मना सके परन्तु हृदय का दुःख हृदय में ही रख लुई ने आगे बढ़कर शत्रु का पीछा किया । प्रोनिजन के पास पहुँचकर मैदान में खाइया खोदकर अपना डेरा डाल दिया । इस विजय का यह असर अवश्य हुआ कि नेदरलैण्ड वालों का यह विश्वास कि स्पेन की

सेना हराई ही नहीं जा सकती, दूर हो गया। स्वतन्त्रता के युद्ध में यह भी एक बड़ी जीत है। विदेशियों का राज्य प्रायः शासकों के अटल बल के भय पर निर्भर करता है। जब शासित जातियों में शासकों का बल नष्ट कर सकने का विश्वास प्रबल हो उठता है तो वे सिर उठाकर क्रान्ति कर डालती हैं। एल्वा ने जब इस भयंकर हार का हाल सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने स्वयं जाकर लुई को शिक्षा देने का निश्चय कर लिया।

ब्रसेल्स छोड़ने से पहले एल्वा को बहुत से काम कर लेने थे। एक के बाद एक जल्दी-जल्दी एल्वा एक से एक क्रूर हुक्म निकाल रहा था। २८ मई को उसने ऑरेञ्ज, लुई, ह्यूसट्रेटन और वाण्डेनबर्ग इत्यादि की जागीरें जन्त करके उनके देशनिकाले का एलान कर दिया। क्यूलमबर्ग के दुर्ग को ढाकर उसके ऊपर मीनार बनाई गई ताकि लोगों को याद रहे कि जिस स्थान पर बैठकर ऑरेञ्ज इत्यादि ने षड्यन्त्र रचा था वह स्थान तक मिट्टी में मिला दिया गया। १ जून को १८ प्रख्यात मनुष्यों को ब्रसेल्स के घोड़ा-बाजार में एल्वा के हुक्म से सूली पर चढ़ा दिया गया। २ जून को विलर्स को फाँसी दी गई। ३ री जून को एग्मोएट और हार्न मेएट से बन्द गाडी में लाकर ब्रसेल्स ने रख लिये गये थे। ४ जून को एल्वा ने ईश्वर और संसार को अपने न्याय का साक्षी बताते हुए दोनों सरदारों के सिर चढ़ा लेने का हुक्म सुना दिया।

एरस के बिशप को बुलाकर एल्वा ने कहा—“जाइए, एग्मोएट को प्राणदण्ड का हुक्म सुना दीजिए। उसे फल ही यमराज से भेंट करने के लिए तैयार कीजिए।” यह हुक्म सुनते ही बिशप

के होश उड़ गये। वेचारा घुटने टेककर गिडगिड़ाने और एग्मोएट की प्राण-भिन्ना माँगने लगा। एल्वा बोला—“आप को वायसराय ने सरकारी कामों में सलाह लेने के लिए नहीं बुलाया है। जाइए, मुलजिम को मरने के लिए तैयार करने का अपना काम कीजिए।” यह डाँट सुनकर वेचारा विशप निराश होकर चला गया। एग्मोएट की स्त्री को ऐसे दण्ड की स्वप्न में भी आशा नहीं थी। एरम्बर्ग की मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी स्त्री के दुःख पर अपना शोक प्रकट करने के लिए वह उसके घर गई थी। वहाँ उसे अपने पति के प्राण-दण्ड का समाचार मिला। वह नंगे पाँव दौड़ो हुई वायसराय के पास पहुँची। जिस स्त्री के पूर्वज शहशाह थे, वह आज अपनी मान-मर्यादा सव-कुछ भूलकर केवल पत्नीत्व और सातृधर्म का ध्यान रखकर एल्वा के चरणों पर जा गिरी और अपने पति के लिए हाथ जोड़कर क्षमा माँगने लगी। एल्वा ने व्यङ्ग से कहा—“कल तुम्हारे पति को अवश्य छुटकारा मिल जायगा।” यह अभागी एल्वा के व्यङ्ग के गूढ़ार्थ को न समझ सकी। उसे सचमुच विश्वास हो गया कि कल मेरा पति छूट जायगा। वह एल्वा को हजारों आशीर्वाद देती हुई चली आई। दूसरे दिन उसे एल्वा के शब्दों का अर्थ मालूम हुआ। मनुष्य भी कितना नीच बन सकता है! आसन्न-मृत्यु मनुष्य की पत्नी से भी व्यङ्ग।

रात के ग्यारह बजे विशप ने एग्मोएट को सोते में जगाकर उसकी मृत्यु का वारण्ट दिखाया। एग्मोएट भयभीत न हुआ। परन्तु वह इस प्रकार अपनी महीनों की यातनाओं का एकाएक अन्त सुनकर चौंक पड़ा। वहाँ तो इतने धीरे मुकदमा चल रहा

था; कहीं इतनी जल्दी फैसला भी हो गया ! दूसरे दिन फौसी हो जायगी ! एग्मोएट ने विशप से पूछा कि 'क्या चमा की कुछ आशा नहीं है ? क्या कुछ दिन के लिए फौसी नहीं टल सकती ?' इस पर विशप ने अपनी और एल्वा की बातचीत कह सुनाई । एग्मोएट निराश हो गया । सोचने लगा कि अब तो जावन-नौका पार लगी । फिर आवेश में आकर बोला कि 'यह क्रूर और कठोर दण्ड बिल्कुल अन्यायपूर्ण है । मैं सदा राज-भक्त रहा हूँ । यदि मैंने कोई गलती की हो तो हे भगवान् ! मेरी मृत्यु से मेरे कलङ्क धो डालना । मेरी स्त्री और निर्दोष बच्चे मेरी मौत और जन्ती के कारण बड़े दुःख भेलेंगे । कलङ्क के कारण उन्हें सिर नीचा न करना पड़े ।'

विशप ने कहा—“भाई भगवान को याद करो । अब दुनिया की चीजों का मोह छोड़ो । तुम्हें शीघ्र ही ईश्वर में जाकर मिलना है । उसी का नाम लो । बाल-बच्चों को भूल जाओ ।” एग्मोएट ने आह भरकर कहा—“हाय ! मनुष्य की प्रकृति कितनी निर्बल है । जिस समय भगवान् की याद करनी चाहिए उस समय बाल-बच्चों की याद आती है ।” फिर वह सम्हलकर बैठ गया और दो पत्र लिखे । एक फिलिप को, दूसरा एल्वा को । फिलिप के पत्र में लिखा—

“श्री महाराज !

आज शामको मुझे मालूम हुआ कि श्रीमान् ने मुझे क्या दण्ड देना निश्चय किया है । मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने स्वप्न में भी कभी कोई ऐसा विचार और कार्य किया है जो श्रीमान् के अथवा सनातन-धर्म के विरुद्ध कहा जा सकता हो । परन्तु

भगवान् की इच्छा; जो दण्ड मुझे मिला है उसे मैं सत्र से सह लेने को तैयार हूँ। यदि मैंने कभी कोई ऐसा कार्य किया हो, जो आपके विरुद्ध कहा जा सकता है, तो मैं आप से सच कहता हूँ कि मैंने वह कार्य बिल्कुल सद्भाव से ईश्वर की और आप की सेवा करने के विचार से अथवा समयानुकूल होने के कारण ही किया होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें। मेरी स्त्री, मेरे बच्चों और मेरे नौकरों पर, मेरी पिछली सेवाओं का ध्यान रखकर, दया करें।

त्रसेल्स से,

मरने को तैयार, ५ वीं जुलाई सन् १५६८ ई०

श्री महाराज का दीन और स्वाभिभक्त गुलाम और सेवक

लेमोरेल डी एग्मोएट।”

एग्मोएट का फिलिप को पत्र लिखना अनावश्यक और व्यर्थ स्वामिभक्ति दिखाना था। जो हाथ उसका खून बहाने की तैयारी कर चुके थे, एग्मोएट उन्हीं को चूम रहा था। फिर रातभर एग्मोएट ने प्रातःकाल के लिए तैयारी करने में बिताई। अपनी कमीज का कालर फाड़ डाला, जिससे जह्माद को हाथ लगाने की जरूरत न पड़े। सारी रात परमात्मा की प्रार्थना करता रहा। उसका विचार हुआ कि फाँसी जाते समय जनता में अपने हृदय के कुछ उद्गार बहूँ। परन्तु विशप ने कहा—“भाई! यह सब व्यर्थ जायगा। जनता बहुत दूर खड़ी होगी। पास में तो स्पेन के सिपाही होंगे। वे आपकी घातें जरा भी समझ न सकेंगे। इस से अच्छा यही है कि किसी बात की चिन्ता न करके शान्ति से भगवान का भजन करते हुए आप फाँसी पर

चले जाँय ।” एग्मोएट की समझ में बात आ गई । उसने बिशप की राय मान ली । जिस प्रकार एग्मोएट प्रातःकाल फॉसी पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था उसी प्रकार हार्न भी तैयार हो रहा था ।

ब्रसेल्स के मशहूर चौक में फॉसी होने वाली थी । रातभर में वहाँ फॉसी की सब तैयारी कर ली गई थी । इसी चौक में बहुत से देशभक्तों को पहले भी फॉसियाँ लगी थीं । जिस चौक से प्रत्येक वर्ष सरदारों के खेल हुआ करते थे, जिस चौक में एग्मोएट बहुत से खेलों को जीतकर लोगों की आँखों में बस गया था, आज उमको उसी चौक में फॉसी पर चढ़ाकर सरकार जनता के हृदय पर आतङ्क बैठाना चाहती थी । प्रातःकाल होते ही फॉसी के चबूतरे पर दो मखमली कुर्सियाँ रख दी गईं । चबूतरे के चारों ओर तीन हजार हथियारबन्द सैनिक खड़े कर दिये गये । फिर एग्मोएट को लाया गया । एग्मोएट अपनी निर्दोषिता और राजभक्ति दिखाने के हेतु रास्ते भर फिलिप के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता आया । चबूतरे पर चढ़कर एग्मोएट टहलने लगा । फिर सरदार रोमेरो से पूछा--“क्या सचमुच क्षमा नहीं मिलेगी ?” रोमेरो के उत्तर में ‘न’ कहने पर एग्मोएट क्रोध से ओठ चबाने लगा । प्रार्थना कर चुकने पर जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, एक तरफ से जहाद ने निकलकर खट से उसका सिर उड़ा दिया । क्षण भर के लिए लोगों के दिल दहल उठे । स्पेन के सिपाहिया की आँखें भी आंसू से भर आईं । वीर एग्मोएट को सभी हृदय से सराहते थे । फ्रांस के राजदूत के मुँह से निकला--
“जिस मनुष्य के भय से फ्रांस दो दफे काँप उठा आज

उसका ऐसा दीन अन्त होता है।” एल्वा एक मकान से छिपकर सारा दृश्य देख रहा था। उसकी आँखों से भी आँसू बह रहे थे।

एग्मोएट की लाश पर एक काला कपडा डाल दिया गया। कुछ ही देर बाद हार्न भी भीड़ में से आता दिखाई पडा। वह अपने जान-पहचान के इधर-उधर खड़े हुए लोगो को प्रणाम करता आता था। चबूतरे पर चढ़कर उसने पूछा कि “क्या इन काले कपड़े के नीचे एग्मोएट की लाश है?” जवाब मिला ‘हाँ’। हार्न स्पेनिश भाषा में कुछ कहने लगा जो किसी की समझ में नहीं आया। प्रार्थना कर चुकने पर उसका सिर भी एग्मोएट की तरह उड़ा दिया गया। एग्मोएट के कारण ही उसका मित्र हार्न उस दिन ब्रसेल्ल चला आया था। इसलिए एग्मोएट ने प्रार्थना की थी कि मेरे मित्र के मरने के पहले मुझे मार डाला जाय। सरकार ने कृपा करके उसकी यह अन्तिम प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। दोनों के सिर काट लेने के बाद दोनों सिरों को भालों पर लगाकर दो घण्टे तक जनता के सामने रखा गया। लाशें वहीं चबूतरे पर पड़ी रहीं। फौज की जरा भी चिन्ता न करके बहुत-से लोग चबूतरे के चारों ओर एकत्र हो गये और रो-रोकर श्राप देने लगे। कुछ लोगों ने अपने रूमाल इन वारों के रक्त से भिगोकर वदना लेने की प्रतिज्ञायें लीं। अन्त में दोनों लाशें नातेदारों को दे दी गईं। हजारों की भीड़ शवों के साथ श्मशान तक आँसू गिराती हुई गई। एग्मोएट की स्त्री ने अपने पति की डाल और भण्डे इत्यादि सारे कीर्ति-चिन्ह अपने घर के द्वार पर लटका दिये। परन्तु एल्वा के हृदय में वे सब

चुरन्त ही उतार लिये गये । दो घण्टे भालों पर रहने के बाद एगमोएट और हार्न के सिर दो घंटे तक जलती हुई मशालों के बीच में रक्खे गये । बाद को बक्सों में बन्द करके स्पेन भेज दिये गये ताकि फिलिप अपनी की हुई शिकार आँखों से देखकर तृप्त हो जाय । नेदरलैण्ड के दो प्रख्यात वीरों—एगमोएट और हार्न का इस प्रकार अन्त हुआ । एगमोएट को लोग बहुत प्यार करते थे । इसलिए एगमोएट की आहुति की ज्वाला में हार्न की आहुति का प्रकाश मन्द पड़ गया ।

एगमोएट के एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति होने में कोई सन्देह नहीं है परन्तु उसे महान् पुरुष नहीं कह सकते । वह अपने ढीलेपन से मृत्यु का शिकार बना था । प्रारम्भ से कमी उसमें वे गुण नहीं देखे गये जो किसी देश के जन-प्रिय नेता में होते हैं । उसे जनता से अधिक सहानुभूति और प्रेम न था । कई बार 'खूनी कानूनों' के पक्ष में होकर उसने जनता पर अत्याचार भी किये थे । स्वाभिमान और राजपूती गर्व उसमें भरा था । जब उसके इस गर्व को ठेस लगती थी तब वह डफन पडता था । ऑरेञ्ज का असर कुछ उस पर अवश्य पड़ा था । पर ऑरेञ्ज के देश छोड़कर चले जाने पर उसका एगमोएट पर जो असर था वह भी नष्ट हो गया था ।

एगमोएट ने फिलिप को लिखा था कि 'जो कुछ मेरे योग्य सेवा हो मैं करने को तैयार हूँ ।' उसने एल्वा से पहली बार मिलने के समय त्रिस प्रकार चुपचाप अपमान सह लिया वह हमारे हृदय में उसके प्रति तिरस्कार कराने के लिए अवश्य काफी होता यदि उसमें वीरता इत्यादि अन्य अच्छे गुण न रहे होते । प्रेनबिले

अच्छी तरह समझता था कि एग्मोएट की जान ले लेने से कुछ लाभ नहीं होगा। फिलिप चाहता तो एग्मोएट को रक्त की नदियाँ बहाने में अपने हाथ का अच्छा हथियार बना सकता था। परन्तु फिलिप ने एग्मोएट का खून बहाकर एग्मोएट को शहीद बना दिया। नेदरलैण्ड के नौजवानों को देश पर मर मिटने के लिए प्रोत्साहन दिलाने वाली कविता का एग्मोएट एक नाटक बन गया। हार्न बिल्कुल साधारण मनुष्य था। परन्तु अपने पद के कारण उसका इस समय के इतिहास में विशेष स्थान है। उसे भी जनता अथवा सनातन-धर्म दोनों में से किसी पर विशेष स्नेह नहीं था। उसे केवल इस बात का दुःख था कि चार्ल्स और फिलिप ने उसकी काफ़ी कदर नहीं की थी। परन्तु टूर्नी के बलबे के समय सरकार के क्रोध का पात्र बन जाने की ज़रा भी विन्तान करके उसने एग्मोएट की तरह जनता के खून से हाथ नहीं रंगे थे।

हार्न और एग्मोएट के प्राण ले चुकने पर भी एल्वा का क्रोध दिन-दिन बढ़ता ही गया। एग्मोएट की स्त्री बेचारी अपने ग्यारह बच्चों को साथ लिये मठ में पड़ी थी। बच्चों को साथ लिये, नङ्गे पैर, गिरजे में अपने पदि की आत्मा के लिए प्रार्थना करती फिरती थी। एल्वा ने फिलिप को लिखा कि ‘एग्मोएट की पत्नी के पास शाम के लिये खाना भी नहीं है। किसी स्पेन के मठ में उसके रहने का प्रबन्ध कर दीजिए और उसकी लड़कियों को भिक्षुणियाँ बना दीजिए। इन सब बातों का जनता पर अच्छा असर पड़ता है।’

लुई की विजय के बाद एल्वा ने सारां फौज लेकर स्वयं

लुई से लोहा लेने का निश्चय किया था परन्तु यदि हार्न और एग्मोएट को क़ैद में छोड़कर एल्वा लुई से लड़ने चल देता तो उसकी पीठ फिरते ही राजधानी में गड़बड़ हो जाने का भय था। एग्मोएट और हार्न की रक्षा के लिए भी काफी फौज त्रमेल्स में रखनी पड़ती। इसलिए एल्वा ने हार्न और एग्मोएट का काम तमाम शीघ्र कर डालना ही उचित समझा। लुई प्रोनिजन के सामने डटा हुआ था। परन्तु रुपया पास न होने से धावा नहीं बोल सकता था। सैनिक वेतन न मिलने से बलवा करने पर तैयार थे। शहर नालों को डरा धमकाकर किसी तरह कुछ रुपया वसूल होता था। सिपाहियों का समझा-बुझाकर बड़ी मुश्किल से बलवा करने से रोके हुआ था। एल्वा के डर से रुपया देते नागरिकों के प्राण सूखते थे। इधर लुई धमकी देता था कि यदि विदेशियों को देश से निकालने में मुझे सहायता नहीं मिलेगी तो नागरिकों के घर फूँक डालूँगा। बेचारी जनता की दोनों तरह से मुश्किल थी। एल्वा, सरदार मेघम, नोयरकार्मस और ड्यूक ब्रसविक के साथ मेना लेकर पहुँचा। लुई फौज समेटकर युद्ध के लिए बनाये हुए किने में जा बैठा। लुई की सेना दस बारह हजार थी। किले के चारों ओर खाई खोद ली गई थी। खाई के आगे नदी थी। शहर के लिए जाने को दो काठ के पुल थे। इन दोनों के निकट भी लुई ने अपने आदमी तैनात कर रखे थे। उन्हें आज्ञा दे दी गई थी कि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त पुलों में आग लगा दी जाय। प्रोनिजन के एक मकान की छत पर एल्वा ने चढ़कर देखा कि शत्रु बहुते सुरक्षित स्थान में बैठा है। उसने पाँच सौ चुने हुए

जवानों को इसलिए आगे भेजा कि किसी तरह शत्रु को लालच देकर खाई से बाहर निकाल लिया जाय। परन्तु लुई के सैनिकों ने बाहर निकलने की इच्छा नहीं दिखाई। सब जहाँ के तहाँ बूटे रहे। एल्वा ने और एक हजार जवान भेजे। लुई की सेना में पिछले दिन ही बलवा हो चुका था, इसलिए उसे अपनी सेना पर विश्वास नहीं रहा था। जैसे बने वैसे वह पीछे हट जाने की ताक में था। एल्वा के एक हजार नये जवानों के आगे बढ़ने पर भी उसने अपनी सेना को बाहर नहीं निकलने दिया। दिन भर ऐसे ही बीता। शाम को लुई के सैनिकों से न रहा गया। बाहर मैदान में निकलकर स्पेन की सेना से लड़ने लगे। कुछ ही मिनटों में स्पेन वालों ने राष्ट्रवादियों की सेना को वितर-वितर कर डाला। लुई के लोग पीछे खाइयों को ओर भागे। उनको आगे देख सारी सेना भाग उठी। उन्होंने इतना धृच्छा किया कि पुलों में आग लगाकर भागे। परन्तु इनके पैर उखड़ते ही स्पेन के सिपाही भूखे भेड़ियों का तरह झपटे। अपने जलते हुए कपड़ों और दाढ़ियों की चिन्ता न करके काठ के पुलों पर उठती हुई ज्वालाओं को चारकर दौड़े। कुछ नदी में से तैरकर पार आये। सवारों ने अपने घोड़े नदी में डाल दिये। स्वयं घोड़ों का पूँछ पकड़कर घोड़ों को भालों से हाँक-हाँककर पार ले आये। मैदान में पहुँचते ही स्पेन के सिपाहियों ने ३०० देश-भक्तों को जर्मन पर सुला दिया और लगभग इतने ही देशभक्त खाई-खन्दकों में गिरकर मर गये। रात हो जाने से शेष को भाग जाने का मौका मिल गया।

पाँच दिन बाद एल्वा एम्स नदी के किनारे रीडन ग्राम

में पहुँचा। उसका विश्वास था कि लुई अशुभ यहीं होगा। यह स्थान बड़े मार्के का था। यहाँ एम्स नदी पर एक पुल था। उसे पार करते ही जर्मनी की सरहद आ जाती थी। यदि लुई ने युद्ध के लिए यह जगह चुनी होती तो खूब निर्भय होकर देर तक लड़ सकता था क्योंकि मौका पड़ने पर तुरन्त पार करके सेना-सहित जर्मनी में घुस जा सकता था। ऑरेञ्ज स्ट्रासबर्ग में बैठा नेदरलैण्ड के बीचोबीच में घुस पड़ने का प्रयत्न कर रहा था। उसको भी सहायता मिल जाती। परन्तु लुई ने बड़ी भूल की, उसने रीडन के बजाय जेमिजन नाम का स्थान चुना था। वहाँ जाकर वह बिल्कुल एक कोने में फँस गया था। एल्वा लुई को एक कोने में फँसा देखकर बड़ा ही खुश हुआ।

लुई की सेना करीब १० हजार थी। परन्तु सब सैनिक बलवा करने की धमकियाँ दे रहे थे। उन्हें बहुत दिनों से वेतन नहीं मिला था। हाल ही में उन्हो ने कहीं सुन लिया था कि लुई के पास सोना आया है। इसलिए वे सब दुन्द मचाने लगे कि सोना हमको बाँट दिया जाय। लुई ने सैनिकों को खाली खजाना खोलकर दिखा दिया और कहा—“नोना-ओना तो कहीं है नहीं परन्तु यदि स्पेन वालो के हाथो कुत्तो की मौत मरने की इच्छा न हो तो लड़ने के लिए जल्द ही कमर बाँधकर तैयार हो जाओ। देर लगाओगे तो एक की जान न बचेगी।” बड़ी मुश्किल से समझा-बुझाकर लुई ने सैनिकों को लड़ने के लिए तैयार किया। लुई ने सोचा कि जिधर से स्पेन की सेना आने वाली है उस मार्ग में समुद्र का बाँध खोलकर अगर पानी भर दिया जाय तो सेना का रास्ता बन्द हो जायगा। तुरन्त

उसने बहुत से आदमियों को एक दम जाकर बाँध काट देने का हुक्म दिया । स्वयं भी फावड़ा लेकर बाँध पर जा डटा । मनुष्यों को बाँध काटने के काम पर लगाकर लुई लौट आया और सेना को युद्ध के लिए तैयार करने लगा । कुछ भाग बाँध का काटते ही घुटनों तक तथा कहीं-कहीं कमर तक पानी आ पहुँचा । इतने में ही स्पेन की सेना का अगला भाग दौड़ता हुआ आया । और बाँध पर कब्जा कर लिया । बाँध तोड़ने वाले सब मनुष्य वहाँ से भाग आये । बाँध पर शत्रु का अधिकार हो जाने से लुई को बड़ा दुःख हुआ । सारी सेना लेकर लुई बाँध की तरफ मुड़ा । उसकी इच्छा थी कि जैसे बने तैसे बाँध पर कब्जा जमाकर काम पूरा कर दिया जाय । परन्तु स्पेन वाले ऐसे निश्चल होकर लडे मानो पृथ्वी में पाँव गड़ाकर लड रहे हों । बाँध का जो भाग टूट गया था उसे फिर भर लिया । लुई की सेना को अपने स्थान पर लौट आना पडा । एल्वा ने रीडन से कृच कर दिया । यहाँ भी उलने ग्रोनिजन की चाल चलकर देश-भक्तों को नष्ट कर डालने का निश्चय किया था । रीडन के पुल रास्तों और खुलियानो पर एल्वा ने अपने आदमी तैनात कर दिये थे । किमी तरफ देश-भक्तों को भागकर निकल जाने के लिए मार्ग नहीं छोड़ा गया था । एल्वा की चाल फिर सफल हुई । जैसे ही देशभक्त एल्वा की सेना पर आक्रमण करने के लोभ में पडकर खाइयों से बाहर निकले स्पेनवालों ने मरुपट्टर ७०० मनुष्यों को थोड़ी ही देर में मैदान में बिछा दिया । स्पेन की तरफ के हुलनात मनुष्य काम आये । जो देशभक्त शेष रह गये थे वे हथियार पकड़कर भाग खडे हुए । लुई ने इन लोगों को लल-

कार कर लड़ने के लिए लौटाने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु मगदद में उसकी कौन सुनता था ? वेचारा अकेला ही जाकर कुछ देर तक अपने हाथो सारी तोपे दागता रहा । परन्तु जिन तोपों के लिए बीसों हाथो की आवश्यकता थी वहाँ दो हाथ कहीं तक काम कर सकते थे ? अब उसे विजय की कुछ आशा न रही । निदान वह अपने कुछ साथियों को लेकर एम्स में कूद पड़ा और तैरकर उस पार जर्मनी की सीमा में घुस गया । इधर दो दिन तक स्पेन वाले भागे हुए सैनिकों को खन्दकों, झाड़ियों और अन्य छिपने को जगहों से निकाल-निकालकर मारते और जलाते फिरे । एक लेखक लिखता है—“स्पेन की फ़ौज में ऐसा कोई छाकरा भी नहीं था जिसका किसी मनुष्य का सिर काटने अथवा जिन्दा जलाने का हौसना पूरा न हुआ हो ।” एल्वा विजय-पताका फहराता हुआ प्रोनिंजन लौट गया । रास्ते भर विजय के नशे से पागल एल्वा के सिपाहियों ने जवान छियों की इज्जत नष्ट की, बुढ़ियों को कत्ल किया और गरीब किसानों के झोंपड़े फूँके । जनता अनाथ और असहाय थी । सैनिकों के पास हथियार थे इसलिए उनके मन में जो आता था, करते थे । इतना अत्याचार हुआ था कि सगीन-दिल एल्वा तक को अपने कुछ सैनिकों को फाँसी देने को मजबूर होना पड़ा तब कहीं जाकर स्पेन वालों का हाथ रुका । प्रोनिंजन पहुँचकर एल्वा ने पचायत की बैठक बुलाई और राजभक्ति का उपदेश देते हुए लोगों को ठीक तरह से रहने की चेतावनी दी । प्रोनिंजन में लड़ाई का एक किला बनाने का हुक्म देकर वह एम्सटर्डम होता हुआ यूटरेक्ट गया । वहाँ उसका पुत्र सेना लेकर आ पहुँचा

था। एल्वा ने ३०००० पैदल और ८००० सवारों की सारी सेना का मुआयना किया। प्रान्त पर विजय प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए इतनी फौज की अब आवश्यकता नहीं थी। रुपये की बहुत आवश्यकता थी। एल्वा ने ग्यूटेरेक्ट की एक बड़ी अमीर विधवा को धर्म-विरुद्ध आचरण करने का अपराध लगाकर फॉसी पर चढ़ा दिया और उसका सारा धन जब्त करके शाही खजाने में रख लिया। ब्रसेल्स लौटकर एल्वा ने लोगों की जान लेने और जलाने का काम फिर जोर-शोर में प्रारम्भ कर दिया। उत्तरीय प्रान्त फ्रीसलैंड को दबा लेने से एल्वा का हौसला बढ़ गया था। एग्माएट का मन्त्री वक्करजील और हार्न का मन्त्री लालू तथा एगटवर्प के वर्गोमान्टर इत्यादि अभी तक जेलखाने में बंद थे। शिकजे में रोज कसकर उन्हें अधमरा कर दिया गया था। अन्त को कुर्सी पर बाँधकर उन अभागों का मिर उड़ा दिया गया। ब्रवेगट का कोतवाल जनता पर इतना जुल्म करता था कि उसका नाम ही 'खूनी डडा' पड़ गया था। परन्तु एल्वा ने उस पर विश्वास लेकर दोषी आदमियों को छोड़ देने का अपराध लगाया और फॉसी पर चढ़ा दिया। बेचारे कोतवाल को अपने जीवन-काल में कभी विचार भी नहीं आया होगा कि जिस फॉसी पर वह निर्दय बनकर लोगों को दिन-रात चढ़ाया करता था उसी पर किसी दिन उसे भी मरना पड़ेगा।

देशभक्तों ने जहाँ-जहाँ प्रयत्न किया था वहाँ वहाँ उन्हें एक छोटी-सी हीलीगरली की विजय के अतिरिक्त बुरी तरह पराजय ही मिली थी। परन्तु इससे आरेञ्ज जरा भी विचलित नहीं

हुआ। हां, दुःख उसे अवश्य हुआ। लुई ने फ्रीसलैण्ड में ऑरेञ्ज के बताये हुए ढग के विल्कुल विरुद्ध ढग पर युद्ध किया था। परन्तु हार के बाद ऑरेञ्ज ने लुई पर क्रोध नहीं किया। वरन् सान्त्वना देते हुए लिखा—“भाई ! निराश मत होना। भगवान् की जो इच्छा होती है वही होता है।” इस समय से शाहजादा ऑरेञ्ज में एक और नया परिवर्तन शुरू होता है। अभी तक वह सनातन रोमन कैथलिक पन्थ में विश्वास करता चला आया था। प्रोटेस्टेण्ट इत्यादि दूसरे पन्थों के लोगों पर अत्याचार करने के विरुद्ध था। परन्तु अब उसका भी हृदय सनातन धर्म को ओर से फट गया। अभी तक ऑरेञ्ज सांसारिक चिन्ताओं और सांसारिक कार्यों में ही लिप्त रहा था। अब उसका मन भगवान् की ओर भी फिरा। चारों ओर क्लेश, आपदायें और अपनी असहाय अवस्था देखकर उसका विश्वास हो चला कि जो भगवान् करता है वही होता है, परन्तु उसका यह विश्वास ससार में असफल रहने वाले अकर्मण्यता के पुजारी, जवानी में रणक्षेत्र छोड़ चिमटा लेकर भाग उठने वाले निकम्मे पुरुषों का विश्वास नहीं था। ऑरेञ्ज भगवान् पर भरोसा रखकर डका बजाते हुए रणक्षेत्र में प्रवेश करने वाला मनुष्य था। विजय और पराजय भगवान् के हाथ अवश्य समझता था। इस समय के अपनी स्त्री को लिखे हुए एक पत्र से उसकी मनोदशा का पता चलता है। वह लिखता है—

“मैं कल चल दूँगा। कब लौटूँगा और कब तुम्हारा मुँह देख सकूँगा, कुछ ठीक नहीं। मैंने तो अपने को भगवान् के हाथों में सौंप देने का निश्चय कर लिया है। जिधर उसकी इच्छा

होगी मुझे ले जायगा । मुझे स्पष्ट दीखता है कि मेरा यह जीवन मेहनत और कष्ट में ही कटेगा । परन्तु मैं सन्तुष्ट हूँ । भगवान् की ऐसी ही इच्छा है । मैंने जिन्दगी भर घोर पाप किये हैं । जो दण्ड मुझे दिया जाय थोड़ा है । मेरी भगवान् से केवल यही प्रार्थना है कि दया करके कष्ट मेलने की शक्ति मुझे दे ।”

लुई की जेमिंजन में हार होत ही ऑर्रेञ्ज के सारे जर्मनी के मित्र ढीले पड़ गये । सब उसको सलाह देने लगे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, चुप होकर बैठना ही ठीक है । नेदर-लैण्ड का बचाना तुम्हारी शक्ति के बाहर है । जर्मनी के सम्राट ने फिलिप को नेदरलैण्ड और ऑर्रेञ्ज के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था इसलिए सब को राय थी कि पत्र का उत्तर आने तक ऑर्रेञ्ज को खामोश रहना चाहिए । जो आदमा ऑर्रेञ्ज के साथ लड़ने को तैयार थे लुई की हार से उनके उत्साह पर भी पानी पड़ गया था । परन्तु ऑर्रेञ्ज ने किसी की कुछ चिन्ता न की । अपनी तैयारी में लगा रहा । मई सन १५६८ में जर्मन सम्राट ने ऑर्रेञ्ज को स्पष्ट लिखा—“यदि तुम जर्मन-साम्राज्य के भीतर मेरे भाई फिलिप के विरुद्ध सेना अथवा युद्ध की अन्य सामग्री एकत्र करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारी सारी जागीर, उपाधिया इत्यादि जब्त करली जायगी और तुम्हें बड़ी बेइज्जती के साथ जर्मनी से निकाल दिया जायगा ।” ऑर्रेञ्ज इस धमकी की जरा भी चिन्ता न करके अपना काम करता रहा । जिस देश की रक्षा करना उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था वहां लोग दिनरात अत्याचारों से पीड़ित होकर त्राहिनाम् त्राहिनाम् चिल्ला रहे थे । भला फिर ऑर्रेञ्ज हाथ पर

हाथ रखकर कैसे बैठ सकता था ? उसने सम्राट को उत्तर में लिखा—

“मैं फिलिप से लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा हूँ । फिलिप-जैसा दयावान राजा ऐसे क्रूर आदेश कभी नहीं निकाल सकता । जो कुछ अत्याचार नेदरलैण्ड की अनाथ प्रजा पर हो रहा है वह सब एल्वा की करतूत है । एल्वा के घोर अत्याचार से प्रजा का त्राण करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ । मैंने ‘उत्तर’ नाम की एक पत्रिका छपवाकर बटवाई है । उसमें अपने विरोध के जो कारण बताये हैं उसे पढ़कर श्रीमान् समझ जायेंगे कि मैंने धर्म और शान्ति के लिए ही हथियार चठाये हैं । मुझे आशा है कि श्री महाराज मेरे मार्ग में कोई बाधा खड़ी न करके स्वयं नेदरलैण्ड के गरीब, अनाथ और अत्याचार-पीड़ित लोगों की रक्षा करने में मुझे सहायता करेंगे ।” इसी समय ऑरेञ्ज ने एल्वा के प्रति युद्ध की एक घोषणा भी छपवाकर बटवाई । यदि नेदरलैण्ड के इस संकट के समय ऑरेञ्ज न रहा होता तो नेदरलैण्ड गुलामी में पड़ा-पड़ा सड़ा करता । यदि नेदरलैण्ड की जनता का हृदय स्वतंत्रता के लिए न चीख रहा होता तो ऑरेञ्ज का सारा प्रयत्न व्यर्थ गया होता । ऑरेञ्ज अपने देश के लोगों का हृदय अच्छी तरह पहचानता था । देश के लोगों की ऑरेञ्ज पर अटल श्रद्धा थी । ऑरेञ्ज एक छोटे से प्रान्त का सूबेदार था । परन्तु उसने निर्भय होकर यूरोप के सबसे शक्तिशाली राजा के विरुद्ध नेदरलैण्ड की रक्षा में अपना हाथ ऊंचा किया था । अपना निजी धन खर्च करके बड़ी कठिनता से उसने करीब ३०००० सेना एकत्र कर ली । ससार तथा विशेषतः नेदरलैण्ड वालों की जानकारी

हाथ रखकर कैसे बैठ सकता था ? उसने सम्राट को उत्तर में लिखा—

“मैं फिलिप से लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा हूँ । फिलिप-जैसा दयावान राजा ऐमे क्रूर आदेश कभी नहीं निकाल सकता । जो कुछ अत्याचार नेदरलैण्ड की अनाथ प्रजा पर हो रहा है वह सब एल्वा की करतूत है । एल्वा के घोर अत्याचार से प्रजा का त्राण करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ । मैंने ‘उत्तर’ नाम की एक पत्रिका छपवाकर बटवाई है । उसमें अपने विरोध के जो कारण बताये हैं उसे पढ़कर श्रोमान् समझ जायंगे कि मैंने धर्म और शान्ति के लिए ही हथियार उठाये हैं । मुझे आशा है कि श्री महाराज मेरे मार्ग में कोई बाधा खड़ी न करके स्वयं नेदरलैण्ड के गरीब, अनाथ और अत्याचार-पीड़ित लोगों की रक्षा करने में मुझे सहायता करेंगे ।” इसी समय ऑरेञ्ज ने एल्वा के प्रति युद्ध की एक घोषणा भी छपवाकर बटवाई । यदि नेदरलैण्ड के इस संकट के समय ऑरेञ्ज न रहा होता तो नेदरलैण्ड गुलामी में पड़ा-पड़ा सड़ा करता । यदि नेदरलैण्ड की जनता का हृदय स्वतंत्रता के लिए न चीख रहा होता तो ऑरेञ्ज का सारा प्रयत्न व्यर्थ गया होता । ऑरेञ्ज अपने देश के लोगो का हृदय अच्छी तरह पहचानता था । देश के लोगो की ऑरेञ्ज पर अटल श्रद्धा थी । ऑरेञ्ज एक छोटे से प्रान्त का सूवेदार था । परन्तु उसने निर्भय होकर यूरोप के सबसे शक्तिशाली राजा के विरुद्ध नेदरलैण्ड की रक्षा में अपना हाथ ऊंचा किया था । अपना निजी धन खर्च करके बड़ी कठिनता से उसने करीब ३०००० सेना एकत्र कर ली । ससार तथा विशेषतः नेदरलैण्ड वालों की जानकारी

के लिए अपने उद्देश और आशाओं की घोषणा निकाली । ऑरेञ्ज ने यह अपील भी की कि जनता के कार्य के लिए रुपये की बढ़ी जरूरत है । अमीरों को अपनी थैलियों का मुँह खोल देना चाहिए, गरीबों को झोलियां उलट देनी चाहिए । परन्तु इस अपील का अधिक असर नहीं हुआ । नेदरलैण्ड के सरदारों और व्यापारियों की ओर से ३ लाख के वचन मिले थे । मगर कठिनाई से १ लाख मिल सका । एक गरीब पादरी निर्वासित निर्धनो से कुछ पैसे इकट्ठा करके जानपर खेलकर ऑरेञ्ज के पास पहुँचा । ऑरेञ्ज के हृदय पर इस बात का बड़ा अच्छा प्रभाव पडा । वह बोला—“यह गरीबों का भेजा हुआ धन अमूल्य है । रकम की ओर ध्यान न देकर उन गरीबों के भावों का विचार करना चाहिए जिन्होंने अपना पेट काटकर ये थोड़े-से पैसे भेजे हैं ।”

सितम्बर में ऑरेञ्ज ने अपनी सेना ट्रेव्स प्रान्त में एकत्र की । तीस हजार सेना में ९ हजार सवार थे । लूमी काउण्ट डेलामार्क भी अपने छटे हुए जवानों की एक टुकड़ी लेकर आ मिला । सरदार लूमी एग्मोण्ट का कुटुम्बी था । उसने प्रतिज्ञा की थी कि जबतक देश स्वतन्त्र नहीं हो जायगा या जबतक एग्मोण्ट का बदला नहीं चुका लूंगा तबतक न सिर के बाल कटाऊंगा, न दाढ़ी ही मुड़ाऊंगा । इस आक्रमण में देशभक्तों के भाग्य में बहुत जयमालायें नहीं लिखी थीं । ऑरेञ्ज सेण्टफीट नाम के अपनी जागीर के गाँव के निकट राइन नदी पार करके नदी के किनारे-किनारे कोलोन तक उतर आया । जूलियर्स और लिम्बर्ग के आस-पास उद्देश्य-रहित सा घूम-घामकर एक दिन चौदनी रात में उसने अचानक सेना-सहित स्टौचेन के निकट

मियूज नदी पार की। नदी पार करने में बड़ी वीरता और होशियारी से काम लिया गया था। घुड़सवार घाट के बीच में दो कतारें बनाकर खड़े होगये थे। उनके बीच में से सारी सेना मजे से नदी पार कर गई। सप्ताह के प्रख्यात महारथी जूलियस सीजर ने भी इसी प्रकार कई बार नदियाँ पार की थीं। मियूज में इस समय पानी कम था। फिर भी सैनिकों के गले तक था। तीस हजार सेना का इस तरह मियूज पार कर जाना बड़ी बहादुरी का काम समझा गया। चारों ओर समाचार फैल गया। स्पेन वाले ऑरेञ्ज के नाम पर घृणा से मुँह सिंभोड़ा करते थे। परन्तु यह खबर सुनकर उनके दिल दहल गये। सरकार की ओर से खबर बिल्कुल झूठी मानी गई। यहां तक कि एन्सटर्डम के एक निवासी को इसलिए कोड़े की सजा दी गई कि वह यह खबर उड़ाता फिरता था। एल्वा ने जब विलियम ऑरेञ्ज के सेना-सहित एक रात में नदी पार कर आने का समाचार सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। बोला—“ऑरेञ्ज की सेना में मनुष्य है या बत्तखें? मियूज-जैसी नदी इस प्रकार कैसे पार की जा सकती है?” परन्तु ऑरेञ्ज की सेना में मनुष्य ही या बत्तखें, बात सच्ची थी। शहजादा विलियम को देशनिकाले का हुक्म था। परन्तु वह तीस हजार सङ्गठित सेना लिए ब्रवेण्ट की सरहद पर जा बैठा और एल्वा से एकदम भिड़ जाने का मौका देखने लगा। जर्मिजन की भयङ्कर हार का विलियम को कंलक मिटाना था। उसने सोचा—“यदि मैं इतनी सेना लेकर देश में घुस पड़ूंगा तो चारों ओर से देश के हजारों आदमी भी आ मिलेंगे। अत्याचारियों पर एक विजय मिलते ही फिर देश का

बचा-बचा साथ हो जायगा।” इसलिए वह झंडे फहराकर रण-
वाद्य का घोर नाद करते हुए ब्रवेण्ट मे ऐसे घुसा था मानो
किसी विजयी सेनापति ने प्रवेश किया हो। ऑरेञ्ज ने बढ़कर एल्वा
की छावनी से केवल छ हजार कदम की दूरी पर अपना डेरा
डाल दिया। उसकी इच्छा थी कि जैसे भी हो शत्रु को
लडने के लिए लालच देना चाहिए। एल्वा का पड़ाव कासरस्लेजा
नाम के स्थान पर था। उसके पीछे मेसट्रिश्ट नगर था। वहा से
एल्वा को रसद मिलती थी। ऑरेञ्ज ने एल्वा के पास एक दूत
को सन्देश लेकर भेजा कि लड़ाई के वन्दी कत्ल न किये जाँय।
दोनों पक्ष कैदियों को आपस में बदल लें। दूत एल्वा के पास
पहुँचकर घोड़े से उतरा ही था कि तुरन्त पकड़कर सूली पर
चढ़ा दिया गया। ऑरेञ्ज के एक समुचित सन्देश का ऐसा
अमानुषिक उत्तर दिया गया। एल्वा तो केवल लड़ना जानता
था। लड़ाई के पहले विद्रोहियों से बात नहीं करता था। लड़ाई
के बाद शत्रु पर दया दिखाना नहीं जानता था। मारना, काटना,
जलाना ही उसे आता था। ऑरेञ्ज की तरह लोगों की जान
बचाने की उसे चिन्ता नहीं थी।

एल्वा ने विचार लिया था कि ऑरेञ्ज कितना ही लड़ने के
लिए लालच दे परन्तु मैं हमला नहीं करूँगा। उसे विश्वास था कि
यहाँ बिना लड़े ही जीत हो जायगी। फ्रीसलैंड की बात दूसरी
थी वहा लड़ने की बहुत जरूरत थी। लुई के स्पेन की वीर सेना
को एकवार हरा देने के कारण देश में उत्साह फैल गया था।
चारों ओर से आदमी आ-आकर लुई से मिल रहे थे। इस
उत्साह को शीघ्र भङ्ग कर देने की जरूरत थी। परन्तु यहाँ

लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी । पिछलो हार से देश में निरुत्साह और भय छा गया था । कहीं मे ऑर्रेञ्ज को कोई सहायता मिलने की आशा नहीं थी । फ्रीसलैंड में लोगों ने लुई की सहायता इसलिए भी की थी कि दूसरी ओर से ऑर्रेञ्ज की तैयारी के समाचार आ रहे थे । लोगों को आशा थी कि ऑर्रेञ्ज और लुई की सेना का मिलाप हो जाने से देशभक्तों के पास बड़ी भारी शक्ति हो जायगी । ऐसी अवस्था में कायरों को भी लुई की सहायता करना ही अधिक उपयुक्त जँचता था । लुई की हार हो जाने से कहीं से सहायता मिलने की आशा न रही थी । अकेला ऑर्रेञ्ज मैदान में था । उसकी सेना देशभक्तों की अन्तिम आशा थी । एल्वा समझता था कि फ्रीसलैंड में सरकार की भी हार हो जाती तो अधिक हानि नहीं थी । देश का एक कोना ही तो हाथ से निकल जाता । ब्रवेण्ट नेदरलैंड का केन्द्र था । यहाँ हार जाने से सारे देश में क्रान्ति हो जाने का भय था । एल्वा डण्डे के बल पर राज्य करता था । ऑर्रेञ्ज लोगों के हृदय का राजा था । यदि एल्वा हार जाता तो उसे कहीं पैर रखने को भी ठिकाना नहीं मिलता । ऑर्रेञ्ज को विजय मिलते ही लोग सिर ऑँखों पर उठा लेते । एल्वा को विश्वास तो था कि मेरी सेना मैदान में बढकर ऑर्रेञ्ज को हरा सकती है परन्तु वह खतरा उठाना ठीक नहीं समझता था क्योंकि ऑर्रेञ्ज के पास काफी सेना थी । एल्वा के पास केवल पन्द्र-सोलह हजार पैदल और ५५०० सवार थे । जाडे का मौसम आ पहुँचा था । एल्वा ने सोचा कि 'ऑर्रेञ्ज की सेना स्वयं ही ठण्ड के कारण भाग जायगी । सैनिकों का वेतन चुकाने के लिए भी ऑर्रेञ्ज के पास रूपया

नहीं है । लूटमार की भी आशा न रहने से कुछ ही सप्ताह में फौज निराश होकर लौट जायगी ।' शत्रु की सेना को जब इस चाल से ही कुछ दिन में तितर-बितर किया जा सकता था तो फिर मुठभेड़ करके ऑरेञ्ज को जीत का मौका देना सरासर मूर्खता थी । ऑरेञ्ज के पॉव देश में गड़ जाने से फिलिप का साम्राज्य सकट में पड़ जाता ।

एल्वा ने ऑरेञ्ज को लड़ाई का मौका न देने का दृढ़ सकल्प कर लिया और यहा उसने लुई की लड़ाई से भी अधिक युद्ध-कौशल दिखलाया । एक मास तक दोनो पक्ष की सेनायें एक दूसरे के सम्मुख पड़ी रहीं । २९ बार ऑरेञ्ज ने अपना पड़ाव बदला । परन्तु जिधर वह जाता था उधर ही सामने एल्वा का पड़ाव आ लगता था । तीन बार तो दोनो सेनायें एक दूसरे के निशाने के भीतर पड़ी रहीं । दो बार दोनो सेनाओं के बीच में खुले मैदान के अतिरिक्त कोई खाई या खन्दक नहीं थी । लोग एल्वा के भय से ऑरेञ्ज को रसद देने से इन्कार करते थे और एल्वा ने प्रान्त भर की आटा पोसने की चक्कियां तोड़वा डाली थीं । आटा पोसने का जब साधन ही नहीं था तो ऑरेञ्ज को आटा मिलता कहाँ से ? उसकी सेना में वेतब न मिलने से तथा लूट का मौका हाथ न लगने से उपद्रव होने लगा । एकवार तो ऑरेञ्ज की कमर से उपद्रवी सैनिकों ने तलवार तक छीन ली । बड़ी कठिनाई से उस ने बलवा रोका । एल्वा की चालों से उसकी सेना ऊब उठी थी । एल्वा की सेना सामने ही लड़ाई के लिए तैयार दीखती थी । जब ऑरेञ्ज के सैनिक लड़ने की तैयारी करते तो भूत की तरह एल्वा की सेना क्षण भर में लुप्त हो जाती । जाड़ा आ जाने

से कष्ट भी बढ़ चला था। सरदार जेनलिम एक फ्रान्सीसी सेना लिए ऑरेञ्ज से वेवरन पर मिलने की राह देख रहा था। ऑरेञ्ज और उसकी सेना के बीच में गीटा नदी बहती थी। ऑरेञ्ज अपनी सेना के साथ गीटानदी के पार जाने लगा। पीछे रक्षा के लिए सरदार ह्यूसट्रेटन की अध्यक्षता में तीन हजार सैनिकों को एक पहाड़ी पर रख दिया। एल्वा ने अपने लडके डॉन फ्रेडरिक को चार हजार पैदल और तीन हजार सवार लेकर ह्यूसट्रेटन की सेना नष्ट कर डालने के लिए भेजा। उसने थोड़ी ही देर में सारी सेना नष्ट कर डाली और एल्वा के पास तुरन्त एक दूत द्वारा सन्देशा भेजा कि 'मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। आप सारी सेना लेकर आगे बढ़िए और शत्रु की शेष सेना को भी नष्ट कर डालिए।' एल्वा ने दूतसे चिल्लाकर कहा—“डॉन से पूछना कि वह सेनापति है या मैं? एक आदमी भी नदी के उसपार न जाय। अगर दूसरा दूत तेरी तरह सन्देशा लेकर आया तो कसम खाकर कहता हूँ उसका सिर उड़ा दूँगा।” दूतने उलटे पाव जाकर एल्वा का हुक्म डॉन को सुना दिया। पहाड़ी के तीन हजार आदमियों में से करीब दो सौ मनुष्य भागकर एक मकान में जा छिपे थे। स्पेन के सैनिकों ने उस घर में आग लगा दी और चारों ओर भाले लेकर खड़े हो गये। जो निकलकर भागने का प्रयत्न करता उसे भाले से छेदकर मार डाला जाता था। कुछ सैनिक आग में मुन गये, कुछ स्पेन वालों के भालों का शिकार बने। कुछ ने स्नेह से गले लगाकर स्वयं ही एक दूसरे को मार डाला। स्पेन वाले शत्रुओं को अग्नि में मुनता देखकर ठट्टे लगाते थे मानो नाटक में विदूषक का अभिनय देखकर प्रसन्न हो रहे हो। देश-

अर्कों के तीन हजार सिपाही काम आये । परन्तु सबसे बड़ी हानि ह्यूंसट्रेटन की मृत्यु से हुई । युद्ध में अपनी ही पिस्तौल का एक मामूली धाव लग जाने से ह्यूंसट्रेटन तीन-चार दिन बीमार रहकर मर गया ।

इस विजय के बाद भी एल्वा लड़ाई से जहाँतक सम्भव था बचने का ही प्रयत्न करता रहा । उसकी सारी सेना लड़ने को उत्सुक थी । एक सरदार को तो इतना क्रोध आया कि पिस्तौल जमीन पर पटककर एल्वा से बोला--“आप कभी लड़ने नहीं देंगे ।” एल्वा ने सरदार के उत्साह की सराहना की परन्तु हँसते हुए बोला—“सैनिकों का काम लड़ना है, जीतना सेनापति का काम है । यदि विना रक्तपात किये ही विजय मिल जाय तो सब से अच्छा है ।” ऑरेञ्ज की युद्ध की अभिलाषा एल्वा ने पूरी नहीं होने दी । देश की कुम्भकर्ण-निद्रा से भी ऑरेञ्ज को बड़ी निराशा हुई । किसी स्थान पर देशवासियों ने उसका साथ नहीं दिया । किसी नगर ने उसके स्वागत को द्वार नहीं खोले, चारों ओर लोग भय से टुम दवाये गरदन नीची किये बैठे थे । ऑरेञ्ज के सैनिक ऊबकर बलवा करने लगे । जो एल्वा ने सोचा था वही सच्चा होता दिखाई देने लगा । फ्रांस में नवीन पन्थ के लोग अपने सनातनी राजा चार्ल्स नवम् का मुकाबला कर रहे थे । उन्होंने ऑरेञ्ज को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया था । परन्तु ऑरेञ्ज के सैनिक एल्वा से लड़ने आये थे, चार्ल्स से नहीं । वे सब जर्मनी लौट जाने को उत्सुक थे । निदान ऑरेञ्ज फ्रान्स होता हुआ जर्मनी लौट गया । स्ट्रासबर्ग में पहुँचकर उसने सारी सेना को छुट्टी दे दी । अपना माल-असबाब, बरतन-भाड़े, मेज-कुर्सी गिरवा

रखकर आरेंज जितना रुपया इकट्ठा कर सका उतना उसने सैनिकों की भेंट किया। शेष अपनी जागार वापिस मिलने पर अदा कर देने का वादा किया। उसने कहा—“यदि मैं फ्रान्स से लौटकर भी तुम्हारा रुपया न अदा कर सका तो मेरे शरीर पर तुम्हारा अधिकार होगा। फिर तुम्हारा जो जो चाहे करना।” एल्वा की चाल सफल हुई। आरेंज का सारा प्रयत्न निष्फल गया। जिस सेना पर सारे देशभक्तों की आँखें लगी थीं वह बिना लड़े ही तितर-बितर हो गई। ८ हजार सैनिक लुई को लड़ाइयों में काम आये थे। तीस हजार निराश होकर लौट गये। जो कुछ रुपया एकत्र हो सकता था, आरेंज ने किया था। परन्तु सारा धन व्यय हो गया और कुछ हाथ न आया। नेदरलैण्ड के उद्धार की आशा न रहो। फ्रांस में स्वतन्त्रता का संग्राम खिड़ गया था। आरेंज अपने दो भाई लुई और १८ वर्ष के छाकरे हेनरी को लेकर इस युद्ध में भाग लेने चला गया। हेनरी कालेज छोड़कर अपने भाइयों के साथ स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ने आया था। अपने भाइयों की तरह ही उसने भी अपने कुटुम्ब के रक्त का अच्छा परिचय दिया। एल्वा आरेंज को भगाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। त्रसेल्स लौटकर उसने खूब दावतें दीं। नागरिकों को दीपावली करने और फूल-पत्तों से घर सजाने तथा अपनी राह में फूल बिछाने का हुक्म दिया। खुशी के बाजे चारों ओर बजने लगे। एल्वा ने अपनी एक बहुत बड़ी मूर्ति भी बनवाकर एएटवर्प के किले में स्थापित कर दी। खैर किसी तरह नेदरलैण्ड में शोक के बाजों के स्थान पर हर्ष-वाद्य तो बजे ! थोड़े ही समय के लिए सही। मगर दरवाजों पर लाशों की बजाय पुष्प-मालाय ता लटकीं।

आरेंज की निष्फलता से उसके जर्मनी के सारे मित्र ठण्डे पड़ गये। फिलिप की स्त्री भी मर गई थी। शहंशाह जर्मनी अपनी लड़की का विवाह फिलिप से करना चाहता था; इसलिए वह भी फिलिप के पक्ष में हो गया।

ब्रसेल्स लौटने के कुछ ही दिन बाद एल्वा और इङ्गलैण्ड की महारानी में झगड़ा छिड़ गया। स्पेन से एल्वा के लिए खजाना आ रहा था। महारानी ने साधारण-सा बहाना ढूंढकर उसे ज़ब्त कर लिया। एल्वा को जब खबर मिली तो उसने दो आदमियों को महारानी से इस सम्बन्ध में बातचीत करने भेजा। महारानी उन मनुष्यों से न मिलीं वरन् बोलीं—“क्या एल्वा कोई तख्तनशीन बादशाह है जो मुझ से बातचीत करने को आदमी भेजता है ?” एल्वा यह डाट सुनकर बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने नेदरलैण्ड में रहने वाले सारे अंग्रेजों का माल ज़ब्त कर लेने का हुक्म निकाल दिया। उत्तर-स्वरूप महारानी ने इङ्गलैण्ड में रहने वाले नेदरलैण्ड-वासियों की ज़न्तियां शुरू कर दीं। एल्वा और एलिजबेथ के झगड़े में नेदरलैण्ड के व्यापार का बड़ा नुकसान हुआ। परन्तु इस झगड़े के समय भी एल्वा अपना मुख्य कार्य नहीं भूला था। सनातनधर्म के विरोधियों को रोज़ भट्टियों में मोकने और सूली पर चढ़ाने का काम जारी था। सरकार का हुक्म था कि देशभर में दाइयां केवल सनातनधर्मी ही हों। जिससे जो बच्चा पैदा हो उसकी ठीक-ठीक सूचना सरकार को तुरन्त लग जाय और बच्चा सनातनधर्मी बना लिया जाय। असंख्य जासूस केवल यह देखते फिरते थे कि यदि किसी ने मरते समय सनातन-धर्म की प्रार्थना न की हो तो सरकारी

हुकम के अनुसार उसकी जायदाद छव्त कर ली जाय और उसकी लाश बाजारों में घसीटकर अपमानित की जाय । एल्वा की इन सब धार्मिक सेवाओं और आरेंञ्ज इत्यादि पर विजय से प्रसन्न होकर पोप ने रोम से एल्वा के लिए जवाहरात से जड़ा हुआ एक टोप और एक तलवार भेजी । साथ आशीर्वाद भेजा कि “धर्म और ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर है । यह टोप उस ताज की निशानी है जो तुम्हें स्वर्ग में पहनाया जायगा ।” ईसा-मसीह के स्वनियोजित स्थानापन्न का आशीर्वाद पाकर एल्वा का उत्साह और बढ़ गया ।

एल्वा का विश्वास था कि लोगों की जड़ितियों से स्पेन के लिए एक स्थायी सोने की गंगा वह उठेगी । परन्तु उसका विश्वास पूरा नहीं हुआ । नेदरलैण्ड से आमदनी बढ़ने के वजाय और कम हो गई । एल्वा जैसा युद्धशास्त्री था वैसा ही अपने को अभिमान में अर्थ-शास्त्री भी समझने लगा था । उसने कहानी के प्रसिद्ध मूर्ख की तरह भुर्गी का पेट फाड़कर सोने के अण्डे निकालने का निश्चय किया । नेदरलैण्ड में प्राचीन काल से कर के सम्बन्ध में एक प्रथा चली आती थी । वह यह थी कि जितने कर की राजा को आनश्यकता होती थी वह जनता की पचायतों को बुलाकर माँगता था । पचायत के प्रतिनिधि जाकर जनता की राय लेते थे । यदि जनता राजा को माँग स्वीकार कर लेती थी तो कर भर दिया जाता था । अन्यथा राजा को अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी ऐसे दूसरे मुअवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी जब पचायतें उसका माँग स्वीकार कर लें । नेदरलैण्ड के कानूनों के अनुसार किसी को इस प्रथा में हस्तक्षेप करने का

अधिकार नहीं था। कर के सम्बन्ध में निश्चय करना प्रजा का अधिकार था। मगर एल्वा को यह बात कैसे सहन हो सकती थी? जिस देश के प्रत्येक मनुष्य को विद्रोही करार देकर प्राण-दण्ड का अपराधी ठहरा दिया गया था उस देश की प्रजा के अधिकारों की चिन्ता ही कौन करता? एल्वा ने सारी पचायत बुलाकर मनमाना हुक्म सुनाया—“सारी जायदाद पर एक सैकड़ा कर तुरन्त सरकार को देना होगा। यह कर स्थायी नहीं होगा। यदि फिर कभी सरकार को रुपये की जरूरत पड़ेगी तो देना जायगा। किसी जायदाद के तन्दोल होकर एक आदमी से दूसरे के पास जाते समय ५ सैकड़ा कर लगेगा और यह कर स्थायी है। हर माल पर १० सैकड़ा लगेगा। जितनी वार माल विदेगा उतना वार कर देना पड़ेगा। यह कर भी स्थायी है।”

एल्वा के इस हुक्म का सुनकर पचायतें अनाकूर रह गईं। धर्म और परलोक की बातों के लिए भाई लोग न लड़ सकें क्योंकि सबके रक्त में इन बातों के लिए उत्साह की विज्रली नहीं हाती। परन्तु लोगों का तात्कालिक स्वार्थों पर ठुठारावान् अन्वय होता है। नेदरलैण्ड में कई वार लोगों ने अपना माल और व्यापार बचाने के लिए धर्म की चिन्ता नहीं की थी। पर एल्वा के नये हुक्म की चोट सनातना, नवीन-पन्थी गरीब-अमीर सब के ऊपर एक सी पड़ी। मान लो कि एक मकान बेचा गया। जायदाद की एक सी पड़ी। मान लो कि एक मकान बेचा गया। जायदाद की तब्दीली पर ५ सैकड़ा कर देने वाले नियम के अनुसार मूल्य का २० वाँ भाग सरकार का मिलना चाहिए। यदि मकान मान भर मे २० वार बिजा लो मकान का पूरा मूल्य सरकार को मिलना चाहिए। डाक्टर डिगिलियस ने एल्वा की इस आज्ञा का स्टेट

कौंसिल' में विरोध करते हुए कहा कि इस प्रकार का कर नेदर-लैंड से मिलना असम्भव है। डाक्टर ने इस समय एल्वा का जैसा विरोध किया वह प्रशमनीय है। डाक्टर जानता था कि फिलिप स्वयं एल्वा की इस कर-व्यवस्था को पसन्द नहीं करता। इसलिए उसने देखा कि एल्वा का विरोध करने में कुछ खतरा नहीं है। पंचायतों ने एल्वा को नाराज न करने विचार में सारी जायदाद पर १ सैकड़ा कर देने का पहला नियम स्वीकार कर लिया। परन्तु अन्य कर स्वीकार नहीं किये। चारों ओर से एल्वा के पास अर्जियों का ताता लग गया कि, "इन करों से देश का सारा व्यापार नष्ट हो जायगा।" परन्तु एल्वा ने किसी की एक न सुनी। उसने सबको अपनी आज्ञा मनवाने का निश्चय कर लिया था। यूटरेक्ट प्रान्त ने एल्वा के सारे कर देने से इन्कार कर दिया। यूटरेक्ट की पंचायत ने सरकार को पहले ७००००) और बाद को २०००००) तक देने का वादा तो किया परन्तु कर देना स्वीकार नहीं किया। एल्वा ने यूटरेक्ट प्रान्त के प्रत्येक घर में स्पेन के सिपाही रख दिये। सिपाही रात-दिन लोगों को तग करने लगे। परन्तु किसी तरह यूटरेक्ट वालों ने कर देना स्वीकार नहीं किया। एल्वा ने 'खूनी कचहरी' के सामने यूटरेक्ट प्रान्त का मुकदमा पेश करके प्रान्त को विद्रोही कराग दे दिया। सरकारी हुकम निकल गया कि 'यूटरेक्ट प्रान्त के लोगों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। प्रान्त भर की म्युनिसिपलिटियों के कर, लोगों की जागीरें, और माल-असबाब, सब सरकार ने जब्त कर लिया है।"

प्रान्त की ओर से फिलिप के पास दो आदिमियों को अपील

लेकर भेजा गया। फिलिप ने अपील नहीं सुनी। परन्तु इतनी कृपा की कि अपील के ले जाने वाले आदमियों के सिर नहीं कटवाये। यदि देश में इतना खून बह चुकने के पहले ऐसी अपील लेकर कोई मनुष्य फिलिप के पास गया होता तो अपना सिर कंधों पर लेकर कभी न लौट पाता। एल्वा ने बड़ी खुशी से फिलिप को लिखा था कि प्रान्तों की पंचायतों ने नये कर स्वीकार कर लिये हैं। इससे शासन का खर्च निकालकर बीस लाख सालाना की स्थायी आमदनी सरकारी खजाने को हो जायगी। परन्तु एल्वा का स्वप्न सच्चा न हो पाया। पंचायतों की प्रथा थी कि यदि एक प्रान्त किसी कर को स्वीकार नहीं करता या तो अन्य सारे प्रान्तों की पंचायतें भी वह कर देना स्वीकार नहीं करती थीं। यूटरेक्ट के इन्कार करने पर अन्य प्रान्तों को भी बहाना मिल गया। सबने नय कर देने से इन्कार कर दिया। एल्वा को बड़ा क्रोध आया परन्तु कुछ कर न सका। बड़ी कठिनाई से पंचायतें इस बात पर राजी हुईं कि दो वर्ष तक अर्थात् अगस्त सन् १५७१ ई० तक सरकार को बीस लाख सालाना दे दिया जाय। कुछ दिन के लिए लोगों को दम लेने का अवसर मिल गया।

अत्याचार सीमा पर पहुँच चुका था। डाक्टर विग्लियस को डर था कि 'सीमा लाघने का प्रयत्न किया गया तो क्रान्ति हो जायगी। स्पेन वालों का नेदरलैण्ड से सदा के लिए मुँह झाला कर दिया जायगा। सरकार की सेवा करने वालों की जागीरे ज्वल करके फौसी पर लटका दिया जायगा।' इसी डर से वह अब लोगों को क्षमा दे देने की घोषणा निकाल देने के

पक्ष में था। सरकार को ऊँचा-नीचा दिखाने की बहुत चेष्टा कर रहा था। फिलिप की प्यास बुझाने के लिए काफी खून बहाया जा चुका था इसलिए वह भी कुछ ठण्डा दीखता था। फिलिप को डर था कि एल्वा के नये करों के कारण नेदरलैण्ड का मारु व्यापार ही नष्ट न हो जाय जिससे सरकारी आमदनी का जरूरा ही मिट जाय। एल्वा जानता था कि फिलिप की अब उस पर पहले की तरह कृपा-दृष्टि नहीं है। एल्वा यह भी समझ गया था कि नेदरलैण्ड की भूमि में जितना खून सोखने की शक्ति थी उतना खून बहावा जा चुका है। फिलिप को कई बार लिख चुका था कि अब यहाँ से मुझे हटा लिया जाय तो बड़ा अच्छा हो। अपनी करतूतों पर शेखी बघारते हुए उसने लिखा था कि मैंने लोगों को ऐसा दवा दिया है कि प्रलय काल तक पत्ता नहीं खटकेगा। और यह सब मैंने विना रक्त-पात किये, किया है अपने सम्बन्ध में उसे इतना विश्वास था कि उसने लिखा कि १ सैकड़े वाले कर से कम से कम ५० लाख आय होगी। सरकारी प्रबन्ध के लिए स्पेन से रुपया भेजने के स्थान में आप यहां से स्पेन के लिए रुपया मँगा सकेंगे। डाक्टर विग्लियस ने फिलिप को लिखा था कि नेदरलैण्ड के शासन में जितनी दया आज-कल दिखाई जा रही है, इतिहास में उससे अधिक भी कहीं-कहीं मिलती है। डाक्टर ने ऐसी बात अपने मुँह से यदि कुछ वर्ष पहले निकाली होती तो न वह आज इतनी बड़ी जागीर का मालिक होता और न उसके नाम के पीछे इतने खिताब लगे होते। खैर इन सब विभिन्न कारणों और एल्वा की स्वयं लौटने की इच्छा से फिलिप एल्वा को वापिस बुला लेने और लोगों को

ज्ञान देने के लिए एक ज्ञान-पत्र निकालने का विचार करने लगा। अन्त को चार ज्ञान-पत्र तैयार करके स्पेन से एल्वा के पास भेजे गये। एल्वा के कहने के अनुसार उसने उन चार में से सब से नरम को पसन्द किया। एक वृद्ध दरवार लगाया गया। एल्वा पोप का भेजा हुआ टोप और तलवार लगाकर सिद्दासन पर बैठा। दाहिने-बायें एष्टवर्ष का दो अत्यन्त सुन्दरी स्त्रियों 'दया' और 'शान्ति' को देवियों बनकर उसके चरणों के पास बैठीं। एल्वा की तरफ से ज्ञान-पत्र पढा गया। इस नरम ज्ञान-पत्र के अनुसार सिर्फ उन लोगों को ज्ञान दी गई थी जो पक्के सनातनी और बिल्कुल निर्दोष थे। सो भी इस शर्त पर कि दो मास में आकर वे लोग अपने अपराधों के लिए ज्ञान माँग लें। लोगों को बड़ी आशाये थी। इस ज्ञान-पत्र को सुनकर फिर सबके दिल बैठ गये। डाक्टर विग्लियम तक को असन्तोष रहा। मगर एल्वा ने फिलिप को लिखा कि 'सबने इस ज्ञान-पत्र का हृदय से स्वागत किया है। थोड़े से मनुष्य जो आजन्म सन्तुष्ट न होंगे असन्तोष प्रकट करते हैं।' परन्तु थोड़े ही दिन बाद उसे अपनी भूल सुधारकर लिखना पड़ा—“लोग उतने सन्तुष्ट नहीं हैं जितनी मेरी आशा थी।” लोगों के असन्तुष्ट रहने से फिलिप को बड़ी निराशा हुई।

इसी समय फिलिप की नव-वधू स्पेन जा रही थी। जब वह नेदरलैण्ड होकर गुजरी तो हार्न की अभागी माता—जो अपने बड़े लड़के की हृदय विदारक मृत्यु देख चुकी थी, इनलिए जिम तरह हो सके मौएटनी के बचाने का प्रयत्न कर रही थी—महारानी से मिली और खुशामद की कि किसी तरह मेरे लड़के

को छुड़ा दो। महारानी ने बचन दिया कि पहली चीज, जो मैं फिलिप से माँगूँगी, वह तुम्हारे लड़के की रिहाई होगी। बेचारी मौएटनी की माता को विश्वास हो गया कि अब मेरा लड़का जरूर छूट जायगा। लेकिन फिलिप जिसको मारना निश्चय कर लेता था उसे काल के अतिरिक्त और कौन छुड़ा सकता था ? जिस समय एग्मोएट और हार्न इधर गिरफ्तार हुए थे उसी समय स्पेन में मौएटनी को गिरफ्तार करके एक बुरुज में बन्द कर दिया गया था। उस बेचारे को कहीं का कुछ समाचार नहीं मिलता था। एक त्योहार के दिन कुछ नेदरलैण्ड के निवासी फ्लेमिश भाषा में धीरे-धीरे गीत गाते हुए उसकी बुरुज के पास से निकले। मौएटनी अपने देश की भाषा और उनके गीतों का अर्थ सुनकर चौंक पड़ा। यात्रियों के भेष में धार्मिक गीत गाने का वहाना करने वाले उसके देश के कुछ लोग उसे एग्मोएट और हार्न की मृत्यु का सारा हाल सुना रहे थे और उसे चेतावनी दे रहे थे कि जैसे बने प्राण बचाकर भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी भी वही दशा होगी। मौएटनी के कान खड़े हुए। उसने एक पहर के बजे को फोड़कर बाहर के मित्रों से पत्र-व्यवहार किया और शीघ्र ही भागने का सारा प्रबन्ध ठीक कर लिया। मेजर डोमो नाम का एक अधिकारी, जो मौएटनी का बड़ा मित्र था और उसके भागने का प्रबन्ध कर रहा था, एक स्त्री के प्रेम फँसा था। वह मौएटनी के पास पत्र खाने में छिपाकर भेजा करता था। अन्तिम पत्र में सब हाल लिखकर कि किस समय तुम्हारे पास सीढ़ी पहुँचेगी, कहाँ घोड़े खड़े रहेंगे और कहाँ आगे गाड़ी मिलेगी, डोमो ने एक मनुष्य को भेजने के लिए दे दिया। उसे अपनी

प्रेमिका के पास जाने की जल्दी थी। उस आदमी को लापरवाही से पत्र पकड़ा गया। जो-जो अधिकारी बङ्गाल में शामिल थे उन सब को तुरन्त फौसी अथवा कालापानी की सजायें हो गईं। अभागे डोमो को दो सौ कोड़े लगाकर काले-पानी रवाना कर दिया गया। मौएटनी के सारे मित्र पकड़ गये थे। अब उसके स्पेन से भाग निकलने की कोई आशा न रही। फिलिप ने एल्वा की 'खूनी कचहरी' में मौएटनी का अभियोग भेज दिया था। एल्वा ने एग्मोएट और हार्न की तरह मौएटनी को भी प्राणदण्ड का आज्ञा सुना दी। फिलिप ने मौएटनी को खुल्लमखुल्ला मारना उचित नहीं समझा। इसलिए मौएटनी को एक दूरवर्ती पहाड़ी किले में बन्द करके बीमार मशहूर कर दिया गया। उसे बाध्य किया गया कि वह अपने मित्रों को ऐसे पत्र लिखे जैसे कोई मृत्यु के निकट पहुँच चुकने वाला बीमार लिखता है। एक हकीम भी लोगों के दिखाने को रख लिया गया था। वह रोज़ दवाइयों के पंढल लेकर मौएटनी के पास जाता था। अन्त को एक दिन चुपचाप गला घोट कर मौएटनी का काम समाप्त कर दिया गया। लोगों से कहा गया कि मौएटनी बीमारी से मर गया। ससार की आँखों में धूल भोंकने के लिए सरकार की तरफ से उसका अन्त्येष्टि-संस्कार बड़ी धूम-धाम से किया गया और उसकी कब्र भी बनवा दी गई। इस कत्ल का ज़रा-ज़रा सा प्रबन्ध फिलिप के उपजाऊ दिमाग से निकला था। एल्वा रणक्षेत्र में लोगों को चूहों की तरह पकड़-पकड़कर मारने अथवा फौसी पर बढ़ाने और जलाने में सिद्ध-हस्त था तो उसका मालिक ठण्डे दिल से चुपचाप ज़हर देकर अथवा गला घुटवाकर मरवा

डालने में उस्ताद था। कहा जाता है कि फिलिप ने अपने पुत्र को भी इसी प्रकार मरवा डाला था। मौएटनी के प्राण लेने में अन्य किसी बात का ध्यान तो रक्खा ही नहीं गया पर फिलिप ने इस बात का भी ज़रा विचार नहीं किया कि मौएटनी स्वयं उसकी वहन का भेजा हुआ राजदूत था। राजदूत के प्राण संसार में कहीं नहीं लिये जाते। इतिहास के महान पुरुषों के कार्य और बड़ी-बड़ी लड़ाइयों के वर्णन तो पढ़े ही जाते हैं परन्तु इन छोटी-छोटी घटनाओं और हत्याओं का हाल पढ़कर पता चलता है कि स्वतंत्रता के लिए कितनी अज्ञात और भयङ्कर आहुतियाँ देनी पड़ती हैं।

विपत्ति अकेली नहीं आती। सन् १५७० का अन्त होते होते नेदरलैण्ड पर समुद्र ने भी कोप किया। सन् १९२९ के आसाम के तूफान की तरह गांव के गांव बह गये। जहाँ शहर थे वहाँ जहाज चलने लगे। केवल फ्रीसलैण्ड प्रान्त में लगभग २०००० जाने गईं। स्पेन वाले हँस-हँसकर कहने लगे कि 'अधर्मियों पर यह दैवी प्रकोप है।' नेदरलैण्ड वालों को विधाता भी विपरीत दीखने लगा। लेकिन इसी तूफान के समय एक चट्टानीय घटना हो गई। एक दिन शाम को लोवेस्टीन के प्रसिद्ध किले के कप्तान के पास चार भिखारी आकर पूछने लगे कि 'यह फिलिप का किला है कि ऑरेंज का?' कप्तान ने मुँह बनाकर कहा कि 'ऑरेंज कौन चिड़िया है मुझे पता नहीं?' इस पर एक भिखारी ने पिस्तौल निकालकर कप्तान को मार डाला और अपने अन्य पन्द्रह बीस साथियों की सहायता से किले पर अधिकार कर लिया। यह ऑरेंज का भक्त हरमैन नाम का बंजारा था।

बाद को स्पेन की सेना ने चढाई करके दुर्ग तोड़ डाला। बहुत देर तक ता हरमैन तस्वार लिये अकेला ही लड़ता और शत्रुओं को गिराता रहा। अन्त में जब भुजाये थक गईं, एक बड़े हाल में घुस गया। स्पेन के मिपाही उसे पकड़ने के लिए हाल में घुसे। मगर हरमैन ने वहाँ बारूद जमा कर रखी थी। उसने तुरन्त बारूद भवती लगा दी। स्वयं ता मरा हा लेकिन अपने शत्रुओं को भी नाथ लेता गया। स्पेन के पागल हिंसकों ने गिरी हुई इमारत की मिट्टी खोदकर उनकी लाश निकाली और लाश को सूती पर चढ़ाकर अपना कलेजा ठण्डा किया। लोवेस्टीन के नागरिकों पर अत्याचार करके हरमैन की धृष्टता का बदला चुकाया गया।

सन १५६९ और १५७० ई० में नेदरलैण्ड की यह दशा थी। शाहजादा आरेंज सब-कुछ गवाँ चुका था परन्तु हिम्मत और आशा नहीं गवाँई थी। ब्रामवर्ग पर अपनी फौज को छुट्टी दे दी थी और डयूक ऑव डयूक्स पोरट्स की सेना में अपने दो भाइयों के साथ सम्मिलित होकर फ्रांस में प्रजा-पन्न की ओर से कोलगनी (Cologne) के भण्डे के नीचे लड़ने चला गया था। परन्तु फिर शीघ्र ही नेदरलैण्ड की घटनाओं और मित्रों के बुलावे के कारण उसे फ़िसान का भेष रमाकर दो-चार साथियों सहित जर्मनी लौट आना पड़ा। अपनी गरीबी के कारण वह बिल्कुल तबाह हो रहा था। सैनिकों का शेष वेतन देने तक के लिए उसके पास रुपया न था। नई सेना तो कहीं से खड़ी करता? उसका सारा खेल बिगड चुका था। जर्मनी में कोई आदमी उसकी सहायता को आगे बढ़ता नजर नहीं आता था। जर्मनी

और नेदरलैंड के अमीर और व्यापारी सहायता के वायदे करके भूल से गये थे। अमीर तो उस पक्ष का साथ देते हैं जिसकी जीत की आशा होती है। आरेञ्ज की जीत अब असम्भव दीखती थी। फिर भी जर्मनी और नेदरलैंड के गरीबों से जो-कुछ बन पड़ता था आरेञ्ज के पास, धार्मिक स्वतंत्रता के युद्ध की सहायता के लिए भेजते रहते थे। आरेञ्ज ने भाई को लिखा था कि, 'किसी न किसी प्रकार १ लाख रुपया तो एकत्र करना ही पड़ेगा। मेरा बचा-बचाया सामान थोड़ा-थोड़ा करके मेले में विकवाओ। इकट्ठा वेचने से इस प्रकार वेचने में अधिक दाम मिलेगा।' जिस आरेञ्ज के चारों ओर अनेक सरदार, नौकर-चाकर और सन्तरी रहते थे, जो आरेञ्ज शहंशाहों का मित्र और स्वयं राजकुल में जन्म लेने वाला था, जो अपनी जागीर में युवराज के अधिकार रखता था और अत्यन्त ऐशोआराम की चिन्दगी बिताया करता था वही आरेञ्ज आज पीड़ित मनुष्यों की रक्षा की धुन में साईस और नोकरों का काम करता फिरता था। अपने पास कुछ न होने पर भी वह अपने मित्रों की आवश्यकताओं का सदा ध्यान रखता था और जैसे बनता वैसे उन्हें सहायता करने का प्रयत्न करता था। इस गरीबी के समय अपने भाई को लिखता 'कम से कम सौ रुपये की कोई चीज तुल्फ को भेंट में भेज देना।' 'फ्लेंसटीन को एक घोड़े की बहुत जरूरत है। कई वार कह चुका है। एक घोड़ा तलाश करके उसका मूल्य मुझे लिख भेजना, मैं रुपया भेज दूंगा। फ्लेंसटीन ने हमारा साथ देने की इच्छा दिखाई है। हमें उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए।'

एल्वा और पंचायतों के बीच में नये करों के सम्बन्ध में दो वर्षों के लिए जो फैसला हो गया था उसका अवधि समाप्त होने को आ गई थी। एल्वा और पंचायतों में फिर झगडा आरम्भ हुआ। पंचायतों को विश्वास हो गया था कि नये करों के लिए जितना एल्वा उत्सुक है उतना फिलिप नहीं है। शायद एल्वा को वापिस भी बुला लिया जाय। इसलिए पंचायतें निर्भय होकर एल्वा का दृढ़ता से विरोध करने लगीं। 'स्टेटे कौंसिल' में भी इस विषय पर रोज चर्चा चलती थी। वहाँ डाक्टर विग्लियस एल्वा का भयकर विरोध कर रहा था। एल्वा ने डाक्टर को 'फोड़ लेने के लिए बड़ी चालें चलीं। पर जब किसी तरह डाक्टर ने विरोध न छोड़ा और यही कहता गया कि 'यइ कर लगाना प्रवाह के विरुद्ध तैरना है। लोग कभी इस कर को स्वीकार न करेंगे। लोगों की वाणी ईश्वर की वाणी है' तब एल्वा ने क्रोधित होकर एक दिन कहा कि 'ऐसे विचार रखने वालों को मज्जा चखा दिया जायगा।' विग्लियस ने दृढ़ता से कहा कि 'कौंसिल के मेम्बरों को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार सदा से रहा है। आज तक कभी उन्हें मज्जा चखाने की धमकी नहीं दी गई। मैंने राजाओं, महाराजाओं और महारानियों के सामने ऐसी ही निर्भयता से सदा विचार प्रकट किये हैं। अब बुढ़ापे में अपने सफेद सिर के लिए क्या भय खाऊँगा। लेकिन मुझे आशा है कि महाराज फिलिप पैसे देने से पहले मेरी बात सुनने का मुझे मौका देंगे।' एल्वा ने कहा कि गलती से मेरे मुँह से ये शब्द निकल गये और उसने अपनी धमकी के लिए क्षमा माँगी। फिर भी सारे देश में खबर उड़ गई कि विग्लियस के भी प्राण

लिये जाने वाले हैं, लोग बड़े प्रसन्न हुए। जो विगिलियस जन्म भर राजा का पक्ष लेता आया था आज बुढापे में निर्भय प्रजा का पक्षपाती हो गया। परन्तु एल्वा ने कर जमा करने के विषय में कौंसिल की सम्मति लिए बिना ही हुक्म निकाल दिया। सारी पंचायतों ने बैठकें करके विरोध प्रकट किया। लोगों ने कार-बार और बाजार बन्द कर दिये। जनता एल्वा का खुल्लमखुल्ला अपमान करने लगी। सात आना रोज पर जिन बहुत से जासूसों को सरकार ने राज-विद्रोह की बातों की खबरें लाने को रख छोड़ा था उन्हें अब गली-गली दुकान-दुकान राज-विद्रोह की इतनी बातें सुनने को मिलती थी कि रिपोर्ट करना असम्भव हो गया था। एल्वा जब सड़क पर होकर निकलता तो कोई उसे सलाम तक न करता। कर वसूल करना बिल्कुल असम्भव हो गया। हारकर एल्वा ने खाने-पीने की वस्तुओं और कारी-गरी के काम आने वाले माल पर से १० सै-ड्डा का कर हटा लिया। फिलिप को लिखा कि “इस देश के लोगों में अभी वैसी ही रजूपती बाकी है जिसकी जूलियस सीज़र ने प्रशंसा की थी। पंचायतें देश के व्यापार के हित के लिए कर का विरोध नहीं करती हैं। राजा के लिए कानून बनाने का अधिकार सदा अपने हाथ में रखना चाहती हैं।”

स्पेन से एल्वा को कुछ सहानुभूति नहीं मिली। एल्वा की कर-योजना का स्पेन के कौंसिलर तो बहुत दिनों से मज्जाक उड़ाते ही थे, फिलिप का काला हृदय भी एक नये काले काम में लग रहा था। फिलिप ड्यूक ऑफ नार्थम्पटन की सहायता करके इंग्लैण्ड की महारानी एलिज़बेथ को किसी तरह भरवा डालने और उसकी

जगह सनातन-धर्म के हितार्थ स्काटलैण्ड की रानी मेरी को कैद से छुड़ा गद्दी पर विठाने का पड्यत्र रच रहा था । इस पड्यत्र मे पोप भी शरीक था । इधर फिलिप की तुर्कों से लड़ाई छिड़ ही रही थी । नेदरलैण्ड के विद्रोह को दवा रखने के लिए स्पेन-साम्राज्य की सारी सेना की जरूरत थी । परन्तु फिलिप ने एल्वा को लिख भेजा कि ड्यूक नार्फाक की सहायतार्थ दस हजार सेना चुपचाप इंग्लैण्ड भेज दो । नेदरलैण्ड की ऐसी दशा मे दस हजार सेना का वहाँ से हटा लेना और चुपचाप इंग्लैण्ड भेज देना फिलिप को अपनी धर्मान्धता में बिल्कुल संभव जँचता था । एल्वा ने फिलिप को लिखा कि “ऐसा करना सर्वथा असम्भव है । जर्मनी और फ्रान्स हमारा विरोध करेंगे । यदि ये दो देश विरोध न करें तो अगली शरद तक इंग्लैण्ड के मिहामन पर आपको बैठा देने का मे वादा करता हूँ । परन्तु आजकी परिस्थिति में नेदरलैण्ड ने इंग्लैण्ड सेना भेजना असम्भव है ।” ड्यूक ऑफ़ नार्फाक का पड्यत्र अन्त मे पकड़ा गया और वह अपने साधियों-सहित गिरफ्तार कर लिया गया । फिलिप फिर भी अपने वार्भिक इरादे से न हटा । एल्वा की सहायता मे कई वार गुप्त हत्यारों को भेजकर एलिजबेथ को सरवा डालने का प्रयत्न करता रहा । अपने कला-कौशल से स्पेन का नाम रूसार मे प्रख्यात करने वाले स्पेन मे बसे हुए मुसलमान फिलिप के अत्याचारों मे ऊबकर क्वारी-गरी के औजार छोड़ हथियार लेकर मैदान मे आ गये । उनको दमाने का काम आस्ट्रिया के डॉन जॉन को सौंपा गया था जो उन लोगों के बूढ़े-बच्चे-छियों और बीमारों को चारपाइयों पर कल्ल करता फिरता था । टर्की का खजोफा सलाम दिन-रात अगूर्ग

के रसाख्वाद में मस्त न रहकर यदि इन वीर मुसलमानों की इस समय सहायता करता तो एलिज़बेथ को तख्त से उतारने का प्रयत्न करने वाले फिलिप को स्वयं अपने तख्त के लाले पड गये होते। खैर, हमारे इतिहास का विषय और है। फिलिप ने एल्वा को लौटा लेने की प्रार्थना मजूर कर ली और उसके स्थान पर डॉन लुई डे रेकुइसेन्स एण्ड क्युनिगा, मिलन के भूत गवर्नर और केस्टील के ग्राण्ड कमाण्डर को नियुक्त किया। परन्तु जान को घरके फाड़ने निबटाने थे इसलिए एल्वा को कुछ दिन और नेदरलैण्ड में ठहरने की आज्ञा हुई। बेचारा एल्वा बड़ी मुसीबत में था। जनता उसके नाम पर गालियों की बौछार करती थी और कलतक उसके धार्मिक अत्याचार में हॉ में हॉ मिलाने वाले विग्लियस, वेरलामोएट, नोयरकर्मस और एअरशॉट इत्यादि आर्थिक अत्याचार प्रारम्भ होने पर उससे अलग हो गये थे और उसकी नाव डूबती समझकर दिन-रात करों के सम्बन्ध में उसका प्रचण्ड विरोध करते थे। ब्रवेण्ट की पंचायत की ओर से कर के विरोध में एक दिन काँसिल में एक अर्जी पढ़ी जा रही थी। उसे सुन एल्वा क्रोध से बोला—“क्या नेदरलैण्ड-निवासी सचमुच समझते हैं कि नेदरलैण्ड के हित की उन्हें मुझसे अधिक चिन्ता है? यह कर केवल इसलिए लगाया जा रहा है कि नेदरलैण्ड की बाहर के आक्रमण से रक्षा की जा सके।”

(१३)

प्रजातन्त्र की नींव

‘भिखारी’ और ‘जंगली भिखारी’ इत्यादि के अतिरिक्त ‘सागर के भिखारियों’ का एक नया गिरोह और खड़ा हो गया था । जागीरों खो चुकने वाले सरदार, व्यापार नष्ट कर डालने वाले व्यापारी, लुटेरे बिद्रोही सब इस गिरोह में आ मिले थे । इन लोगों का नेता सरदार डेलामार्क था जो बाल बखेरे भयंकर रूप धारण किये फिरता था । उत्तरी सागर में जहाजों में ये लोग रहते थे और जहाँ मन में आता लूटमार करते थे । सरकार के अत्याचार से बचने का कोई मार्ग न देखकर इन लोगों ने लूटमार का पेशा इस्तिफार कर लिया था । डेलामार्क ने अपने हृदय में भभकती हुई प्रतीकार की आग बुझाने के लिए इतने अत्याचार किये कि एल्वा और बखकी ‘खूना कचहरी’ को मानना पड़ा कि हों बिद्रादियों में भी हमारे शासक का एक परिचित है । इन लोगों पर जितना आर्येज्र दबाव रख सकता था, रखने का प्रयत्न करता था । उसने नेदरलैंड के बर्लाअहद का हैसियत में इन लोगों का सेना को संगठित स्वरूप देकर डेलामार्क को उसका सेनापति बना दिया था । लूटमार को जहाँ तक हो सके नियमित करने और सेना का संचालन करने के लिए कुछ नियम भी बना दिये थे । अत्याचार को नीचा दिखाने के लिए आर्येज्र को शक्ति की आवश्यकता थी । सागर के भिखारियों की इस शक्ति

को भला वह कैसे खो सकता था ? इधर-उधर अपने आदमी भेजकर जहाँ-जहाँ से सहायता की जरा भी आशा थी वहाँ-वहाँ वह टटोल चुका था। गरीबों के पास से लगातार धन आते रहने से काम के लायक कुछ धन भी इकट्ठा हो चला था। इधर नेदर-लैण्ड में करके विरुद्ध जो आन्दोलन खड़ा हो गया उसे ऑरेञ्ज ने धन एकत्र करने और लोगों की सहायता पाने का बड़ा सुअवसर समझा। चीजों बेचने से विक्रीपर कर देना पड़ता था इसलिए देश भर के लोगों ने विक्री ही बन्द करदी थी। सारी दूकानें बन्द रहती थीं। बाजारों में उल्लू बोलते थे। एल्वा ऑरेञ्ज के नाम से इतना चिढ़ उठा था कि उसने ऑरेञ्ज की मूर्ति को सूली पर चढ़ा दिया था और ताश को घोड़े की दुम से बांधकर बाजारों में घसिटाया। उसने सोचा कि कुछ नहीं तो ऑरेञ्ज और उसके परिवार का इसी प्रकार अपमान किया जाय। ऑरेञ्ज के भावी इतिहास के दो एक पृष्ठ यदि इस समय एल्वा प्रेनविले अथवा फिलिप के सम्मुख रखे जा सकते और उन्हें दिखाया जा सकता कि जिस मनुष्य को वे लोग अपमानित करने का विचार कर रहे हैं उसका और उसके परिवार का भविष्य में कितना सम्मान होने वाला है, तो शायद निकृष्ट प्राणियों की इस त्रिमूर्ति ने ऑरेञ्ज को अपमानित करने का प्रयत्न छोड़ दिया होता। एल्वा ने व्यापारियों पर आतङ्क जमाने के लिए निश्चय किया कि १८ विख्यात व्यापारियों को पकड़ कर इन्हीं के दरवाजों पर लटका दिया जाय जिससे लोग इस प्रकार द्वार पर ही न्याय पाने से डरें और दूकानें खोल दें। यह काम पूरा करने की सब तैयारियाँ भी हो चुकी थीं। रात को जल्लाद ने १८ रसियाँ तैयार कर ली

थीं । मगर त्रिल शहर के हाथ से निकल जाने का एकाएक समाचार आजाने से एल्वा के इस शुभ कार्य में बाधा पड़ गई । ऐसे समय पर लोगों को फासियों देकर अधिक आग भड़काना उसने खतरनाक समझा ।

‘सागर के भिखारी’ लूटमार करते थे परन्तु उनका शिवाजी की टोली की तरह मुख्य उद्देश्य देश को स्वतंत्र कराना था । एलिजबेथ फिलिप से लड़ने के अयोग्य थी इस कारण उसने एल्वा की शर्त स्वीकार करके डेलामार्क के जहाजी वेड़े को इंग्लैण्ड के दक्षिणी किनारे से निकलजाने का हुक्म दे दिया । ‘सागर के भिखारियों’ के पास खाने तक का नहीं था । उनके २४ जहाजों ने वहाँ से निकलकर उत्तर हालैण्ड के किनारे पर छापा मारने का विचार किया । स्पेन के दो जहाज उन्होंने रास्ते में लूट लिये और जेलैण्ड की तरफ जाकर मियूज नदी का मुहाना पार करके त्रिल नगर को घेर बड़े । कोपिलस्टोक नामका एक केवट नाव पर मुसाफिर लिये जा रहा था । वह हृदय से प्रारंभ के पक्ष का था । उसने इस जहाजी वेड़े को आने देखा तो मुसाफिरों से बोला मालूम पड़ता है ‘सागर के भिखारी’ आ रहे हैं ।’ लोग घबरा गये । उतरते ही दौड़कर शहर में पहुँचे और सबको ‘सागर के भिखारियों’ का आ पहुँचे की खबर सुना दी । कोपिलस्टोक मुसाफिरों को उतारकर निर्भयता से अपनी नाव लौटाकर भिखारियों के वेड़े की ओर गया और वहाँ विलियम डेन्नाप नाम के १५ जहाज के सरदार से पूछने लगा कि ‘तुम लोग द्विवर जाना चाहते हो?’ विलियम डेन्नाप का पिता त्रिल में गर्वनर रह चुका था । उसने तुरन्त कोपिलस्टोक को पहचान लिया और उसे डेलामार्क के पास लेजा-

कर कहा—“यह विश्वासी मनुष्य है। त्रिल में सन्देशा लेकर इसी को भेजिए।” डेलामार्क का सन्देशा लेकर जन कोपिलस्टोक शहर में पहुँचा तो भीड़ को भीड़ आकर उससे पूछने लगी कि कितने भिखारी हैं ? उसने गप्प हँककर कहा—कोई पाँच हजार होंगे। लोग घबरा कर शहर छोड़ छोड़ भागने लगे। केवल ५० आदमी शहर में रह गये। डेलामार्क के २५० आदमियों ने शहर पर जाकर कब्जा कर लिया और विलियम ऑरेञ्ज के नाम पर हालैण्ड प्रजातन्त्र का मण्डा त्रिल शहर पर गाड़ दिया। इस प्रकार इन विचित्र हाथों से हालैण्ड के भावी प्रजातन्त्र की त्रिल नगर में नींव पड़ी। अधिकतर लोग अपना माल असबाब साथ लेकर भागे थे। जो कुछ शहर में रह गया था भिखारियों ने उस पर अधिकार किया। १३ सनातनी पादरी त्रिल में रह गये थे। उनकी बड़ी दुर्गति की गई। सब के सब पकड़ कर जेलखाने में डाल दिये गये। सनातनी गिरजों की खूब लूट हुई। विलियम डेवलाय ने तो उस दिन से गिरजों में चरणामृत रखने में काम आनेवाले चांदी के प्यालों के अतिरिक्त और किसी प्याले में शराव पीना हाबन्द कर दिया। एल्वा इस अचानक विजय का समाचार सुनकर चौंक पड़ा। उसे क्या खबर थी कि एलिजबेथ के सारी मेरी शर्तें मान लेने का यह परिणाम होगा ? व्यापारियों को फौसी पर लटकाने के उसके मनोनीत कार्य में भी बाधा पड़ गई। हाँ, लोगों को अवश्य बड़ी खुशी हुई। देशभर में एल्वा का मञ्चाक उड़ने लगा और एक तुकबन्दी चारों ओर फैल गई जिसका भावार्थ था।

‘पहली अप्रैल के दिन एल्वा का शरमा उड़ गया।’

साथ में एक कार्टून भी खूब बटा, जिसमें डेलानार्क एल्वा की नाक पर से चश्मा उतार रहा था और एल्वा अपने स्वभाव के अनुसार कह रहा था—“कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ पर-वाह की बात नहीं है।”

एल्वा ने तुरन्त सरदार बोस्सू को त्रिज पर फिर से अधिकार जमाने के लिए भेजा। बोस्सू ऑरेञ्ज के चले जाने पर हालैण्ड और जेलैण्ड का सूबेदार बना दिया गया था। वह जब उत्तर दरवाजे पर पहुँचा तो नगर के एक ऑरेञ्ज-भक्त बढई ने निकलकर अकेले ही चुपचाप समुद्र का घोंघ काट दिया। बोस्सू का रास्ता बन्द हो गया। घूमकर बोस्सू दक्षिण के द्वार पर पहुँचा तो ऊपर से देशभक्तों ने गोलियों बरसानो शुरू कीं। विलियम डे व्लॉय ने बड़ी वीरता दिखाई। केवल एक साथी को लेकर चुपचाप समुद्र तैर कर पार किया और शत्रु के जहाजों में जा कर आग लगा दी। स्पेन वाले सामने से गोलियाँ बरसाते और एका-एक अपने जहाज को जलते देख कर पहरा गये। तुरन्त जहाजों में बैठकर भागे। नगर पर देशभक्तों का कब्जा जम चुकने पर अधिकतर नागरिक लौट आये थे। उनका एकत्र करके डेलानार्क ने ऑरेञ्ज के प्रति मित्रता की सबसे पहले शपथ ली और यह घोषणा की कि आज से नगर का सूबेदार शाहजादा ऑरेञ्ज है। ऑरेञ्ज को डेलानार्क की इस विजय से अधिक आनन्द नहीं हुआ क्योंकि अभी तक उसकी आक्रान्तों की तैयारी नहीं हो पाई थी। त्रिज को बहुत दिनों तक हाथ में रखने की उमे आशा नहीं थी। डेलानार्क पर उसे विश्वास भी नहीं था। ऑरेञ्ज का सन्देश ठीक ही निकला। डेलानार्क को लूटमार प्रिय था। कुछ ही दिन बाद

वह त्रिल नगर में आग लगाने पर तैयार हो गया। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर डेलबोय ने उसे ऐसा करने से रोका। त्रिल में स्थायी रूप से प्रजातन्त्र जमाने का सारा श्रेय वहादुर डेलबोय को है। नहीं तो डेलामार्क तो कुछ दिन बाद त्रिल को उजाड़ कर चल दिया होता।

बोस्सू जब यहाँ से मार खाकर भागा तो उसने सोचा कि रास्ते के मुख्य-मुख्य नगरों को काबू में कर लेना चाहिए। नहीं तो वे भी कहीं देशभक्तों से न मिल जाँय। वह घोखा देकर राटर्डम नगर में घुस गया। वहा स्पेन की सेना ने अपने स्वभाव के अनुसार खूब जूटमार की। स्त्रियों को भी अपमानित किया।

वालचरेन नाम के द्वीप पर बसे हुए शिंग नगर ने भी कान खड़े किये। यहाँ डेहार्ट नामके एक मनुष्य ने लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काया। लोगों से कहा कि, पासा फेंका जा चुका है। बस दाव जीतने की देर है, प्रशिंग पश्चिमी शेण्ड के मुहाने पर बड़े मार्के का शहर था। यहाँ बहुत दिनों से एतवा एक दुर्ग बनवा रहा था। कुछ फौज तो नगर में मौजूद थी। उसको निकाल देने के लिए डेहार्ट लोगों को उभाड़ रहा था। दुर्भाग्य से दुर्ग में रहने के लिए आनेवाली शेष सेना भी जहाजों में चढ़कर इसी समय आ पहुँची। लोगों की भीड़ जमा होकर जहाजों को देख रही थी। एक शराबी ने आकर कहा—‘मुझे एक अर्द्धा मिले तो किले पर चढ़कर स्पेन के जहाजों पर दो चार तोपें दाग दूँ।’ लोगों ने कहा—‘हाँ हाँ जाओ मिलेगा’ इस पागल ने किले पर चढ़कर जैसे ही तोपें दागनी शुरू की कि स्पेन के जहाज घबराकर भाग चले। लोगों को हँसी हँसी में विजय मिल गई। नगर देश-भक्तों के

हाथ आ गया। नगर का कोतवाल लेक्चर फाइकर लोगों को फिर से पक्ष में करने का प्रयत्न करने लगा। लोगों ने तालियों पीटकर उसे शहर से बाहर निकाल दिया। डेलामार्क और ऑरेञ्ज के पास शहर की सहायता करने का संदेश भेजा गया। डेलामार्क की सेना अब काफी बड़ी हो गई थी। उसने वीर डेव्लाय की अध्यक्षता में तीन जहाजों पर २०० जवान भेजे। वह सब बड़े उत्साह से हल्ला गुल्ला करते हुए आये। उतरते ही इन्हे एल्वा का इटैलियन इंजीनियर ऐण्टवर्प का मशहूर दुर्ग बनाने वाला पचेको मिल गया। वह बेचारा उसी समय वहाँ पहुँचा था और उसे वहाँ हाँ जाने वाली घटनाओं का कुछ पता नहीं था। देशभक्तों का पहला क्रोध एल्वा के इंजीनियर पर ही उतरा। पचेको को पकड़ कर फौरन फौसी पर लटका दिया गया। कुछ दिन बाद जेरोम नामी एक विश्वस्त मनुष्य को कुछ फ्रान्सीसी सेना के साथ सारे वालचरेनद्वीप का अधिकारी नियत करके भेज दिया गया। इंग्लैण्ड से कुछ स्वयं सेवक आजाने के कारण देश-भक्तों की शक्ति और भी बढ़ी।

नव-प्रभात

त्रिल और फ़्रिशिंग ने देश को रास्ता दिखा दिया । सन १५७२ के पूर्वाद्ध में एक के बाद दूसरे हालैण्ड और जेलैण्ड के सब मुख्य-मुख्य नगरों ने क्रांति करके ऑरेञ्ज का झण्डा फहराना शुरू कर दिया । फ़्रिशिंग था तो छोटा सा बंदरगाह लेकिन बड़े मार्के को था । ऑरेञ्ज की उस पर बहुत दिनों से नज़र थी । इस नगर के अचानक ऑरेञ्ज के हाथ में आजाने के बाद ही वालचरेन द्वीप के दूसरे अर्धभाग ने भी एल्वा का जुआ गले से उतार फेंका । उसके बाद ब्यूडरज़ी खाड़ी की कुंजी एन्सुइज़न नगर पर जिस में सरकारी गोला-बारूद का कारखाना था और जो देशके प्रधान व्यापारिक नगरों में से एक था, एक दिन एकाएक ऑरेञ्ज का झण्डा लहराने लगा । बाद को ऊडवाटर, डौर्ट, हार्लेम, लीडन, गौरकम, लोवेन्स्टीन गूड़ा, मेडेनव्लिक होर्न, एल्कमार, इडाम, मौनीकेण्डम, पुरमेरेण्डे और वीयर इत्यादि अन्य अनेक नगरों ने भी आपसे आप बिना एककतरा खून बहाये एल्वा के अधिकारियों को निकाल बाहर किया और अपना प्रबन्ध खड़ा करके शाहजादा ऑरेञ्ज को राजा के सूवेदार होने की घोषणा निकाल दी । यह क्रान्ति हालैण्ड और जेलैण्ड तक ही सीमित नहीं रही । ज़ेल्डर-लैण्ड, ओवरीसेल, यूट्रेक्ट तथा फ्रीसलैण्ड के सारे नगर भी इसी प्रकार क्रान्ति कर बैठे । पाताल फोड़कर स्वतन्त्रता की गंगा बहने लगी

और उमड़ कर चारों ओर बहने लगी। नये प्रभात की इस सुंदर उषा के प्रकाश में इस-काल के मृतप्राय यूरोप में जीवन फूँकने वाला समीर वह चला। लगभग सब नगरों में बड़ी शान्ति से बिना खून बहाये ही क्रान्ति होगई थी। बालचरने द्वीप में दो पक्ष थे, इसलिए वहाँ भयँकरता और रक्तपात का दृश्य चरुर दीख पड़ा। दोनों दल एक-दूसरे के कैदियों को तुरन्त मार डालते थे। एक-वार कैदी इतने अधिक हो गये कि उनको मारना कठिन था। इसलिए दो दो को एक दूसरे की पीठ से बाँध कर समुद्र में फेंक दिया गया। स्पेन के मनुष्य तो उनकी दृष्टि में मनुष्य ही नहीं थे जहाँ मिलते थे वहाँ खत्म कर दिये जाते थे। एक डाक्टर ने तो बड़ा ही घृणित कार्य किया। एक स्पेन के कैदी को काटकर दिल-निकाल लिया और उसे खूँटी पर टाँग कर लोगों को बुलावा भेजा कि आओ इसे दाँतो में काटो। बहुत से मनुष्यों ने राक्षस बनकर इस बीभत्स कार्य में भाग भी लिया। परन्तु देश में एक जगह क्रोध से पागल होकर लोग यदि क्रूरता में स्पेनवालों से भी बढ़ गये तो दोष किसका था? स्पेनवालों ने ही तो अत्याचार की भर्तृ पर चढाकर लोगों के दिल पका डाले थे। बहुत से स्थानों पर लोगों ने जिन अधिकारियों के हाथों अत्याचार नहें थे वन्हीं को छिपा छिपाकर उनके प्राणों की रक्षा भी की थी। स्वतन्त्र हो जाने वाले नगरों ने एल्बा के अधिकारियों के स्थान में चुनाव करके अपने अधिकारी नियुक्त कर लिये थे। इन नये अधिकारियों को शपथ लेनी पडती थी कि "महाराज फिलिप और उसके सूबेदार आरेञ के प्रति हम भ्रडा रक्खेंगे। इयक आव पन्वा और उसके करो का विरोध करेंगे। स्वतन्त्रता और देश के हित

का समर्थन करेंगे। अनाथ विधवाओं, दुखियों की रक्षा और न्याय तथा सत्य का पालन करेंगे।”

दूसरी जून को डिडरिशा सोनोय ऑरेञ्ज की तरफ से उत्तर हॉलैण्ड का गवर्नर नियुक्त हो कर आया। विद्रोहियों ने अस्थायी सरकार (Provisional Government) इस सिद्धान्त पर खड़ी कर ली थी कि नेदरलैण्ड के लोग फिलिप क प्रति राजभक्त हैं। एल्वा की क्रूरता के कारण उसका विरोध करते हैं और उसका अधिकार नहीं मानते। इस समय लोग केवल अपनी वह प्राचीन स्वतंत्रता और अधिकार माँगते थे, जिनको रक्षा के लिए फिलिप ने गद्दी पर बैठते समय शपथ खाली थी। एल्वा ने अपने अधिकार में केवल 'खूनी-रुचहरी', 'इनक्विजिशन' और 'मार्शल ला' से ही काम लिया था। देश के प्राचीन अधिकारों को तिलांजलि दे दी गई थी। केवल प्राचीन अधिकारों को फिर से प्राप्त कर लेने और एल्वा के शासन का अन्त करने का ही इस समय जनता और ऑरेञ्ज का विचार था। ऑरेञ्ज ने अपने अधिकारियों से यह भी कसम ली थी कि सनातनधर्मों इत्यादि सबको अपने विश्वास के अनुसार धर्म पर चलने का अधिकार रहेगा। किसी को धार्मिक विश्वास के लिए कष्ट नहीं दिया जायगा। ऑरेञ्ज जर्मनी में सेना इकट्ठी कर रहा था। परन्तु हॉलैण्ड की अस्थायी सरकार का भी सारा प्रबन्ध वहीं बैठे-बैठे करता था। इसी समय वीर लुई ने एक और अद्भुत वीरता का काम कर दिखाया। लुई फ्रांस में सरदारों और राजा से मिल कर नेदरलैण्ड के लिए सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। सारी दुनिया जानती थी कि लुई फ्रांस में है।

एकाएक खबर आई कि लुई ने मौन्स के प्रख्यात नगर पर कब्जा कर लिया। यह प्रसिद्ध नगर हेनाल्ट प्रान्त की राजधानी और फ्रांस की सरहद पर होने में विद्रोहियों के बड़े काम का था। मौन्स का निवासी नक्शानवीस एरटनी ओलीवर नाम का मनुष्य एल्वा का बड़ा विश्वस्त हो गया था। एल्वा ने उसे लुई की खबर रखने को जासूस बनाकर फ्रांस भेज दिया था। पर वास्तव में एरटनी आरेंज का जासूस था। इसी की सहायता से लुई ने एकाएक मौन्स पर अधिकार कर लिया। २३ मई को ओलीवर मौन्स में दो तीन छकड़ों में अनाज के बहाने हथियार भरकर घुसा। अन्दर पहुँच कर चुपचाप सब मित्रों को हथियार बाँट दिये गये। लुई पाँच सौ सवार और एक हजार पैदल लेकर पास ही के एक जंगल में आ छिपा था। रात के दो तीन बजे पचास सवारों को लेकर लुई नगर के एक द्वार पर पहुँचा। द्वारपाल को घूस देकर कहा—“हम लोग चुपचाप शरान अन्दर लेजाना चाहते हैं। हमें घुस जाने दो।” जैसे ही उनमें उठकर द्वारखोला उस का सर पड़ से अलग जा गिरा और लुई अपने सवार लेकर शहर में घुस पड़ा। ये लोग बाजार और गलियों में दौड़-दौड़ कर चिल्लाने लगे फ्रांस! आजादी! नगर हमारा है। शाहजादा आरेंज आता है। एल्वा की क्षय। उसके करों की क्षय। इन लोगों ने इतना शोरगुल मचाया मानो हजारों सिपाही घुस आये हों। परन्तु शहर के मित्र हथियार लेकर न निकले। सब गलियों और बाजार खाली थे। पचास आदमियों ने शहर में घुस कर हल्ला तो कर दिया था परन्तु इन थोड़े से आदमियों की सहायता से शहर पर अधिकार जमा लेना असम्भव

काउण्ट मोण्टगोमरी भी बारह सौ सवार और तेरह सौ पैदल लेकर लुई से आ मिला। एल्वा ने देखा विद्रोह की आँधी एका एक उठ रही है। एक के बाद एक नगर निकल जाने की खबर उसके पास आ रही थीं। परन्तु जब मौंस पर लुई का अधिकार हो जाने की खबर उसके पास पहुँची तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा—“मुझे कल ही खबर मिली है कि लुई पेरिस में टेनिस खेलता था। मौंस में वह कैसे पहुँच सकता है?” परन्तु जब उसे विश्वास दिलाया गया कि सचमुच लुई ने मौंस ले लिया है तो टोप पृथ्वी पर पटक कर बोला—“यह सब फ्रांस की महारानी की बटमाशी है। समझ लूँगा। अभी हाल में उसने मुझे फ्रांस से कमल भेजे थे। मैं उसके लिए स्पेन के कीड़े भेजूँगा।” चारों तरफ से एकाएक विद्रोह की खबरें आने से एल्वा सिटपिटा गया था। बेचारे को निश्चय करना कठिन हो गया था कि क्रिधर फौजें भेजी जायँ क्रिधर न भेजी जायँ। मौंस की खबर सुनते ही एल्वा ने अपने पुत्र डॉन फ्रेडरिक को मौंस नगर घेर लेने के लिए भेजा। फ्रेडरिक ने जाकर मौंस के पास पेन्येतहम प्राग पर कब्जा कर लिया और चार-हजार सैनिक लेकर मौंस के इर्द-गिर्द घेरा डाल दिया।

इसी समय नेदरलैण्ड का नया वायसराय रेकुइसेन्स ड्यूक आव मेडीना कोलो अपने जहाजी बड़े को लिये फ्लोरिग के निकट पहुँचा। उसे देश में हो जाने वाली नवीन घटनाओं और फ्लोरिग की परिस्थिति की बिल्कुल खबर नहीं थी। वह समझता था कि नेदरलैण्ड में घेर रखते ही धूमधाम का स्वागत होगा। परन्तु फ्लोरिग ने उसका जैसा स्वागत किया उसे देखकर वह

चकरा गया । बड़ी मुश्किल से दो वार जहाजों के साथ अपनी जान बचा कर भागा और ज्यों त्यों करके ब्रसेल्स पहुँचा । विसर्के की खाड़ी में रहने वाला सरकारी जहाजों का बेडा जवाहरात, रुपया इत्यादि बहुत सा कीमती माल लादे आ रहा था । जैसे ही जहाज किनारे आकर लगे क्रांतिकारियों ने लूट लिये । एक हजार स्पेन के सिपाहियों को भी कैद कर लिया । ऐसी कीमती लूट आजतक देशभक्तों के हाथ नहीं लगी थी । लोग कहने लगे कि इस लूट से दो वर्ष तक लड़ाई का खर्चा चल सकेगा । एल्वा के पास रुपया बिल्कुल नहीं था । खून की बूँट पी कर बड़ी कठिनाई से १० सैकड़ा वाला कर रद्द करने को वह राजी हुआ था । परन्तु उसने यह शर्त रखी थी कि नेदरलैण्ड की पंचायतें एक मुश्त २० लाख सालाना दे दिया करें । उसकी इस शर्त पर विचार करने के लिए सरकार की ओर से १५ जुलाई को हालैण्ड की पंचायतों की बैठक बुलाई गई थी । मगर अब मामला एल्वा के हाथ से निकल चुका था । १५ जुलाई को पंचायतों की बैठक हुई । परन्तु एल्वा से बातचीत करने के लिए हेग में नहीं हुई । ऑरेञ्ज ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया था । १५ जुलाई को वह सब डोर्ट में यह विचार करने को इकट्ठे हुए कि देशभक्तों को अब आगे क्या करना चाहिए ।

ऑरेञ्ज ने फिर जर्मनी में १५,००० पैदल और ७,००० सवारों की सेना खड़ी कर ली थी । इस में ३००० नेदरलैण्ड के वेलून सिपाही भी आ मिले थे । लेकिन युद्ध करने से पहले इस बात की आवश्यकता थी कि सैनिकों को कम से कम तीन महीने का वेतन मिल जाने का पक्का विश्वास दिला दिया जाय । ऑरेञ्ज

के पास नेदरलैण्ड के नगरों के खाली वायदों के अतिरिक्त कुछ न था। उसने सारे नगरों से अपील की कि "अपना और अपने देश का विचार करो। रुपये से मत चिपटो। रुपये के लिए अपनी स्त्री, बच्चों और भावी सन्तान का गला न घोटो। हमने सेना इकट्ठी कर ली है। अगर तुम हमारी सहायता करो तो हम इन हिंसक विदेशी भेड़ियों और गिद्धों को देश से निकाल कर तुम्हारी लाज रक्ष सकते हैं। हमारी सहायता नहीं करोगे तो हमारे मर मिटने का अपराध तो तुम्हारे सर लगेगा ही पर तुम्हारे गलों पर भी सदा ही छुरियाँ चलती रहेगी और ससार के लोग तुम्हारा मजाक उड़ायेंगे।"

१५ जुलाई को डार्ट में आरेञ्ज की इसी अपील और बुलावे पर नेदरलैण्ड के सरदार, नगरों के प्रतिनिधि इत्यादि सब लोग एकत्र हुए थे। मसार के इतिहास का यह वह जमाना था जब राजा को पृथ्वी पर भगवान का अवतार माना जाता था। साधारण लोगों के विश्वास के अनुसार फिलिप भगवान ही और से नेदरलैण्ड का मालिक बनाया गया था। इस विश्वास के कारण नेदरलैण्ड के साधारण लोग फिलिप के स्वामित्व पर कृटाराघात करना तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। हाँ! वे आरेञ्ज को भी भगवान की दी हुई इस मालिकी का धाँडा-बोड़ा हिस्सेदार अवश्य समझते थे क्योंकि आरेञ्ज भी राजकुल में जन्मा था। फिलिप के स्वामि-भक्त सूबेदार आरेञ्ज के कहने से, नेदरलैण्ड के लोग फिलिप के लाभ के विचार से, एल्वा का विरोध करने को तैयार थे। इस विचित्र सिद्धान्त पर डार्ट में हाल्लैण्ड की पंचायत इकट्ठी हुई थी। इस बैठक ने केवल इतना कार्य हुआ कि आरेञ्ज

चकरा गया । वड़ी मुश्किल से दो वार जहाजों के साथ अपनी जान बचा कर भागा और ज्यों त्यों करके ब्रसेल्स पहुँचा । विसके की खाड़ी में रहने वाला सरकारी जहाजों का वेडा जवाहरात, रुपया इत्यादि बहुत सा कीमती माल लादे आ रहा था । जैसे ही जहाज किनारे आकर लगे क्रांतिकारियों ने लूट लिये । एक हजार स्पेन के सिपाहियों को भी कैद कर लिया । ऐसी कीमती लूट आजतक देशभक्तों के हाथ नहीं लगी थी । लोग कहने लगे कि इस लूट से दो वर्ष तक लड़ाई का खर्चा चल सकेगा । एल्वा के पास रुपया विल्कुल नहीं था । लून की घूट पी कर बड़ी कठिनाई से १० सैकड़ा वाला कर रद्द करने को वह राजी हुआ था । परन्तु उसने यह शर्त रखी थी कि नेदरलैण्ड की पचायतें एक मुश्त २० लाख सालाना दे दिया करें । उसकी इस शर्त पर विचार करने के लिए सरकार की ओर से १५ जुलाई को हालैण्ड की पँचायतों की बैठक बुलाई गई थी । मगर अब मामला एल्वा के हाथ से निकल चुका था । १५ जुलाई को पँचायतों की बैठक हुई । परन्तु एल्वा से बातचीत करने के लिए हेग में नहीं हुई । ऑरेंज ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया था । १५ जुलाई को वह सब डोर्ट में यह विचार करने को इकट्ठे हुए कि देशभक्तों को अब आगे क्या करना चाहिए ।

ऑरेंज ने फिर जर्मनी में १५,००० पैदल और ७,००० सवारों की सेना खड़ी कर ली थी । इस में ३००० नेदरलैण्ड के वैनू सिपाही भी आ मिले थे । लेकिन युद्ध करने से पहले इस बात की आवश्यकता थी कि सैनिकों को कम से कम तीन महीने का वेतन मिल जाने का पक्का विश्वास दिला दिया जाय । ऑरेंज

के पास नेदरलैण्ड के नगरों के खाली वायदों के अतिरिक्त कुछ न था। उसने सारे नगरों से अपील की कि "अपना और अपने देश का विचार करो। रुपये से मत चिपटो। रुपये के लिए अपनी स्त्री, बच्चों और भावी सन्तान का गला न घोटो। हमने सेना इकट्ठी कर ली है। अगर तुम हमारी सहायता करो तो हम इन हिंसक विदेशी भेड़ियों और गिद्धों को देश से निकाल कर तुम्हारी लाज रक्ष कर सकते हैं। हमारी सहायता नहीं करोगे तो हमारे मर मिटने का अपराध तो तुम्हारे सर लगेगा ही पर तुम्हारे गलों पर भी सदा ही छुरियाँ चलती रहेंगी और संसार के लोग तुम्हारा मजाक उड़ायेंगे।"

१५ जुलाई को डार्ट में आरेञ्ज की इसी अपील और बुलावे पर नेदरलैण्ड के सरदार, नगरों के प्रतिनिधि इत्यादि सब लोग एकत्र हुए थे। संसार के इतिहास का यह वह जमाना था जब राजा को पृथ्वी पर भगवान का अवतार माना जाता था। साधारण लोगों के विश्वास के अनुसार फिलिप भगवान की ओर से नेदरलैण्ड का मालिक बनाया गया था। इस विश्वास के कारण नेदरलैण्ड के साधारण लोग फिलिप के स्वामित्व पर कुठाराघात करना तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। हाँ। वे आरेञ्ज को भी भगवान की दी हुई इस मालिकी का थोड़ा-थोड़ा हिस्सेदार अवश्य समझते थे क्योंकि आरेञ्ज भी राजकुल में जन्मा था। फिलिप के स्वामि-भक्त सूवेदार आरेञ्ज के कहने से, नेदरलैण्ड के लोग फिलिप के लाभ के विचार से, एल्वा का विरोध करने को तैयार थे। इस विचित्र सिद्धान्त पर डार्ट में हालैण्ड की पंचायत इकट्ठी हुई थी। इस बैठक में केवल इतना कार्य हुआ कि आरेञ्ज

का मित्र लीडन का निवासी पालवुडस विचार करने के लिए हालैण्ड का वकील चुन लिया गया। सभा १८ जुलाई के लिए स्थगित हो गई। १८ जुलाई को सेण्ट एल्डमोण्डे आरेञ्ज को अनुपस्थिति में काम चलाने का अधिकार आरेञ्ज से लेकर आया। उसने पंचायत के सामने एक बड़ा प्रभावशाली व्याख्यान^३ दिया और शहजादा आरेञ्ज के त्याग की प्रशंसा करते हुए कहा—“सन् १५६५ में आरेञ्ज एक बड़ी सेना लेकर देश को मुक्त करने के इरादे से आया था। परन्तु किसी ने उसकी सहायता नहीं की। किसी नगर ने उसके स्वागत के लिए द्वार नहीं खोले। आरेञ्ज को निराश हो कर लौटना पड़ा। परन्तु उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसके दिल की आग नहीं बुझी। भगवान् की कृपा से अब लोगों की आँखें खुल गई हैं। बहुत से नगरों ने अत्याचार के विरुद्ध फण्डा भी खड़ा कर दिया है। इस सुअवसर को देख और हज़ारों दुखियों की आँखें आने वाला अजिया का विचार करके आरेञ्ज ने कौड़ी पास न होने पर भी अपने नातेदारों और मित्रों की सहायता से फिर एक सेना तैयार कर ली है। ऐ मेरे देश के लोगों! क्या यह मौका भा हाथ से निकल जाने दोगे? उठो-उठो स्वतंत्रता के युद्ध के लिए अपना थैलियाँ लुटा दो। भिक्कने वाले नगरों के सामने आदश रखो।” इस व्याख्यान का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। जनता के प्रतिनिधियों ने एल्डमोण्डे का प्रस्ताव तुरन्त स्वीकार कर लिया। देशभर में ‘तिलक स्वराज्य फण्ड’ की तरह चन्दा एकत्र होने लगा। रुपया-पैसा, सोना-चाँदी; गहने जवाहरात, जिससे जो बन पड़ा लोगों ने दिल खोल कर दिया। अमीरों ने कर्ज के तौर

पर भी बहुत सा धन दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि लोग एल्वा को कर में १० वॉ भाग भी देने को तैयार नहीं थे, परन्तु आरेञ्ज को सब कुछ दे डालने को तैयार थे। एल्वा ने फिलिप को लिखा कि हुजूर के लिए रुपया इकट्ठा करने में तो इतनी मुश्किल पडती है परन्तु आश्चर्य है, इस वागी को लोग खूब रुपया देते हैं। हालैण्ड के सूत्रेदार वोस्तू को भी इस बात पर बड़ा ताज्जुब था।

पचायत ने एक मत से आरेञ्ज को हालैण्ड, जेलैण्ड, फ्रीस लैण्ड और यूट्रेक्ट का हकदार सूत्रेदार मान लिया था। यह भी निश्चय हुआ था कि शोत्र ही दूसरे प्रान्तों को सम्मानकर आरेञ्ज को एल्वा के स्थान पर मारं नेदरलैण्ड का नवाब मान लिया जाय। आरेञ्ज से पचायत की ओर से प्रार्थना की गई कि नौ-सेना के सेनाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाना आवश्यक है। अन्त में निश्चय हुआ कि, डेलामार्क वन्दरगाहों के कुछ प्रतिनिधियों की सहायता से जल-युद्ध का संचालन करें स्थान पर डार्टे लीडन और एनबुइजेन नगरों से प्राक्रमण किया जाय। जब तक जल-युद्ध दोनों सेनाओं का एकमत न हो तब तक सरकार में सन्धि न की जाय। घम के सम्बन्ध में सनातनों, रोमन कैथोलिक और नवान पन्थी प्रोटेस्टेण्ट दानों को अपने अपने मतानुसार चयन का अधिकार रहे। जो मनुष्य किसी दूसरे के वर्म में बाधा डालने का प्रयत्न करेगा वह मृत्यु-दण्ड का अपराधी माना जायगा। डार्टे की इस कांग्रेस ने आरेञ्ज को विल्हुत 'स्वाधीन शासक (Dictator) बना दिया था। परन्तु आरेञ्ज को अपना अधिकार और शक्ति बढ़ाने की चिन्ता नहीं। वह तो उस जालिम को देश से निकालने की

फ्रिक्क में था, जो पाँच वर्ष से लोगों को रावण की तरह काट-काट और जला-जलाकर मार रहा था। उसने लोगों के दिये हुए पूर्ण-स्वाधीन शासक के अपने असीम अधिकार को स्वयं सीमा-बद्ध कर लिया। आरेञ्ज ने घोषणा निकाली कि बिना पचायत की राय लिए मैं कोई काम नहीं करूँगा। सेना के अधिकारियों को मेरे अतिरिक्त पचायत के प्रति भी स्वाभिभक्ति की शपथ लेनी पड़ेगी।'

मौन्स में स्पेन की फौज ने लुई को चारों ओर से घेर लिया था। ऐसी अवस्था में बिना नई सेना की सहायता मिले लुई के लिए स्पेन वालों पर विजय प्राप्त करना असम्भव था। लुई ने अपने मित्र जेनलिस को नई सेना ले आने के लिए फ्रान्स भेजा था। लुई ने जेनलिस को अच्छी तरह समझा दिया था कि बड़ी होशियारी से आना। जहाँ तक बने आरेञ्ज की सेना से मित्र जाने का प्रयत्न करना। परन्तु जेनलिस ने आरेञ्ज को सेना से न मिल कर अकेले ही ख्याति लूटने का प्रयत्न किया और ऐसी मूर्खता से लौटा कि स्पेन वालों ने रास्ते में ही उसकी सेना को पकड़ कर छाँट डाला और जेनलिस को पण्डवर्ष के किले में कैद कर दिया, १६ महीने बाद चुपचाप एक दिन जेनलिस का गला घोट कर मारा डाला गया और यह मशहूर कर दिया गया कि जेनलिस बीमारी से मर गया। जेनलिस की सेना के सौ आदमी किसी तरह लड़ते भिड़ते मौस पहुँचे। फ्रान्स से आनेवाली सहायता पर लुई की सारी आशा थी। परन्तु वहाँ से आनेवाली सहायता का यह हाल हुआ।

आरेञ्ज ने भी अपनी सेना के साथ नेदरलैण्ड की तरफ

कूच कर दिया था। २३ जुलाई को नवने एकाएक छापा मार कर रोअरमोण्डे नगर पर अधिकार कर लिया। उसकी सेना ने उनकी इच्छा के विरुद्ध, बहुत रोकने पर भी नागरिकों को स्पेन वालों की तरह लूटा। ऑरेञ्ज ने क्रुद्ध होकर हुम्म निकाला कि 'मेरी सेना का जो सैनिक नागरिकों को लूटे-मारेगा उसे मैं गोली से मार दूँगा। परन्तु बेचारा ऑरेञ्ज सैनिकों को कहीं तक गेक सकता था? आखिर उसकी सेना भा तो उन्हीं जर्मनों की बन थी, जो स्पेन की फौज में भरे पड़े थे। अन्तर इतना अवश्य था कि एल्वा लूट-मार सेना का धर्म एव कर्तव्य समझना और ऑरेञ्ज लूट-मार रोकने का भरसक प्रयत्न करता था। ऑरेञ्ज को रोअर-मोण्डे पर एक मास तक पडा रहना पडा। उसके पान सेना का खर्च चलाने का रुपया ही नहीं था। २७ अगस्त को हालैण्ड का पचायत की ओर से रुपया देने का वादा आते ही ऑरेञ्ज ने बढ़-कर मियूञ्ज नदी पार की और चकर लगा कर डाइस्ट, टिरनमौएट, लुवेन और मेचलिन होता हुआ बढ़ने लगा। बहुत से शहरों और ग्रामों ने ऑरेञ्ज का अधिकार मान लिया और उसकी फौज को अपने खर्च पर अपने यहाँ रक्य लिया। इन नगरों में मुख्य नगर मेचलिन था। मेचलिन नगर के ऑरेञ्ज का अधिकार मान लेने की खबर सुनकर एल्वा ने कहा था कि इस शहर को ऐना मजा-चखाया जाएगा कि याद रहे। ऑरेञ्ज आगे बढ़ने तो लगा था परन्तु उसे भी फ्रान्स से आनेवाली सेना पर ही स रा भगेसा था। फ्रान्स के राजा ने लुई से स्वयं सेना भेजने का वादा किया था। फ्रान्स के सुधारक दल के प्रख्यात नेतापति कौलिग्नो के नाय १२००० पैदल और ३००० सवार नेदरलैण्ड के उद्धार के लिए

लौट आये, तो कहीं फिर फ्रान्स में उत्पात न खड़े हो जायँ । इस लिए एक तरफ तो वह एल्वा को फ्रान्सीसी वन्दियों को तुरन्त मार डालने और मौन्स को इसी के नाम पर नष्ट कर देने के लिए लिखता था । दूसरी तरफ इस सारी हत्या बध और धोखेवाजी के बाद भी आरेञ्ज को चुपचाप पत्र लिखकर सहायता देने के मूठे वायदे करता था । उसे आरेञ्ज से बहुत डर था । इसलिए वह चाहता था कि यह बला नेदरलैण्ड में ही रहे तो अच्छा । कहीं आरेञ्ज फ्रान्स में घुस पड़ा तो कौलिग्नी का कल्ल व्यर्थ जायगा । मौन्स के सामने एल्वा के पड़ाव मे फ्रान्स का समाचार सुनकर खुशी के बाजे बजने लगे, दावतें उड़ने लगी । सबको विश्वास हो गया कि अब मौन्स बडी आसानी से नष्ट कर दिया जा सकेगा ।

इसी समय आरेञ्ज ने पेरोन पर पहुँच कर विन्चे और मौँस के सम्मुख अड़ी हुई एल्वा की फौज के बीचो बीच पडाव डाल दिया । शत्रु की सेना महारथियों से भरी थी । डॉन फ्रेडरिक तो था ही, ड्यूक आव् एल्वा, ड्यूक आव् मेडीनाकोली कोलग्न का लडका विशप इत्यादि भी आ मिले थे । आरेञ्ज के सामने एक ही मार्ग था । किसी तरह शत्रु को खाइयों के पीछे से मैदान में निकाल कर लाये और ईश्वर का नाम लेकर दो-दो हाथ करे । परन्तु एल्वा एक होशियार सेनापति था । वह खाइयों के बाहर निकल कर आती हुई जीत को योंही क्यों खोता ? फ्रांस के सिपाहियों के मौँस के भीतर बल्ले पर उदारू होने और लुई के बुखार में पड़े होने के समाचार आ रहे थे । आरेञ्ज की सेना तीन मास के लिए जर्मनी से किराये पर आई थी । और फ्रांस से सहायता न मिलने का विश्वास होते ही इस सेना

के आँरेञ्ज को छोड़ कर भाग उठने की सम्भावना थी। जिन कारणों से सन् १५३८ ई० में एल्वा ने आँरेञ्ज से युद्ध न करके उसे योही भगा दिया था वेही सब कारण आज फिर उपस्थित थे। ११ सितम्बर को डान फ्रेडरिक ४,००० चुने हुए जवानों को लेकर शहर के हावरे नाम के द्वार के समीप के सेण्ट फ्लोरियन नामी ग्राम में जा डटा। आँरेञ्ज भी थोड़ी ही दूर पर हरमिगनी नाम के स्थान पर टिक्का हुआ। मौस के भीतर सेना पहुँचाने का प्रयत्न कर रहा था। रात को फ्रेडरिक ने आँरेञ्ज के डेरा पर एकाएक ऐसा छापा मारा कि सारी सेना को आन की आन में नष्ट कर डाला। शादजादा आँरेञ्ज कैद होने से बाल बाल बच गया। छ. सौ जवानों को लेकर डान का नायक जूलियन रोमेरो रात को आँरेञ्ज के पड़ाव में अन्धेरे में घुसा। सन्तरियों को मार कर सेना को एक दम धर दवाया। रात के एक बजे से तीन बजे तक अन्धकार में भयंकर मारकाट होती रही। आँरेञ्ज की सेना एक तो सोते में धर दवाई गई थी, दूसरे अन्धकार में पता नहीं चलता था कि दुश्मन के कितने सिपाही हैं। रोमेरो कुछ सैनिकों को लेकर आँरेञ्ज के खीमे की तरफ मूफटा। आँरेञ्ज और उसके सारे सन्तरी धके हुए गहरी नींद में सो रहे थे। जिस महान पुरुष के हाथ से एक देश के स्वतंत्र राज्य की नीव रखी जाने वाली थी वह लगभग शत्रु के हाथ में आ गया था। परन्तु एक छोटे से जानवर ने उसे शत्रु के हाथ में पड़ने से बचा लिया। पनियर जात का एक छोटा सा कुत्ता आँरेञ्ज की खाट पर हमेशा सोया करता था। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर वह भोका और पन्जों से आँरेञ्ज का मुँह खुरच-खुरच कर

अपने मालिक को जगाने का प्रयत्न करने लगा । भाग्यवश शत्रु आने से क्षणभर पहिले ही आरेञ्ज उठ बैठा । पास ही कसा हुआ घोडा खड़ा था । उस पर कूद कर वह बैठा और हवा हो गया । शत्रुओं ने आकर नौकरो और आरेञ्ज के मन्त्रियों को मार कर अपना हृदय ठण्डा किया । उषा के प्रकाश में आरेञ्ज की सेना ने देखा की शत्रु बहुत थोड़े हैं । परन्तु जैसे ही उसके सैनिक एकत्र होने लगे रोमेरो अपने जवानो को लेकर वापस भाग गया । उस अन्वकार मे रोमेरो के एक-एक जवान ने कम से कम एक एक शत्रु सैनिक को तो मारा ही होगा । बहुत से सोते हुए सैनिकों को जला भी डाला । रोमेरो के कुल ६० जवान खेत आये । जिस कुत्ते ने आरेञ्ज के प्राण बचाये थे उसी जात का एक और कुत्ता इस घटना के बाद से आरेञ्ज सदा अपने पास सुलाने लगा ।

आरेञ्ज का इस हार से भी उत्साह भङ्ग नहीं हुआ । उसका खेल तो सेण्ट बार्थेलमो के वध ने ही बिगाड़ दिया था । वह लौट कर पेरोन पहुँचा । हीस्ट नाम का जर्मन हत्यारा चुपचाप उसके पीछे लगा हुआ था । वह एला का इनाम पाने की इच्छा से आरेञ्ज के प्राण लेने की घात मे था । आरेञ्ज जब पेरोन पहुँचा तो उसकी सेना ने रुपया न मिलने के कारण लडने से साफ इन्कार कर दिया । बेचारे ने दु खी हो कर लुई को सारी परिस्थिति बताते हुए लिखा—“भाई तुम्हे बचाना अब मेरी शक्ति के बाहर है । जैसे बने शत्रु से इज्जत के साथ सुलह करलो ।” दु खी हृदय से अपने बहादुर भाई को मौंस मे धिरा हुआ छोड़ कर आरेञ्ज सेना सहित मियूञ्च पार करके राइन को

और चल पड़ा। उसके पास नेदरलैण्ड के नगरों के कागजी वार्दों के अतिरिक्त सिपाहियों को बेतन देने के लिए कुछ नहीं था। सेना में एक भीषण विद्रोह उठ खड़ा हुआ। बड़ी कठिनाता से उसके कुछ अफसरों ने उसकी जान बचाई। राइन पार करके ऑरेंज ने सारी सेना को छुट्टी दे दी और भगवान का नाम लेकर अकेला हालैण्ड की तरफ चल दिया। इस पराजय और कष्ट को पराक्रांता के समय भी ऑरेंज के चेहरे से वीरत्व बरसता था। वह वीरत्व जो महारथियों के चेहरे पर विजय के बाद बरसता है। हालैण्ड ही एक ऐसा प्रान्त था जो अभी तक ऑरेंज को अपना नेता मानता था। हालैण्ड प्रान्त ऑरेंज को अपना चाचा और उद्धारक समझ कर उसके मुख की ओर देखता था। ऑरेंज को हालैण्ड पहुँच कर वहाँ लड़ते-लड़ते मर मिटने के अतिरिक्त और कुछ आशा नहीं थी। उसने अपने भाई को लिखा था—‘भाई! मैं हालैण्ड में अपनी कब्र तैयार करने जा रहा हूँ।’ लेकिन उसका प्रयत्न जर्नी रहा।

एन्वा लुई को हृदय से पृष्ठा करता था। परन्तु मौस शहर इतने भाँके का था और समय भी ऐसा पुरा था कि उसने लुई से खुलह कर लेना ही उचित समझा। लुई को अपनी तौत और उन सब नागरिकों के साथ निकल जाने दिया गया जिन्होंने लुई के साथ सरकार के विरुद्ध युद्ध किया था। शहर छोड़ने से पहले लुई स्पेन की सेना में गया। वहाँ मैडोना कोली, जान फ्रेडरिक इत्यादि सरदारों ने उसका बड़ा सम्कार किया। जब लुई इन लोगों से विदा लेकर चलने लगा तो फ्रेडरिक अपने लोभ के बाहर खड़ा होकर इस वीरो युद्ध के वीर की उच्च तिहायने

लगा। जब तक लुई आखों की ओर नहीं हो गया तब तक फ्रेडरिक खड़ा-खड़ा उस की ओर देखता और उसकी वीरता की हृदय में सराहना करता रहा। एल्वा के इस सद्व्यवहार में राजनैतिक चाल थी। लुई उसे अच्छी तरह समझता था। एल्वा का सेण्ट वार्थेलमो की घटना के सम्बन्ध में कहना था कि "मैं अपने दोनों हाथ कटा डालूंगा। परन्तु ऐसा घृणिन कार्य कभी न करूंगा।" मानो उसके हाथ अभी तक पवित्र कार्य करके ही संसार का भला कर रहे थे। लुई के चले जाने पर नोयरकार्मस ने शहर में प्रवेश किया। शहर छोड़ कर जाने वाले मनुष्यों में से कुछ स्पेन वालों के बचनों पर विश्वास करके अपने नातेदारों और मित्रों से मिलन को कुछ समय के लिए शहर में टिक गये थे। नोयरकार्मस ने सुलह की शर्तों की जरा परवाह न करके उन सब को तुरन्त मरवा डाला। फिर ब्रमेल्स की तरह खूनो कचहरी बैठा कर उसने लोगों को 'शुक्रवार के दिन मास खा लेने, अपने पुत्र को लुई के साथ लड़ने की इजाजत देने, नवीन पन्थ की तरफ सहानुभूति दिखाने' इत्यादि-इत्यादि छोटे-छोटे बहानों पर लोगों को फौसी देना, और उनकी जागीरें जब्त करके सस्ते दामों में स्वयं नीलाम में खरीद कर अपना घर भरना, शुरू कर दिया। एक साल तक नोयरकार्मस का रावण-राज्य मौंस में कायम रहा। दूसरे वर्ष रेकुइसेन्स ने क्षमा की घोषणा निकाली। उस समय भी मौंस की जेल में ७५ प्राण-दण्ड पाये हुए अपराधी फौसी की बाट जोड़ रहे थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि इन अत्याचारों से सम्बन्ध रखने वाले सारे कागजात भी छिपा दिये गये और सदियों तक उनका किसी को पता भी नहीं चला। १९ वीं सदी में चेटो

डेनास में एक पुरानी मीनार के गिरने पर कागजातों का एक पुलिन्दा निकला जिससे इतिहास लिखने वालों को इन घटनाओं का हाल मालूम हुआ और अत्याचार का भयङ्कर अत्याचार का भण्डा फूटा।

मौस देश की कुन्जी थी। उसके हाथ आते ही अन्य सारे स्वतंत्र हो जाने वाले नगर भी स्पेन वालों के हाथ आ गये। जब डॉन मेचलिन नगर के पास पहुँचा तो वहाँ की कायर सेना दो चार गोले स्पेनवालों पर दाग कर वहाँ के छत्ते को छेड़ भागी। नागरिक अनाथ हो गये। एल्वा ने पहले ही इस नगर को मजा चखाना निश्चय कर लिया था। गोले दगने से और भी क्रोध भे आकर स्पेनवालों ने फ्रेडरिक और नोयरकार्मस की अधिपत्या में नगर पर भयङ्कर अत्याचार किये। उस समय के एक सनातनी लेखक ने इन अत्याचारों के सम्बन्ध में अपने मित्र को एक पत्र में लिखा था—“वर्णन लिखते मेरी कलम काँपती है शरीर में रोमाञ्च हो आता है। बीमारों का खाट पर से खींच खींच कर मारा गया। स्त्रियों की गिरजो में इज्जत उतारी गई। तीन दिन तक लूट हुई। एक दिन स्पेन के सैनिकों का राज्य था। दूसरे दिन वैलून सैनिकों का। तीसरा दिन जर्मनों को दिया गया था।”

लूट यहाँ तक हुई थी कि उसी सनातनी लेखक के अनुमार माताओं के पास आँखों के सामने भूख से मरते हुए बालकों के मुख में रखने को रोटी का टुकड़ा तक नहीं था।

ब्रेवैण्ट और फ्लेण्डर्स जैसी शीघ्रता से स्वतंत्र हुए थे उसी शीघ्रता से फिर गुलामी की जंजीरो में जकड़ दिये गये। जेलेण्ड में भी आँरेख की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। बालचेरेन द्वीप

पर मिडलवर्ग और आर्नेप्यूड अभी तक सरकार के कब्जे में थे। केम्पवीयर और फ्लिशिंग पर ऑरेंज का अधिकार हो गया था। दक्षिण वीवलैण्ड द्वीप पर टरगोज नाम का बड़े मार्के का स्थान था। स्पेन की सेना इसकी अभी तक बड़ी वहादुरी से रक्षा कर रही थी। जब तक यह स्थान सरकार के हाथ में था, तब तक मिडलवर्ग भी सुरक्षित था। और इस स्थान के गिरते ही सारा वालचरेन द्वीप सरकार के हाथ से निकल जाता। जेरोम नाम के ऑरेंज के एक वीर नायक ने मिडलवर्ग इत्यादि पर कब्जा जमा लेने के प्रयत्न किये थे, पर सब असफल हुए थे। अन्त में उसने निराश होकर विजयी होने या मर भिटने का दृढ संकल्प कर लिया। ७,००० सेना लेकर उसने टरगोज के चारों ओर वेरा डाल दिया। एल्वा ने तुरन्त पण्टवर्प के अधिकारी डेएविला को टरगोज की सहायता के लिए भेजा। परन्तु तुरन्त जल-स्थल दोनों ओर से सहायता भेजने के उसके प्रयत्न देशभक्तों ने विफल कर दिये। दोनों रास्ते घेरे देशभक्तों की सेनायें पड़ी थीं। स्पेन वालों ने टरगोज की सहायता करने के लिए बड़ी वीरता पूर्वक युक्ति ढूँढ़ निकाली। ससारे के युद्ध के इतिहास में उनकी यह युक्ति अद्वितीय और सदा उनकी कीर्ति का चिह्न रहेगी।

शेरड तदा एण्टवर्प के पास से बहती थी। वह ब्रवेएट और फ्लेण्डर्स को अलग करती हुई स्वयं दो परस्पर उल्टी धाराओं में विभाजित होकर समुद्र में गिरती थी। इन दोनों धाराओं के बीच में जेलैण्ड के द्वीप थे। इनका कुछ भाग समुद्र में डूब गया था और कुछ ऊपर था। टरगोज दक्षिण वीवलैण्ड का मुख्य नगर था। दक्षिण वीवलैण्ड सदा से द्वीप नहीं था। ५० वर्ष

पहले समुद्र को एक बाढ़ ने आकर सदा के लिए इस भाग को
 खुशकी से अलग कर दिया था। इस द्वीप और खुशकी के बीच
 समुद्र की छोटी सी खाड़ी बन गई थी। इस खाड़ी में घटती
 (ebb) के समय चार-पाँच फीट पानी रहता था और ज्वार के
 समय १० फीट गहरा हो जाता था। स्पेन की सेना के कैप्टेन
 प्लोमर्ट ने इस सागर में डूबे हुए मार्ग से टरगोज़ सेना ले जाने
 का विचार किया। पहले उसने इस मार्ग से परिचित दो किसानों
 को साथ लेकर स्वयं दो बार दस मील लम्बी खाड़ी पार की।
 फिर सेनापति के मन्मुख अपना प्रस्ताव रक्खा। कर्नल मोरडेगन
 स्वयं सेना को इस मार्ग से ले जाने के लिए तुरन्त तैयार हो
 गया। स्पेन, वैन्डन और जर्मन तीनों जातियों के एक-एक हजार
 छठे जवानों को विस्कुट और वारुड से भरा हुआ एक-एक बोरा
 दिया गया। सेना को बिल्कुल यह नहीं बताया गया था कि
 कहाँ जाना है। जब मोरडेगन उन्हें लेकर सागर के तट पर
 पहुँचा। तब उसने सिपाहियों को बताया कि किम भगड़र रास्ते
 से होकर उन्हे जाना है। यह स्वयं आगे-आगे चलने का तैयार
 हुआ। राह की भयकरता सुनकर सिपाहियों का जोग टण्डा
 होने के स्थान से और बढ़ गया। मोरडेगन ने कहा कि 'वीरो !
 यदि हमने यह रास्ता पार करके विजय प्राप्त कर ला तो समार में
 हमारा नाम रह जायगा।' सैनिक ह्याति लूटने के लिए पागल
 हो उठे। आगे-आगे बार मोरडेगन और पीछे पीछे सारी सेना
 एक-एक आदमी की कतार में सिर पर बोरी रखे रात्रि के
 अन्धकार में सागर पार करने लगी। पानी छाती से नीचे चढ़ा
 जाता था। अक्सर कंधों से ऊपर तक हो जाता था। यह घटती

का समय था। बढ़ती आने में छः घण्टे की देर थी। इसी समय दस मील लम्बा सागर पार कर लेना था। नहीं तो ज्वार आकर सब को हडप लेता। सागर की तलहटी में कहीं-कहीं भिट्टी बहुत विकनी थी। कहीं-कहीं कीचड़ आ जाता था। सैनिकों को पाँव टिकाना असम्भव हो जाता था और तैर तैर कर जाना पड़ता था। परन्तु उत्साह और वीरता से उस कठिन मार्ग को पार करके सुबह होते-हंते सेना उस पार जा पहुँची। ३००० हज़ार में से कुल ९ आदमी डूबे। पार पहुँचते ही मशालें जलाकर मोएड्रेगन ने उस पार उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए सेनापति को अपने सहीसलामत पहुँच जाने की खबर दी। अन्धियारी रात में इस प्रकार ३,००० सेना का सागर के पार उतर जाना सचमुच एल्वा के लिए बड़ी अभिमान की बात और ससार के युद्ध के इतिहास में बड़ी विलक्षण घटना है। अलिफ लैला की कहानियों के जादू की सहायता से लड़ने वाले शाहजादों की अथवा 'बगदाद के चोर' की जादू की सेना की तरह एल्वा की सेना सागर में से निकल कर खड़ी हो गई थी। चारों ओर खबर फैल गई कि एल्वा की सेना समुद्र के पेट में से निकल आई है। टरगोज़ निकट ही था। जैसे ही इस जादू की सेना ने नगर की ओर कूब क्रिया देशभक्तों की सेना भय से भाग खड़ी हुई। मोएड्रेगन ने बड़ी सरलता से नगर पर अधिकार जमा लिया और फिर अपनी सेना लेकर ब्रेवेण्ट प्रान्त की ओर चला गया।

मौन्स और मेचलिन का सिर नीचा करके एल्वा निमची-जन की तरफ चला गया था। डॉनफ्रेडरिक को उसने उत्तरी और

पूर्वाभागों को दवाने के लिए भेज दिया था। जहाँ जहाँ फ्रेडरिक गया था, वहाँ सब शहरो ने तुरन्त उसका अधिकार मान लिया था। जुटफेन नगर ने कुछ धृष्टता दिखाई थी, इसलिए एल्वा की आज्ञानुसार वहाँ कत्ले आम कर दिया गया। नगर में किसी औरत की इज्जत न बची। बहुत दिनों तक शहर के पास पहुँचकर समाचार लाने तक की किसी की हिम्मत न हुई। पास के दूसरे शहर के एक सरदार ने अपने क्रिमी मित्र को एक पत्र लिखा था—“पिछले रविवार को जुटफेन से हाहाकार और कराहने की आवाजें आ रहीं थी ऐसा लगना था मानो कोई भयकर बध हो रहा हो। परन्तु हमें ठीक पता नहीं कि क्या मामला था।” आरेख ने जेन्डरलैण्ड और ओवरी सेल के नगर अपने साले सरदार ब्राण्डेनवर्ग के सुपुर्दे कर दिये थे। परन्तु यह कायर अपनी जाति के नाम पर बच्चा लगाकर नगरों को अनाथ अस्त-व्या में और अपनी गर्भवती स्त्रियों को एक किसान के यहाँ छोड़कर भाग गया। सारे शहर फिर एल्वा के हाथ योंही आ गये। फ्रीसलैण्ड ने भी खिर भुका दिया। लेकिन हालैण्ड ने कण्ठ नीचा नहीं किया था। जिस प्रान्त की सरहद में स्वयं आरेख उपस्थित हो, वह प्रान्त आसानी से घुटने कैसे टेक सकता था? और सब तरफ का विद्रोह दबा देने के बाद फ्रेडरिक हालैण्ड की तरफ मुड़ा। रास्ते में ‘नन्धारडन’ नाम का एक छोटासा नगर था। इस नगर ने फ्रेडरिक का अधिकार स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। देशभक्तों के सैनिक लड़ने को तैयार नहीं थे, परन्तु नागरिकों में बड़ा उत्साह था। एक पागल ने ऊपर चढ़कर एकाएक स्पेन की कौज पर कुछ गोले भी दाग दिये। नागरिकों ने पास पड़े हुए देश

भक्त सेनापति सोनौय के पास सहायता भेजने की प्रार्थना की । परन्तु वह वेचारा थोड़ीनी वारुद् और बहुत से वादो के अतिरिक्त कुछ न भेज सका । हाँ, यह सलाह जहर दी कि यदि हो सके तो इञ्चत से सुलह कर लो । नागरिकों को कोई रास्ता न सूझा विवश हो कर उन्होंने फ्रेडरिक के पास सुलह का सन्देशा भेजा । फ्रेडरिक अपनी फौज को नगर की ओर बढ़ने का हुक्म दे चुका था उसने सन्देशा लाने वालो से कहा—“जाओ, मेरी सेना के साथ जाओ । नागरिकों का शहर के द्वार पर ही उत्तर दिया जायगा” यह वेचारे सेना के साथ साथ चले । दो सन्देशा लाने वालों में से एक गाडी में अपना कोट छोड़ कर चुपके में खिसक गया । वह अपने साथी को नमस्कार करके बोला, भाई शहर में लौट कर जाना मुझे उचित नहीं लगता । दूसरा मनुष्य यह सोच कर मेना के साथ रहा कि मेरी बीबी बाल बच्चो और मित्रो पर जो सकट आवेंगे उन्हे मैं भी भेल लूंगा । शहर के पाम डेरा डानकर फ्रेडरिक ने कहा कि सुलह के लिए शहर से कुछ और प्रतिनिधि आने चाहिए । दूसरे दिन सुबह शहर के चार प्रतिनिधि और आये । जूलियन रोमेरो ने आगे बढ़कर कहा कि ‘मैं फ्रेडरिक की तरफ से सुलह करने को तैयार हू । मुझे शहर की कुंजियो दे दो ।’ लोगों की जान माल की रक्षा करने का विश्वास दिलाने के लिए उसने प्रतिनिधियों से तीन बार हाथ मिलाया । रोमेरो के वचन को एक सिपाही के वचन समझ कर प्रतिनिधियों ने विश्वास करके कुजियो उसके हवाले कर दीं । रोमेरो ने शहर पे प्रवेश किया । पाँच छ. सौ बन्दूकधारी सैनिक भी उसके साथ थुसे । नगरवालों ने स्पेनवालों को खुश करने के लिए रोमेरो का स्वागत करने के लिए बड़ीशान-

की दावत की। दावत खत्म हो चुकने पर शहर का घण्टा बजाकर रोमेरो ने नागरिकों को गिरजे में एकत्र किया। सब लोग एकत्र हो कर उत्सुकता से सन्धि की शर्तें सुनने की जाट देखने लगे। इतने में एक पादरी ने आकर सब को प्राण श्वाड का हुक्म सुना दिया। तुरन्त ही सेना ने गिरजे के द्वार खालकर गोशिया बरसानी शुरू कर दी, और भागते हुए लोगों को मारमार कर तारों के ढेर लगा दिये। बाद को गिरजे में आग लगा कर जिन्हे और मुर्दे सब रात में भिला दिय गये। सैनिकों ने दौड़ दौड़ कर सड़कों पर लोगों को मारा और घरों को लूटा। जिन मनुष्यों को लूटा उन्हींके भिर पर सान लाट कर अपने पत्थर ने ले गये और इनाम में उन अभाग के भिर काट लिये। शहर में चारों तरफ प्राण लगा दी गई थी जिनमें जा नागरिक छिप रहे थे वे भी जल जाय। चारों ओर अथर आनाये पठ रही थी। जो लोग निकल कर प्राण बचाने के लिए भागते थे उनको या तो गलवारों और कुल्हाड़ियों से ठुं ठुं कर उले जाते थे, या अन्हे भालों से छार कर आग में फेंक दिया जाता था। नागरिकों को सुनता श्वाडर नेप्राये मर रहे थे। नेम के सैनिक इतने शान्त हो गये थे कि उनसे बहुत से नागरिकों की रण फाट फोड कर नाराय की तरफ रक्त पी रहे थे। बहुतने नागरिकों की प्राणों के नामने पदले उदकी बहू घेटिया हा सने व दरण किया गया और फिर आ सार का मार डाला गया। कल्या का ताण्डव नृत्य था। एक विद्वान को उसकी विद्वत्ता के लिए छ्वाड दिया गया परन्तु उसके सामने उसके बेटे का जिगर चीरकर निकाल लिया गया। कुछ आदमी बरक पर होकर जान

वचाने को भागे । पकड़कर उन्हें नगा करके पेड़ों से उलटा लटका दिया गया । वहाँ उल्टे लटके हुए बेचारे वे तड़प तड़प कर वर्षों में गल गये । अमीरों के तलवों पर अग्नि के दहकते हुए अंगारे रख रखकर पहले रुपया वसूल किया गया और पीछे से उनके प्राण भी ले लिये गये । नआरडन नगर में एक मनुष्य जीवित न बचा । तीन सप्ताह तक लार्शे पड़ो सड़कों पर सड़ता रहा । पेड़ों पर, द्वारों पर, दीवारों पर जिधर देखो हाड़-मांस हाथ-पैर अथवा लार्शे लटकती नजर आती थीं । अन्त को शहर ढाकर मिट्टा में मिला दिया गया । हरे-भरे न आर्डन नगर की जगह बयावन बन गया ।

इन घटनाओं का वर्णन करते लेखनी काँपती है । परन्तु लेखनी को दृढ़ता से पकड़ कर इन घटनाओं का वर्णन करना इतिहास लिखने वालों का कर्तव्य है । घटाकर कहना पाप होगा । बड़ा कर लिखना असम्भव है । अच्छा है, दुनिया के लिए नआर्डन का यह दृश्य याद रखना बड़ा लाभ दायक होगा । भगवान की इस पृथ्वी पर एक छोटे से देश ने अत्याचारियों के हाथों ईश्वर के नाम पर कैसी कैसी यातनायेँ सँदी । बहुतसे लेखकों ने क्रान्ति के इतिहास लिख-लिखकर जनता के अत्याचारों का रोना रोया है । जनता के अत्याचार भी याद रखने और बार बार मनन करने के योग्य हैं । परन्तु दूसरी ओर के चित्र का अध्ययन करने से भी बड़ा लाभ होगा । जुल्म बड़ा पुरानी चीज है, फिर भी नित्य नयी वस्तु है । किसी न किसी स्वरूप में जुल्म ससार में बना हो रहा है । न आर्डन को याद रखने से स्वतंत्रता हमें प्यारी रहेगी । नेदरलैण्ड में एल्वा के शासन का हाल पढ़कर जवान वन्द हो जाती है । कैसे भगवान ने अपने नाम पर ऐसे जुल्म

होने दिये ? क्या भावी सन्तान के लिए स्वाधीनता प्राप्त करने में पीढ़ियों दर पीढ़ियों खून की नदियों में तैरना अनिवार्य था ? क्या इस बात की आवश्यकता ही थी कि एक पूरा देश अत्याचारी एल्वा के शासन में अग्नि और तलवार के घाट उतरे जिससे इन धूम्र और चीत्कार के वादलों में विलियम आरेख की निर्दोष और सौम्य मूर्ति संसार के सामने अधिक उज्वल हो जाय ? क्या राम के आने के लिए रावण राज्य अनिवार्य था ?

मौन्स की असफलता के बाद आरेख हालैण्ड चला गया । २०,००० सेना में से बचे हुए कुल सत्तर सवारों को साथ लिये जिस समय उसने एनखुइजेन नगर में प्रवेश किया तो लोगों ने उसका ऐसा दिल खोलकर स्वागत किया, जैसा विजय प्राप्त करके लौटने वाले सेनापतियों का किया जाता है । आरेख ने समझ लिया था कि जर्मनी से अब फिर तीसरी बार एक और सेना खड़ी कर लेना असम्भव है । इसलिए वह अन्तिम बार हालैण्ड में ही भाग्य आप्तमाने का निश्चय करके आया था । नगर-नगर धूम-धूम कर वह लोगों को समझाने लगा और देश को सुव्यवस्थित रखने का प्रबन्ध करने लगा । हार्लेम में हालैण्ड की पचासत बुलाकर उसको बन्द बैठक में आरेख ने अपने सारे वचार खोलकर रखे थे ।

हालैण्ड में केवल एक नगर एम्सटर्डम अर्थात् एक एल्वा के कब्जे में था । एल्वा और फ्रेडरिक इस स्थान पर बैठकर हालैण्ड पर फिर से अधिकार प्राप्त कर लेने की तरकीबें सोच रहे थे । आरेख दक्षिणी भाग में था और उत्तरी अविनाशक डीडरिश् सोनीय उत्तर हालैण्ड में । दोनों के बीच में हार्लेम नगर था । हार-

लेम पर एल्वा का अधिकार हो जाने से हालैण्ड दो भागों में विभाजित हो जाता और देशभक्तों की सेना ऐसी विस्तार जाती कि एक दूसरे को सहायता पहुँचाना अनभव हो जाता। हालैण्ड के सरकारी गवर्नर वोस्मू ने कह रक्खा था कि जो उगा जुटफेन और न आरडन की हुई है, वही उन सब शहरों की की जायगी जो "सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। यह सुनकर हारेलम वालों में भय उत्पन्न होने की बजाय और दृढ़ता आ गई थी। लेकिन वहाँ के कायर अधिकारियों ने मे हीन चुपचाप विधेयक नन वर एल्वा के पास गये और गुप्त रूप से शरलेख पर अधिकार जमा लेने की एल्वा को तरकीबें बताने लगे। एक तो इनसे से एल्वा के पास ही रह गया। दो लौटकर नगर में आये। नागरिकों ने उन्हें पकड़कर तुरन्त फाँसी पर लटका दिया। अविधेयक वर्ग, कन्धा गिराने लगा था परन्तु नगर में रहने वाली आरेश्व की सेना के वीर नायक रिपेडा ने लोगों को एकत्र करके उन्हें स्वाधीनता के लिए आखिरी दम तक लड़ने को तैयार कर लिया। हारलेम की जनता के हृदय में तो वीर रक्त बह रहा था, परन्तु अधिकारी कायरता दिखा रहे थे। आरेश्व ने अधिकारियों को बदल कर सेण्ट एल्डगोण्डे को शहर का प्रबन्ध सम्भालने के लिए भेजा।

एम्सटर्डम और हारलेम के बीच में एक बड़ी भारी भीत थी। मील के किनारे किनारे एक ऊँची सड़क जाती थी, जो दोनों शहरों को मिलाती थी। स्वभावतः इसी मील के आसपास युद्ध होने वाला था। १० दिसम्बर को फ्रेडरिक सेना लेकर एम्सटर्डम से चला और आगे बढ़कर स्फारेण्डम नाम के ग्राम

पर कब्जा कर लिया। फिर उसकी सेना ने हारलेम के चारों ओर वेग डाल दिया। आरेख ने वचाव में सुविधा करने के विचार से नील के किनारे-किनारे दीवारें खड़ी करा दी थीं। फ्रेडरिक ने आते ही वेंसी ही दीवारों अपने पड़ाव के आगे भा खड़ी करा ली। स्पेन की सेना लगभग नौ हजार थी, जिनमें १५,००० सवार थे। हारलेम की सारी आबादी तीन हजार थी और सेना की तो कभी ४००० में अधिक होने की संभावना ही नहीं आई। हाँ, पीछे में देगभक्तों में अच्छे अच्छे घरानों की ३०० साइमी स्त्रियों की एक बोर सेना अश्वर्य प्रसिद्धि थी। नव जगत् की देवियों में यह प्रताड़ था तो - ला आरोगी जैसे आत्मानों से बुझने तक लड़ते थे ? यह मौनम पेक्षा था जि दिन वे भी खूब पाना पड़ता था। सीता पर बुध के बादल से छाये रहते थे। पाला षडने का लाभ दोनों पक्षों ने उठाया। इस सम्भाविक पक्ष का आड में फ्रेडरिक ड्वर अपनी खाइयों और दीवारों तैयार करा सेना को जगद जगद तैनात करने का प्रयत्न कर रहा था, उपर हारलेम के पुरुष-स्त्री-बच्चे गाड़ियों पर पड़ोस के गावों से खान पीने और बुद्ध की सामग्री ला लाकर एकत्र कर रहे थे। आरेख ने लीडन में तीन-चार हजार भक्तियों की एक सेना तैयार करके डेलामार्क की अव्यक्तता में नगर की सहायता के लिए भेजी थी। परन्तु शत्रु ने रास्ते में ही इस सेना को नष्ट नष्ट कर डाला। डेलामार्क का एक बान-द्रायर नाम का सरदार शत्रु के हाथ में पड गया। वह उसे लुडाने का पग पन्ना बन ले लगा। शत्रुपक्ष की बहुजसा हथिया और उनके १९ नौवापिस सेने को तैयार हो गया। परन्तु स्पेनवालों ने बानद्रायर की एक टॉप से लूली पर लटका कर मार डाला।

डेलामार्क ने भी उत्तर में उनके १९ कैदियों को फासी पर चढ़ा दिया। इस क्रूर श्रीगणेश के वाद लड़ाई छिड़ी।

फ्रेडरिक ने हारलेम के क्रॉस-गेट और सेण्टजान गेट दो द्वारों और उनके बीच की दीवार पर तीन दिन तक भयङ्कर गोला बारी करके उन्हें छलनी कर डाला। मगर जहाँ जहाँ दीवार टूटती थी वहाँ वहाँ नागरिक मनुष्य स्त्री, बच्चे सब पहुँचकर तुरंत दीवार भर देते थे। फ्रेडरिक ने सोचा था कि एक सप्ताह में हारलेम पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ जाऊँगा। तीन दिन लगातार गोला बारी कर चुकने के बाद उसने रोमेरो को एक बड़ी सेना लेकर टूटी हुई दीवार पर धावा बोलने और शहर में घुस पड़ने की आज्ञा दी। रोमेरो ने धावा बोल दिया। हारलेम का नगर-घण्टा बजा और स्त्री, पुरुष, बच्चे सब नागरिक टूटे हुए स्थान की रक्षा करने को टूट पड़े। शत्रुओं का केवल हथियारों से ही सामना नहीं किया गया। पत्थर, धक्कता हुआ तेल, अंगारे, जलती हुई मशालें जो कुछ जिसके हाथ पड़ा शत्रुओं पर उसने वही फेंकना शुरू किया। नागरिकों के भयकर प्रहारों को रणक्षेत्र में जीवन व्यतीत करने वाले स्पेन के सैनिक भी न सहसके और उन्हें पीछे लौटना पडा। रोमेरो की एक आँख फूट गई। बहुत से अफसर और तीन-चार सौ सिपाही काम आये। नगर वालों के कुल तीन चार आदमी मरे। अब फ्रेडरिक को मालूम हुआ कि हारलेम पर सरलता से अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। घेरा डाल रखना होगा।

आरेञ्ज ने डेलामार्क की क्रूरता से उकता कर उसको पद-च्युत कर दिया और उसके स्थान पर बेटनवर्ग को नियुक्त किया।

वेतनवर्ग की अभ्यन्तता में आरेख ने फिर दो हजार सैनिकों को सात तोपें और बहुत सा गोला बारूद लेकर हारलेम की सहायता के लिए भेजा परन्तु इस सेना की भी वही दुर्गति हुई जो डेलामार्क की सेना की हुई थी। पाला पड़ रहा था। वेतनवर्ग का सेना अन्धकार में रास्ता भूल कर भटकने लगे। स्पेनवानो ने एकाएक टूटकर उन सबको अन्धेरे में ही खत्म कर दिया। वेतनवर्ग भाग गया। परन्तु उसका एक कप्तान डेकोनिंग शत्रुओं के हाथ पड़ गया। स्पेनवालों ने उसका सिर काट डाला और सिर में एक पत्र बाँध कर हारलेम में फेंक दिया। पत्र में लिखा था—'यह है श्रीयुत कप्तान डेकोनिंग का सिर, जो सेना लिये हारलेम की सहायता के लिए आ रहे हैं। नागरिकों ने इस क्रूर मजाक का और भी क्रूर उत्तर दिया। उन्होंने शत्रु के ग्यारह कैदियों के सिर काट कर एक बोरे में भरे और बोरे में एक पत्र निरूप कर बाँधा कि 'एल्वा को दस सैंकड़ा कर की अदाई में यह दस सिर भेजे जाते हैं। और एक सिर सूद में भेजा जाता है, बोरा फ्रेडरिक की सेना में फेंक दिया गया।

जाड़े भर घेरा पड़ा रहा। गोज मारकाट में दोनों ओर के कैदी पकड़े जाते थे। दोनों पक्षवाले इन कैदियों को गोज सूली पर चढ़ा देते थे। फ्रेडरिक ने सुरग लगा कर शहर को बारूद से उड़ा देने का प्रयत्न किया। परन्तु नागरिक भी सुरग लगाकर शत्रुओं के सुहृदों में घुस गये और लालटेन ले लेकर जमीन के भीतर अन्धकार में भूतों की तरह भ्रमण बुद्ध किया। प्रायः ज्वालामुखी की तरह जमीन फटती थी और उसमें से मनुष्यों के टूटे शरीर, हाथ पाँव इत्यादि धरों की तरह निकल कर चारों ओर

धिखर जाते थे । नागरिकों ने स्पेन वालों के दौंटे खट्टे कर दिये । शत्रु को एक कदम आगे न बढ़ने दिया ।

आरंभ छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर खत लिख-लिखकर कवूतरो द्वारा नागरिकों के पास भेजकर उनका उत्साह बराबर बढ़ा रहा था । २८ जनवरी को उसने १७० वर्गीली गाड़ियों में भील के ऊपर जमी हुई बर्फ पर चने रोटी और बारूद जैसी परमावश्यक वस्तुयें तथा ४०० जवान शहर में भेज दिये । नागरिकों को भय होने लगा था कि द्वार शंभ्र ही टूट जायेंगे । द्वारों के गिरने पर शहर का बचाव करना असम्भव हो जाता । इसलिए बड़े बड़े, बिरयों सवने मिलकर चुपके चुपके द्वारों के पीछे एक नई दीवार खड़ी करली । ३१ जनवरी को दो तीन द्वारों पर लगातार गोले बरसा चुकने के बाद फ्रेडरिक ने आधी रात को एक दम धावा बोल दिया । द्वारों पर देश-भक्तों के झुल चार्जीस-पचास सन्तरी पहरे पर थे । उन्होंने हल्ला मचा दिया । नगर का घण्टा घहराने लगा । नागरिक भक्तानों में निकल निकल नगर की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े । रातभर घमासान युद्ध होता रहा । दिन निकल आया परन्तु लड़ाई जारी रही । प्रातः काल को प्रार्भना के बाद स्पेन की फौज में हारलेम पर पूरे जोर से हमला करने का बिगुल बजा । फ्रेडरिक के सैनिक दौड़कर द्वारों पर जा चढ़े । लेकिन द्वारों पर अधिकार प्राप्त करलेने का यह हर्ष शीघ्र ही आश्चर्य में परिणत हो गया । उन्होंने देखा कि द्वारों के पीछे दूसरी दीवार खड़ी है । अब उनकी समझ में आया कि नागरिकों ने क्यों द्वार हाथ से निकल जाने दिये । देखते देखते ही सामने की दीवार पर से स्पेन वालों पर गोलियाँ बरसने लगीं । वे बचाव का प्रयत्न

करने लगे इतने में जिन द्वारों पर वे खड़े थे वे भी बालू से उड़ा दिये गये। स्पेन के नैनिक आकाश में उड़कर छिन्नभिन्न हो, धरती पर गिर पड़े। अपने तीन लौ बहादुरों को लागे पृथ्वी पर पड़ी छोड़ कर शत्रु को पीछे हटना पड़ा। फ्रेडरिक को विश्वास हो गया कि नगर पर हमला करके विजय नहीं मिल सकती। उसने हारलेम को फाँके कराकर वग में करत का निश्चय किया।

जाड़ा जोर का पड़ने लगा था। फ्रेडरिक के सिपाही ठण्ड से मरने लगे। उनकी राय हुई कि घेरा उठा लेना चाहिये। परन्तु एल्वा ने नहीं माना। नागरिकों की रतब बढ़ने लगी थी। तोल-तोल कर रोटी दी जाने लगी थी। नागरिक मृत्यु मरने से शत्रु से बाँधे हाथ करके मरना प्रच्छन्न समझते थे। नएँडे लेकर टॉन बजाते हुए शहर की चहार दीवारियाँ पर फिरते थे। पुजारियों के कंधे पहन कर मूर्तियों को हाथ में लेकर उनकी दिहणो उड़ते और शत्रु को चिन्तित थे। ये तरह प्रकार से फ्रेडरिक का नगर पर आक्रमण करने की उत्तेजना करते थे। परन्तु उनकी इन मुनी-तियों की फ्रेडरिक तान ० परवाह नहीं करता था। वह चुपचाप घेरा डाले पड़ा रहा। शहर की गायें रोज निहान कर भजे में मैदान में चरने जाती थी। परन्तु यदि एक गाय पर हाथ रक्खा जाता तो दख स्पेन वालों को जान से हाथ धोने पड़ते थे। फ्रेडरिक ने एल्वा को एक पत्र में लिखा था कि 'नागरिकों को लड़ते हैं मानों सनार के छटे हुये बोर हो।' फरवरी का अन्त आ गया। जाड़े ने भील पर एक जन जाते से आने जाने का मार्ग बन्द गया था। परन्तु अब बर्फ बिनूने लगी थी। शहर वालों को चिन्ता हुई कि आरेख के पास से सशयता अने

का मार्ग भी बन्द हो जायगा। जहाजी वेड़ा मील पार करने के लिए वेचारा ऑरेञ्ज कहीं से लायेगा ?” परन्तु वौस्तू ने एम्स्टर्डम में एक जहाजों का वेड़ा तैयार कर लिया था। वह उसमें तोपें रख कर हारलेम की तरफ चला। ऑरेञ्ज भी हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठा था। उसने भी एक छोटासा वेड़ा तैयार करके रवाना कर दिया था। बर्फ के गलने से जो खतरा हारलेम को था वही एम्स्टर्डम को भी था। बाँध काट कर रास्तों में समुद्र का पानी भर कर ऑरेञ्ज एम्स्टर्डम को उसी प्रकार भूखा मार सकता था जिस प्रकार स्पेन वाले हारलेम को मारना चाहते थे। एल्वा को बड़ी चिन्ता हुई। उसने लिखा—“जब से मैं संसार में आया हूँ मुझे कभी ऐसी चिन्ता नहीं हुई थी।” ऑरेञ्ज सारी परिस्थिति खूब अच्छी तरह समझता था और जानता था कि बहुत कुछ किया जा सकता है। परन्तु न उसके पास सेना ही थी न रुपया। उसने अपने इंग्लैण्ड फ्रांस और जर्मनी के मित्रों से सहायता भेजने की प्रार्थना की और लुई को भी लिखा कि ‘भाई आओ ! जो कुछ सेना मिल सके लेओ आ जाओ। लोग तुम्हारे ऊपर आस लगाये बैठे हैं। ऑरेञ्ज हारलेम के दक्षिण में पड़ा था और सोनौय उत्तर की तरफ। ऑरेञ्ज ने सोनौय को एम्स्टर्डम के निकट के समुद्र के बाँध काट डालने का सन्देश भेजा और उसकी सहायता के लिए एक सेना भेजी। स्पेन वालों का आक्रमण होते ही यह सेना भाग खड़ी हुई। सोनौय ने भागती हुई सेना को रोकने का बड़ा प्रयत्न किया परन्तु कुछ फल न हुआ। परन्तु एक बहादुर सैनिक ढाल-तलवार लेकर बाँध के ऊपर एक ऐसे स्थान पर जा

खड़ा हुआ जहाँ से केवल एक आदमी ही गुजर सकता था । बड़ी देर तक वहाँ खड़ा-खड़ा वह लडता रहा और १००० शत्रुओं को अकेले ही रोके रहा । परन्तु सोनौय की सेना ने एकत्र होकर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की । जब इस वीर सैनिक ने देखा कि सेना के सब लोग भाग कर सुरक्षित स्थान में पहुँच चुके हैं तब वह भी समुद्र में कूद पड़ा और इटली के प्रसिद्ध वीर होरेशम की तरह तैर कर सागर पार कर गया । यदि यह वीर सैनिक कहीं रोम अथवा यूनान में पैदा हुआ होता तो आज उसकी मूर्ति यूरोप के किसी मैदान में अवश्य खड़ी होती । बहुत से देशभक्त आक्रमण में काम आगये थे । बहुतों को कैद करके स्पेन वाले ले गये और अपने पड़ाव में नगर के सामने एक ऊँची सूली गाड़ दी और नगर वालों को दिखा-दिखा कर सब कैदियों को उस सूली पर चढ़ा दिया । नगर-वालों के हाथ भी शत्रु-पक्ष का जो मनुष्य आता था, उसे वे बड़ी क्रूरता से तुरन्त फौर्मी पर चढ़ा देते थे । नागरिकों को इस प्रकार क्रूर बना देने की सभी जिम्मेदारी स्पेन-सरकार के सिर था । मेचलिन, जुटफेन और नम्बारउन के वे गुनाहों का ग्यन बहुत दिनों से जर्मन के अन्दर से पुकार रहा था । यदि देश भक्त बदला न लेते तो सचमुच या तो वे देवता समझे जाते या पशु । उच्च प्रकृति के लोगों का हृदय ऐसे हत्याकाण्डों से कितना दुःखी होता था इसका पता एक दृष्टान्त से चल जायगा । देशभक्त सेना का एक सरदार केवल जनता की स्पेनवालों की क्रूरता से रक्षा करने के विचार से सेना में भरती हो गया था । अन्वया उसे स्वभाव से गारकाट से बड़ी घृणा थी । रात को यह सरदार अपने बहादुरों

को लेकर स्पेन वालों पर छापे मारता था और जितने शत्रुओं को मार सकता था मार डालता था परन्तु लौट कर अपना कमरा बन्द करके दुःख से पलंग पर पड़ा-पड़ा कई दिन तक अपनी क्रूरता पर पछताया और रोया करता था । फिर जब स्पेनवालों की क्रूरता की याद आनी थी तो फिर अपना खड्ग लेकर दुश्मनों पर जा झपटता था ।

देशभक्त जान हथेली पर रख कर लड़ते थे । २५ मार्च को एक हजार नागरिक शहर में निकले और क्रैडरिक की तीस हजार सेना की तनिक परवाह न करके उस के पडाव में जा घुसे । ३०० खेमों में आग लगा दी । ८०० शत्रुओं को घातकी घात में मार गिराया । शत्रु की ९ तोपें और कई रसद की गाड़ियां लेकर शहर में लौट गये । नागरिक काल के गाल में घुसकर लड़े थे । परन्तु उनके केवल चारपाँच मनुष्य काम आये । नागरिकों ने इस जीत की खूब खुशी मनाई और बड़े विचित्र ढंग से मनाई । शहर की दीवार पर कत्र की शकल का एक चवूतरा बनाकर स्पेन वालों से छीनी हुई तोपे उसपर रख दी और मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया—“हारलेम स्पेन वालों का कत्रस्तान है ।” एल्वा ने फिलिप को हारलेम के बारे में लिखा था—“मैंने अपने जीवन के ६० वर्ष युद्ध में बिताये हैं । परन्तु ससार के किसी देश में मैंने किसी घिरे हुए नगर का इस हिम्मत वीरता और होशियारी से अपनी रक्षा करते नहीं देखा और न किसी के मुँह सुना है ।”

स्पेन से एल्वा की मदद के लिए नई सेना और रुपया आया गया था । मील में बहुत से सरकारी जहाज भी आ गये थे ।

को दफन करने को जी ही चाहता था और न उनमें मुर्दों को उठा कर ले जाने की शक्ति ही थी। वे छाया की भाँति उन मृतकों की ओर ईर्ष्या से देखते थे जिनकी मुसीबतों का अन्त मृत्यु ने अपनी गोद में सुलाकर कर दिया था।

जून का महीना भी समाप्त हो गया। पहली जुलाई को नागरिकों ने हारकर शत्रु के पास सन्धि का सन्देश भेजा परन्तु फ्रेडरिक ने सन्धि करने से इन्कार कर दिया। तीसरी जुलाई को भयकर गोलावारी करके फ्रेडरिक ने नगर की दीवारें जगह जगह तोड़ डाली। लेकिन नगर पर आक्रमण नहीं किया गया। वह सोचता था कि थोड़े दिन में नगर आप से आप घुटने टेक देगा। आक्रमण करके व्यर्थ अपने सैनिकों की जान खतरे में क्यों डालूँ? नागरिकों ने अन्तिम पत्र में खून से अपना हाल लिखकर आरेञ्ज के पास भेजा। सारे शहर में दो-चार टुकड़े रोटी के बचे थे। वे टुकड़े भी चिढ़कर शत्रु के कैम्प में फेंकदिये गये। शहर के गिरजे पर निराशा का चिन्ह काला झण्डा लगा दिया गया। इतने में आरेञ्ज का सन्देश लिए एक कवूतर उड़ता हुआ शहर में आया आरेञ्ज ने लिखा था। 'दो दिन और हिम्मत करो। सहायता आती है।' आरेञ्ज के किये जो हो सधता था, कर रहा था। उसने डेप्ट में लोगों को एकत्र करके कहा—“यदि कहीं से फौज मिलजाय तो मैं स्वयं हारलेम की सहायता को जाने को तैयार हूँ। सेना तो कहीं नहीं थी परन्तु डेप्ट राटर्डम, गूडा इत्यादि नगरों की हारलेम के प्रति पूर्ण सहानुभूति थी। अनेक नागरिक, जिनमें बहुत से अच्छे अच्छे घरों के लोग भी थे सैनिक बनने को तैयार हो गये। आरेञ्ज को इस सेना की शक्ति पर अधिक विश्वास नहीं

हुआ। वह जानता था कि जहाँ शत्रु ने ऐसा कठिन डेरा ढाल रक्खा है वहाँ अनुभवही सेना के अतिरिक्त कोरे स्वयंसेवकों से काम नहीं चल सकता। परन्तु हारलेम के वचाव का और कोई मार्ग न देखकर अन्त को आरेञ्ज चार हज़ार स्वयंसेवकों की सेना लेकर स्वयं हारलेम की सहायता के लिए जाने को तैयार हुआ। पालयुइस को अपने स्थान में गवर्नर नियुक्त किया कि अगर मैं मारा जाऊँ तो तुम सारा काम-काज सम्हालना। लेकिन सारे नगरों ने और सैनिकों ने शोर मचाया कि हम अपने सरताज आरेञ्ज विलियम को इस प्रकार अपनी जान खतरे में कभी न डालने देंगे। वास्तव में हारलेम जैसे बहुत से नगरों की बनिश्चत आरेञ्ज की जान देश के लिए कहीं अधिक कीमती थी। अगर आरेञ्ज मारा जाता तो फिर देश में स्वतंत्रता का मगडा खड़ा करने वाला और कौन था ? अन्त में लाचार होकर आरेञ्ज को सबकी बात मानना पड़ी। वह स्वयं न गया। सरदार वेटेनबर्ग की अध्यक्षता में ८ जुलाई को स्वयंसेवकों की सेना हारलेम की सहायता के लिए भेज दी गई। पीछे से देश के इतिहास में मशहूर होनेवाला वीर ओल्डेन बार-नेवेल्ड भी अपने कंधे पर बन्दूक रखते इस सेना का एक स्वयंसेवक था। सेना के हारलेम की सहायता के लिए चलने तथा उसकी सरथा इत्यादि का सब हाल स्पने वालों ने सब देखाने वाले दो बचतरो को पकड़ कर मालूम कर लिया था। उन्होंने राह में हरी डालियाँ और पत्तियाँ जलाकर धुआँ किया और उसके पीछे छिपकर स्वयं बैठ रहे। जैसे ही देशभक्तों की सेना निकट आई उन्होंने निकल कर एक भगवटे में सबको जश्न कर लाता। वेटेनबर्ग मारा गया। एक कैदी की नाक कान काट कर हारलेम वालों को उनकी

सहायता के लिए आने वाली सेना का समाचार सुनने के लिए भेज दिया गया। आरिश्च जा मिल टूट गया। उसने निराश होकर नागरिकों को लिखा कि जिस तरह बने सन्धि कर लो। हारलेम वाले जानते थे कि सन्धि तो असम्भव है। शहर के लड़ सकने योग्य मनुष्यों ने निश्चय किया कि यहाँ भूना मरने न अच्छा है बाहर निकलकर शत्रु से लड़ते लड़ते मरें। पीछे वृद्ध वृद्धों और स्त्रियाँ रह जायँगी उन पर शायद शत्रु दया कर के अत्याचार न करे। परन्तु जब वे सब चलने को तैयार हुए तो सौ वृद्धों ने इतना कातर रोदन शुरू किया कि उन्हें छोड़कर चले जाना वीरों ने कायरता समझा। अन्त में निश्चय हुआ कि बच में लो, वृद्धों और वृद्धों को रखकर लड़ते हुए शत्रु की सेना चीरकर निकलने का प्रयत्न किया जाय। या तो निकल जायँगे या सब साथ साथ प्राण दे देंगे। इस निश्चय की खबर फ्रेडरिक को मिली। उसे डर लगा कि इतने महीने घेरा डाले रखने के बाद भी यदि केवल खाली शहर पर अधिकार बिना तो बड़ी भद्दा होगी। उसने इस सातमास के घेरे में देना लिया था कि हारलेम के वीर नागरिक जो कुछ निश्चय करे उसे कार्यान्वित कर सकते थे। उसने कपट करके अपनी फौज के सेनापति को ओर से नगर में एक खत भिजवाया कि शहर वाले यदि हथियार रख देने पर राजी हो जाँगे तो छोड़ दिये जायँगे। केवल उन लोगों को सजा दी जायगी, जिन्हें स्वयं नागरिक दोषी ठहरायँगे। नागरिकों ने विश्वास करके १२ जुलाई को शहर स्पेन वालों के सुपुर्द कर दिया। फ्रेडरिक और त्रोस्सू सेना के साथ शहर में घुसे। उन्होंने वहाँ जो दृश्य देखा वह पत्थर का हृदय भी पिघला देने के लिए काफी था।

परन्तु फ्रेडरिक ने अपने वादे की परवाह न करके शहर में नआर्डन की तरह अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब खूब दिल-भर के अत्याचार कर लिया और २३०० आदिमियों का वध हो चुका, तब जमा की घोषणा करने का मजाक किया। सप्ताह के इतिहास में याद रखने योग्य हारलेम का घेरा इस प्रकार समाप्त हुआ। हालैण्ड पर विदेशियों की चढ़ाई और उनसे देश-भक्तों के युद्ध का पहिला अध्याय इस प्रकार समाप्त हुआ। सात महीने और दो दिन के घेरे में स्पेन वालों ने १०,२५६ गोले हारलेम पर दागे थे। और स्पेन की सेना के १२००० मनुष्य काम आये थे। मनुष्य के कष्ट देने और कष्ट मढ़ने की शक्ति का हारलेम का घेरा बड़ा रोमांचकारी और आश्चर्य जनक विषय है।

स्पेन वालों ने अपनी जीत पर बड़ी नुशिमा मनाई। यूट्रेक्ट में श्रांति का पुतला बना कर शिकजे में फना गया और फिर आग में गोता दिया गया। हारलेम का मुहामरा स्पेन वालों की जीत कही जाती है। परन्तु यदि विजेता जीत के स्थान में हारलेम से हार मान लेते तो अधिक अभिमान ही प्राप्त थी। और दुःख भी हा, यह बात तो स्पष्ट ही थी कि स्पेन का वृहत् साम्राज्य इस प्रकार की बहृतसी जतों सम्हालने के योग्य नहीं था। यदि हालैण्ड के एक छोटे से नगर को जीतने के लिए सात मान और तीस हजार सेना की आवश्यकता पड़ी-जिन सेना में स्पेन की तीन ऐसी वीर सेनायें थीं, जिन्हें 'ग्रेन्वा' 'अल्फर्ड' 'अमर' और 'वेजोइ' कहा जाता था, फिर भी धारह हजार सैनिक कान जागये तो नाटक जरा डिसान लगाए किन्ते समय, किन्ते सैनिक और कितनी नौतों की जल्द से सारे प्रान्त पर विजय प्राप्त करने में पड़ी होती? जिस प्रकार

न्यूयार्क के हत्याकाण्ड से सरकार के विचारानुसार लोग भयभीत न होकर उलटे उभड़ उठे थे, उसी प्रकार हारलेम के इस लम्बे घेरे से सारे प्रान्त के हृदय में सरकार के प्रति असीम घृणा और क्रोध उत्पन्न हो गया था। स्पेन के खजाने से पाँच वर्ष में नेदरलैण्ड के युद्ध के लिए २ करोड़ ५ लाख रुपया आ चुका था। अमेरिका की कमाई हुई सारी दौलत और नेदरलैण्ड की ज़िन्तियो और करों से मिला हुआ सारा धन भा सरकारी खजाने का दिवाला पिटने से नहीं बचा सका था। फिर भी हारलेम की विजय से कुछ समय के लिए स्पेन वालों का हृदय खुशी से फूज उठा। फिलिप बीमार पड़ा था। हारलेम के हत्याकाण्ड की खबर ने उसके लिए राम-बाण का काम किया। हत्या-काण्ड का समाचार सुनकर वह शीघ्र अच्छा हो गया। आरेख सदा की भांति हारलेम के नष्ट हो जाने पर भी भीत अथवा निराश नहीं हुआ। फल के लिए वह सदा भगवान के अधीन रहता था। जो तोड़ कर जो कुछ कर सकता था, करता था। अपने भाई लुई को उसने लिखा,— 'मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें शुभ-समाचार सुनाऊँ। परन्तु ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी इसलिए हमें उसकी इच्छा में सन्तोष करना चाहिए। भगवान साक्षी हैं, मैंने हारलेम की सहायता के लिए प्रयत्न करने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। बड़े दिन बाद उसने फिर उसी उत्साह से लुई को लिखा—जेलैण्ड वालों ने बालचरेन द्वीप के रोमेकेम्स दुर्ग पर कब्जा कर लिया है। इससे हमारे शत्रुओं का घमण्ड जरा लच जायगा। हारलेम की जात के बाद से वे समझने लगे थे कि हमें समूचा ही नगज जायँगे। मुझे विश्वास है, उनकी आशा पूरी न हो सकेगी।”

एल्वा का अन्त

एल्वा और मेडीनाकोली में आपस में ईर्ष्या के कारण कगड़ा शुरू हो गया। मेडीनाकोली नया वायसराय होकर आया था। पन्वा युद्ध के कारण रुका हुआ था। दोनों हर काम में अपनी अपनी टाँग अड़ाना चाहते थे। एक म्यान में दो तलवारों के लिए जगह कहाँ हो सकती थी। दोनों, पत्रों में एक-दूसरे के विरुद्ध फिलिप से अपने अपने दुगुड़े रोंते थे। बहुत दिनों से वेतन न मिलने से स्पेन की सेना के सिपाही विद्रोह पर उतारू होने लगे थे। यहाँ तक कि हार्लेम के पेर के समय स्पेन के सेनिकों के प्रतिनिधि चुसचाप आरेञ्ज ने मिलने गये व और कहा था—

“यदि आप हमें चालीस हजार रुपये दे लें इस हार्लेम का शहर एल्वा के विरुद्ध आप ही सुबुर्द कर देंगे।” आरञ्ज ने उनका प्रस्ताव तो खींसार कर लिया परन्तु बेचारा यह कहना कुर्या भी निश्चित मनस से एकत्र न कर सका। इसलिए दुभाग्य से बड़ा गुन्दर भीगा उसके हाथ से निश्चय गया। एन्स्टडम ने भी सेना के विद्रोह शुरू कर दिया। एल्वा ने स्वयं जा कर योद्धा-भोजन रूपका नाटक बड़ी कठिनाई से सैनिकों को मानव कर दिया। हार्लेम का विजय के बाद एल्वा ने क्लिबिप की तरफ से सारे नगरों में सना दी वह घोषणा करवाई—‘महाराज सदा से अपनी प्रजा पर स्नेह दिताते आये हैं। यदि लोग तुल्य,

पश्चात्ताप करके सरकार का विरोध बन्द कर दें तो महाराज सब का दोष माफ़ कर देने को तैयार हैं । परन्तु यदि शीघ्र ही लोग अपनी अक्ल दुरस्त न कर लेंगे तो महाराज इस बात पर तैयार हैं कि नेदरलैण्ड में एक आदमी भी जीता न छोड़ा जाय । और सारा देश उजाड़ कर दूसरे देशों से आदमी लाकर देश फिर से बसाया जाय । अन्यथा भगवान की मर्जी महाराज कैसे पूरी कर सकेंगे ।” इस घोषणा का जब कुछ असर न हुआ तो एल्वा ने फिलिप को लिखा—“हारलेम से लोगो ने पाठ नहीं लिया । अभी और सबक देना होगा । जो अधिकारी आपको स्पेन में बैठे-बैठे शान्ति का उपदेश देते हैं उनकी बात न मुनिए । जो अधिकारी इस देश में हैं वे ही यहाँ की परिस्थित अच्छी तरह समझ सकते हैं । शान्ति से काम न चलेगा । डण्डे की ज़रूरत है ।” इस के बाद उसने अल्कमआर नगर पर चढ़ाई की । सोनौय ने घबराकर ऑरेञ्ज को लिखा कि ‘यदि आपने किसी राजा से मित्रता कर ली हो और वहाँ से कोई सेना आने वाली हो तो जल्द ही घोषणा निकाल दीजिए जिससे शहरो की हिम्मत बनी रहे । ऑरेञ्ज ने सोनौय को प्रेम-भरी डाट बताते हुए लिखा- “इतनी जल्दी हिम्मत टूटने लगी क्या हारलेम के हारते ही सारे देश की हार हो गई ? भगवान् जानता है कि मैंने उस वीर नगर की सहायता के लिए कोई प्रयत्न उठा नहीं रक्खा था । अपने रक्त का प्रत्येक विन्दु बहाने को तैयार था परन्तु भगवान् की इच्छा कुछ और ही हुई । हमें उसकी इच्छा के सामने सिर झुकाना चाहिए । भगवान् का हाथ बड़ा मजबूत है । जो उस पर भरोसा रखते हैं, उनकी वह सदा रक्षा करता है । मैंने देश की स्वतंत्रता के

लिए तलवार उठाने के पहले उस राजाओं के राजा से मित्रता कर ली थी। वह हमारी सहायता को कहीं न कहीं से सेनाओं ज़रूर भेजेगा।”

बारह घण्टे तक अलकमन्नार पर लगातार गोलावारी करने के बाद एल्वा ने स्पेन से आई हुई नई गरजती हुई सेनाओं को हमला करके शहर ले लेने के लिए भेजा। परन्तु यहाँ भी स्पेन-वालों को उन्हीं कवच-हीन स्वाधीनता के कठोर पुजारियों का सामना करना पड़ा, जिनका सामना हार्लेम में करना पड़ा था। यहाँ भी खोलते हुए तेल, अँगारे, पत्थर, ईंटें और लोहे, के भयकर बार सहकर उमे पीछे लौटना पड़ा। स्पेन के सेनिक हमला करने के हुक्म का विरोध करने लगे। इधर अरिश्च ने नगर वालों को सन्देश भेजा कि जब तुम अधिक देर तक पॉव टिकाने के अयोग्य हो जाओ तो मीनारों पर मरालें जताना। हम सागर के बाँध काट देंगे। ग्राम और फनलें पड़ जायगी तो वह जाँच परन्तु शत्रु की सोलह हजार सेना का एक आदमी भी न बचेगा। जा आदमी छड़ी के अन्दर यह पत्र रगड़र त्रिये जा रहा था उसका शत्रु ने पीछा किया। वह दो शहर में भाग कर चुस गया। परन्तु उसकी छड़ी शत्रु के हाथ पड़ गई। फ्रेडरिक ने आरिश्च का पत्र पढ़ा तो उसे विश्वास हो गया कि स्वतंत्रता के पुजारी ये नागरिक और उनका यह निर्भय सरदार सब कुछ कर सकते हैं। स्पेन के सिपाही जैसे ही हमला करने से घबरा रहे थे। सागर से डूब कर मरने को कौन वैसा ही होता? फ्रेडरिक ने सोचा—“इस छोटे से नगर को जीतने के लिए सोलह हजार सेना की जान नवौना व्यर्थ है। हाँ सपना है।”

घेरा हो चुका है। स्पेन वाले अपनी वहादुरी भी खूब दिखा चुके हैं। यह सोचकर उसने घेरा उठा लिया और एम्सटर्डम में अपने बाप से जा मिला।

लुई जैसा वीर सेनापति था वैसा ही चतुर राजनीतिज्ञ भी था। यद्यपि सेण्ट बार्थेलमो के हत्याकाण्ड के बाद से ऑरेञ्ज को फ्रान्स के राजा चार्ल्स के प्रति अश्रद्धा और घृणा हो गई थी, परन्तु लुई बराबर इस प्रयत्न में था कि किसी न किसी प्रकार नेदरलैण्ड के स्वतंत्रता के युद्ध के लिए चार्ल्स से कुछ सहायता मिले। सेण्ट बार्थेलमो के हत्याकाण्ड के बाद के जर्मनी और इंग्लैण्ड के नवीन मतावलम्बी राजा, प्रजा और सरदार सब फ्रान्स के विरुद्ध हो गये थे। स्पेन इस द्रोह का फायदा उठाने का प्रयत्न कर रहा था। जर्मनी की गद्दी खाली होने वाली थी। गद्दी पर फिलिप का दात था। उसने जर्मनी के नवीन मतावलम्बी सरदारों को यह विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि यदि मुझे जर्मनी के सिंहासन पर बैठाने को जर्मन सरदार तैयार हो जायें, तो मैं नेदरलैण्ड की प्रजा को नवीन मत पर चलने से नहीं रोकूंगा और ऑरेञ्ज को भी उसकी सारी जागीर और अधिकार वापिस कर दूंगा। फ्रान्स के राजा चार्ल्स और उसकी माता मेडिसी की इच्छा थी कि किसी प्रकार इंग्लैण्ड की रानी एलिजबेथ का विवाह फ्रान्स के राजवंशी ड्यूक डे एलोनकौन से होजाय और ड्यूक एन्जुकोयलैण्ड की खाली होने वाली गद्दी मिल जाय। परन्तु सेण्ट बार्थेलमो के हत्याकाण्ड से इंग्लैण्ड की महारानी और वे सरदार जिनके हाथ में पोलैण्ड का तख्त था चार्ल्स से बहुत नाराज हो गये थे। इसलिए चार्ल्स ने सब से यह कहना शुरू

कर दिया था कि सेण्ट वार्थेलमो का हत्याकाण्ड कुछ लोगों ने गलत खबरें दे-देकर मुझे क्रोधित कराके करवा डाला है। मुझे इसके लिए बड़ा खेद है। भविष्य में ऐसी बात कभी न होगी।” जिन राजाओं के अत्याचार का इतिहास लेखक यह कहकर बचाव करते हैं कि ये धर्म-भाव में अन्धे होकर अत्याचार करते थे, वे दोनों राजा फिलिप और चार्ल्स नवम् राज्य मिलने के लान्च में अघर्मियों से सन्धि करने और वह कार्य छोड़ देने पर तैयार हो गये जिसे वे ‘भगवान का कार्य’ कहा करते थे। होशियार लुई ने देखा अन्ध्रा मौका है। उसने चार्ल्स से कहा—“वार्थेलमो के हत्याकाण्ड के बाद से आपके केवल बचनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप को तुरन्त नवीन पन्थ बान्धों पर अत्याचार बन्द कर देना और कैदियों को मुक्त कर देना चाहिए, वरना स्पेन आपको बेवकूफ बनाकर अपना उट्ट मोवा चर लेगा। फिलिप को जर्मनी का तरुत भिन्न गया तो उड़ पड़ा शक्तिशाली हो जायगा। जब चाहेगा प्रान्त को हृदय लेगा।” लुई को बान काम कर गई।

सम्मति से चलाया जायगा । फ्रांस जो कुछ रुपया सहायता में देगा वह सब ऋण माना जायगा और उसको अदा करने का भार हालैण्ड और जेलेण्ड की पंचायतों और ऑरेञ्ज के सिर रहेगा । एन्जू को पोलैण्ड का तख्त दिलाने का भी प्रयत्न किया जायगा ।” पोलैण्ड के तख्त की वागडोर मुट्टी में रखने वाले सरदारों में एक दल ऑरेञ्ज को पोलैण्ड के तख्त पर बैठाने का भी प्रयत्न कर रहा था । परन्तु ऑरेञ्ज ने उस देश के ताज के लालच से अपने हाथ में लिया हुआ नेदरलैण्ड के दुःखी आदमियों को मुक्त करने का काम नहीं छोड़ा । सन्धि में भी वह अपना नाम केवल एक स्थान पर लाया था । “यदि पंचायत फ्रांस का कर्जा वापिस न करें तो कर्जा लौटाने का भार ऑरेञ्ज के सिर रहेगा ।”

एल्वा ने सब प्रान्तों की पंचायतों को सितम्बर में ब्रसेल्स में यह विचार करने के लिए एकत्र होने का सन्देशा भेजा था कि अब आगे युद्ध किस प्रकार चलाया जाय । इस मौके का ऑरेञ्ज ने फायदा उठाना चाहा । उसने अपनी तथा हालैण्ड और जेलेण्ड की पंचायतों की ओर से सारे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अपील निकाली । इस अपील में उसने सब प्रान्तों को प्राचीन काल से चले आने वाले आपस के भाईचारे के व्यवहार की याद दिलाई और प्रान्तों से एकमत होकर चलने की प्रार्थना की । उसने लिखा था—“क्लैण्डर्स, ब्रवेण्ट, वर्गण्डी, हालैण्ड किसी प्रान्त के राजा बिना जनता की राय लिये कभी एक पैसा कर का नहीं लगाते थे । न बिना लोगों की राय लिये सिक्का गढ़ते थे अथवा किसी शत्रु से युद्ध या सन्धि करते थे ।

फिर कैसे आज सारा देश एल्वा के अत्याचार सहने को तैयार हो गया है ? अगर एम्सटर्डम और मिडलबर्ग के नगरों ने स्वाधीनता के युद्ध में कन्धे न डाल दिये होते तो उत्तरीय प्रान्तों की ओर कोई आज नजर भी नहीं उठा सकता था । लेकिन देशवासी ही देश का गला घोटते हैं । एल्वा की वह सारी शक्ति जिसपर वह इतना घमण्ड करता है कहाँ से आती है ? नेदरलैण्ड के नगरों से । कहाँ से उसे जहाज, रुपया, सिपाही, हथियार और सामग्री मिलती है ? नेदरलैण्ड के लोगों से । नेदरलैण्ड की वह पुरानी वीरता, जिस की याद से विदेशी धरते थे, आज किस मिट्टी में मिल गई है ? अगर एक छोटासा प्रान्त हालैण्ड आज स्पेन जैसी महान शक्ति का गमना कर सकता है तो फिर देश के सारे प्रान्त फ्रीमलैण्ड, फ्रंखलैण्ड, ब्रुक्सेल इत्यादि मिल कर क्या नहीं कर सकते ? आआं भाइयों एक मों के पेट में जन्म लेने वाले भाइयों की तरह एक-दुसरे का हाथ पकड़ कर स्वाधीनता के संग्राम में युद्ध करा । अपनी प्राचीन मान-मर््यादा और अधिकारों की रक्षा करो ।”

इसी समय आरेञ्ज ने हालैण्ड और डोर्लैण्ड की पचासवीं की तरफ से फिलिप के नाम एक पत्र भी दुपरा कर उठाया । इस पत्र ने यूरोप भर में बड़ी सनसनी फैलाई । पत्र में लिखा था—“हम ईश्वर की सान्त्ति देकर कहते हैं कि जो अयोग्य सरकार की ओर से इस देश के लोगों पर लगाये जाते हैं, यदि वे खड़े हैं, तो न तो हमें जना की इच्छा है और न जना हम को मिलनी ही चाहिए । कुत्तों की तरह हम अपने पापों के लिए मरन को तैयार हैं । उन्हें से एक शब्द नहीं निकालेंगे ।

सम्मति से चलाया जायगा । फ्रांस जो कुछ रूपया सहायता में देगा वह सब ऋण माना जायगा और उसको अदा करने का भार हालैण्ड और जेलेण्ड की पँचायतों और ऑरेञ्ज के सिर रहेगा । एन्जू को पोलैण्ड का तख्त दिलाने का भी प्रयत्न किया जायगा ।” पोलैण्ड के तख्त की बागडोर मुट्टी में रखने वाले सरदारों में एक दल ऑरेञ्ज को पोलैण्ड के तख्त पर बैठाने का भी प्रयत्न कर रहा था । परन्तु ऑरेञ्ज ने उस देश के ताज के लालच से अपने हाथ में लिया हुआ नेदरलैण्ड के दुःखी आदमियों को मुक्त करने का काम नहीं छोड़ा । सन्धि में भी वह अपना नाम केवल एक स्थान पर लाया था । “यदि पँचायत फ्रांस का कर्जा वापिस न करें तो कर्जा लौटाने का भार ऑरेञ्ज के सिर रहेगा ।”

एल्वा ने सब प्रान्तों की पचायतों को सितम्बर में ब्रसेल्स में यह विचार करने के लिए एकत्र होने का सन्देशा भेजा था कि अब आगे युद्ध किस प्रकार चलाया जाय । इस मौके का ऑरेञ्ज ने फायदा उठाना चाहा । उसने अपनी तथा हालैण्ड और जेलेण्ड की पँचायतों की ओर से सारे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अपील निकाली । इस अपील में उसने सब प्रान्तों को प्राचीन काल से चले आने वाले आपस के भाईचारे के व्यवहार की याद दिलाई और प्रान्तों से एकमत होकर चलने की प्रार्थना की । उसने लिखा था—“क्लैण्डर्स, ब्रवेण्ट, वर्गण्डी, हालैण्ड किसी प्रान्त के राजा बिना जनता की राय लिये कभी एक पैसा कर का नहीं लगाते थे । न बिना लोगों की राय लिये सिका गढ़ते थे अथवा किसी शत्रु से युद्ध या सन्धि करते थे ।

फिर कैसे आज सारा देश एल्वा के अत्याचार सहने को तैयार हो गया है ? अगर एम्सटर्डम और मिडलवर्ग के नगरों ने स्वाधीनता के युद्ध में कन्धे न डाल दिये होते तो उत्तरीय प्रान्तों की ओर कोई आज नज़र भी नहीं उठा सकता था । लेकिन देशवासी ही देश का गला घोटते हैं । एल्वा की वह सारी शक्ति जिसपर वह इतना घमण्ड करता है कहीं से आती है ? नेदरलैण्ड के नगरों से ! कहीं से उसे जहाज़, रुपया, सिपाही, हथियार और सामग्री मिलती है ? नेदरलैण्ड के लोगों से । नेदरलैण्ड की वह पुरानी वीरता, जिस की याद से विदेशी थर्राते थे, आज किस मिट्टी में मिल गई है ? अगर एक छोटासा प्रान्त हालैण्ड आज स्पेन जैसी महान शक्ति का सामना कर सकता है तो फिर देश के सारे प्रान्त फ्रीसलैण्ड, फ़्लेण्डर्स ब्रवेण्ट इत्यादि मिल कर क्या नहीं कर सकते ? आओ भाइयो एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले भाइयों की तरह एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर स्वाधीनता के संग्राम में युद्ध करो । अपनी प्राचीन मान-मर्यादा और अधिकारों की रक्षा करो ।”

इसी समय ऑरेञ्ज ने हालैण्ड और ज़ेलेण्ड की पंचायतों की तरफ से फिलिप के नाम एक पत्र भी छपवा कर बटवाया । इस पत्र ने यूरोप भर में बड़ी सनसनी फैला दी । पत्र में लिखा था—“हम ईश्वर को साक्षी देकर कहते हैं कि जो अपराध सरकार की ओर से इस देश के लोगों पर लगाये जाते हैं, यदि वे सच्चे हैं, तो न तो हमें क्षमा की इच्छा है और न क्षमा हम को मिलनी ही चाहिए । कुत्तों की तरह हम अपने पापों के लिए मरने को तैयार हैं । मुँह से एक शब्द नहीं निकालेंगे ।

मे हमारे दयावान राजा । जो अपराध हमारे सिर मढ़े जा रहे हैं यदि वे सावित हो जाँय तो हमारे टुकड़े-टुकड़े कर डाले जायँ । लेकिन यहाँ तो बदला लेने के लिए जुल्म हो रहा है । दिल की हॉस पूरी करने के लिए लोगों को पेड़ों पर लटका-लटाका कर मारा जा रहा है । देश में खून की नदियाँ बहा कर जमीन रँगी जा रही है । हमने केवल अपने खी-बच्चों और घरों की एल्वा के खूनी हाथों से रक्षा करने के लिए हथियार उठाये हैं । गर्दन मुका कर देश को गुनामी का जुआ पहनाने से मर कटा कर स्वतंत्रता के लिए मर जाना हम अन्ध्रा समझते हैं । इस विषय में हमारे प्रान्त के सब नगर दृढ़ और एक मत हैं । हम सब कष्ट मेलने तथा अन्त को अपने घर फूँक कर उनमें जल मरने को तैयार हैं । परन्तु गुलामी की जजिरे अपने हाथों से कसने को तैयार नहीं हैं । ” अल्कमशर की घटना के तीन दिन बाद ही देश-भक्तों को एक दूसरी बड़ी उत्साह जनक विजय मिली थी । ज्यूडरजी में देश भक्तों के जहाजी बड़े ने सरकारी बंदे को हरा कर प्रान्त के सरकारी सूबेदार बौस्सू को कैद कर लिया था । एल्वा को यह खबर सुन कर बड़ा धक्का पहुँचा । वह सोचने लगा कि ये युद्ध-शास्त्र से विल्कुल अनभिज्ञ थोड़े से देश-भक्त स्पेन की छटी हुई सेनाओं को छका-छका कर कैसे भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं । आरेञ्ज ने बौस्सू को वापिस देकर सेण्ट एल्डेगोएडे को एल्वा की कैद से छुड़ा लिया । देशभक्तों को एल्डेगोएडे के आ जाने से बड़ा लाभ हुआ । एल्वा दौँत पीसता रह गया ।

पाच-छ' वर्ष के लगातार अत्याचार के कारण एल्वा जनता की घृणा का पात्र तो बन ही गया था । विरिलियस, वेरलामोएट

और एअरशाट इत्यादि सरदार भी उसका अपमान करने लगे थे । एल्वा यह भी अच्छी तरह जानता था कि स्पेन में लोगों ने कान भर कर फिलिप को मेरे विरुद्ध कर दिया है । दुखी चित्त से उसने २९ नवम्बर को मेडीनाकोली को नेदरलैण्ड का शासन भार सौंपा और १८ दिसम्बर को नेदरलैण्ड से प्रस्थान किया । छः वर्ष में उसने १८,६०० मनुष्यों को तो केवल फॉर्मी पर चढ़ाया । जो लड़ाइयों, घेरों और कत्ले आमों में मारे गये, उनकी तो गणना ही क्या ? चलते-चलते उसने फिलिप को नेदरलैण्ड के सम्बन्ध में अपनी यह राय लिखी कि स्टेट कौंसिल में से विग्लियस, वेरलामोण्ट और एअरशाट इत्यादि सब देशी लोगों को निकाल कर स्पेन वालों को भर देना चाहिए । क्योंकि ये लोग इसी देश के होने के कारण प्रायः सरकारी मामलों में हानि-कर हस्तक्षेप किया करते हैं । नेदरलैण्ड के मारे शहरों को भस्म करके खाक में मिला देना चाहिए ।” देश के बहुत से लोगों से एल्वा ने कर्ज ले रक्खा था । इसलिए वह चुपचाप किसी की एक कौड़ी अदा किये बिना खिसक गया । इस खूनी जीवन पर अधिक लिखना व्यर्थ है । इतना प्रयाप्त है कि फ्रेडरिक के एक बड़े घर की स्त्रियों को धोखा देने के कारण बाद को बाप-बेटे दोनों स्पेन में कैद कर दिये गये, और जब बहुत दिन बाद पोर्चुगल के युद्ध के लिए फिलिप को एक अनुभवी सेनापति की आवश्यकता पड़ी, तब एल्वा को जेल से निकाला गया । एल्वा उस युद्ध में गया लेकिन लौट कर उसे ऐसा विषम ज्वर आया कि बहुत दिनों तक खाट पर घुलने के बाद १२ दिसम्बर सन् १५८२ को उसके प्राण निकल गये । मरते समय वह कुछ खा नहीं सकता था । इसलिए एक स्त्री के

स्तनों से दूध पीता था। इस संसार में ७० वर्ष तक जिस मनुष्य ने लगातार मनुष्यों का खून पिया था वह अन्त समय में असहाय बालक की तरह एक स्त्री का दूध पीता-पीता मरा।

(१६)

मुक्ति की चेष्टा

ग्रेण्ड कमाण्डर ड्यूक आव मेडीना कोली एक साधारण-वंश में जन्म लेने वाला मनुष्य था । कहा जाता है किले पाएटो के युद्ध में उसने बड़ी वीरता दिखाई थी । नेदरलैण्ड के लोग इस साधारण मनुष्य के वायसराय बनकर आने से खुश नहीं थे । परन्तु एल्वा के शासन से सब इतना थक गये थे कि लोगों को आशा थी कि नया वायसराय आकर अवश्य मख्ती कम करेगा । मेडीनाकोली ने देखा कि सरकारी खजाने में कौड़ी नहीं है । लोगों को यदि खुश नहीं किया जायगा तो कर से रुपया उगाहना सर्वथा असम्भव है । एल्वा की तरह डण्डे के बल पर राज करने का वह भी पक्षपाता था । परन्तु थोड़े दिन चुप रहकर सरकारी खजाना भर लेना चाहता था । अतः उसने लोगों को धाखा देने के लिए मीठी मीठी बातें करना और क्षमा प्रदान करने का ढोंग रचना प्रारम्भ किया । सरकारी भाषा में क्षमा का जो अर्थ था उसे लोग खूब जान गये थे, कोई धोखे में न आया । फिर भी ऑरेंज को क्षमा की आशा से लोगों के फिसल जान का डर लगता था । सब कष्ट भेलते भेलते थक गये थे । सेण्ट एल्डेगोएडे सा देश-भक्त तक जेल के कष्टों से उकता कर सरकार की इतनी ही दया काफ़ी समझने लगा था कि जो मनुष्य सरकारी अत्याचार के विरुद्ध हो उन्हें माल असबाब लेकर देश से निकल जाने दिया जाय ।

सरकारी सेनापति मौएड्रेगन मिडलबर्ग में घिरा पड़ा था । उसको बचाने के लिए मेडीना कोलो ने रोमेरो को अध्यक्षता में एक बड़ा जहाजी ब्रेड़ा भेजा था । परन्तु देशभक्तों के जहाजों ने रोमेरो के बड़े को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला । रोमेरो बड़ी कठिनाई से तैरकर भाग गया । समुद्र पर हालैण्डवालों का सामना करना बड़ा कठिन था । अन्त में मौएड्रेगन का सेना सहित आरंभ ने निकल जाने दिया मिडलबर्ग पर देश-भक्तों का कब्जा हो गया । इस नगर पर अधिकार हांते ही सारा वानचरेन द्वीप देश-भक्तों के हाथ में आ गया जिधसे सागर के सारे उत्तरी किनारे पर देशभक्तों को फिर से अधिकार प्राप्त हो गया ।

ड्यूक एजू पोलैण्ड के सिंहासन पर बैठ चुका था । उससे तथा फ्रांस के अन्य बहुत से सरदारों और जर्मनी के अपने नातेदारों और मित्रों से रुपया एकत्र करके लुई ने फिर एक छोटीसी सेना एकत्र कर ली थी । यह सेना और अपने दो भाइयों को साथ लेकर वह नेदरलैण्ड की दरफ चल पड़ा था । बोमल द्वीप पर लुई आरंभ की सेना से मिलने वाला था । मगर मियूज पार करके मुकग्रान के निकट उसका सरकारी सेना से मुकबला हो गया । उसने किसी प्रकार आरंभ से मिल जाने की उत्कट इच्छा से भयंकर संग्राम किया । लुई और उसके दोनों भाई रणक्षेत्र में जूझ गये । स्वतन्त्रता के लिए मतवाले इन नर-सिंहों की लाशों तक का पता नहीं चला । वे पानी में डूबकर मरे या धोड़ों से उनकी लाशें कुचल गईं, इस बात का दुर्भाग्य से आज तक पता नहीं चला है । आरंभ अपने भाइयों को राह उत्कण्ठा से देख रहा था । जब उसने उनकी मृत्यु का भयानक समाचार सुना तो उसे

मुक्ति की चेष्टा

एकाएक विश्वास नहीं हुआ। स्पेन के सैनिकों को तीन वर्ष से वेतन नहीं मिला था। उन्होंने उपद्रव करके एग्टवर्ष पर अपना अधिकार जमा लिया। नगर वालों के घरों में जा चुसे और 'शराब कबाब, मास, मखली, मिठाइयाँ, फल, कुत्ता के लिए बढ़िया गेहूँ की रोटी, घोड़ों के पैर बोनो के लिए शराब इत्यादि की फरमाइशें करने लगे। जिस समय स्पेन के सैनिक नागरिकों के घरों में बैठे इस प्रकार मजे उड़ा रहे थे, उसी समय देशभक्तों के जहा-जों ने आकर एग्टवर्ष का जहाजों बड़ा नष्ट कर डाला। लीडन का पहला मुद्दासरा ३१ अक्टूबर सन १५७३ को शुरू हुआ था और २१ मार्च १५७४ को सीमा पर लुई से लड़ने के लिए सेनाओं को जखरत होने के कारण ठठा लिया गया था। यह बात साफ ही थी कि लुई से युद्ध समाप्त होते ही सरकारी फौजें फिर लीडन पर घेरा डाल देंगी। इसलिए आरेञ्ज ने नगर वालों को सलाह दी थी कि यह सौम लेने का जो समय तुम्हें मिल गया है इसमें नगर को टूटी हुई दीवारों को दुरुस्त कर लो। खाने पीने का सामान नगर में भर लो। परन्तु नागरिकों को लुई की जीत पर लुई से भी अधिक विश्वास था। इसलिए वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। २६ मई को लुई की हार होते ही सरकारा सेना ने फिर लीडन पर घेरा डाल दिया। राइन नदी की अनेक नदरों पर बसन वाल लीडन नगर के डेढ सौ पुल, अनेक सुन्दर बाग-बगीचों और पड़कों के स्थान में नहरों का बणोन पटकर शानगर याद आता है। इस अनुपम सौन्दर्य से परिपूर्ण नगर में बसने वाले ननुष्या को केवल ईश्वर, अपने साहस और विलियम आरेञ्ज पर ही भरोसा था। उनके पास स्पेन की फौज का

मुकाबला करने के लिए सेना नहीं थी। आरेञ्ज ने नागरिकों को सन्देशा भेजा था कि 'नेदरलैण्ड की जीत और हार तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है,। किसी तरह तीन मास तक डटे रहो। कहीं न कहीं से सहायता भेजने का प्रयत्न करूँगा।'।

६ जून को सरकार की ओर से लीडन वालों को क्षमा की गई घोषणा सुनाई गई थी। आरेञ्ज को डर होने लगा था कि लड़ाई से थके हुए निराश नागरिक क्षमा के लोभ में पड़कर कहीं कन्धा न डाल दें। परन्तु सौभाग्य से लोगों पर क्षमा की घोषणा का कुछ असर नहीं हुआ। क्षमा क्या थी? जिस बात के लिए नेदरलैण्ड के लोग इतने दिनों से खून बहाते रहे थे उसे त्याग देने का केवल एक मौका दिया गया था। एक कलार और एक चमार के अतिरिक्त हालैण्ड भर में किसी ने इस क्षमा का फायदा नहीं उठाया। डेफ्ट और राटर्डम पर आरेञ्ज, डेरा डाले पड़ा था। लीडन बन्दरगाह नहीं था। इसलिए सागर से सहायता पहुँचाना असम्भव था। आरेञ्ज ने सोचा कि बाँध काट कर सागर को ही लीडन की सहायता के लिए भेजना चाहिए। वीसियों ग्राम, खेत और फसलें नष्ट हो जाँयगी। परन्तु लीडन को बचाने का और कोई रास्ता ही नहीं था। लोगों के सामने अपने बर-बार बहा देने का प्रश्न था इसलिए बड़ी मुश्किल से लोग उस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर राजी हुए। सब फावडेले-लेकर यह चिठ्ठाते हुए बाँध काटने लगे कि 'हारे हुए देश से डूबा हुआ देश अच्छा है।' आरेञ्ज ने स्वयं जाकर बाँध काटने के कार्य का निरीक्षण किया। जगह जगह ग्रामों में नाव तैयार रखने का हुक्म दे दिया गया था। इस सारी तैयारी में तीन मास गुजर

गये । २१ अगस्त को आरेञ्ज के पास लीडन से एक पत्र आया कि हम लोगों ने तीन मास तक टिके रहने का अपना वादा बड़ी कठिनता से पेट काट-काटकर पूरा किया है । अब केवल तीन-चार दिन के लिए खाना बचा है । यदि तुरन्त ही सहायता नहीं आयी तो फ्रांके मस्ती के सिवा और हमारे किये कुछ न होगा । आरेञ्ज राटर्डम में बुखार में पड़ा था । वेहोशी-सी आ रही थी परन्तु पत्र मिलते ही उसने तुरन्त उत्तर लिखाया—“बाँध फूट गये हैं, सहायता आ रही है ।” अपनी बीमारी का हाल नहीं लिखा, यह सोचकर कि कहीं लोग घबरा न जाँय । लीडन में जब आरेञ्ज का उत्तर पहुँचा तो सब नागरिकों को बाजार में एकत्र करके पत्र पढ़कर सुनाया गया । लोग खुशी मनाने लगे । चुंगी के प्रमुख वर्ग ने चुंगी का बैण्ड बजा कर लोगों को खुश करने का हुक्म दिया । बाहर पड़े हुए शत्रु शहर से आने वाले इम हर्ष-नाद को सुन कर आश्चर्य करने लग । जब उनके चारों ओर समुद्र का थोड़ा-थोड़ा पानी आने लगा तब नागरिकों के उल्लास का कारण उनकी समझ में आ गया । लेकिन सब की राय थी कि लीडन तक सागर को ले आना असम्भव है । नगर-वालों को भी अविश्वास होने लगा । वे रोज शहर की मोनाओं पर चढ़ कर देखते थे । किसी तरफ पानी बढ़ता दिखाई नहीं देता था । शत्रु बाहर से चिह्ला-चिह्ला कर नागरिकों को चिढ़ाते थे—“देख लो ! देख लो ! मीनार पर चढ़ कर देख लो ! समुद्र तुम्हारी सहायता के लिये दौड़ा चला आ रहा है ! ।” नगर की ओर से आखिर निराश होकर प्रान्तीय पंचायतों के पास एक चिट्ठी भेजी गई । “हमें मुसीबत के वक्त सब ने छोड़-दिया है । पंचायत की ओर

से तुरन्त स्नेह-पूर्ण उत्तर आया—“लीडन, तेरे बचाने के लिए हम सब तबाह हो जाँयेंगे। सारा देश डुबा देंगे। तेरे हारते ही सारा देश हार जायगा।”

ऑरेंज का बुखार बढ़ रहा था। वह बेहोशी में चारपाई पर पड़ा तड़प रहा था। परन्तु ऑरेंजों में लीडन की तस्वीर मूल रही थी। ऑरेंज को लीडन ही नहीं, बल्कि सारे देश को सहायता पहुँचाने की चिन्ता थी। डाक्टरों ने देखा कि चिन्ता के कारण सरसाम हुआ जाता है। अच्छे होने का एक ही उपाय था कि सारी चिन्ता छोड़ दी जाय। परन्तु सारे संसार के डाक्टर भी एकत्र हो कर ऑरेंज के मन से देश की चिन्ता नहीं निकाल सकते थे। पलंग पर तड़पता हुआ आरेंज लीडन के लिये पत्र और देश भक्तों की नौ-सेना के सेनापति बायसाट के लिए आदेश लिखा रहा था। अगस्त के अन्त में एक झूठी अफवाह उड़ी कि लीडन हार गया। ऑरेंज को विश्वास नहीं हुआ। परन्तु चिन्ता से उसका बुखार बढ़ गया। इसी अवसर पर एक अफसर उससे मिलने आया था। ऑरेंज की दशा देख कर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऑरेंज अकेला मकान में पड़ा था। नौकर चाकर कोई एक आदमी भी इधर-उधर नहीं था। मालूम हुआ कि आरेंज ने चिन्ता के कारण सबको किसी न किसी काम पर लीडन की खबर लाने इत्यादि के लिए भेज दिया है। इस अधिकारी ने आरेंज को विश्वास दिलाया कि लीडन अभी तक हारा नहीं है। तब आरेंज का बुखार कम होना शुरू हुआ।

सितम्बर में ऑरेंज के अच्छे होते ही बायसाट लीडन की तरफ चला। पहले-पहल बाँध से लीडन १५ मील दूर था। यह

बाँध तोड़ कर पानी चढ़ा दिया गया था। लेकिन जब वायसाट वेड़ा लेकर लीडन से पाँच मील दूर शील्लिडग स्थान पर पहुँचा, तो एक और कठिन बाँध सामने दिखाई दिया। शील्लिडग और लीडन के बीच में कई बाँध थे। इन बाँधों पर ग्राम बसे थे बहुत छोटे-छोटे दुर्ग भी बने थे। दुर्गों में सरकारी सेनायें थीं। देश भक्त ११ और १२ तारीख की रात को अचानक छापा मार कर शील्लिडग पर चढ़ गये। दुर्गों और बाँध पर कब्जा कर लिया। फिर बाँध तोड़ कर शील्लिडग में मेरा रास्ता काट कर आगे बढ़े। परन्तु सामने दूसरा बाँध देख कर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इस पर भी धावा मार कर तुरन्त अधिकार जमा लिया गया और इस बाँध को भी काट कर देश भक्तों ने अपना वेड़ा आगे बढ़ाया। परन्तु आगे एक दूसरा बाँध दिखाई दिया। इस बाँध पर शत्रु की बहुत सी सेना भी थी। वायसाट चक्र मार कर दूसरा तरफ से चला। परन्तु नार्थओ के पास पहुँच कर उसे इधर एक ओर भी बाँध मिला। हवा भी एक दम पूर्वी चलने लगी। सागर का पानी कम हो गया। वायसाट का वेड़ा ज़मीन पर रह गया। लीडन की हारलेम से भी बुरी दशा हो गई थी। गाय, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, चूहे समाप्त हो चुके थे। लोग कुत्तों के मुँह में से छीन-छीन कर हाड़ चाटते थे। छीं और बड़े दिन रात गन्दे नालों में खाना ढूँढ़ते फिरते थे। लगभग आठ हजार मनुष्य भूख से तड़प-तड़प कर प्राण गँवा चुके थे। सरकार की तरफ से सन्धि का लालच दे-दे कर लोगों को गिराने की चेष्टा की जा रही थी। कुछ लोग वेड़ा बनाने भी लगे थे। चुंगी के वीर प्रमुख बर्फ पर गालियों की बाँधार होने लगी थी। एक दिन बर्फ बाजार में से जा रहा था। लोगों ने उध

चौगाहे पर घेर लिया । बर्फ ने एक चवूतरे पर चढ़कर चिलाकर कहा—“क्या मतलब है तुम्हारा ? क्या तुम घुटने टेकने के लिए बड़-बड़ाते हो ? शत्रु के हाथों तुम्हें और भी बुरी तरह मरना पड़ेगा । मैंने तो कसम खाली है कि मैं नगर को शत्रु के हाथ नहीं सौंपूंगा । भगवान मुझे अपनी शपथ पूरी करने का बल दें । मौत मुझे एक ही बार आयगी । चाहे तुम्हारे हाथो आये, चाहे शत्रु या भगवान के हाथों । मुझे अपनी चिन्ता नहीं है । परन्तु जो नगर मुझे सौंपा गया है उसे कसाई के हाथो में नहीं दूँगा । मैं जानता हूँ कि यदि शीघ्र ही सहायता नहीं आई तो भूखों मर जाना पड़ेगा । परन्तु शत्रु के हाथ में पड़कर अपमानित होकर मरने से भूखों मर जाना अच्छा है । तुम्हारी धमकियों का मुझे चरा भी डर नहीं है । मेरा जीवन तुम्हारी भेंट है । यह तो मेरा खजर और मेरे टुकड़े करके अपनी भूख बुझा लो ! परन्तु जब तक मैं जीवित हूँ शत्रु के हाथ में शहर सौंप देने की मुझसे आशा मत रक्खो ।” बर्फ के वीरता-पूर्ण वचन सुन कर लोगों के हृदय में जोश भर आया । दीवारों पर जाकर शत्रुओं से कहने लगे , “ तुम हम लोगों को कुत्ते-बिल्ली खाने वाला कह कर हँसते हो । हाँ, हम कुत्ते बिल्ली खाने वाले हैं । तुम्हें समझ लेना चाहिए कि जब तक एक भी कुत्ता या बिल्ली की आवाज शहर में सुनाई देती है तबतक लीडन घुटने नहीं टेकेगा । जब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा तब हम अपना बायां हाथ खायेंगे और दाहिने हाथ से स्वाधीनता के लिए लड़ेंगे । यदि भगवान् का सब प्रकार हम पर कोप ही हुआ तो भी हम घुटने नहीं टेकेंगे । अपने हाथों शहर में आग लगाकर स्त्री-बच्चों के साथ जल मरेंगे ।

२९ सितम्बर को फिर पश्चिमी हवा चली । पानी चारों ओर गहरा हो गया । वायसाट अपना वेड़ा बढ़ाकर शहर के निकट जा पहुँचा । शहर के निकट स्पैन की बहुत सी सेना पड़ी थी । परन्तु जिस भगवान ने दुःखियों की सहायता के लिए सागर भेजा था, पश्चिमी हवा चलाई थी, उसीने शत्रुओं के हृदय में ऐसा भय फैला दिया था कि वायसाट के पहुँचते ही रात को आँधेरे में स्पैन की सारी सेना हेग की तरफ भाग गई । वायसाट ने नगर में प्रवेश किया । दो महीने से भूखे मरने वाले नागरिकों को रोटी मिली । कुछ तो इतनी रोटी खा गये कि तुरन्त ही मर गये । कुछ बीमार पड़ गये । सम्हाल-सम्हाल कर रोटी वाँटी जाने लगे । सबने मिलकर एक जुलूस निकाला । अन्त में सब घुटनों पर बैठ कर जब गिरजे में भगवान की प्रार्थना करने लगे तो लोगों का दिल इतना भर आया कि सब फूट-फूटकर रोने लगे । यहाँ तक कि प्रार्थना का चलाना असम्भव हो गया । आँरेख को जब यह समाचार मिला तो वह आनन्द से खिल उठा । पचायत की राय से उसने लीडन के प्रति देश का स्नेह दिखाने के लिए लीडन में हमेशा दस दिन का एक वार्षिक मेला लगाने की व्यवस्था की । महाराज फिलिप की ओर से उसने (यह फिलिप को नेदरलैंड का राजा मानने का मज़ाक अभी कायम था) लीडन की वीरता के स्मृति-चिन्ह स्वरूप लीडन-विश्व विद्यालय की स्थापना की ।

जिस चीज को हालैंड और जेलैंड खून बहाकर पाने का प्रयत्न कर रहे थे उसे अन्य प्रान्त के बुद्धिमान नेता कागजो घोड़े दौड़ाकर ही ले लेना चाहते थे । रिम के रिम कागज फिलिप से समझौता करने के प्रयत्न में पत्र-व्यवहार में खर्च किये

जा रहे थे। यह लोग शायद समझते थे कि मानों स्वाधीनता पाना केवल कागजी सौदे की बात है। ऑरेञ्ज के पास भी सेण्ट एल्डगोएडे इत्यादि कई आदमियों को सरकार की तरफ से यह सन्देश ले कर भेजा गया था कि राजा के अधिकार और सनातन धर्म की प्रधानता के प्रश्नों को छोड़ कर अन्य सब बातों में समझौता किया जा सकता है। परन्तु ऑरेञ्ज और पंचायत ने समझौता करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा ऑरेञ्ज के हाथ में हालैण्ड और जेलैण्ड के शासन का सारा भार आ गया था। नगरों की पंचायतें पहले तो उसपर अधिकारों की इतनी वर्षा करने लगी थी कि जो अधिकार वह पंचायतों को देना चाहता था वे भी उसी के सिर थोप दिये गये थे। परन्तु पीछे से पंचायतों का अपने हाथ में सत्ता रखने के लिए जी ललचाया। पंचायतें ऑरेञ्ज के मार्ग में अड़चनें डालने लगीं। ऑरेञ्ज ने उकता कर सारे पदों से इस्तीफा दे दिया। परन्तु देश के लिए उसका पल्ला छोड़ना स्वाधीनता से हाथ धो बैठने के बराबर था। पंचायतों ने ऑरेञ्ज की मर्गें मान लीं। जिन प्रान्तों से एल्बा अधिक से अधिक २ लाख ७१ हजार रुपया वार्षिक से अधिक कभी वसूल नहीं कर सका था। उन्हीं हालैण्ड और जेलैण्ड के प्रान्तों ने २ लाख १० हजार मासिक आरेञ्ज को देश की व्यवस्था के लिए देना स्वीकार कर लिया। पहले तो बनियों की तरह बहुत खींच-घसोटी की गई, परन्तु पीछे में ४५,००० मासिक फौज के लिए भी मजूर कर लिया गया। सरकार की ओर से समझौते की बात छिड़ी। सरकारी खजाने का दिवाला पिट चुका था। आगे लड़ाई चलाना असम्भव दिखता था। जर्मनी के

सम्राट ने भी फिर समझौता कराने का प्रयत्न शुरू कर दिया था। उसे भय था कि यदि फिलिप नेदरलैण्ड के सुधारकों पर अत्याचार करना बन्द नहीं करेगा तो जर्मनों के सरदार, जिनमें अधिकांश सुधारक थे, हरगिज फिलिप को राजगद्दी पर कदम नहीं रखने देंगे। सम्राट के कुटुम्ब के राज्य का ही अन्त हो जायगा। बहुत दिन ब्रेडा में समझौते के सम्बन्ध में कांग्रेस होती रही। ऑरेञ्ज हृदय से, सुलह चाहता था, परन्तु फिलिप सनातन धर्म की प्रधानता पर ऑच आने देने को तैयार नहीं था। नेदरलैण्ड में थोड़े से पुजारियों को छोड़कर अन्य सब लोग नवीन पन्थी हो गये थे। इन सब मनुष्यों को देश से निकाल देने की बात पर ऑरेञ्ज और पचायत कैसे राजी हो सकती थी! कुछ समझौता नहीं हो सका। दोनों के प्रतिनिधि लौट गये।

ऑरेञ्ज की स्त्री शाहजादी वूरवन कुछ पगली सी थी, बड़ी क्रोधी और कर्कशा थी। पहले ही से वह खटती तो थी ही परन्तु शायद ऑरेञ्ज की तरह दृढ़ और गम्भीर प्रकृति की न होने से मुसीबतों ने उसे और भी खटती बना दिया था। जब ऑरेञ्ज अपना माल असबाब बेच-बेच कर देश को बचाने के लिए सेना एकत्र करने का प्रयत्न कर रहा था, तब उसकी स्त्री केवल घर के भीतर ही कलह नहीं मचाता थी, बल्कि लोगों के सामने ऑरेञ्ज को खूब गालियाँ भी सुनाया करती थी। उस कमबख्त ने यहाँ तक किया कि पत्नी को एक खत लिख भेजा कि मेरा पति पागल हो गया है। सारा रुपया बहाये देता है। मेरे पास खर्च नहीं है। तुम मुझे कुछ रुपये खर्च के लिए भेज दो।” ऑरेञ्ज हृदय पर पत्थर

रख कर यह घरेलू वार सहता था। प्रायः देखा गया है कि देश के लिए कार्य करने वालों को बाहर की चोटों से इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता जितना भीतरी चोटों से सहना पड़ता है। अन्त में उस पागल औरत ने एक मनुष्य से सम्बन्ध कर लिया। ऑरेञ्ज को मजबूर होकर तलाक दे-देनी पड़ी। आखिरकार शाहजादी यूरेबन जर्मनी के एक सरदार की जेल में पागल हो कर पड़ी और वहाँ मर गई। वर्षों से ऑरेञ्ज को गृह-सुख स्वप्न में भी देखने को नहीं मिला था। इसलिए उसने थक कर राजकुमारी चार्लट से विवाह कर लिया। इस विवाह के कारण जर्मनी के बहुत से सरदार उस से नाराज हो गये।

शक्ति पाकर दिमाग ठीक रखना बड़ा कठिन काम है। सोनौय ने अल्कमार में कुछ लोगों को देश के विरुद्ध पड़यन्त्र रचने के सन्देह में पकड़ा था। इन लोगों की खालें खिचवा कर जख्मों में अंगारे भर-भर कर इतने कष्ट दिये गये कि पत्नी और उसकी खूनो कचहरी को भी मात कर दिया। ऑरेञ्ज को जब यह खबर लगी तो उसने तुरन्त ही इन घृणित घटनाओं को बन्द करा दिया। सोनौय की देश के प्रति बहुत सी सेवायें थीं। इस लिए ऑरेञ्ज ने उसे दण्ड नहीं दिया।

मेडीनाकोली को अभी तक स्पेन से जहाजी वेड़े के आने की आशा थी। वह जेलैण्ड के किनारे किसी ऐसे स्थान पर अधिकार जमा लेने के फिराक में था, जहां से जेलैण्ड और हालैण्ड पर आसानी से हमला किया जा सके। थोलन द्वीप अभी तक सरकार के अधिकार में था। यहा से कुछ देश द्रोहियों की सहायता से मोण्ड्रेगन की सेना की तरह एक दुकड़ी समुद्र में

घुस कर इंग्लैण्ड पहुँचो। उसके पहुँचते ही वहाँ की देशभक्त सेना के सरदार वायसॉट को किसी देशद्रोही घातक ने कत्ल कर डाला। एकाएक सरदार के मारे जाने से देशभक्त सेना चबराकर भाग पड़ी। स्पेन का कब्जा फिर समुद्र के किनारे के एक मार्के के स्थान पर हो गया। हालैण्ड अभी तक अकेला ही स्वाधीनता के लिए युद्ध करता रहा था। परन्तु बहुत दिनों तक अकेले ही स्वतन्त्रता के लिए लड़ते जाना उसके लिए असम्भव था। अतः आरेञ्ज ने दूसरे देशों से भी सहायता लेने का विचार किया। उसका कहना था—“नेदरलैण्ड जैसी सुन्दर वधू के लिए बहुत से वर मिल जायेंगे।” प्रान्तीय पंचायत और नगरों ने आखिरकार निश्चय किया कि फिलिप के जुल्म इन्तहा को पहुँच चुके हैं। फिलिप को नेदरलैण्ड का राजा कहलाने का अब कुछ अधिकार नहीं रहा है। इसलिए किसी और देश के राजा को नेदरलैण्ड का राजा चुन लेना चाहिए। किस राजा को नेदरलैण्ड का राजा बनाया जाय, इस बात का फैसला आरेञ्ज के ऊपर छोड़ दिया गया। हालैण्ड और जेल्सैण्ड कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि वे नेदरलैण्ड के भावी प्रजातन्त्र के दो स्तम्भ बन जाँथे। आरेञ्ज ने दूसरे देशों से सहायता लेने का प्रयत्न शुरू किया। जर्मन साम्राज्य तो भानमती का कुनवा ही बन रहा था। फ्रान्स में अभी तक घरेलू युद्ध चल रहा था। इंग्लैण्ड की महारानी एलीजेबेथ फिलिप से बहुत डरती थी। इसलिए फिलिप के विरुद्ध क्रन्दन रखने को वह तैयार नहीं थी। फ्रान्स और विशेषकर इंग्लैण्ड में बहुत प्रयत्न करने पर भी जब आरेञ्ज को कोई सहायता नहीं मिली, तो वह निरारा

होकर सोचने लगा कि हालैण्ड और जेलैण्ड के मनुष्यों को माल असवात्र सहित जहाजों में भर कर चल देना चाहिए। नगरों को आग लगा कर नष्ट कर दिया जाय। बाँध तोड़ कर सारा देश समुद्र में डुबा दिया जाय। ईश्वर की पृथ्वी बहुत बड़ी है। कहीं किसी नये स्थान पर बस जाँयगे। इस बीच में मेडोना-कोली का ज्वर से एकाएक देहान्त हो गया। गहजादा ऑरेञ्ज का देश में आग लगाकर चल देने का इरादा स्वभावतः कुछ दिन के लिए स्थगित हो गया।

५५

प्रान्तों का संगठन, राष्ट्रीय-एकता ।

मेडोनाकोली की मृत्यु से फिलिप को कुछ दुख नहीं हुआ । परन्तु मेडोनाकोली के इस बुरे समय में वे कहे-सुने अचानक मर जाने पर उसे बड़ा क्रोध आया । अपने स्वभाव के अनुसार फिलिप कुछ निश्चय नहीं कर सका कि किसको नेदरलैण्ड का वायसराय बनाकर भेजा जाय । इसलिए उसने फिलिहाल 'स्टेट कॉंसिल' को ही शासन का सारा भार सौंप दिया । 'स्टेट कॉंसिल' में स्पेन के एक आदमी के अतिरिक्त और सब नेदरलैण्ड-निवासी थे । देश की परिस्थिति ऐसी बिगड़ रही थी कि किसी अच्छे शक्तिमान शासक के आने की जरूरत थी । ऑरेंज ने हालैण्ड और जेलेण्ड के नगरों की पंचायतों और अमीर उमराव, व्यापारियों को एकत्र करके हालैण्ड और जेलेण्ड को मिजाकर एक सङ्गठित राष्ट्र बनाने की सम्मति ले ली थी । इस नये राष्ट्र के शासन की वागडोर भी ऑरेंज के ही हाथों में दे दी गई थी । पंचायतें ऑरेंज के ही सिर पर ताज रखना चाहती थीं । परन्तु उसके बहुत कहने सुनने पर इस बात पर भी राजी हो गई कि फिलिप के स्थान पर किसी अन्य राजा का अपना अधिपति बनाने के लिए न्योता दिया जाय । यह काम भी ऑरेंज को ही सौंपा गया । इधर स्पेन की फौजों ने बहुत दिनों से वेतन न मिलने के कारण खुल्लमखुल्ला बलवा शुरू कर दिया था । छः

उच्च प्रजातंत्र का विकास

होकर सोचने लगा कि हालैण्ड और जेलैण्ड के मनुष्यों को माल असवात्र सहित जहाजों में भर कर चल देना चाहिए। नगरो को आग लगा कर नष्ट कर दिया जाय। बाँध तोड़ कर सारा देश समुद्र में डुबा दिया जाय। ईश्वर की पृथ्वी बहुत बड़ी है। कहीं किसी नये स्थान पर बस जाँयगे। इस बीच में मेडोना-कोली का ज्वर से एकाएक देहान्त हो गया। शहजादा ऑरेञ्ज का देश में आग लगाकर चल देने का इरादा स्वभावतः कुछ दिन के लिए स्थगित हो गया।

प्रान्तों का संगठन, राष्ट्रीय-एकता ।

मेडोनाकोली की मृत्यु से फिलिप को कुछ दुःख नहीं हुआ । परन्तु मेडोनाकोली के इस वुरे समय में वे कहे-सुने अचानक मर जाने पर उसे बड़ा क्रोध आया । अपने स्वभाव के अनुसार फिलिप कुछ निश्चय नहीं कर सका कि किसको नेदरलैण्ड का वायसराय बनाकर भेजा जाय । इसलिए उसने फिलहाल 'स्टेट कौंसिल' को ही शासन का सारा भार सौंप दिया । 'स्टेट कौंसिल' में स्पेन के एक आदमी के अतिरिक्त और सब नेदरलैण्ड-निवासी थे । देश की परिस्थिति ऐसी बिगड़ रही थी कि किसी अच्छे शक्तिमान शासक के आने की जरूरत थी । ऑरेञ्ज ने हालैण्ड और जेलेण्ड के नगरों की पंचायतों और अमीर उमराव, व्यापारियों को एकत्र करके हालैण्ड और जेलेण्ड को मिजाकर एक सङ्गठित राष्ट्र बनाने की सम्मति ले ली थी । इस नये राष्ट्र के शासन की वागडोर भी ऑरेञ्ज के ही हाथों में दे दी गई थी । पंचायतें ऑरेञ्ज के ही सिर पर ताज रखना चाहती थीं । परन्तु उसके बहुत कहने सुनने पर इस बात पर भी राजी हो गई कि फिलिप के स्थान पर किसी अन्य राजा का अपना अधिपति बनाने के लिए न्योता दिया जाय । यह काम भी ऑरेञ्ज को ही सौंपा गया । इधर स्पेन की फीजो ने बहुत दिनों से वेतन न मिलने के कारण खुल्लमखुल्ला बलवा शुरू कर दिया था । छः

हज़ार सङ्गठित सेना ने अपना नायक स्वयं चुनकर देश में पिन्डारियों की तरह फिरना और लूट-मार करना शुरू कर दिया, सेना के अधिकारी भी सैनिकों से मिल गये थे। सजाने में वेतन देने को पैसा नहीं था। प्रधान सेनापति मेन्सफील्ड सैनिकों को समझाने गया और बोला—“तुम्हारी संसार भर में कीर्ति है। क्यों ऐसा बुरा व्यवहार करके अपनी कीर्ति में व्यर्थ बट्टा लगाते हो ?” सिपाहियों ने उत्तर दिया—“कीर्ति जेब अथवा पेट में नहीं रक्खी जा सकती। कीर्ति बहुत मिल चुकी है। अब हमें उसकी अधिक जरूरत नहीं है। रुपया लाओ ! रुपया ! हमें रुपया चाहिए !” बेचारे मेन्सफील्ड के पास रुपये के नाम कौड़ी भी नहीं थी। सैनिकों ने उसे तालियाँ पीट-पीटकर और हूहू करके भगा दिया। फिलिप ने तंग आकर आखिरकार सारी सेना के बागी हो जाने की घोषणा निकाल दी। नागरिकों को आज्ञा दे दी गई कि जहाँ सैनिक मिलें निस्संकोच मार डाले जाँय। ‘स्टेट कौंसिल’ विलकुल अशक्त हो गई थी, देश पर शासन करने के स्थान में स्वयं ब्रसेल्स में कैद सी हो रही थी।

हालैण्ड और ज़ेलैण्ड स्वाधीनता के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ गये थे। उन्होंने फिलिप का अधिकार नष्ट करके प्रजातंत्र की लगभग स्थापना कर ली थी। लेकिन हालैण्ड और ज़ेलैण्ड तथा देश के अन्य १५ प्रान्तों में एकता कराने का कठिन कार्य अभी शेष था। इन दो प्रान्तों तथा अन्य १५ प्रान्तों में आपस में बहुत सी जरूरी बातों में बड़ा मतभेद था। इन दोनों प्रान्तों के सभी लोग नवीन-पन्थी थे। अन्य प्रान्तों के लोग अभी तक सनातन-धर्म के पक्ष में थे। परन्तु धार्मिक मतभेद होने पर भी सब प्रान्तों के

लोग पुराने अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखना चाहते थे। ऑरेञ्ज को विश्वास हो गया था कि फिलिप को राज्य रहते हुए पुराने अधिकार और स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती। हालैण्ड और ज़ेलैण्ड भी ऐसा ही मानने लगे थे। अन्य १५ प्रान्त ऐसा नहीं मानते थे। यह एक बड़ा भारी भेद था। दूसरे यह जमाना ऐसा था कि दूसरे के धार्मिक विचारों के प्रति लोग उदारता दिखाना नहीं जानते थे। नवान-पन्थी अपने विचारों के लिए तो स्वतंत्रता चाहते थे, परन्तु शक्ति मिलने पर सनातनियों पर वैसा ही अत्याचार करने की इच्छा रखते थे जैसा सनातनियों की ओर से होता आया था। इस कारण भी अन्य प्रान्त हालैण्ड और ज़ेलैण्ड के नेताओं का नेतृत्व स्वीकार करने से डरते थे। परन्तु ऑरेञ्ज तो उन महा-पुरुषों में से था, जो अपने समय से बहुत आगे पैदा होकर लोगों को नये युग का मार्ग दिखाते हैं। वह दिन-रात इसी बात पर जोर दिया करता था कि एक दूसरे के धार्मिक विचारों के प्रति उदारता होनी चाहिए। एक दूसरे पर अत्याचार न करके देशवासियों को आपस में मेल करने का प्रयत्न करना चाहिए। सारा देश स्पेन की सेना को एक दिन से घृणा करता था। स्पेन की सेना ने विद्रोही होकर उत्पात मचाना और लूट-मार करना प्रारम्भ कर दिया था। ऑरेञ्ज ने इसे भगवान का भेजा हुआ सुअवसर समझा। वह स्पेन की सेना के प्रति लोगों के घृणा के भावों को जागृत करके सारे देश को एक करने और स्पेनवालों को देश से निकाल फेंकने का प्रयत्न करने लगा। उसने चारों ओर एकता के लिए अपॉले छपवाकर बटवाई और देश के प्रतिनिधियों को एक कांग्रेस में एकत्र

होने का न्योता दिया। अक्टूबर के अन्त में कामेस फ्रेट में एकत्र हुई।

इसी बीच एक जोशीले देश-भक्त नौजवान ने एकाएक एक दिन पाँच सौ आदमियों को लेकर ब्रसेल्स में 'स्टेट कौंसिल' की बैठक पर हमला करके सब सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। परन्तु पीछे से सबको छोड़ दिया गया। विंग्लियस और वेरला-मौएट उस दिन भाग्य से बीमारी के कारण नहीं आये थे। इस घटना से 'स्टेट कौंसिल' का रहा-सहा प्रभाव भी उठ गया। एस्टवर्प के दुर्ग में डे एलिवा सरकारी अधिकारी था। निकट में ही स्पेन की बागी फौजें पड़ी हुई थीं। डे एलिवा के इशारे पर बागी सेना ने एस्टवर्प को खूब लूटा। अन्य जगह के से रोमा-चकारी अत्याचार यहाँ भी किये गये। एक गृहस्थ के यहाँ विवाह हो रहा था। स्पेन के नृशंस सैनिक घुस पड़े। वर और बरातियों को मार डाला। सौन्दर्य की मूर्ति वधू को नगा करके लोहे की छड़ों से मार मार कर बेचारी के प्राण निकाल दिये। सेएट बार्थेलमो के हत्याकाण्ड से भी अधिक भीषण हत्याकाण्ड एस्टवर्प में हो गया। इतिहास में यह हत्याकाण्ड 'स्पेनी क्रोध' के नाम से मशहूर है। एस्टवर्प यूरोप का सबसे वनवान व्यापारिक केन्द्र था। पाँच-छः हजार सैनिकों के हाथ चालीस-पचास लाख की लूट पड़ी। सैनिक पागलों की तरह हर्ष से उन्मत्त होकर नाचने लगे। जो सैनिक वेवकूफ थे उन्होंने एक-एक दिन में दस हजार जुए में खो दिये। होशियार सैनिकों ने सोने चाँदी के ऋवच बनवा लिये। जब अपने आप वेतन उगाहने से इतना धन हाथ लगा तो स्पेन की सेना अपने कृत्य पर क्यो प्रसन्न

न होती ? शहर के कोतवाल चेम्पनी ने, जो ग्रेनविले का भाई था, परन्तु स्पेन वालों को हृदय से घृणा करता था भाग कर ऑरेंज के पास शरण ली ।

कॉंग्रेस मेम्बर में बैठी हुई विचार कर रही थी । इसी समय एण्टवर्प की लूट का समाचार पहुँचा । प्रतिनिधियों ने आपस के भेद-भाव को भूल कर तुरन्त ऑरेंज की सलाह के अनुसार सारे देश के एक सूत्र में बँध जाने की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिये । यह बड़े महत्व की घटना थी । ऑरेंज की वर्षों की मेहनत और राजनीति आखिरकार सफल हुई । नवीन-पन्थ दो प्रान्तों में तो फैल ही गया था । अन्य प्रान्तों ने व्यक्तिगत रूप से लोगों को नवीन-पन्थ पर चलने देने का विरोध हटा लिया । ऑरेंज को मारे देश का सेनापति और शासक उस समय तक के लिए मान लिया गया जब तक कि स्पेनवालों को देश से न निकाल दिया जाय । उसके बाद सब कुछ तय करना देश की सार्वजनिक पंचायतों के हाथ में छोड़ दिया गया । सब इस बात पर एक हो गये कि स्पेनवालों को देश से बिना बाहर किये काम नहीं चल सकता ऑरेंज के हर्ष का पार न रहा । उसने कॉंग्रेस के इस निश्चय को नगर-नगर में घोषित कराया जिससे जनता को भी कॉंग्रेस के इस निश्चय के पक्ष में अपने विचार और भाव प्रकट करने का मौका मिले । ऑरेंज प्रत्येक आवश्यक विषय पर हमेशा जनता को राय ले लेता था । जनता ने बाजारों में एकत्र हो-होकर दीपावली करके अपनी सहमति प्रकट की । एण्टवर्प के हत्याकाण्ड के एक दिन, और कॉंग्रेस की घोषणा के चार दिन पहले लक्जमबर्ग में एक विदेशी सरदार ने एक मूर

(मुसलमान) गुलाम के साथ प्रवेश किया था। सरदार शहजादा मेलको का भाई डॉन ओटावियो गौंजागा था। गुलाम के भेष में उसके साथ ग्रेनाडा का विजेता, लेपाएटो का वीर आस्ट्रिया का डॉन जॉन था, जिसको नेदरलैंड का वायसराय बना कर भेजा गया था। वह गुलाम के भेष में जल्दी-जल्दी जर्मनी और फ्रांस पार करता हुआ नेदरलैंड की देहरी पर चढ़ आया था। परन्तु इतनी शीघ्रता करने पर भी वह देर से पहुँचा।

डॉन जॉन फिलिप के पिता महाराज चार्ल्स की रखेली घोब्रिन से पैदा हुआ था। बचपन से फिलिप का पुत्र कार्लोस, डचेन्न परमा का पुत्र अलेक्जेंडर और डॉन जॉन तीनों साथ-साथ एकसे ही राजसी ठाठ में पाले-पोसे गये थे। ग्रेनाडा के मुसलमानों को छी-बच्चां सहित नष्ट करके लेपाएटो के युद्ध में डॉन जॉन ने तुर्की के सुल्तान के सैकड़ों जहाजों को परास्त करके मुसलमानों के सेनापति का सिर काट लिया था और इस्लामी झण्डे को, जिसपर अट्टाइस हजार नौ सौ बार अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, छीन कर फिलिप के पास भेज दिया था। लगभग बीस-पच्चीस हजार मुसलमानों की जानें गई थीं। डॉन जॉन के भी दस हजार आदमी काम आये थे। उस समय एल्वाने डान जान की वीरता पर दाँत तले उँगली दबाकर कहा था, “सौन्दर के समय से तुम-सा वीर और कोई सेनापति देखने में नहीं आया।” लेपाएटो की विजय के बाद डान जान ने ट्यूनिस पर हमला करके वहाँ के राजा को उसके दोनों पुत्रों सहित पकड़ कर फिलिप के पास भेज दिया और ट्यूनिस का ताज फिलिप से अपने लिए माँगने लगा। पोप तो

राजी हो गया। परन्तु फिलिप ने, इस डर से कि इस बड़े बड़े स्वप्न देखने वाले नौजवान को इतनी शक्ति मिल गई तो यहाँ मेरा ताज खतरे में न पड़ जाय, उसकी अभिलाषा पूरी नहीं होने दी। उधर से निराश होकर डॉन जॉन की नज़र इंग्लैण्ड पर पड़ी। एलिज़बेथ को तख्त से उतार कर स्काटलैण्ड की वन्दी रानी मेरी को गद्दी पर विठाने और इसके साथ साथ स्वयं इंग्लैण्ड पर राज करने का वह स्वप्न देखने लगा। पोप नवीन-पन्थ पर चलने वाली इंग्लैण्ड की महारानी एलिज़बेथ को जैसे बने नीचा दिखाना चाहता था। वह डॉन जॉन को हर प्रकार से इंग्लैण्ड का राजा बनने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। डॉन जॉन के दिमाग में ये सुख-स्वप्न चकर लगा ही रहे थे कि फिलिप ने उसे नेदरलैण्ड का वायसराय नियुक्त किया। वह खुशी से फूल उठा। नेदरलैण्ड में दस हजार चुनिदा स्पेन के सिपाहा थे। वे सैकड़ों लड़ाईयों देस चुके थे। परन्तु सोने की लूट के लिए सदा भूखे रहते। नेदरलैण्ड में विद्रोह की अग्नि दहक रही थी। उसका ज़रा भी विचार न करके डान जान ने सोचा कि मैं इस सेना की सहायता से इंग्लैण्ड का राजा बनने का अपना स्वप्न सच्चा कर सकूँगा। इसीलिए तुरन्त अपने षाच-छ आदमियों को साथ लेकर इस विचित्र भेप में नेदरलैण्ड के लिए चल पड़ा था और श्वास एवं जर्मनी पार करता हुआ आखिरकार नेदरलैण्ड आ पहुँचा था। पेरिस में उसने रात को चुपचाप स्पेन के दूत से मुलाकात करके इंग्लैण्ड पर आक्रमण करने की मन्त्रणा भी की थी। भेप बदल कर एक नाच-पार्टी में भी गया था और वहाँ नवारे की उस अद्वितीया सुन्दरी

रानी मार्गरेट पर मुग्व भी हो गया था जिसको उसने आगे चलकर नामूर में मुलाक़ात होगी ।

सुन्दर गठीले शरीर और औसत कद का यह ३२ वर्ष का नौजवान, जिसके सिर पर घूँघरवाले बाल लहराते थे, अपने हृदय में अखण्ड उत्साह और चित्त में भारी अभिलाषाओं के स्वप्न की विह्वलता लिये ३ नवम्बर को नेदरलैण्ड में युसा । डॉन जॉन ने अपने जीवन में जीत पर जीत पाई थी । ३२ वर्ष की अवस्था में भी बिल्कुल छोक़रा सा लगता था । आरेञ्च हार पर हार सह कर एक परतन्त्र देश को स्वाधीनता के शिखर पर ले जाने का प्रयत्न कर रहा था । चिन्ताओं के कारण ४३ वर्ष की अवस्था में वह बूढ़ा सा दीखने लगा था ।

डॉन जॉन ने आते ही पचायतों के प्रतिनिधियों से समझौते की बातचीत शुरू की । जनता के प्रतिनिधियों ने मेएट के अपने आपस के उस समझौते को डॉन के सामने रक्खा जिसके अनुसार चार्ल्स और एल्वा के सारे खूनी कानून रद्द मान लिए गये थे, फिर भी सनातन-धर्म की प्रधानता और फिलिप का अधिकार कायम माना गया था । स्पेन की फौज को तुरन्त देश से निकाल देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मान्य हुआ था, इसलिए वह भी समझौते की एक शर्त थी । डॉन की समझ में नहीं आया कि जिस समझौते में हालैण्ड और जेलेण्ड के दो नवान पन्थी प्रान्त शरीर हो और अन्य प्रान्तों में भी नये पन्थवाली का जलाने-मारने का अधिकार न रहा हो, उसमें सनातन-धर्म की प्रधानता कैसे मानी जा सकती है ? जिस समझौते में विलियम आरेञ्च जैसे राजद्रोही को दो प्रान्तों का गवर्नर माना

गया हो, वहाँ फिलिप का अधिकार कहाँ रहता है ? सस्त सुस्त बातों, मगड़े-टगड़े और बहुत सी गाली-गलौज के बाद आखिरकार डॉन ने समझौता मान लिया। परन्तु बहुत दिनों तक इस बात पर मगड़ा होता रहा कि स्पेन की सेना खुशकी की राह वापिस जाय या जहाजों से। डॉन जहाजों से भेजना चाहता था क्योंकि वह अधिकारियों से तय कर चुका था और इंग्लैण्ड पर छापा मारने का प्रबन्ध कर रहा था। परन्तु पंचायतों सेना को खुशकी से भेजने पर ही अड़ गईं और डॉन जॉन को अपनी इच्छा के विरुद्ध दौत पीसते हुए यह शर्त भी माननी पड़ी। डॉन जॉन के जोर देने पर पंचायतों ने यह बात भी स्वीकार कर ली कि स्पेन में आरेञ्ज का पुत्र काउण्ट व्यूरन जा कैद में है और जिस के छुड़ाने की बात मेन्ट के समझौते में मानी गई थी वह सरकार स्वीकार नहीं करती। समझौता हो जाने पर पंचायतों ने उसे नेदरलैण्ड का वायसराय स्वीकार कर लिया। आरेञ्ज को इस समझौते से बहुत दुःख हुआ। उसने देखा कि समझौता करके लोग फिर सरकारी जाल में फँस गये। वह अच्छी तरह समझता था कि सरकार के लिए नेदरलैण्ड में अब अधिक खून बहाना फिलहाल नामुमकिन है। इसलिए सरकार यह अर्थहीन समझौता करके देश को योग्य में डालना चाहता है, समय मिलते ही फिर कसर निकाली जायगी। डॉन जॉन के सम्बन्ध में आरेञ्ज का कहना था कि 'फिलिप, एल्वा और डॉन जॉन में बेबल इतना फर्क है कि डॉन जॉन जवान होने के कारण अधिक बेवकूफ, भेद छिपा रखने के अयोग्य और खून से हाथ रँगने को अधिक उत्सुक है।' आरेञ्ज ने हालैण्ड,

जेलैण्ड तथा स्वयं अपनी ओर से समझौता स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और पंचायतो को लिखा कि सरकार ने केवल तुम्हें अर्थहीन शब्दों से धोखे में डाल दिया है। सरकार का कुछ करने कराने का इरादा नहीं है। फिर भी मैं इस शर्त पर समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ कि यदि नियत समय के अन्दर स्पेन की सेनायें देश छोड़ कर न चली जाँय तो पंचायतें वादा करें कि वे सब हथियार लेकर सेनाओं को निकालने के लिए तैयार हो जाँयगी।

डॉन जॉन समझौता था कि बिना ऑरेंज को भिलाये देश में शान्ति स्थापित करना या फिलिप का अधिकार सुरक्षित रखना अत्यन्त कठिन है उसने फिलिप को लिखा कि नेदरलैण्ड की नाव ऑरेंज के हाथ में है। वह चाहे पार लगावे चाहे डुबा दे। मैं समझता हूँ, उसके सामने यह प्रस्ताव रक्खा जाय कि यदि तुम जर्मनी चले जाने का वादा करो तो तुम्हारे पुत्र काउण्ट व्यूरन को हम तुम्हारी सारी पुरानी जागीर और सब इस्त्रियारात वापिस कर देंगे।' फिलिप ने यह प्रस्ताव मान लिया। डॉन जॉन लुव्रेन के विश्वविद्यालय में पहुँचा और वहाँ एग्जरशाट से मन्त्रणा करके अध्यापक डाक्टर लियोनीनस को ऑरेंज के पास यह सन्देशा देकर भेजा कि 'अपने कुटुम्ब को आराम में रखना अपना पूर्व सुख पुनः प्राप्त कर लेना तुम्हारे हाथ में है। डॉन जॉन तुम्हारा मित्र है और तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। देश में शान्ति स्थापित करने के लिए वह इतना उत्सुक है कि अपनी जान की परवाह न करके अकला ही चारों ओर घूमता फिरता है।' जिस लेपाण्टो के वीर ने हज़ारों योद्धाओं को सागर

में डूबा दिया था। जॉन डॉन जॉन स्काटलैण्ड की रानी और इंग्लैण्ड के ताज का स्वप्न देख रहा था वह दुर्भाग्य से अपनी आँखों के सामने एक देशभक्त का चित्र नहीं खड़ा कर सकता था। राजा की कृपा, कुटुम्ब का सुख, शान-शौकत, पद-अधिकार और अन्य ज़ाबों का प्रलोभन विलियम ऑरेञ्ज को दिया जा रहा था। डॉन स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि इस सप्ताह में किसी मनुष्य को अपना पानी में डूबा हुआ तवाह देश और घृणित धर्म इन चीजों से भी अधिक प्यारा हो सकता है। उसकी कल्पना में ही नहीं आ सकता था कि एक वाणी मनुष्य समा का वादा मिलने के साथ-साथ सारी पिछली शान-शौकत वापिस मिलने पर भी अपने राजा का कृपा से बढ़ाया हुआ हाथ छूने से इन्कार कैसे कर सकता है? डाक्टर लियोनीनस ने मिडलवर्ग में जाकर ऑरेञ्ज के सामने ये सब प्रलोभन रक्खे। ऑरेञ्ज ने शान्ति से उत्तर दिया—“मैं अपने लाभ हानि का विचार जनता के लाभ-हानि के विचार के सामने तृणवत् सम-कता हूँ। फिर मुझे आपकी इन बातों के स्वीकार हो जाने की तनिक आशा नहीं है परन्तु मैं उन्हें पचायतों के सामने रख दूँगा। हार्न, एगमोएट इत्यादि के साथ जो कुछ व्यवहार हुआ उसे देखकर और आज तक का सरकार की धारी चालों और गुप्त गोपियों को जानते हुए हम सरकार की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें पता है कि हालैण्ड और जेलैण्ड को कोने में देकर इन बेचारे छोटे छोटे प्रान्तों को हमला करके नष्ट कर डालने का विचार हो रहा है। खैर हम भी अपनी शक्ति के अनुसार बचाव करने के प्रयत्न में लगे हैं।”

डच प्रजातंत्र का विकास

जब तक स्पेन की सेना नेदरलैण्ड छोड़कर न चली जाय तब तक नये समझौते के अनुसार पचायतें डॉन जॉन को वायसराय मानने को तैयार नहीं थी। डॉन जॉन अपना वायदा शीघ्र से शीघ्र पूरा करना चाहता था। उसने सारी स्पेन की सेना मेन्सफील्ड की अध्यक्षता में देश से खाना कर दी। एअरशाट को एएटवर्प के दुर्ग का कोतवाल नियत कर दिया गया था। डॉन जॉन लुवेन पहुँच कर सरदारों और सर्व साधारण की दावतों और खेल तमाशों में भाग ले-ले कर चार्ल्स की तरह लोगों का दिल जीतने का प्रयत्न कर रहा था। अपने सुन्दर हसी भरे मुख में, वह जिससे दो बातें कर लेता वही उसका हो रहता था। बरसाती कीड़ों की तरह सैकड़ों चापलूम इधर उधर से निकल पड़े थे। वे दिन रात उसकी खुशामद में लगे रहते थे। वह भी खिलाव खिलाव और छोटे-छोटे पद बाँट कर सबको तृप्त करने का प्रयत्न कर रहा था।

अप्रैल के अन्त तक सारी स्पेन की सेना नेदरलैण्ड से चली गई। पहली मई को डॉन जॉन ने वायसराय की हैसियत से ब्रसेल्स में बड़े शानदार जुलूस के साथ प्रवेश किया। शहर बड़े ठाठ से सजाया गया था। दावतें हुईं। सुन्दरियों ने झरोखों और छज्जों से जॉन पर पुष्प-वर्षा की। ऐसा उत्सव मनाने का नेदरलैण्ड वालों को वर्षों से सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। परन्तु इस सब उत्सव और सत्कार से डॉन ज न भुलावे में नहीं पड़ा। वह जानता था कि देशवालों के हृदय पर सरकार का अथवा मेरा छतना काबू नहीं है जितना आरेञ्ज का है। वह नेदरलैण्ड-वासियों को हृदय से घृणा करता था। नेदरलैण्ड पर शासन

करने के प्रलोभन से वह आया भी नहीं था। स्काटलैण्ड की रानी मेरी और इंग्लैण्ड के तख्त पर अधिकार जमाने का स्वप्न पूरा करने के लिए ही वह नेदरलैण्ड आया था। परन्तु जिह्वा नेदरलैण्ड वासियों ने सेना को समुद्र की राह से जाने की इजाजत न देकर उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। अब उसको नेदरलैण्ड में एक दिन गुजारना भारी पड़ रहा था वह और उसका मंत्री एस्कोवेडो दोनों फिलिप के मंत्री पेरैज को अपना बड़ा विश्वासी मित्र समझ कर पत्र लिख-लिख रोज दुखड़े रोया करते थे—“किसी तरह हमको इस भट्टा में से निकाल लो। हमारा यहाँ ठहरने की अब विल्कुल इच्छा नहीं है। जिस काम के लिए हम आये थे वह दुर्भाग्य से पूरा नही हो सका। नेदरलैण्ड पर राज्य करने के लिए तो कोई औरत भी भेजी जा सकती है। क्योंकि यहाँ की उद्दण्ड पचायतें हमेशा से सब कार्य अपनी राय के अनुसार ही कराती हैं। वायसराय का काम तो सिर्फ कागजों पर बैठ-बैठे हस्ताक्षर करना है।” एस्कोवेडो की राय थी कि डॉन जॉन को स्पेन की कार्यकारिणी का प्रमुख बना दिया जाय। पेरैज इन दोनों को लिखता कि “मैं सद्यः प्रबन्ध कर रहा हूँ। जल्दी नहीं करनी चाहिए। कहीं फिलिप को हमारे पत्र-व्यवहार का पता चल गया और वह जान गया कि हम सब लोग स्वार्थ-साधन की धुन में हैं, तो काम बिगड़ जायगा।” परन्तु पेरैज डॉन जॉन और एस्कोवेडो के सब पत्र फिलिप को दिखा देता था और इन के उत्तर भी उसे दिखाकर और उसकी रुलाह लेकर भेजता था। पेरैज दोनों पत्रों को धोखा देकर स्वार्थ मिद्ध करना चाहता था। एस्कोवेडो उसको अपना बड़ा विश्वासी मित्र

समझता था परन्तु वह एस्कोवेडो की धीरे धीरे कृत्र खोद रहा था। निरङ्कुश विदेशी शासन की लीला देखिए। जिन मनुष्यों के हाथ में ईश्वर ने लाखों मनुष्यों का भाग्य दे रक्खा था, वे एक दूसरे पर अविश्वास रख कर एक दूसरे को धोखा देने और एक दूसरे के विरुद्ध पड्यन्त्र रचने में अपनी जिन्दगी बिताते थे। आरेञ्ज ने अपने आदर्श और उरसाह से हालैण्ड और ज़ैलैण्ड को तो एक सूत्र में बाँध ही लिया था। भेण्ट के समझौते से सारे देश को कुछ समय के लिए एक-सा कर लिया था। उसके मित्र सदा उसकी कुशलता के लिए बहुत चिन्तित रहते थे। उसका वृद्ध परन्तु वीर माता जिसने अपने तीन प्यारे पुत्र लुई, एडोल्फस और हेनरी को स्वाधीनता की वेदी पर चढ़ा दिया था जिस्वा करती थी—“बेटा मुझे अपने जिगर-के-टुकड़े के समाधार मिलने की बड़ी चिन्ता रहती है। मैं सुनती हूँ कि शान्ति होने वाली है। कहीं यह शान्ति युद्ध से भयकर न हो। मेरे बेटे ! स्वाधीनता के लिए सब कुछ दे देना परन्तु घुटने न टेकना।’ ऐसी माता का पुत्र क्यों न स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्योछावर कर दे ? आरेञ्ज के दूसरे भाई काउण्ट जॉन का, जो फ्रांस में रह कर अभी तक देश के लिए सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था, आरेञ्ज के पास एकपत्र आया था कि “भाई मैंने और लुई ने सेना एकत्र करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ने पर अपनी स्त्रियों के बदन से गहने तक उतार कर गिरवी रख दिये थे। हमारे ऊपर इतना कर्ज हो गया है कि हम दबे जाते हैं। यदि नेदरलैण्ड के नगर अपनी जिम्मेदारी समझ कर इस कर्ज में हाथ बटावें तो अच्छा है।’ आरेञ्ज अपनी माता, अपने भाई, अपनी स्त्री और अपने लोगों

सभी को डाढ़स वेंधाने का प्रयत्न करता था । वह जानता था कि सरकार से सुलह करना जान वूमकर भट्टी में कूदना है । युद्ध के अनिर्दिक्त उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आता था । डानजान को भी युद्ध से स्वाभाविक प्रेम था । परन्तु सरकारी खजाने का दिवाला निकल जाने से और सेनायें न होने से उसके पास सुलह की कोशिश करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था । उसने फिर प्रतिनिधि भेज कर आरेञ्ज से सुलह करने का प्रयत्न किया । मिडलवर्ग में कई दिन तक कान्फ्रेंस होती रही परन्तु कुछ परिणाम नहीं निकला । सरकार के प्रतिनिधि कहते थे कि हम फिलिप को असीम अधिकार और रोमन कैथलिक सनातन-धर्म की प्रधानता के अनिर्दिक्त सब कुछ मान लेने को तैयार हैं । आरेञ्ज कहता था कि मुझे देश की पूर्ण स्वाधीनता और धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए । ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध बातें थीं । कोई समझौता न हो सका । दोनों पक्ष के लोग फिर अपने-अपने घर लौट गये । डॉन जॉन ने फिलिप को लिखा कि आरेञ्ज समार में किसी चीज से इतनी घृणा नहीं करता जितनी आपसे । यदि आपका रक्त उसे मिल जाय तो वह बड़ी खुशी से पी जायगा ।'

अब देश में साफ तीन दल हो गये थे । एक तो अमीरो का दल था । ये लोग स्पेन वालों की घृणा करते थे । परन्तु स्वयं जनता से मिलना नहीं चाहते थे । दूसरा डॉनजॉन का दल, जो जान-पन्थी के नाम से पुकारा जाने लगा था । तीसरा आरेञ्ज का दल । अमीर लोग दोनों किनारों के बीच तैरना चाहते थे । वेरलाभाएट इत्यादि के दो-चार कुटुम्ब ऐसे भी थे जो हर प्रकार से स्पेन की

सहायता करने पर तुले हुए थे। अन्य सब अर्मार प्रवाह के साथ इधर-उधर बहते रहते थे। एअरशाट विलुल खुशामदी टट्टू था। आरेञ्ज और सरकार दोनों से डरता था। आरेञ्ज के पास सरकारी कागजात, फिलिप के पत्र और अन्य गुप्त खबरें चुपचाप भेज दिया करता था। उधर डॉनजॉन से आरेञ्ज की खूब बुराई करता था कोई पासा पड़े वह अपनी जीत चाहता था। एक दिन आधी रात को वह डॉनजॉन के पास दौड़ा हुआ पहुँचा और कहने लग कि, 'तुरन्त यहाँ से भाग जाओ। वरना तुम्हारी खैर नहीं है।' डॉनजॉन को मालूम था कि एल्वा और मेडीनाकोली को पकड़ने के लिए देशभक्त प्रयत्न कर चुके थे। हाल में लुवेन में डानजान के गिरफ्तार कर लेने की भी आरेञ्ज की तरफ से कोशिश की गई थी। रोञ्ज डॉनजॉन के पास उसको पकड़ने के प्रयत्न करने के एक न एक षड्यन्त्र की खबर आती रहती थी। आखिरकार एअरशाट ने आधी रात को पहुँच कर एकाएक जब यह समाचार सुनाया तो बेचारा घबराकर तुरन्त मेचलिन भाग गया। वहाँ भी एअरशाट ने पहुँच कर एक दिन कहानियाँ सुनानी शुरू कीं। मेरे हाथ हाल ही में आरेञ्ज का एक गुप्त खत पड़ा है। उसने आपको पकड़ लेने की पंचायतों को सलाह दी है।' डानजान ने पूछा कि 'भला मुझे गिरफ्तार करके पंचायतें क्या करेंगी?' एअरशाट ने बड़े मजे की गप्प उड़ाई। उसने कहा कि, 'नेदरलैण्ड में पुराने ज़माने में भी ऐसा ही किया जाता था। वह आपको पकड़ कर जिस कागज़ पर चाहेंगे दस्तख़त करा लेंगे। एक दफा ऐसे ही आपके एक पूर्वज को पकड़ कर मनमाने पत्रों पर हस्ताक्षर करा लिये गये थे। और फिर साथियों सहित खिड़की में से सब को नीचे खड़ी

प्रान्तों का संगठन, राष्ट्रीय एकता

हुई कुद्ध भौड़ के भालों पर फेंक दिया गया था। डॉन ने चिल्लाकर कहा खबरदार, फिर कभी मुझे ऐसी बात मत सुनाना। परन्तु यह झूठा क्रिसता सुनकर वह इतना घबरा गया कि सारा माल असवाव वेचकर मेचलिन छोड़कर उसने तुरन्त दूसरे नये स्थान को कूच कर दिया। आरेञ्ज का सारा सहारा मध्यम वर्ग के लोगों पर था। क्योंकि इन लोगों के पास बुद्धि और विद्या के साथ-साथ कुछ रुपया भी था।

बेलाय की रातों मार्गरेट जिसके सौन्दर्य पर डान जान पेरिम में नेदरलैण्ड आते समय मुग्ध हो गया था, फ्रान्स के ड्यूक एलेन्कौन की वहन थी। मार्गरेट अपने पति को घृणा करती थी और भाई पर भ्रातृ स्नेह से भी अधिक स्नेह रखती थी। एलेन्कौन का दाँत नेदरलैण्ड पर था। मार्गरेट एलेन्कौन को यह इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करने नेदरलैण्ड आई। वहाना तो यह किया कि गनी मार्गरेट तीर्थ गात्रा को जा रही है। परन्तु रास्ते में नेदरलैण्ड के अधिकारियों से मिल कर फोडने का बड़ प्रयत्न करने लगी। एक तो सौन्दर्य में अद्वितीय, दूसरे नञ्जाकत की बात चीत और उसका हृदय विदारक मधुर सगीत साने में नुशाप था। पेरिम में उसे देखकर डॉनजॉन न आह भरके कडा था, यह मानपी सौन्दर्य नहीं है, देवी है। परन्तु यह सौन्दर्य मनुष्य को आनन्द देने के लिए नहीं बनाया गया। उसकी आत्मा पर आरा चनाने के लिए बनाया गया है। मार्गरेट कुछ कविता भी करती थी। वाणों में उभके जादू था। भला ऐसी सौन्दर्य की जादू भरो पुतली किम सरकारी अफसर पर जादू नहीं चला सकती ? बहुत से अधिकारिया का

उसने एलन्कौन के पक्ष में कर लिया। डान जान मेचलिन में भाग जाने का विचार कर ही रहा था। नामूर में जाकर पेरिस की स्वप्न देवी के स्वागत करने का बड़ा सुन्दर बहाना मिला। माया में लिपटे राम मिले। नामूर बड़ा सुन्दर शहर था। मदियों गुजर जाने पर आज भी वैसा ही है। डान जान ने मार्गरेट का बड़े ठाट से स्वागत किया। देखने वाले एक स्वर से बाहवाह कर रहे थे। जिस महल में मार्गरेट के उतरने का प्रबन्ध किया गया था, उसमें तुर्की के सुल्तानों के भेजे हुए पर्दे और गज़ीचे बिछाये गये। लेपाण्टो की विजय के स्मृति चिन्ह स्वरूप डान जान को भेंट में दी हुई वस्तुयें चारों ओर रखी थीं। शहर दीपावली से जगमगा रहा था। डान जान को क्या पता था कि मार्गरेट उसे धोखा देने और उसके नौकरों को फोड़ने आई थी ? वह तो प्रेम में मतवाला होकर सौन्दर्य की वेदी पर हृदय पुष्प चढ़ा चुका था। लेकिन जैसे ही मार्गरेट का मुँह फिरा वह मानों स्वप्न से चौंक पड़ा। सरदार वैरलामौण्ट को सिखा कर भेजा कि “जाओ नामूर के दुर्ग के कोतवाल से कहना कि डान जान इधर से शिकार खेलने जायगा। कुछ देर उसे दुर्ग में ठहरा कर जल-पान करावें तो अच्छा है।” कोतवाल ने वैरलामौण्ट के समझौते से यह शिष्टता दिखाना स्वीकार कर लिया। परन्तु डान जान ने कोतवाल को धोखा दिया। दुर्ग में इस बहाने घुसकर थोड़े से साथियों की सहायता से दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वह सरकारी वायसराय था। उसका सभी दुर्गों पर अधिकार था। इस प्रकार धोखा देकर दुर्ग को हाथ में करने की क्या आवश्यकता थी ? परन्तु डान जान को विश्वास नहीं था कि ये

दुर्ग जिन्हें आरेञ्ज 'जुलम के घोंसले' कहकर पुकारता था और शीघ्र ढा देने की फिक्र में था आसानी से उसके हाथ आ जायेंगे। बहुत हद तक उसका सन्देह ठीक भी था। पर जिस मार्गरेट के विवाह के दिन धोखा देकर सेण्ट वार्थेलमो का हत्याकाण्ड किया गया था उसी मार्गरेट का स्वागत करने का वहाना करके डान जान ने धोखे से नामूर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। एस्कोवेडो कुछ दिन के लिए स्पेन गया था। फिलिप को पेरेंज ने ममका ही रखा था कि एस्कोवेडो और डान जान षड्यन्त्र रच कर स्पेन-नाम्राज्य को ही अपने हाथ में कर लेना चाहते हैं। इस-लिए फिलिप ने एस्कोवेडो को चुपचाप जहर देकर मरवा डालने का निश्चय कर लिया था। शाहजादा इवोली की स्त्री का फिलिप से सम्बन्ध था। इवोली के मर जाने पर उस स्त्री का पेरेंज से भी सम्बन्ध हो गया था। एस्कोवेडो जब स्पेन पहुँचा तो उसे यह जान कर बड़ा दुःख हुआ कि जिस स्त्री का फिलिप से सम्बन्ध है उसी से पेरेंज का भी सम्बन्ध है। उसने फिलिप से सब बात खोलकर कह देने की पेरेंज को धमकी दी। पेरेंज ने अपना भेद खुल जाने के डर से एस्कोवेडो का काम तमाम करने में और जल्दी की। तीन दफा जहर देने में असफलता हुई। प्रायिर-कार पाच छः बदनशों को भेज कर एस्कोवेडो एक दिन रात का एक गली में मार डाला गया और इन्वारा को इनाम स्वरूप फौज में भरती कर लिया और उनकी आजीवन पेशन कर दी।

हालैण्ड और जेलेण्ड के लोग टूटे हुए बाँधों को तैयार करने में लगे थे। आरेञ्ज जगह-जगह घूमकर सबको उत्साहित कर रहा

था। लोगों की प्रार्थना पर उसने दोनों प्रान्तों के सब नगरों का एक दौरा भी लगाया। लेकिन विजेता सरदार, राजा या अधिकारी की भाँति उसने फूलों के द्वारों में होकर अपनी सवारी निकाली। जहाँ-जहाँ वह जाता था, 'पिता विलियम आता है। पिता विलियम आता है' की पुकार गूँज उठती थी। जैसे पिता अपने बच्चों से मिलता है उसी तरह वह लोगों से मिलता था। लोग बिलकुल दिखावा न करके उसका हृदय से स्वागत करते थे। यूट्रेक्ट पर पुराने अधिकारों के अनुसार उसका ही शासन होना चाहिए था। परन्तु वहाँ के लोगों ने अभी तक उसका शासन स्वीकार नहीं किया था। अब वहाँ से भी बुलावा आया। वह तुरन्त ही वहाँ पहुँचा। उसका अद्वितीय स्वागत हुआ। डान जान ने नामूर के दुर्ग पर धोखा देकर अधिकार जमा लेने का कारण देशकी पंचायतों को यह दिया कि "विलियम आरेञ्ज मुझे मरवा डालने के प्रयत्न में है। जिधर देखो उधर से कातिलों को मेरी ताक में फिरने की खबरें आती हैं। मैंने अपनी जान की रक्षा को इस दुर्ग में रहने के अतिरिक्त और कोई उपाय न समझ कर नामूर के दुर्ग पर कब्जा कर लिया है। पंचायतों को मेरी रक्षा के लिए शरीर-रक्तक भेजने चाहिए।" आरेञ्ज ने भी पंचायतों के पास सन्देश भेजा कि "डान जान की हर चाल से पता चलता है कि वह सब को धाखे में डालकर दण्ड देने का षड्यन्त्र रच रहा है। अभी तक दस हजार जर्मन सैनिक इधर उधर देश में बखेर रक्खे गये हैं। उनको देश से निकालने में बहाने बना-बनाकर आनाकानी की जा रही है। नामूर के दुर्ग पर धोखा देकर अधिकार जमा ही लिया गया है। अन्य दुर्गों पर।

भी निगाहें लगी हुई हैं। पचायतो का वहका कर मुक्त से लड़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमको आपस पे एक दूसरे से लडाकर डान जान अपना निर्द्वन्द्व अधिकार जमाना चाहता है।” पंचायतो ने डान जान के लिए ३०० शरीर-रक्षक तो भेज दिये परन्तु उसका जान लेने के पड्यन्त्र की कहानों पर विश्वास न करके उससे नामूर का दुर्ग छोड़ देन को कहा। प्रतिनिधियों को भेज कर यह भी प्रार्थना की गई कि मेरुट का समझौता पूरा करने के लिए तुरन्त हा जर्मन सैनिकों को देश बाहर भेज दिया जाना चाहिए।

एएटवर्प क कांतवाल एअरशाट को मार्गरेट का स्वागत करने क लिए भेजने के वहाने से हटाकर डान जान ने एएटवर्प दुग के ट्रेनलॉग को श्रोतवाल बनाकर भेज दिया था। डानजान समझने लगा था कि वस अत्र एएटवर्प का दुर्ग भी मेरा है। लेकिन एएटवर्प नगर के एक वीर डेवोअरस ने आरेञ्ज के मित्र मार्टिनी और उसके मित्र शहर के गवर्नर लॉडरुके की सलाह और व्यापारियों के धन की सहायता से दुर्ग पर अचानक हमला करके अधिकार कर लिया। दुर्ग पर तो नागरिकों का कब्जा हो गया। परन्तु अधिकारी, व्यापारी और नागरिक सब मिलकर सोचने लगे कि सरकारी जर्मन सैनिक नगर में पड़े हैं। वह अवश्य हा। बगड़ खड़े होंगे और लूट-मार शुरू कर देंगे। व्यापारियों ने कहा कि हम तीन लाख रुपया तक सैनिकों की जेबों में भरने को तैयार हैं। उन से कहा जाय कि वे अपना लें और शहर छोड़कर चले जायें। जर्मन-सैनिकों ने वाचार के एक चौक में पारो और गाड़ियों और वारों की दीवार खड़ी कर के

लड़ने की तैयारी करती थी। दुर्ग पर से सुलह का सफेद झण्डा हिलाया गया। दोनों पक्ष के प्रतिनिधि आकर सौदा करने लगे। व्यापारी पुल पर खड़े होकर अशर्कियों से भरी थैलियों सैनिकों की दिखा रहे थे। सैनिकों के मुँह में पानी भरने लगा। कहने लगे कि यदि हमारे अफसर सन्धि करने को तैयार नहीं होंगे तो हम उन्हें मार डालेंगे। इतने में शेल्डनदी पर से आरेञ्ज के जहाजी बेड़े ने आकर गोलियों दागीं। जर्मन सैनिक ऐसे घबराये कि व्यापारियों के रुपये मिलने का विचार तो दूर रहा अपना असबाब और हथियार भी छोड़कर भागे। दुर्ग पर देश-भक्तों का अधिकार हो गया। १२ वर्ष के कठिन समय के बाद आज पहली बार एण्टवर्प नगर का विदेशी सेना के प्लेग से पिण्ड छुटा। दस हजार आदमियों, स्त्रियों और बच्चों ने दिनरात काम कर के जुल्म की काठी की तरह एण्टवर्प की पीठ पर कसे रहने वाले इस दुर्ग को ज़रा सी देर में तोड़-फोड़ कर मिट्टी में मिला दिया। फ़्लैट के लोगो ने भी एण्टवर्प की देखा-देखा अपने यहाँ का दुर्ग नष्ट कर डाला। डान जान को इन सब समाचारों से बड़ा दुःख पहुँचा। पहिले उसने पंचायतों को लिखा कि—“देश की सारी सेना और दुर्ग मेरे हाथ में आ जाना चाहिए। फ़्लैट के समझौते पर आरेञ्ज अमल नहीं करता है। उससे अमल करवाना चाहिए। यदि वह न माने तो पंचायतों को उससे युद्ध करने में मेरी सहायता करनी चाहिए। मैं पंचायतों से समझौता करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। यदि मेरे चले जाने से पंचायतों को सन्तोष हो जाय तो मैं देश छोड़ कर चले जाने को भी तैयार हूँ।” लेकिन डान जान पर

से पचायतों का सारा विश्वास उठ चुका था। लेपाण्टो के विजेता की तीक्ष्ण तलवार आरेञ्ज की बुद्धि के सामने कुछ काम नहीं करती थी। डान जान ने नामूर और एण्टवर्प के किलों पर अधिकार जमाने की चेष्टा करके पचायतों के दिल में यह विश्वास बैठा दिया था कि उमका मन मैला है। पचायतों को तो पता नहीं था कि डानजान इंग्लैण्ड पर हमला करने की ताकत में है। इसलिए उसके जर्मन सैनिकों को देश में रोक रखने और उनके अधिकारियों से गुप्त मन्त्रणायें करने पर उन्हें सन्देह होता था। जब डान जान एव एस्कोवाडो द्वारा फिलिप को भेजे गये तथा डान जान के जर्मन सेना के अधिकारियों को लिखे हुए पत्र, जो आरेञ्ज के हाथ आ गये थे, पचायतों के सामने रखे गये तब तो पचायतों का रहा सद्दा विश्वास भी उठ गया। पचायतों ने डान जान के धृष्टतापूर्ण पत्र का बहुत रूखा उत्तर लिख दिया—“जर्मन सेना और सब विदेशी अधिकारियों को तुरन्त देश से निकाल दीजिए। आपके पत्र जो हमारे हाथ में हैं उनसे पता चलता है कि आप कितने नेकनीयत हैं और हम आप पर कितना विश्वास कर सकते हैं। दुर्ग आपके हाथ में न सौंपने का हमारा निश्चय सर्वथा नचित है। महाराज फिलिप और सनातन धर्म पर हमारी पूर्ण श्रद्धा है। आप जायें तो हमारी प्रार्थना है कि महाराज आपके स्थान पर किसी ऐसे मनुष्य को ही भेजे जिसकी रगों में असली शाही खान्दान का खून हो। इस पत्र को पाश्चर और असली शाही खान्दान का रक्त हा' शब्दों को जिसने उसकी घोषित माँ पर छीटे ये पढ़कर, डान जान क्रोध से जल उठा। परन्तु अशक्त था। छट-

द्वच प्रजातंत्र का विकास

पटाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता था ? अपने बनाये हुए जाल में वह आप ही फँस गया था । जितने हाथ पैर चलाता था उतना ही और फँसता जाता था । आरेख उसको नष्ट कर डालने की घात में था ।

आरेञ्ज का उत्थान

पचायतों ब्रूसेल्स में बैठीं डान जान से समझौते के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार कर रहीं थीं। लोगों ने दवाव डालकर पचायतों से आरेञ्ज को ब्रूसेल्स आकर सलाह देने का बुलावा भिजवा दिया। आरेञ्ज ने ११ वर्ष से ब्रूसेल्स में कदम नहीं रक्खा था। उसकी वहाँ जाकर मित्रों से मिलने की बहुत इच्छा थी। परन्तु उसने ब्रूसेल्स में आया हुआ पत्र हालैण्ड और जेलैण्ड की पंचायतों के सामने रख कर वहाँ जाने के सम्बन्ध में उनकी सलाह माँगी। आरेञ्ज की स्त्री और पंचायतों ने बहुत मुश्किल से डरते-डरते उसे ब्रूसेल्स जाने का इजाजत दी। क्योंकि इसी नगर में आरेञ्ज के सबसे प्रिय और शक्तिशाली मित्रों के सिर उतारे गये थे। हालैण्ड और जेलैण्ड का पचायतों का आरेञ्ज पर बड़ा स्नेह था। उन्होंने आज्ञा निकाली कि प्रान्त भर के गिरजों में रोज आरेञ्ज की अनुपस्थिति में उनकी मङ्गल-कामना के लिए प्रार्थनायें होती रहें। ब्रूसेल्स देश की राजधानी और वायसराय के रहने की जगह थी। परन्तु वहाँ देश से निकाले हुए बागी, विद्रोही और अराजक शहजादे का बड़ा उत्साह-पूर्ण स्वागत हुआ। आधा शहर कई मील आगे खड़ा 'पिता विलियम' की जय बोल रहा था। विलियम के जीवन में यह सब से अभिमान-पूर्ण दिवस था। सरकार ने उसे विद्रोही ठहरा कर देश निकाले की सजा दे दी थी।

परन्तु सरकारी वायसराय नामूर के दुर्ग में विरा पड़ा था और राजधानी आँखें विछाकर विद्रोही विलियम का स्वागत कर रही थी। २३ सितम्बर को उमका वूमधाम से ब्रसेल्स में घुम आना प्रजा की विजय थी। आरेञ्ज प्रजा के अधिकारों के लिए लड़ रहा था। वह चाहता था कि देश के शासन का सारा अधिकार यथा-पूर्व सर्वदेशीय पंचायत के हाथ में रहे। पंचायतों द्वारा निर्वाचित की हुई कार्यकारिणी 'स्टेट कौंसिल' गामन चलाये। राजा का पंचायतों पर नाम मात्र का अधिकार रहे। फिलिप अपने व्यवहार के कारण नेदरलैण्ड का राजा कहलाने का अधिकारी नहीं रहा था। विलियम स्वयं ताज पहिनने को तैयार नहीं था। आरेञ्ज की नदर में फ्रान्स का ड्यूक एलेन्ड्रौन ही एक ऐसा मनुष्य था जो नेदरलैण्ड का राजा बनाया जा सकता था। ब्रसेल्स में घुसते ही पहला काम आरेञ्ज ने यह किया कि पंचायतों से कहा कि सरकार से मन्धि होना असम्भव है, इसलिए डॉन जॉन से पत्र-व्यवहार बन्द कर दिया जाय। जो प्रतिनिधि पंचायतों की ओर से नामूर गये हुए थे, उन्हें पंचायतों ने वापिस बुला लिया। जब डान जान को इस सचका पता चला तो उसने कहा कि यह तो सीधी-सादी लड़ाई की घोषणा है। वास्तव में बात भी यही थी। पंचायतों ने सरकार को सिर्फ तीन दिन का भौका दिया था। डान जान ने उन सब पुराने अनुभवी सैनिकों का लौट आने के बुलावे भेज रखे थे जो कुछ ही दिन पहले बड़ी मुश्किल से नेदरलैण्ड छोड़ कर चले गये थे। इन सैनिकों की टोलियों पर टोलियाँ आ-आकर डान जान के भण्डे के नीचे एकत्र होने लगी थीं। पंचायतों युद्ध की घोषणा कर चुकने के बाद सर-

कार को यदि अधिक समय देती तो बड़ी मूर्खता करती। जनता आरेञ्ज के नाम पर जान देता थी। जनता के जोर देने पर सरदारो ने आरेञ्ज को ब्रसेल्स मे बुला तो लिया था, परन्तु वे सब हृदय मे उससे जलते थे। एअरशाट इत्यादि प्रजा के भय से आरेञ्ज के सामने सिर झुकाते थे। परन्तु उनके हृदय पर साँप लोटता था। सरदारों ने आरेञ्ज से अपना पिण्ड छुड़ाने के लिए एक चाल चली। उन्हें भय था कि कहीं आरेञ्ज स्वयं नेदरलैण्ड का राजा न बन बैठे। इसलिए उन्होंने जर्मनी के नये शाहशाह रुडल्फ के भाई मैथियस को नेदरलैण्ड आकर राजा बनने का चुपचाप बुलावा भेज दिया। मैथियस का यह भी लालच दिया गया था कि नेदरलैण्ड पर अधिकार जमते ही फिलिप तुमसे अपनी लडकी का विवाह कर के नेदरलैण्ड खुशी से दहेज में दे देगा। मूर्ख मैथियस भी इन हवाई किंन पर तुरन्त ही अधिकार जमा लेने के इरादे से एक दिन रात को चुपचाप अपने भाई शहंशाह जर्मनी को सोता छोड कर अकेला ही भाग खडा हुआ। उसने न तो बुलावा देने वाले सरदारो की शक्ति का ही कुछ विचार किया और न यह भी सोचा कि नेदरलैण्ड पर अधिकार जमाने का चेष्टा में यूरोप के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ विलियम, प्रख्यात योद्धा डान जान, तथा शक्तिशाली क्रोधी फिलिप का सामना करना पडेगा। विलियम आरेञ्ज ने बडी दूरदर्शिता से काम लिया। उसने देखा कि मैथियस को बुलावा किसी न किसी तरह पहुँच ही चुका है। अब मैथियस के नेदरलैण्ड आने पर यदि उसका स्वागत न करके अपमान किया जायगा तो जर्मनी के सम्राट और सारे जर्मन सरदार नेदरलैण्ड के शत्रु बन

जाँयेंगे। इसलिए मैथियस के आने पर वह स्वयं सेना लेकर मैथियस का स्वागत करने गया। जनता आरेञ्ज के अतिरिक्त अन्य किसी के हाथ में अधिकार देना नहीं चाहती थी। लोगों ने सरदारों की चाल व्यर्थ करने के लिए आरेञ्ज को ब्रवेण्ट का 'रूवार्ड' चुन लिया, ब्रवेण्ट प्रान्त की राजधानी भी ब्रसेल्स ही था। परन्तु ब्रसेल्स में स्वयं वायसराय रहता था इसलिए ब्रवेण्ट प्रान्त का कोई गवर्नर नियत नहीं किया जाता था। यह प्रान्त वायसराय के ही अधिकार में समझा जाता था। 'रूवार्ड' को प्रान्त के शासन चलाने का सारा अधिकार होता था। इस पदाधिकारी को स्वाधीन शासक (Dictator) से भी अधिक सत्ता होती थी। आरेञ्ज ने पहिले तो यह पद स्वीकार नहीं किया। परन्तु पीछे जब बार-बार जोर दिया गया तो उसने आखिरकार रूवार्ड बनना स्वीकार कर लिया। जनता ने २२ अक्टूबर को आरेञ्ज को धूम-धाम से 'रूवार्ड' चुना और खूब आनन्दोत्सव मनाया। फ्लैण्डर्स प्रान्त की पचायतों ने भी उसे कई बार अपना सूबेदार चुना था। परन्तु आरेञ्ज ने यह पद लेने से हमेशा इन्कार कर दिया था। हालैण्ड और जेलेण्ड उसपर जान देते ही थे। ब्रवेण्ट और फ्लैण्डर्स भी उसे अपना शासन सौंप चुके थे। देश की राजधानी ब्रसेल्स आरेञ्ज पर प्रेम की वर्षा कर रही थी। वह चाहता तो जलने वाले सरदारों का भय सच्चा करके स्वयं राजा बन सकता था।

इसी समय सरकार की तरफ से एअरशॉट फ्लेण्ट का गवर्नर नियुक्त हुआ। डॉन जॉन के दल की हार हो जाने के बाद से एअरशॉट आरेञ्ज की तरफ हो गया था। परन्तु सब लोग जानते

थे कि एअरशाट बड़ा खुशामदी है। मैथियस को नेदरलैण्ड में बुलाने वाले दल का नेता समझ कर लोग उसे बहुत धृणा करते थे। एअरशाट का गवर्नर बनाया जाना भेएट वालो को असह्य हो गया। उसके भेएट म कदम रखते ही नगर में बलवा हो गया। रायहोव नाम के एक वीर युवक सरदार ने जो आरेख का बड़ा भक्त था, अपने बहादुर साथी एक दूसरे नौजवान सरदार इन्वीज की सहायता से एअरशाट को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों नौजवान प्रजातंत्र राज्य का स्वप्न देख रहे थे। उन्होंने सोच रक्खा था कि नेदरलैण्ड के प्रान्तों को मिला कर स्वीच्चर-लैण्ड की भांति प्रजातन्त्र की स्थापना करेंगे। अपने को बुद्धिमान समझने वाले लोग इन्हें पागल और गप्पी कहा करते थे। परन्तु जनता पर इन दोनों का बड़ा प्रभाव था। 'खूनी कचहरी' का मेम्बर हसेल—जो ऊँघ से चेत-चेत कर फॉसी-फॉसी चिल्ला उठता था आजकल भेएट में रहता था। उसकी स्त्री के वचन पूरे हुए। इसी बलवे में लोगों ने उसे भी जेल में डाल दिया और पीछे से पकड़ कर फॉसी पर लटका कर मार डाला। आरेख ने भेएट वालों के पास सन्देशा भेजा कि जिन मनुष्यों को कैद कर लिया गया है उन्हें तुरन्त छोड़ दिया जाय। एअरशाट को तो लोगों ने छोड़ दिया परन्तु और किसी को न छोड़ा गया। इस बलवे ने फ्लैण्डर्स में क्रांति का श्री गणेश कर दिया देश भर में बड़ा प्रभाव पड़ा। फ्लैण्डर्स की चारों पचायतों की प्रार्थना पर कुछ दिन बाद आरेख स्वयं भेएट आया। लोगों ने बड़ी धूमधाम से नाटक और दावतें इत्यादि करके उसका स्वागत किया। आरेख ने सब प्रान्तों का परस्पर एक नया समझौता

कराया। देशभर के सनातन धर्मी और नवीन-पन्थ पर चलने वाले मनुष्यों ने एक दूसरे के धर्म की रक्षा करने और मिलकर शत्रु से लड़ने की कसम खाई। यह बड़ी भारी बात हुई। पिछले समझौते में नवीन-पन्थ वालों को केवल अपने धर्म पर चलने की इजाजत दी गई थी। इस समझौते में दोनों पन्थों की बराबर हैसियत मान ली गई। मारा देश शत्रु से लड़ने के लिए एक-मत हो गया। परन्तु दुर्भाग्य से यह एकता एक मास भी कायम न रही। गेम्ब्रलूस के युद्ध के बाद फिर कभी नेदरलैंड एक न हुआ। सात प्रान्तों ने मिलकर एक दृढ़ प्रजातन्त्र की स्थापना की, परन्तु शेष प्रान्त सदियों तक किसी न किसी के गुलाम ही बने रहे। और अभी हाल में हमारे समय में आकर स्वतन्त्र हो पाये। ७ दिसम्बर सन १५७७ ई० को सार्वजनिक पंचायतों ने वाका-यदा घोषणा निकाल कर डान जान को देश का वायसराय मानने से इन्कार कर दिया। घोषणा में कहा गया कि डान जान शान्ति-भंग करने वाला देश का शत्रु है। जो उसकी सहायता करेगा देशद्रोही समझा जायगा और उसकी जायदाद जन्मी की फहरिस्त में दर्ज कर ली जायगा। देश में युद्ध कुछ दिनों के लिए सो गया था। उसे फिर जगाया गया। आरेञ्ज अपनी राजनीति में सफल हुआ। उसने ब्रेडा की काफ्रेन्स समाप्त होते समय कहा था—“इस सशयात्मक शान्ति से युद्ध अधिक लाभदायक है। और तभी से देश को युद्ध के मार्ग पर ले जाने का वह बराबर प्रयत्न कर रहा था।

महारानी एलिजबेथ को भय हो चला था कि कहीं एलेन्क्रौन का नेदरलैंड पर अधिकार हो गया, तो फ्रान्स बड़ा शक्तिशाली

हो जायगा । इसलिए उसने ७ जनवरी को पत्र लिखकर आरेञ्ज को सहायता देना स्वीकार कर लिया । महारानी एलीज़बेथ के नेदरलैण्ड को सहायता करने के लिए तैयार हो जाने से फिलिप और डान जान और भी चिढ़ गये थे । आरेञ्ज की सलाह से पचायतो ने एक मसविदा तैयार कर लिया था । उसमें तीस शर्तें थीं । इन शर्तों के अनुसार राज्य शासन की व्यवस्था करने और कानून बनाने इत्यादि का अधिकार सार्वजनिक पचायतों और उनके द्वारा निर्वाचित की हुई 'स्टेट कौंसिल' को दिया गया था । वायसराय के हाथ में दस्तखत करने के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं थी । बिना पंचायतों की सम्मति लिये वह कोई काम नहीं कर सकता था । इन शर्तों पर हस्ताक्षर करने और पचायतों और फिलिप के प्रति सच्चे रहने की शपथ लेने पर ही पचायतों मैथियस को वायसराय मानने के लिए तैयार थीं । फिलिप को राजा मानना तो केवल एक ढोंग था । मैथियस बेचारा बड़ी बड़ी आशायें लेकर आया था परन्तु उसको कुछ भी अधिकार या सत्ता नहीं दी गई । आरेञ्ज को मैथियस का नाप्रक और ब्रवेण्ट का रूवार्ड चुना गया था । आरेञ्ज जो चाहता था वही होता था । मैथियस तो केवल उसके तैयार किये हुए हुकमों पर हस्ताक्षर करने वाला झुर्क था । खैर । मैथियस ने शर्तें मान लीं और १८ जनवरी को धूम-धाम से वह वायसराय बना दिया गया ।

डान जान ने जर्मनी के सम्राट को एक क्रोध-पूर्ण पत्र लिखा कि 'आप तो महाराज फिलिप के कुटुम्बी हैं । आप-को उनके लाभ-हानि का विचार रखकर काम करना उचित है । आपको यह

भी सोचना चाहिए कि यदि आज उनकी प्रजा सिर उठा रही है, तो देखा-देखी कल आपकी प्रजा भी आपके विरुद्ध सिर उठाएगी। स्वतन्त्रता उड़कर लगने वाली बीमारी है। राजाओं को चाहिए कि जहाँ प्रजा सिर उठाये वहीं सब मिलकर प्रजा को कुचलने की कोशिश करें। मुझे आशा है आप उन सब बातों का विचार करके मैथियस को वापिस जर्मनी बुला लेंगे। फिर २५ जनवरी को डान जान ने फ्रेच, जर्मन और फ्लेमिश तीन भाषाओं में एक घोषणा निकाली कि 'मैं प्रान्तों को गुलाम बनाने नहीं आया हूँ, उनकी रक्षा करने आया हूँ। लेकिन महाराज फिलिप का अधिकार और कुचले हुए सनातन-धर्म की प्रधानता फिर से दृढ़ करने का मेरा इरादा है। जो नागरिक और सैनिक इस कार्य में सहायता देने के लिए मेरे झण्डे के नीचे आयेंगे उनके सारे पिछले अपराध क्षमा कर दिये जायेंगे और विद्रोहियों से उनकी रक्षा की जायगी। नेदरलैण्ड से गई हुई सेना का अधिकांश लौटकर उसके पास लक्जमबर्ग में एकत्र हुई थी। पुराने सरदार मेन्सफील्ड, मौरडेगन, मेण्डोज़ा सेनायें ले-ले कर फिर आगये थे। डान जान का बचपन का तथा लेपाएटो के युद्ध का साथी अलेक्जेंडर परमा भी इटली और स्पेन से कई छटी हुई सेनायें लेकर आ पहुँचा था। अलेक्जेंडर का, चार्ल्स-पुत्र वीर डान जान का दिन रात के अपमान और चिन्ता के कारण मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बड़ा दुःख और आश्चर्य हुआ। डान जान की सेना सब मिलाकर लगभग बीस हजार के हो गई थी। सारे सैनिक और अफसर अनुभवी थे। सेनापति डान जान यूगोप में प्रख्यात था। देशभक्तों की सेना की सख्या भी लग-भग

इतनी ही थी। परन्तु उसकी व्यवस्था बहुत खराब थी। आरेंज के हाथ में अधिकार आजाने से अन्य सरदार उससे जलते थे। आरेंज यथासभव उन्हें खुश और मिलाये रखना चाहता था। सरदारों को खुश रखने के विचार में ही उसने कुछ सरदारों को ऐसे पद पर भी नियुक्त कर दिया था जिनके वे अयोग्य थे। सरदार लेलेन आरेंज की पैदल सेना का सेनापति था मगर लेलेन मार्गरेट के जादू में पड़ कर एलेन्कौन का हो रहा था। रावर्ट मीलन सवारों का सेनापति था। परन्तु कुछ ही दिन पहले वह डान जान का दूत बन कर एलिजबेथ के पास गया था। जब युद्ध के लिए सेना इकट्ठी हो रही थी तो ये दोनों सरदार तोपखाने के सेनापति डेवामोटे को साथ लेकर एक विवाह में शरीक होने का वहाना करके चले गये। नामूर से दस मील दूर गेम्बलूर्स में देशभक्तों का स्पेन वालों से युद्ध हुआ। अलेक्जेंडर परमा ने केवल ६०० जवानों को लेकर अचानक ऐसा छापा मारा कि देशभक्तों के आठ दस हजार आदमियों को देखते-देखते जमीन पर सुला दिया। देशभक्तों की सेना घबरा कर भाग खड़ी हुई। अलेक्जेंडर का एक आदमी भी नहीं मरा। ऐसी एकतर्फी विजय पाना सैकड़ों लड़ाईयाँ में लड़े हुए स्पेन के सैनिक और युद्ध-कला में प्रवीण अलेक्जेंडर परमा ही का काम था।

इसके बाद डान जान ने अन्य बहुत से छोटे-छोटे नगरों पर हमला किया और उनपर अपना अधिकार जमा लिया। गेम्बलूर्स की हार का समाचार सुनकर लोगों को सरदारों के दल पर बड़ा क्रोध होने लगा क्योंकि सरदारों की लापरवाही के कारण ही देशभक्तों को गेम्बलूर्स में हारना पड़ा था। फिर भी गेम्बलूर्स की

डच प्रजातंत्र का विकास

विजय और उसके परिणाम स्वरूप बहुत से छोटे-छोटे नगरों पर सरकारी अधिकार हो जाने से जितना सरकार को फायदा नहीं हुआ उतना देशभक्तों को हुआ। एम्सटर्डम अभी तक देशभक्तों के हाथ नहीं आया था। जब से हालैण्ड और जेलेण्ड पर आरेञ्ज का अधिकार हुआ था, तभी से वह इस नगर को मिला लेने का प्रयत्न कर रहा था। गेम्बलर्स की हार की खबर सुनकर एम्सटर्डम भी आरेञ्ज की तरफ हो गया। जिन छोटे छोटे नगरों पर सरकारी अधिकार हो गया था वे सब मिलकर भी एम्सटर्डम के बराबर उपयोगी नहीं थे। इसी बीच नोयरका-र्मस का भाई डेसेलेस स्पेन से फिलिप का सन्धि सन्देश लेकर आरेञ्ज के पास आया। परन्तु उन्हीं पुरानी बातों—राजा का असाम अधिकार और सनातन धर्म की प्रबलता—पर इस पत्र में भी जोर दिया गया था। सन्धि की कोई सूरत दिखाई नहीं देती थी। आरेञ्ज ने इंग्लैण्ड से कुछ रुपये का प्रबन्ध कर लिया था, नई सेना खड़ी करती थी। परन्तु अब की बार भी उसने देश-भक्त सेना का अधिकार फिर एअरशाट, शैम्पनी, वौस्सू, लेलेन जैसे सरदारों के हाथ में देने की गन्ती की थी। बहुत दिनों से डान जान फिलिप से रुपया और सेना भेजने की बराबर ताकीद कर रहा था। अन्त में उसने निराश होकर फिलिप को लिखा कि अब शीघ्र ही नेदरलैण्ड पर आरेञ्ज का राज्य कायम हो जाने में कुछ सन्देह नहीं रहा है। तब फिलिप ने तीस हजार पैदल, सोलह हजार सवार और तीस तोपें एकत्र करने के लिए स्पेन से १९ लाख डालर भेजे। जुलाई में हिन्दुस्तान से जहाज़ लौटने पर और भी धन भेजने का वचन

दिया। इधर डान जान ने नेदरलैंड में घोषणा कर दी थी कि पचायतों की बैठक न की जाय और न पचायतो के नियत किये हुए अधिकारियों की बात सुनी जाय। परन्तु ऐसा घोषणाओं की नेदरलैंड में अब कौन परवाह करता था? पचायतो ने खुल्लम खुला विद्रोह प्रारम्भ कर दिया था।

सेण्ट एल्डगोएडे को जर्मनी में खबर मिली कि स्वीडन के डच क चार्ल्स से एम्सटर्डम पर हमला करने के लिए कुछ जहाज भेजे गये हैं। उसने तुरन्त ही यह खबर एम्सटर्डम के मित्रों के पास भेज दी। सेण्ट के समझौते के बाद से एम्सटर्डम में नवीन दल की सख्या भी बहुत बढ़ गई थी। परन्तु अधिकारी अभी तक सब सनातनी थे। एम्सटर्डम में रहने वाला विलियम वारडेज नाम का एक नौजवान—जो एक पुराने उच्च अधिकारी का लड़का था—आरेञ्ज तथा नवीन-पन्थ का बटूर अनुयायी था। उसने बहुत दिनों से सनातनी अधिकारियों और सनातनी पण्डों, पुजारियों को शहर से निकाल देने का निश्चय कर रक्खा था। एम्सटर्डम पर हमला होने की खबर सुनते ही उसका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। वारडेज अच्छी तरह जानता था कि शहर विद्रोह करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसने गवर्नर सोनोय से मिलकर यह प्रवन्ध कर लिया था कि छूटे हुए कुछ जवान मकानों में छिपे बैठे रहें और आवश्यकता पड़ने पर क्रान्ति-कारियों की सहायता करने के लिए फौरन बाहर निकल आयें। २४ मई को उसने सोनोय से अपने लिए एक कवच भी मंगा लिया था। २८ मई के दिन चार साथियों को लेकर वारडेज मजिस्ट्रेट की दोन्मल से पहुँचा और जनता की शिकायतों के

सम्बन्ध में बात चीत करने लगा । दोपहर हुई । एक साथी ज़रा देर के लिए बाहर छज़्जे पर चला गया । वहाँ उसने अपना टोप सिर पर से उतार कर फिर निर पर रख लिया । शहर में छिपे हुए क्रान्तिकारियों को क्रान्ति करने के लिए यह संकेत था । थोड़ी ही देर में एक मल्लाह हाथ में मूण्डा लिये हुए शहर की सडको पर दौड़ता और चिल्लाता नज़र आया—“जो आरेज़ को प्रेम करते हों मेरे साथ आवें ।” चारों ओर से सैनिक और नागरिक हथियार ले-ले कर निकल पड़े । वारडेज़ ने सब अधिकारियों, पण्डों और पुजारियों को तुरन्त कैद कर लिया और उन्हें एक जहाज़ में भरकर शहर के बाहर ले जाकर छोड़ दिया । इन बेचारों ने तो जहाज़ों पर चढते समय समझा था कि हम लोगो को कुत्तों की तरह पानी में डुबा-डुबा कर मार डाला जायगा । परन्तु बिना किसी का रक्तपात किये ही एन्सटर्डम में क्रान्ति सफल हो गई । वारडेज़ के दल ने अपनी कौंसिल चुन ली । वीर वारडेज़ भी कौंसिल का एक सदस्य चुना गया । इसी प्रकार की घटना हारलेम में भी हुई । परन्तु वहाँ कुछ रक्तपात भी हो गया ।

डॉन जॉन का करुण अन्त

दोनों पक्ष की सेनायें एकत्र होकर एक दूसरे की ओर बढ़ रही थीं । डान जान की सेना करीब तीस हज़ार थी । उसमें अधिकतर स्पेन और इटली के सैनिक थे । देशभक्तों की सेना २०,००० के लगभग थी । मड़ारानी एलिजबेथ ने इस भय से कि फरासीसी ड्यूक एलेन्कौन का नेदरलैण्ड पर अधिकार न हो जाय, स्पेन के क्रोध की चिन्ता न करके आरंभ का सहायता देना स्वीकार कर लिया था । सरदार जान कैसीमीर के साथ उसने इंग्लैण्ड से कुछ सेना और रुपया भेजा था । मगर जान कैसीमीर जुटफेन में पड़ा-पड़ा पचायतों से रुग्ण मोंग रहा था । ड्यूक एलेन्कौन जो अपने सुभीते के अनुसार धर्म-सिद्धान्त और विचार सब कुछ बदल लिया करता था नेदरलैण्ड पर दांत लगाये बैठा था । आरंभ ने भी उम इसलिए लालच दे रक्खा था, जिससे कि एलिजबेथ डरकर नेदरलैण्ड की फिलिप के विरुद्ध सहायता करने पर राजी हो जाय । एलिजबेथ को नेदरलैण्ड पर फरासीसियों का अधिकार हो जाना असह्य था । इसलिए वह एलेन्कौन से सारे इरादे चौपट करने का पूरा प्रयत्न कर रही थीं आखिरकार उसने जान कैसीमीर के साथ फौज भा भेज दी । मगर एलिजबेथ में अपने प्रेमियों से अठखेलियाँ करने की बुरी आदत थी । एलेन्कौन उस पर

द्वच प्रजातंत्र का विकास

प्रेम रखता था इसलिए एलिजबेथ भी ऊपर से ऐसा व्यवहार रखना चाहती थी, जिममे कि रग में भंग न पड़ जाय। एलेन्कौन की वहिन मार्गरेट ने नेदरलैण्ड में जाकर अधिकारियों पर जादू डालकर हेनार्ल्ट प्रान्त को एलेन्कौन के लिए द्वार खोल देने को तैयार कर लिया था। जिन सरदारों ने ईर्ष्यावरा आरेञ्ज के अधिकारों में बाधा डालने के लिए मैथियस को बुला भेजा था, उनकी आशायें पूरी नहीं हुई थीं क्योंकि आरेञ्ज ने चालाकी से उल्टा मैथियस पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसलिए इन सरदारों ने अबकी बार ड्यूक एलेन्कौन को बुलावा भेजा। गेम्बलर्स की हार के बाद एलेन्कौन ने पचायतों के पक्ष में के विरुद्ध नेदरलैण्ड को सहायता करने का सन्देशा भेजा था। चारों तरफ मैदान साफ देखकर आखिरकार एलेन्कौन आगे बढ़ा और मौन्स में पहुँच कर डेरा डाल दिया। पचायतो औरों एलेन्कौन में समझौते की शर्तें होने लगीं। मैथियस को त पंचायतें वायसराय मान चली थीं और उसी की मौजूदगी में एलेन्कौन में बात-चीत करने लगी थीं इसलिए मैथियस को बड़ा बुरा लगा। उसके आसू निकल आये। उधर एलेन्कौन के नेदरलैण्ड में घुस पडने से एलिजबेथ भी घबरा उठी। उसने पचायतो को धमकी दी कि मैं अपनी सहायता लौटा लूंगी और स्वयं नेदरलैण्ड पर हमला करूंगी। १३ अगस्त को आरेञ्ज ने २३ शर्तें एलेन्कौन के सामने रख कर उत्तर पर भी उसी चाल से अधिकार जमा लिया जिस प्रकार मैथियस पर जमा लिया था। अधिकार सब पचायतो और आरेञ्ज के हाथ में रहे। एलेन्कौन को एक बड़ा लम्बा चौड़ा 'स्पेन वालो और उनके साथियों के

अत्याचार से नेदरलैण्ड की स्वाधीनता की रक्षा करने वाला अर्थहीन खिताब देकर प्रसन्न कर दिया गया । इंग्लैण्ड के वचाव के लिए भी एक शर्त यह करा ली गई कि ड्यूक इंग्लैण्ड के विरुद्ध कोई कार्य न करेगा । एलेन्कौन को वायसराय का खाली पद दे दिया गया । अधिकार कुछ नहीं दिये गये । हाँ । यह आशा अवश्य दिलाई गई थी कि यदि पचायतों फिलिप के स्थान से किसी दूसरे राजा को चुनना चाहेंगी, तो पहले एलेन्कौन के सम्बन्ध में विचार किया जायगा । अगस्त के अन्त तक डान जान से समझौता कर लेने की मीयाद थी । डान जान के सामने समझौते के लिए जो शर्तें रखी गई थीं वे ये थीं—

“डान जान सारे दुर्ग पचायतों के हवाले कर दे और अपनी सारा सेना और साथियों को लेकर देश से चला जाय । जिन शर्तों पर मैथियस वायसराय बनाया गया उन शर्तों पर मैथियस ही वायसराय कायम रहे । धर्म के सम्बन्ध में सारे अधिकार पचायतों को रहें । सब कैदियों को छोड़ दिया जाय । निर्वासितों को लौट आने की इजाजत दे दी जाय । जिन लोगों की जायदादें जब्त कर ली गई हैं, उनको वे सब लौटा दी जायें । मैथियस के मरने पर नया वायसराय पञ्चायत की राय से नियुक्त किया जाय । डान जान ने पहले की तरह क्रोध तो न दिखाया परन्तु इन शर्तों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । उसका स्वास्थ्य बिल्कुल विगड रहा था । एस्केवेडो की हत्या के बाद से तथा फिलिप का अपनी ओर रुख विगडा हुआ देख कर वह बड़ा दुःखी रहने लगा था । उसका सारा जांश ठण्डा पड गया था । पहिले की तरह क्रोध दिखाने की शक्ति नहीं रही । जून में नवीन-

पन्थ के गिरजा के प्रतिनिधियों को एक सभा हुई। उसमें आरंभ करने वालों के स्वतन्त्रता के मन्वन्व में अपने विचार लोगों को समझाये थे और बड़ा मुश्किल से उनको इस बात पर राजी किया कि दो-दो दिलों को अपने अपने वर्म पर चरने का एक सा अधिकार रहे। आरंभ वालों के स्वतन्त्रता चाहता था। परन्तु उसके अन्य सब साथी उसके इस उच्च सिद्धान्त को नहीं समझते थे। वे तो केवल नवीन-पन्थ के लिए स्वतन्त्रता चाहते थे। जहाँ-जहाँ उनका अधिकार हो गया था वहाँ के सनातन-वर्म के लोगों से धर्मिक स्वतन्त्रता छीन लेना चाहते थे। सेंट ऐडमंड गेड्डे तरु सनातन-धर्मियों को स्वतन्त्रता देने के विरुद्ध था। आरंभ के स्वभाई स्वतन्त्रता के युद्ध में काम आ चुके थे। केवल जान नसाऊ बचा था। उसने भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना किया था, और आखिरकार अपना घर-बार छोड़ कर एक आरंभ लैण्ड, जेलैण्ड, यूटरेक्ट और दूसरी ओर प्रॉन्सिजन और फ्लोस लैण्ड के बीच में बसे हुए अत्यन्त मार्के के प्रान्त जेल्डरलैण्ड का गतनेर होना स्वीकार कर लिया था। इस प्रान्त की वह अन्त तक बड़ी वीरता से रक्षा करता रहा था। परन्तु उसका मत भी सनातनियों को स्वतन्त्रता देने के विरुद्ध था। इधर नवान दल के लोग आरंभ से उसके सनातनियों को स्वतन्त्रता देने का प्रयत्न करने के कारण असन्तुष्ट थे। इधर शैम्पनी इत्यादि सनातन-धर्मि सरदार भी उससे नाराज थे कि नवीन-पन्थवालों को हर जगह स्वतन्त्रता क्यों दे दी गई है। शैम्पनी ने ब्रसेलन में अधिकारियों के सामने सनातन-धर्मियों की ओर से स्वयं एक अर्जी पेश की। लोगों को जब इस अर्जी का पता चला तो वे

बड़े विगड़े। शैम्पनी ने अत्यन्त वारता से एग्टवर्ष की रक्षा करके देश की जो महान सेवा की थी, उसे वे क्षणभर में भूल गये। केवल इतना याद रक्खा गया कि शैम्पनी उस घृणित मनुष्य प्रेनविले का भाई है जिसने नेदरलैण्ड के गले पर छुरी चलाने में कोई कसर नहीं रक्खी थी। लोगो ने शैम्पनी को इसके साथियों-सहित पकड़ कर जेज मे ठूस दिया। आँरेञ्ज को जब यह समाचार मिला तो उसे बड़ा दुःख हुआ। ऐसी घटनाओं मे देश भक्तों के प्रति लोगो की श्रद्धा कम हाती थी। काम बनने के स्थान पर विगडता था।

डान जान का डेरा नामूर के निकट वूज नामी स्थान पर पड़ा था। जिस लेपाण्टों के महारथी ने नेदरलैण्ड मे आते ही आरेञ्ज को अभयदान देकर अपना कृपा-पात्र बनाने की अभिमान भरी बात कही थी, उन्ही आज ऐसी दयनीय दशा हो रही थी कि शत्रुओं को भी तरस आता था। फिलिप सुवर्ण के स्थान में शब्द भेजता था। इन शब्दों में से जितना सोना बेचारा डान जान खींच सकता था उतना सोना निकाल कर नेदरलैण्ड की क्रान्ति दवाने का प्रयत्न कर रहा था। उधर फिलिप उस पर अविश्वास करता था, इतर नेदरलैण्ड में लोग डान जान के नाम से घृणा करते थे। एम्केवेटो की हत्या ने उसके हृदय पर कड़ी चोट पहुँचाई थी। आरेञ्ज ने उसको साग राजनैतिक चालें तिरफत कर डाली थीं। बिना युद्ध किये डेरे भे पड़ा पड़ा वह जिन्दगी से आजिज्र आ गया था। अपने मित्रों को पत्रों में लिखता था—“भाई! तुम बड़े मजे में हो। मेरे चारों ओर तो इतने सकट, इतनी हाय-हाय दिन रात मची रहती है कि यदि

कोई और सूरत आराम मिलने की न हो तो कम्र में ही आराम मिल जाय। फिलिप को भी बेचारा बार-बार लिखता था कि मुझे यहाँ से वापस बुला लो। परन्तु न तो फिलिप उसे वापिस बुलाता था और न युद्ध के लिए सहायता ही भेजता था। चिंता का बुखार दिमाग में था ही, शरीर में भी हो आया। दस दिन तक डान जान चारपाई पर पड़ा पड़ा बकता रहा। ग्यारहवें दिन होश आया और प्राण निकल गये। जिस मकान में वह पड़ा था वह किसी ग़रीब की कभी झोपड़ी रही होगी। मकान में केवल एक ही कमरा था जो मालूम होता था वर्षों तक कबूतरखाना रहा था। झाड़-झूड़ कर परदे इत्यादि लगा कर किसी तरह मकान डान जान के रहने योग्य बना लिया गया था। तख्त और ताजों का स्वप्न देखने वाले डान जान के इस झोपड़ी में प्राण निकले। लाश का रंग कुछ काला पड गया था। हृदय त्रिन्कुल सूखा हुआ था। किसी-किसी का सन्देह था कि उसे ज़हर देकर मार डाला गया। क्या ठोक ? जिस फिलिप ने इतने लोगों का जाने लौं थीं उसने डान जान को भी ज़हर डिलवा दिया हो। परन्तु अधिक सम्भव यही मालूम पड़ता है कि डान जान के पडाव में जो विषम ज्वर की बीमारी फैल रही थी उसीमें उसके भी प्राण गये। तीन दिन बाद उसकी अन्त्येष्टि क्रिया की गई। नामूर के गिरजे में फिलिप का हुक्म आने तक उसकी लाश दफन कर दी गई। अलेक्जेंडर फारनीस परमा ने डान जान की यादगार का वहाँ पर एक पत्थर गाड़ दिया। वह पत्थर आज तक उस स्थान का परिचय देता है जहाँ 'सिंह खाक में मिल गया।' डान जान ने मरते समय इच्छा प्रगट की थी कि मेरी लाश मेरे पिता चार्ल्स

के निकट दफन की जाय। फिलिप ने उसकी यह इच्छा पूर्ण करन के लिए लाश स्पेन मँगवाई। फ्रांस ने केवल थोड़े से सिपाहियों को अपने देश से लाश लेकर गुजरने का इजाजत दी थी, उस समय के रिवाज के अनुसार फ्रांस में से लाश ले जाने पर जगह-जगह बहुत सा रुपया देना पड़ता था। मितव्ययी फिलिप ने लिखा कि लाश के तीन टुकड़े करके अलग-अलग बोरो में भर कर चुपचाप ले आओ। किसी को पता भी नहीं लंगगा कि लाश जा रही है। यूरोप के प्रसिद्ध बोर डान जान की लाश को इस घृणित और निन्दनीय ढंग से टुकड़े-टुकड़े करके बोरों में भर लिया गया और सैनिक जल्दी-जल्दी फ्रांस में से उसे लिए हुए निकल गये। दो वर्ष पहिले डान जान मूर-गुलाम का भेष धरे इसी फ्रांस में से आशा और उरसाह से भरा जा रहा था। स्पेन पहुँच कर फिलिप की मुलाकात के लिए लाश तारों से जोड़ कर खड़ी की गई। फिलिप का पत्थर का कलेजा भी इस भयानक दृश्य को देखकर दहल गया। अन्त में अपनी आखिरी इच्छानुसार आस्ट्रिया का डान जान चार्ल्स के निकट स्पेन में दफन दिया गया।

अलेक्जेंडर फारनीस

पॉपवॉ वायसराय आया । जिस पद पर डचेज परमा, एल्वा, रेकुइसीन्स, डॉन जॉन रह चुके थे उस पर अब अलेक्जेंडर फारनीस नियुक्त हुआ । अब तक जितने वायसराय आये थे, उन सबसे अलेक्जेंडर फारनीस कहीं योग्य था । उसकी उम्र इस समय केवल ३३ वर्ष की थी । अपने चचा डान जान और फिलिप के पुत्र डॉन कार्लोस की पैदाइश के एक-दो वर्ष इधर-उधर उसका जन्म हुआ था । बचपन से उसने उनके साथ ही शिक्षा पाई थी । पोप पॉप तृतीय का पौत्र ऑक्टोवो फारनीस, जो चार्ल्स का बड़ा विश्वासी सेना-नायक था, अलेक्जेंडर का पिता था और परमा की डचेज मार्गरेट, जो फिलिप के स्पेन चले जाने पर नेदरलैण्ड में पहली बार वायसराय नियुक्त हुई थी, उसकी माँ थी । लडाइयों जीत कर लौटे हुए पिता के हथियारों की मन्कार फारनीस ने पलने में सुनी थी । ११ वर्ष की उम्र में उसने चार्ल्स से सेण्ट क्विण्टेन के युद्ध में जाने की आज्ञा माँगी थी और जब चार्ल्स ने आश्चर्य चकित होकर मना कर दिया था तो खूब फूट-फूट कर रोया था । बीस वर्ष की अवस्था में पोर्न्युगाल की शहजादी मेरिया लुई से उसका विवाह हुआ था और समय पर मन्त न भी हुई थी । जवानी में राजधानी परमा में कुछ काम न होने से फारनीस रात को अकेला ही निकल जाया करता था और राह-

गीर सैनिकों और योद्धाओं से अन्धकार में छिप-छिपकर युद्ध किया करता था। जो योद्धा अपने बल के लिए परमा में मशहूर होता था उसे तो जाकर फारनीस प्रमत्त ही ललकारता था। एक दिन उसके इस निशाचार का भण्डा फूट गया। तब से वह रात को घर पर रहने लगा। पोप के मुसलमानों के विरुद्ध धर्म-युद्ध की घोषणा निकालने पर वह अपना माँ और स्त्री की प्रार्थनाओं और निहारों की परवाह न करके मुसलमानों से लड़ने के लिए लेपाएट में अपने चचा डॉन जॉन से जा मिला। वहाँ लेपाएटों के युद्ध में उसने बड़ा भयङ्कर लोहा लिया। अकेला ही तलवार लेकर तुर्कों के जहाज़ पर चढ़ गया। मुश्तफा वं को मार कर जहाज़ पर अधिकार जमा लिया और तुर्की का भण्डा नीचे फुका दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक उसे अपना जोर आजमाने का मौका नहीं मिला। फिर जब डॉन जॉन के पास सेना भेजने की जरूरत पड़ी तो वह तुर्न्त इटली से फौज लेकर पहुँचा। रोम्बलूर्स में केवल ६०० जवानों को लेकर वह शत्रु पर बाव की तरह ऐसा झगटा कि डेढ़ घण्टे के भीतर ही उसने आठ-दस हजार आदिमियों का जमीन पर छोट कर सुला दिया। लेपाएटों के युद्ध से चारों ओर डॉन जॉन की कीर्ति बहुत फैल गई थी। परन्तु अलेक्जेंडर फारनीस डॉन जॉन से कहीं अधिक योग्य सेनापति और अधिक नहीं तो बराबर का योद्धा था। राज-कार्य में तो उसमें डॉन जॉन से अधिक योग्यता होने में कुछ सन्देह ही नहीं था। डॉन जॉन की तरह वह क्रोध करके गाली-गलौज नहीं करता था। मौके पर फुफकारना, मौके पर फन समेटकर चुपचाप शत्रु को धोखा देने के लिए पड़े रहना, और

मौके पर डँक मारना फारनीस को खूब आता था। चालें चल-चल कर और चकर लगा लगा कर शत्रु को थकाने और छकाने में भी वह बडा सिद्ध हस्त था। किसी बन्दी रानी को तख्त पर बैठाने और उसका पति बनकर ताज अपने सिर पर रखने के आलसी स्वप्न देखने वाला मनुष्य फारनीस नहीं था। उमे मालूम था कि फिलिप ने उसे किस काम के लिए नेदरलैण्ड भेजा है। वह यह भी समझता था कि फिलिप के काम के लिए सब से अधिक उपयुक्त मनुष्य इस समय में ही हूँ। फारनीस नेदरलैण्ड चालों से खुले मैदान लडने नहीं आया था। जिस राजनीति में नेदरलैण्ड वालों ने थका-थका कर डान जान के प्राण ले लिये थे फारनीस उनके उसी खेल में उन्हें परास्त करने आया था। उसने आगे चलकर दिखा भी दिया कि वह युद्ध-विद्या में जितना कुशल है उतना ही धोखा देने, षडयन्त्र रचने, चालें चलने और छकाने की विद्या में भी होशियार है। यदि उसके मुकाबले में आरेञ्ज जैसा बुद्धिमान राजनीतिज्ञ न होता तो सारे नेदरलैण्ड को उसने सदा के लिए गुलाम बना लिया होता। धर्म में वह कट्टर सनातनी था। नये पन्थ को कोली-चमारो का पन्थ कह कर बड़ी घृणा करता था। उसका जीवन नियमित था। उसका कहना था कि खाना मैं केवल जीवित रहने के लिए खाता हूँ। कभी ही कोई ऐसा दिन जाता था जब उसे खाते से दो-चार बार किसी न किसी आवश्यक कार्य के लिए उठना न पडता हो।

फारनीस का नेदरलैण्ड से पहिले भी सम्बन्ध रह चुका था। इसका उसने आते ही पूरा-पूरा लाभ उठाना शुरू कर दिया। आरेञ्ज से जलने वाले सरदारों के, मैथियस और एलेन्कौन को

फँसाने के प्रयत्न असफल हो गये थे इसलिए वे चिढ़कर देश को वेच डालने पर तैयार हो गये थे । अलेक्जेंडर फारनीस के देश में घुसते ही ये लोग जा-जाकर उसकी खुशामदें करने लगे । बाहरी शत्रु के भय से देश में जो एकता हो गई थी वह शत्रु को नीचा दिखाने के बाद नष्ट हो गई थी । आपस का कलह, सनातनियों और सुधारकों का झगड़ा, दल-बन्धियों फिर शुरू हो गई थी । वलून प्रान्त के लोग सनातन-धर्म के कट्टर पक्षपाती थी । मेण्ट में सुधारकों की संख्या अधिक थी । जिस रायहोव ने बड़ी वीरता से एशरशाह को गिरफ्तार कर लिया था वही अब जनता पर अत्याचार करता फिरता था । रहसेल को तो उसने दाढ़ी नोच-नोचकर मार डाला था । इस्वीज़ भी बड़ा नीच और दलबन्दी के कीचड़ में फँसा हुआ निकला । अब वह भी आरंभ का पक्का दुश्मन बन गया । बहुत से सुधारक इस विश्वास पर कि देश में शान्ति हो गई है अपने-अपने निर्वासित स्थानों से लौट आये थे । परन्तु वलून लोगों के अत्याचार देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई । मेण्ट में धार्मिक स्वतन्त्रता को अधिक विस्तृत करने का प्रयत्न करने के वहाने सनातनियों की हड्डियाँ तोड़ी जा रही थी । एलेन्कौन ने मौस नगर को अपने हाथ में कर लेने के कई प्रयत्न किये थे । परन्तु वे सब असफल हुए थे उधर जान कैसीमीर मेण्ट में बैठा-बैठा विद्रोह कराने की चेष्टा कर रहा था । कुछ लोगों ने कैसीमीर को फ्लैण्डर्स का सूबेदार बनाने की बात भी चलाई थी । कैसीमीर यह समाचार सुनकर बड़ा प्रसन्न हो गया था । परन्तु एलेन्कौन ने जब यह समाचार सुना तो वह क्रोध से जल उठा और अपनी सारी सेना बखेर कर फ्रांस लौट जाने के लिए तैयार हो

गया। कैसीमीर की सेना ग्रामों में लूट-मार करती फिरती थी। एलेन्डैन की छोड़ी हुई सेना भी 'असन्तोषी' दल में मिलकर चारों तरफ लूट-मार और उपद्रव करने लगी। पंचायतों को सेना की सख्ती बहुत घट गई थी। चारों ओर लुटेरों की तरह देश में घूमनेवाले स्पेन, इटली, वरगण्डो, बैलून, जर्मन, स्काच अमेज इत्यादि विदेशी सैनिकों के आये दिन के उत्पातों में जनता की रक्षा करनेवाला कोई भी नहीं था। सबकी आँखें आरेख की तरफ लगी थीं। अन्त में आरेख ने ग्रेट के नागरिकों के सामने तीन शर्तें रखीं। "सनातनी एण्डा की जागोर उनसे न छीनी जाय। उनको अपने धर्म पर चलान का अधिकार रहे। २८ अक्टूबर के दिन गिरफ्तार किये हुए सब लोग छोड़ दिये जायँ।" यदि ये शर्तें भेएट वाले मानने को तैयार हों तो मैं स्वयं तथा मैथियस और पंचायतें भेएट की रक्षा करने के लिए हर तरह तैयार हूँ। पहली दोनो शर्तें तो बड़ी आना-कानी के बाद मान ली गईं। परन्तु तीसरी शर्त मानने पर नागरिक तैयार नहीं हुए। किसी तरह ३ नवम्बर को समझौते पर एण्डवर्प में दोनों पक्षों ने दस्तखत किये। जिस समय इस समझौते की बात-चीत चल रही थी उसी समय दुर्भाग्यसे भेएट में एक और बड़ा भारी उत्पात हो गया। सनातनियों का बुरी तरह लटा गया। मूर्तियाँ तोड़-फोड़ कर चारों ओर बखेर दी गईं। जब यह खबर आरेख को मिली तो उसके दिल पर बड़ी चोट पहुँची। वह विचार करने लगा कि जो लोग मेरी बात सुनते और समझते ही नहीं उनका साथ देने से क्या फायदा? कुछ लोग आरेख को ही सारे उत्पातों की जड़ बताते थे। इसलिए आरेख का एक उत्तर छपवाने का विचार भी हुआ।

उसके एलेन्कौन का पक्ष लेने के कारण हालेण्ड तक में लोग उस पर सन्देह करने लगे, परन्तु अन्त में आरेञ्ज सोच-विचार कर इसी निश्चय पर पहुँचा कि वे बुनियाद आक्षेपों को हँस कर टाल देना और कार्य पर दृढ़ रहना ही अच्छा होगा। वह स्वयं भेराट गया और सब दलों के नेताओं से मिला। सबके साथ मीठी-मीठी बातें कीं, इम्बीज के साथ खाना खाया और सब को हिना-मिला कर नगर में फिर शान्ति का राज्य स्थापित कर दिया। कैसीमीर की सेना ने नेदरलैण्ड में जो करतूतें की थीं उनसे एलिजबेथ बहुत रुष्ट हो गई थी। कैसीमीर ने सुना कि पचायतों का शिरोधार्य कर रही हैं कि मुझे वापिस इंग्लैण्ड बुला लिया जाय। वह तीस हजार जर्मन-सैनिकों को नेदरलैण्ड में छाड़ बिना वेतन दिये ही चुप-चाप जर्मनी चला गया। ये सैनिक देश में चांगों और निद्वेन्द्र घूमने और लोगों को लूटने लगे। नेदरलैण्ड सदियों से लूटा जा रहा था। सैनिकों को काफी धन लूट में न मिल सका। उन्होंने बड़ी धृष्टता की, फारनीस को लिखा 'हमारी तनखाइ का प्रबन्ध कर दो।' फारनीस को उनकी धृष्टता पर बड़ी हँसी आई। उसने उत्तर में सैनिकों को लिखा कि देश छोड़कर तुरन्त चल जाओ। नहीं तो सबके सिर जर्मनी पर लोटते नजर आयेंगे।" बेचार सैनिकों के हाथ कुछ न आया। उन्होंने एक गीत बना लिया जिसमें अपने सब दुखड़े रोये थे। और इस गीत को एक स्वर से जोर-जोर से गाते हुए जर्मनी को कूच कर गये। एलेन्कौन मौन्स छोड़ने के बाद कुछ दिन सीमा प्रान्त पर ठहरा। वहाँ से पचायतों का एक खत मिला कि मुझे फ्रान्स में अपने भाई से बड़े आवश्यक कार्य तय करने हैं। यह खत भेज कर

वह भी चलता बना। साल का अन्त होते-होते कांग्रेट वीसू का देहान्त हो गया जिससे आरेञ्ज को बहुत दुःख हुआ और देश-भक्तों के दल को ऐसी क्षति पहुँची जिसका पूरा होना असम्भव था।

नेदरलैण्ड में क्रान्ति नष्ट करने के लगभग सब उपाय सरकार आजमा चुकी थी। फारनीस ने एक नया उपाय सोचा और बड़ी युक्ति और कुशलता से उसे प्रयोग करना शुरू किया। बड़ी-बड़ी रिश्वतें देकर वह देश-भक्तों के अफसरो, मिपाहियों और नेताओं को अपनी तरफ फाड़ने लगा। सबसे पहिले ला मोटे नाम के अधिकारी ने अपने आपको फारनीस के हाथों बेचा। परेस नगर पर स्वदेशी सरकार ने कुछ नया कर लगाया था। इस योजना के प्रति लोगों को स्वभावतः विरोध था। इस विरोध का लाभ सनातनी पण्डों और राज-भक्त जी-हजूरों ने उठा लिया। लोगों को आरेञ्ज और स्वदेशी सरकार के प्रति भडका दिया गया। सेण्ट पल्डेगोएडे ने जाकर लोगों को बहुत-कुछ समझाने का प्रयत्न किया परन्तु कुछ फल न हुआ। बैलून प्रान्त में तीन दल बन गये। मौन्स में एलेन्कौन का दल था। अवेलाइन्स में ला मोटे का दल खड़ा हुआ गया और देश-भक्तों का दल तो था ही। परेस का गर्वनर वायकौण्ट भेरट आरेञ्ज का पक्षपाती था। राज-भक्त दल के लोगों की पक्की धारणा हो गई थी कि जब तक सारे उपद्रवों की जड़ विलियम आरेञ्ज जीवित है तब तक क्रान्ति दबाई नहीं जा सकती। उनके विचार से आरेञ्ज को किसी तरह मरवा डालना ही सब रोगों की एक दवा थी। ला मोटे को सरकार ने चुपचाप अन्य देश-भक्तों का रिश्वतें दे-देकर फोड़ने में अपना दलाल बना लिया। लेलेन—जो मार्गरेट के प्रभाव से एलेन्कौन के पक्ष का हो

गया था—उसका भाई मौएटनी, हेजे, हात्रे, केपरेस, वीर एग्मोएट का लड़का, यहाँ तक कि वायकौएट भेएट तक को ला मोटे ने लालच दे-दे कर हिला दिया था। अब ये अधिकारी देश-भक्तों के विश्वास के योग्य नहीं रहे थे।

एरेस में ऑरेञ्ज के दल का सब से बड़ा पक्षपाती एक अमीर प्रभावशाली और प्रख्यात वकील गोसन नाम का मनुष्य था। फारनीस के आने के कुछ ही दिन बाद एरेस के अधिकारी फारनीस से पत्र-व्यवहार करके चुपचाप वैलून प्रान्त सरकार के हाथ में दे देने का षड्यन्त्र रचने लगे थे। गोसन ने कैप्टन एम्ब्रोज की सहायता से इन सब अधिकारियों को एकाएक गिरफ्तार करके नये अधिकारियों का चुनाव कर लिया। परन्तु फारनीस के चालाक एजेण्ट पादरी जॉन सेरासिन ने तुरन्त एम्ब्रोज को रिशवत देकर अपनी और फोड़ लिया। फारनीस के दलवालों ने अधिकारियों को छुड़ाकर शहर पर फिर अपना अधिकार जमा लिया और देश-भक्त वृद्ध गोसन को सूली पर चढ़ा दिया। लेलेन, मौएटनी, हेजे, केपरेस और वायकौएट भेएट को बड़े-बड़े ओहदे और रूपया देकर फोड़ लिया गया। पादरी सेरासिन को उसकी सेवाओं के कारण फिलिप ने नेदरलैण्ड के सब से धनी मठ सैण्टवास्ट का मठाधीश बना दिया। बाद को वह केम्ब्रे का आचार्य भी बना दिया गया। ६ जनवरी सन् १५७९ ई० को वैलून के एट्रोयस, हेनास्ट, लिले, डूये और चौञ्ज इत्यादि स्थानों ने मिलकर एक नया सघ बना लिया और उसी साल ६ अप्रैल को माउण्ट सेण्ट एलोय पर एक गुप्त सन्धि हुई जिस पर सबने दस्तखत कर दिये।

भार्वदेशिक पचायत और राष्ट्रीय दल को इन प्रान्तों के निकल जाने से देश का शासक फिर भिन्नरता नज़र आने लगा। चिन्ता और भय से उनके कान खड़े हुए। आरंभ न देख लिया कि मंगट की सन्धि पर चलने के लिए देश तैयार नहीं है। इसलिए उसने सोचा कि एक नई सन्धि करके जितने प्रान्तों का हो सके-एक नया स्थायी संघ बनाया जाय। उसके वीर भाई जॉन नसाऊ ने जो श्रीभाग्य से अभी तक जेल्डरलैण्ड का गवर्नर था प्रयत्न करके जेल्डरलैण्ड, जुटफेन, हालैण्ड, जेलैण्ड, यूटरेक्ट और फ्रसलैण्ड के प्रान्तों को एक नये घनिष्ठ संघ में मिल जाने के लिए तैयार कर लिया। २६ नियमों की एक योजना तैयार करके इन प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने उस पर हस्ताक्षर किये और शपथ ली कि भीतरी शासन में सब प्रान्त एक-दूसरे से स्वतन्त्र रहेंगे परन्तु बाहर वालों से एक मत होकर व्यवहार करेंगे। विदेशी शत्रु से एक प्रान्त दूसरे प्रान्त की जीवन, धन और रक्त देकर रक्षा करेगा। यह योजना ही आगे चलकर नेदरलैण्ड के भावा प्रजातन्त्र की नींव हुई। योजना पर इस समय हस्ताक्षर करन्वाला ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वे एक प्रजातन्त्र राज्य की नींव रख रहे हैं। अभी तक वे फिलिप की अपना राजा मानते थे। अपने प्राचीन अधिकारों के अनुसार केवल शासन-कार्य अपने हाथ में रखना चाहते थे। योजना के अनुसार ये सात प्रान्त बाहरी कार्य के लिए एक राष्ट्र हो गये। सब के प्रतिनिधियों की मभा को यूटरेक्ट में बैठकर प्रान्तों का आम बातों पर विचार और निश्चय करने तथा सब प्रान्तों पर एकसा कर लगाने का अधिकार दे दिया गया था। परन्तु, सब

प्रान्तों ने अपने प्राचीन अधिकार और स्थानीय शासन अपने हाथ में रक्खा था। एक प्रान्त का दूसरे से संघर्ष बचाने और सब को एक रखने के विचार से प्रांतों को अपनी-अपनी इच्छानुसार धर्म-भाव मानने की स्वतन्त्रता दी गई थी। नेदरलैंड के प्रजातन्त्र की चुनिचाद इस प्रकार रक्खी गई। यदि सरदारों ने आरंभ के प्रति ईर्ष्या न की होती; यदि धार्मिक झगड़ों ने इतना जोर न पकड़ा होता, यदि वैलून प्रान्त के सनातनी इतने धर्मान्ध न हो गये होते; यदि फ्लेमिंग के स्वतन्त्रतावादियों ने इतना पागलपन न दिखाया होता तो विलियम आरंभ ने सात प्रांतों के स्थान में सारे देश को एक करके स्वाधीनता का झण्डा फहरा दिया होता। फारनीस ने वैलून प्रान्त के प्रतिनिधियों को दावतें दे-देकर और जलसे दिखा दिखाकर बेवकूफ बना लिया था। वे सब फारनीस पर लट्टू हो रहे थे। मियूज के किनारे बसे हुए मेसट्रिश्ट नगर पर—जो जर्मनी में घुसने के लिए द्वार था—फारनीस ने चढ़ाई की। चार महीने तक फारनीस की बीस हजार सेना नगर को चारों ओर से घेरे पड़ी रही। मेसट्रिश्ट की आबादी भी बीस हा हजार थी। फारनीस की सेना का पड़ाव नगर के चारों ओर बना हुआ एक दृसग नगर लगता था। दानों और से रोज हमले होते थे। बारूद भर-भरकर सुरंगें उड़ाई जाती थीं नागरिक बड़ी दृढ़ता से अन्त तक लड़े। जब फारनीस ने नगर में प्रवेश किया तो वहां उसने केवल ४०० आदमी जीवित पाये। आरंभ ने पंचायतों न उगावर प्रार्थना का कि इस बीर नगर की शांति ले शीघ्र समुचित सहायता करनी चाहिए। पंचायतों न वजूनी के मारे पर्याप्त सहायता की कमी

मजूरी नहीं दी। मेसट्रिस्ट के नष्ट हो जाने पर सब आरेञ्ज को दोष देने लगे कि 'आरेञ्ज ही शान्ति नहीं होने देता उसी के मारे देश को इतने दुःख झेलने पड़ रहे हैं।' एक दिन पचायत की बैठक में चुपचाप एक पत्र पेशकार के हाथ में रख दिया गया। पेशकार ने पत्र का कुछ ही भाग पढ़ा था कि उसे चुप हो जाना पड़ा। उस पत्र में आरेञ्ज पर ऐसे बुरे दोषारोपण किये गये थे कि प्रतिनिधियों को पत्र सुनना असह्य हो गया और वे चिल्ला उठे—“बस-बस। बन्द करो! बन्द करो!” आरेञ्ज ने पेशकार के हाथ से पत्र ले लिया और स्वयं खड़े होकर जोर-जोर से पत्र पढ़ने लगा और पत्र पढ़ चुकने पर बोला—“हाँ सच है। मैं ही अशान्ति का कारण हूँ। यदि मेरे चले जाने से शान्ति हो जाने की आशा हो तो मैं देश छोड़ कर आज ही चला जाने को तैयार हूँ।” इस पर चारों तरफ से प्रतिनिधि चिल्लाने लगे—“नहीं, हमारा आप पर पूर्ण विश्वास है।” इसी वाच में उपद्रवों की खान भेष्ट में फिर एक उपद्रव हो गया। इम्बोज़ कहा करता था कि आरेञ्ज फ्रांस का दलाल है और भीतर से कट्टर सनातनी है। उसका एक साथी पादरी पीटरडेथीज़स बड़ा प्रभावशाली व्याख्यनदाता था। वह भी आरेञ्ज को खूब गालियाँ सुनाया करता था। उन्हीं दानों ने लोगों को भड़का कर भेष्ट में उपद्रव करा दिया। आरेञ्ज स्वयं भेष्ट गया और बड़ी मुश्किल से नगर में फिर शान्ति स्थापित करने में सफल हुआ। इम्बोज़ और पीटर को आरेञ्ज ने शहर से निकाल दिया। जिस वार का नाम सारे यूरोप में प्रख्यात था; जिससे खून से फिलिप हाथ रग चुका था। उस एगमोएट के कुपुत्र ने ला मोटे इत्यादि

की तरह धन और पद के लातव में पड़ कर सरकार से मिल जाने का विचार किया। उसने सोचा कि ब्रसेल्स नगर पर कब्जा करके यदि मैं उसे सरकार के हवाले कर दूँ तो मुझे कोई न कोई बड़ा पद अवश्य मिल जायगा। एकाएक एक दिन उसने अपने साथियों की सहायता से ब्रसेल्स में उपद्रव खड़ा कर दिया परन्तु देशभक्तों ने उसे साथियों सहित एक गली में घेर लिया। एक दिन और एक रात वह उसी गली में घिरा पड़ा रहा। चारों ओर से लोग उम पर आवाजे कसते थे—“वीर एग्मोएट के सपूत। तुम्हें याद है कल तुम्हारे बाप की बरसी का दिन है ? क्या अपने पूज्य पिताजी का आप सिर ढूँढने इधर आये थे ? जहाँ तुम पड़े हो वहाँ का एक पत्थर तो ज़रा उखाड़ कर देखो ! तुम्हारे पिताजी का रक्त चिल्ला-चिल्ला कर तुम्हारा नाम पुकार रहा है।” इत्यादि। जिस स्थान पर ११ वर्ष पहले एग्मोएट का सिर गिरते देखकर देशभक्तों का हृदय रो रहा था उसी स्थान पर और दुर्भाग्य से उसी तारिख को एग्मोएट का कुपुत्र बाप का बदला लेने के स्थान पर देश को बेचने और अपने बाप के क्रातिलों के खूनी हाथ चूमने के फेर में था। खैर, नागरिकों ने दूसरे दिन इस रोंते हुए बेवकूफ जवान पर तरस खाकर उसे साथियों सहित शहर से निकल जाने दिया। फ्लैण्डर्स के लोग बहुत धार औरेश से प्रार्थनायें कर चुके थे कि हमारे प्रान्त का शासन-भार आप अपने हाथ में ले लीजिए। औरेश हमेशा इन्कार करता रहा था। अब का वार मैण्ड का उपद्रव शान्त कर चुकन पर फ्लैण्डर्स के शासन की वागडोर उसने अपने हाथ में लेली और एन्टवर्प लौट आया।

कोलम में सात महीने से फिलिप और पंचायतों के प्रतिनिधि आपस में समझौता करने का प्रयत्न कर रहे थे। चर्मना के सम्राट ने भी अपने प्रतिनिधि दोनों पक्षों में जैसे बने समझौता करा देने में सहायता करने के लिए भेजे थे। दोनों पक्ष शान्ति तो चाहते थे परन्तु वे बातें जिन पर अमली ऋगड़ा था दोनों में से एक पक्ष भी छोड़ने को तैयार नहीं था। फिलिप अपना असीम अधिकार और सनातन-वर्म की प्रधानता कायम रखना चाहता था। देश-भक्त अपने पुराने अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता कायम रखना चाहते थे। सात महीने तक सब दलों के प्रतिनिधियों ने खाने-पीने में खूब रुपया उड़ाया और दस हजार पृष्ठ कागज लिखा-पढी में खराब किये। परन्तु रहे वहीं जहाँ से प्रारम्भ किया था। किसी प्रकार समझौता न हो सका, सब अपने-अपने घर लौट आये इधर ऑरेञ्ज को बड़े-बड़े प्रलोभन दिये जा रहे थे। उससे कहा गया था कि अगर तुम देश छोड़ कर चले जाने पर राजी हो जाओ तो तुम्हारी ज़ब्त की हुई सारी जागीर और धन सरकार तुम्हें लौटा देगी और तुम पर जो कर्जे हो गये हैं उन्हें निवटाकर दस लाख रुपया तुम्हारी नज़र करेगी और भी जाँ मॉंगोगे मिल जायगा केवल देश छोड़कर चले जाओ। ऑरेञ्ज ने कहा कि मैं पंचायत का सेवक हूँ अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। जो जनता का हुक्म होगा करूँगा। यदि पंचायतों को फिलिप से सन्धि करने में मैं ही अड़चन दीखता होऊँ या वे चाहती हो कि मैं देश छोड़ कर चला जाऊँ, तो मैं आज ही चले जाने को तैयार हूँ। यदि पंचायतों मेरी जगह किसी और को अधिकारी रखना चाहती हों

तो मैं उस अधिकांग के नीचे काम करने के लिए भी तैयार हूँ। परन्तु, धन, स्त्री, बालक किसी के लोभ से जनता का कार्य छोड़ कर चले जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। आरेञ्ज को तो बेचारी सरकार क्या फोड़ सकती थी? हाँ, इसी बीच मे मेचलिन के गवर्नर डेव्यूयर्स को, जिसने बड़ी बहादुरी से एण्टवर्प की रक्षा करके देशभक्तों में ख्याति प्राप्त का थी, और फ्रीसलैण्ड के गवर्नर काउण्ट रेनेनवर्ग को फारनीस ने रिश्वतें और बड़े-बड़े पदों का लालच देकर फोड़ लिया। डेव्यूयर्स ने एक दिन एकाएक मेचलिन फारनीस के सुपुर्द कर दिया। परन्तु छ मास के भीतर मे ही देशभक्तों ने मेचलिन पर फिर अधिकार जमा लिया। डेव्यूयर्स कुछ दिन बाद लडते-लडते एक जगह मारा गया। काउण्ट रेनेनवर्ग ह्यूसट्रेटन का भाई था। आरेञ्ज डेव्यूयर्स की तरह उस पर भी अत्यन्त विश्वास करता था। परन्तु रेनेनवर्ग अन्दर ही अन्दर आरेञ्ज से ईर्ष्या करता था। सरकार की ओर से उसे धन और एक सुन्दर स्त्री के मिलने का लालच दिया गया। वस उसने एक दिन अचानक ग्रीनिन्जन प्रान्त की राजधानी सरकार को सौंप दी। आरेञ्ज को इन साथियों के धोखा देने पर बड़ा दुःख हुआ। उसने कुछ दिन पहले अफवाहें सुनी थीं कि ये लोग धोखा देने वाले हैं। परन्तु जब उस पर ही लोग दिन-रात इतने दोषारोपण करते थे तो वह केवल अफवाहों के कारण मित्रों पर कैसे सन्देह कर सकता था?

आरेञ्ज जानता था कि कोलग्न की कान्फरेंस में कुछ समझौता नहीं हो सकेगा। वह यह भी समझता था कि ये लम्बी-लम्बी कान्फरेंसें केवल इसलिए की जाती हैं कि देश में

फूट डालने का अवकाश सरकार को फिर मिल जाय। इसलिए वह इधर वरावर पंचायतो से यह शिथिल करा लेने का प्रयत्न कर रहा था कि यदि ममकौता न हो तो फिलिप के स्थान में किसको राजा चुना जाय। विलियम ऑरेञ्ज सयुक्त-राज्य अमेरिका की तरह देश का किसी को राष्ट्रपति या प्रमुख चुनकर नेदरलैण्ड में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करने का विचार नहीं कर रहा था। उस समय की नेदरलैण्ड की जो परस्थिति थी उसमें बिना राजा का राज्य स्थापित करना स्वप्न में भी नहीं मोचा जा सकता था, न किसी नवीन राजनैतिक अधिकार के लिए ही विलियम ऑरेञ्ज ने क्रान्ति का संचालन अपने हाथ में लिया था। प्रजा के बहुत से अधिकार नेदरलैण्ड में प्राचीन काल से चले आते थे। फिलिप नेदरलैण्ड की प्रजा के यह अधिकार कुचल डालना चाहता था। वह इतिहास के इस अन्धकारमय युग में राजा-प्रजा का पालन और प्रजा के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भगवान् की ओर से भेजा हुआ अवतार माना जाता था। विलियम ऑरेञ्ज और पंचायतो का कहना था कि जो राजा प्रजा के प्राचीन अधिकारों की रक्षा न करके उलटे प्रजा के अधिकारों को ठुकराता है, प्रजा का पालन करने के स्थान में अपने हाथों से प्रजा का खून बहाता है, वह राजा राजा कहलाने का अधिकारी नहीं है। एक नया अधिकार अवश्य माँगा जा रहा था। वह था हरएक के लिए धार्मिक स्वतन्त्रता। मगर उसके सम्बन्ध में यह कहा जाता था, कि 'धर्म ईश्वर और मनुष्य के बीच की बात है। राजा का उससे कुछ सम्बन्ध नहीं।' फिलिप ने नेदरलैण्ड की प्रजा के अधिकार बड़ी वेददीं से कुचले

थे । जिस प्रजा का उसे पालन करना चाहिए था उस प्रजा के रक्त से फिलिप ने ज़मीन रँग डाली थी । प्रजा भक्त फिलिप को नेदरलैण्ड का राजा या प्रजा-रक्षक कहलाना का श्रव अधिकार नहीं रहा था, इन्हीं कारणों से पंचायतें और ऑरेंज उसे राज-पद से च्युत करके किसी नये राजा के सिर पर नेदरलैण्ड का छत्र रखने का विचार कर रहे थे । मैथियस विल्कुल निकम्मा साबित हुआ उसके कारण जर्मनी के सम्राट और अन्य जर्मन सरदारों से जो सहायता मिलने की आशा थी वह भी नहीं मिली । इंग्लैण्ड में नेदरलैण्ड के प्रति काफी सहानुभूति थी । परन्तु महारानी एलिज़बेथ अपनी आदत के अनुसार अठखेलियों कर रही थी । एक ओर तो एलेन्कौन को प्रेम-पत्र लिखती थी और दूसरी ओर नेदरलैण्ड पर एलेन्कौन का अधिकार न जम जाय इस बात का भी प्रयत्न कर रही थी । कुछ ही दिन पहले उसने एक बड़ा स्नेह-पूर्ण पत्र एलेन्कौन को लिखा था । सबको विश्वास हो चला था कि एलिज़बेथ और एलेन्कौन का शीघ्र ही विवाह हो जायगा । ऑरेंज ने ऐसी परिस्थिति में फिलिप की जगह एलेन्कौन को ही चुनना उचित समझा । फ्रांस नेदरलैण्ड के विल्कुल खमीप भी था इसलिए हर समय नेदरलैण्ड को सहायता पहुँचा सकता था । नेदरलैण्ड पर फ्रांस का अधिकार हो जाने से स्पेन और जर्मनी सदा नेदरलैण्ड से डरते । एलिज़बेथ एलेन्कौन को प्रेम करती थी इसलिए वह तो अवश्य ही खुश होती । एक अधिकारी और था जिस के सिर पर नेदरलैण्ड का ताज रक्खा जा सकता था । और वह स्वयं ऑरेंज था परन्तु उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं

यह मान स्वयं न लूगा । यदि ऑरेञ्ज ने यह पद स्वीकार कर लिया होता तो देश का बड़ा लाभ होता । हालैण्ड और जेलैण्ड विलियम ऑरेञ्ज के अतिरिक्त और किमी को अपना सिरताज बनाने के लिए तैयार नहीं थे । एलेन्कौन के नाम से तो वे चिढ़ते थे । ऑरेञ्ज ने इन प्रान्तों को बहुत समझाया कि “मैं मरते दम तक हर प्रकार से देश की सेवा करने को तैयार हूँ । परन्तु राजा एलेन्कौन को ही बनाना उचित है ।”

लोग आपस में एक दूसरे से बड़ी ईर्ष्या करते थे । फूट का बाजार गर्म था । देश के कार्यों में पैसा देने में भी कजूसी दिखाई जाती थी । एक दिन ऑरेञ्ज ने पचायतों को फटकार कर कहा— “यदि मुझे अधिकारी बनाया है तो मेरा कहा मानकर जितनी फौज मैं बताता हूँ रखनी पड़ेगी उसके खर्च के लिए रुपया भी देना पड़ेगा । अन्यथा मैं ये अधिकार रखने को तैयार नहीं हूँ । जिस प्रकार मेरे दुश्मन केवल मेरे दोष ढूँढते फिरते हैं उसी प्रकार तुमने भी सदा मेरे दोष ही बताये हैं । मैंने बर-बार फूट कर देश-सेवा करने का प्रयत्न किया है । उसका विचार भी नहीं किया जाता । किसे ऐशो-आराम, धन, सम्पत्ति, गृह-सुख प्यारा नहीं होता ? मेरा जो भी आराम करने को चाहता है, मैं भी ऐश कर सकता हूँ । मेरा लखते जिगर स्पेन में कैद हैं । उसे मैं चाहूँ तो अपने जरा से इशारे पर छुड़ा सकता हूँ तुम्हारी सेवा के लिए मैं इन सब चीजों को छोड़ने को तैयार हूँ, परन्तु, तुम से स्वयं अपनी रक्षा के प्रबन्ध तक मैं मुझे सहायता करने में दिलाई हो रही है ।”

लड़ाई धीरे-धीरे चल रही थी । ऑरेञ्ज का एक बहादुर

माथी ला नोइ लड़ाई में गिरफ्तार हो गया । उसकी गिरफ्तारी से दे भक्तों के दिल को बड़ा धक्का पहुँचा । ला नोइ की केवल तलवार में ही बल नहीं था, उसकी लेखनी भी जादू भरी थी । ऑरेञ्ज ने ला नोइ को छुड़ाने का प्रयत्न किया । सरकारों पक्ष के कैदियों में से एग्मोएट के पुत्र, सेलेस और शेम्पनी इत्यादि को लानोइ के बदले में देने को तैयार हुआ परन्तु फारनीस ने कहा—“इन भेड़ों के बदले सिंह नहीं लोटा सकता ।” लानोइ को मारा तो नहीं गया क्योंकि देशभक्तों ने भी बहुत से सरकारी अफसर पकड़ रखे थे यदि लानोइ को मार डाला गया होता तो इधर देशभक्त भी सारे सरकारी कैदियों को मार डालते । उसे एक ऐसी कोठरी में डाल दिया गया जो चारों तरफ से बन्द होने के कारण बिल्कुल अँधेरी थी । सिर्फ ऊपर छत में एक सूराख था जिस में से हवा और रोशनी आती थी । वर्षा होने पर पानी और ओले भी आते थे । चूहे, मेंढक, छिपकलियाँ, मकड़ियाँ, मच्छर, जुएँ, काँतर, बिच्छू इत्यादि की कोठरी में भरमार थी । पाँच वर्ष तक वीर लानोइ इसी कोठरी में पड़ा-पड़ा सड़ा । यहाँ पड़े-पड़े उसने कई अच्छे ग्रन्थ भी लिखे, परन्तु, वह अपने इस जीवन से बिल्कुल उकता गया । बहुत दिनों बाद फिलिप की ओर से प्रस्ताव रक्खा गया कि यदि लानोइ अपनी आँखें निकलवाने पर राजी हो जाय तो उसे छोड़ा जा सकता है । लानोइ आँखें निकलवा कर जेल से छुटकारा पाने पर लगभग राजी हो गया था । परन्तु अपनी स्त्री के मना करने पर पीछे से उसने इन्कार कर दिया । रेनेनवर्ग के प्रोविंजन सरकार को सुपुर्द करते ही ऑरेञ्ज ने प्रोविंजन के चारों ओर घेरा डलवा दिया

था। ऑरेञ्ज के पास विश्वासी और चरित्रवान अफसर नहीं थे। उसे वारथोल्ट पण्टीम और जार्ज फिलिप होहेन्लो जैसे मनुष्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये लोग अच्छे घरानों के होकर भी शराब, नाच-रँग, लुट माग और अत्याचार करने के आदी थे। परन्तु साथ-साथ वीर, साहसी और देश के लिए जी जान से लड़ने वाले भी थे। ऑरेञ्ज का भाई जॉन नसाऊ जेल्डरलैण्ड का गवर्नर था। परन्तु वह विल्कुल दरिद्र हो रहा था। जिस मकान में वह रहता था उसकी आधी छत टूट गई थी। उसे ठीक करवाने तक के लिए रुपया नहीं था। बनिये और टाल वाले ने रसद देने से इन्कार कर दिया था और पिछले दाम के लिए नोटिस दे दी थी। पचायतो के रोज आपस में ही झगड़े होते थे। परस्पर के कलह-ईर्ष्या और आये दिन की तू-तू मैं-मैं से तंग आकर आखिरकार जॉन नसाऊ जेल्डरलैण्ड की गवर्नरी छोड़ अपने घर जर्मनी चला गया। उसकी स्त्री मर चुकी थी और उसके कई बाल-बच्चों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, परन्तु, अपने जवान लड़के विलियम लुई को जॉन नसाऊ देश की सेवा करने के लिए नेदरलैण्ड में ही छोड़ गया था। विलियम लुई अपने कुल की रीति के अनुसार भरी जवानी में तलवार लेकर देश-सेवा के लिए मैदान में उतरा था। ऑरेञ्ज को अपने भाई का निश्चय अच्छा नहीं लगा। आवश्यकता के समय जॉन नसाऊ के देश छोड़कर चल देने पर उसे दुःख हुआ। उसने कहा कि 'जब तक ज़रासा भी प्रयत्न किया जा सकता है हम लोगों को प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए। जब-जब हम पर मुसीबतें आती हैं तब-तब ईश्वर हमारा परोक्षा लेता है। यदि

हम अपनी हिम्मत बनाये रखें तो ईश्वर हमारी अवश्य सहायता करेगा। उसकी भुजायें बहुत लम्बी हैं। निराश नहीं होना चाहिए।

२२ जुलाई सन् १५८० ई० को मैथियस ने एरटवर्प में सर्व-साधारण की एक सभा बुलाई। उसमें अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि आप लोग एलेन्कौन से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। आस्ट्रिया के राज-वंश से बिल्कुल नाता तोड़ने का विचार कर रहे हैं। विदेशी राजा को देश सौंपने का विचार करना अत्यन्त अनुचित है। मेरे निजी खर्च तक का आप प्रबन्ध नहीं करते; मुझ पर बहुत-सा कर्जा हो गया है।” पचायतों की ओर से मैथियस की निजी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में नम्रतापूर्ण उत्तर दे दिया गया। फिलिप के सम्बन्ध में कहा गया कि “वह किस प्रकार से समझ ता करने पर तैयार ही नहीं होते हैं इसलिए उनसे सम्बन्ध तोड़ना ही पड़ेगा। जर्मनी के सम्राट ने भी हमारी कुछ सहायता नहीं की इसलिए आस्ट्रिया के राज-वंश से हमें अब कुछ आशा नहीं है। कुछ दिन बाद पचायतों के प्रतिनिधि एलेन्कौन से मिले। २९ सितम्बर को एलेन्कौन और पचायतों के प्रतिनिधियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। हालैण्ड और जेलेण्ड की पचायतों ने इस समझौते में भाग नहीं लिया क्योंकि ये प्रान्त आरेञ्ज के अतिरिक्त अन्य किसी को अपना राजा बनाने के लिए तैयार नहीं थे। आरम्भ में ही हालैण्ड और जेलेण्ड आरेञ्ज का शासन-भार देने का हठ कर रहे थे। आरेञ्ज बहुत समझौता था। परन्तु वे अपने हठ पर अडे हुए थे। फिलिप ने पोर्चुगाल को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था।

नेदरलैण्ड के विद्रोहियों को पाठ पढ़ाने के लिए उसे पोर्चुगल में नया खजाना मिल गया था। ग्रेनविले बहुत दिनों से फिलिप को लिख रहा था कि नेदरलैण्ड का विद्रोह खत्म करने का एक ही उपाय है कि ऑरेञ्ज को खत्म कर दिया जाय।” ग्रेनविले की राय थी कि सरकार की तरफ से घोषणा निकाली जाय कि जो ऑरेञ्ज को मारेगा उसे माला-माल कर दिया जायगा। इस घोषणा से यूरोप भर के हत्यारों की आँखें ऑरेञ्ज के ऊपर लग जाँयगी। यदि ऑरेञ्ज मारा न भी जा सका तो भी क्रम से कम वह अपनी जान के डर से स्वच्छन्दता से उबर-उधर तो न घूम फिर सकेगा। देश-भक्तों के काम में बाधा पड़ जायगी। फिलिप ने ग्रेनविले की सलाह मान कर १५ मार्च सन् १५८० को यह घोषणा निकाली। “ऑरेञ्ज ने ही नेदरलैण्ड में सारे उत्पात खड़े किये हैं। उसी के कारण देश में इतना रक्त बहा है। उसने पल्वा, डॉन जान इत्यादि का सशस्त्र विद्रोह करके राज-विद्रोह किया है। राजा और प्रजा दोनों के वैरी ऑरेञ्ज का सिर जो कोई उतार लावेगा उसे २५०००) पुरस्कार मिलेगा। यदि वह अपराधी होगा तो उसके सारे पिछले अपराध क्षमा कर दिये जाँयगे। यदि वह सरदार नहीं होगा तो सरदार बना दिया जायगा।” ऑरेञ्ज ने इस घोषणा का जवाब छपवाया। फिलिप ने जो दोष उसके ऊपर लगाये थे उनके उत्तर में उसने फिलिप के सारे अपराध बतलाये और लिखा “नेदरलैण्ड में कभी कोई राजा नहीं था सरदार अमीर या नवाब, जो कुछ कहिए, इस शर्त पर नेदरलैण्ड का शासक चुना जाता था कि वह प्रजा के पूर्व अधिकारों की पूर्ण रूप से रक्षा करेगा। यदि शासक प्रजा के अधिकारों की रक्षा नहीं

कगता था तां वह पद से तुरन्त हटा दिया जाता था। फिलिप भी इसा प्रकार का नेदरलैण्ड का शासक था। स्पेन की गद्दी पर ठ कर उसने नेदरलैण्ड की प्रजा के पवित्र अधिकारो को बुरी तरह ठुकराया है इसलिए उसे नेदरलैण्ड का शासक रहने का अधिकार नहीं है। फिलिप ने इतनी हत्यायें, इतने जुल्म और इतना व्यभिचार किया है कि उसे दूसरे के चरित्र पर टीका-टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उसके मित्र पादरी जनाव प्रेनविले साहब, जिनकी राय से यह घोषणा निकाली गई है, वहीं हज़रत हैं जिन्होंने सम्राट मैक्स मिलियन को विष दिया था। इन दोनों का मुँह पर यह दोष लगाना कि मैं प्रजा के हृदय में राजा के प्रति अविश्वास उत्पन्न कराता फिरता हूँ बड़ा हास्यास्पद लगता है। फिलिप और प्रेनविले स्वयं अविश्वास की हवा में दिन-रात रहते हैं। डेमो-स्थनीज जैसे जग-प्रख्यात बुद्धिमान का कहना है कि अत्याचारी राजा के प्रति प्रजा का सबसे बड़ा केवल एक बचाव है कि कभी किसी समय, प्रजा राजा पर विश्वास न करे। मैंने इस विद्वान से पाठ लेकर जनता के हृदय में राजा के प्रति अविश्वास पैदा करना अपना परम कर्तव्य मान लिया है। मेरे सिर काट लेने वाले मनुष्य के लिए अब जो खुल्लम-खुल्ला पुरस्कार देने की घोषणा निकाली गई है वह मेरे लिए कोई नई खबर नहीं है। मुझे मालूम बहुत दिनों से है कि मेरी जान लेने का प्रयत्न किया जा रहा है। पहले भी बहुत बार बहुत से हत्यारों और विष देने वालों से इस सम्बन्ध में सौदे हो चुके हैं। मैं अपना जीवन और अपना सर्व-स्व भगवाग के चरणों पर रख चुका हूँ। भगवान की जो इच्छा होगी, जिसमें वह, मेरा हित और अपनी बड़ाई समझेगा, करेगा।

अगर मेरे चले जाने से देश का उपकार हो सके तो मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आजातम निर्वासन में रहने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा निर्वासन कितना बड़ा सुखदाई होगा। ऐसे निर्वासन की मृत्यु मुझे बड़ी मीठी लगेगी। क्या मैंने अपनी जागीर इसलिए नष्ट की थी कि मैं अधिक अमीर बन जाऊँगा? क्या मैंने अपने भाइयों को इसलिए गवाँया था कि मुझे नये भाई मिल जाँयेंगे? क्या मैंने अपने लड़के को इतने दिनों से कैद में इसलिए छोड़ रक्खा है कि मुझे कोई दूसरा मनुष्य लड़का दे सकता है? मैंने अपना घर-बार सारा संसारिक ठाट-बाट केवल इसीलिए फूँका है कि मेरे देशवासियों को स्वतंत्रता मिल जाय। यदि मेरे देश छोड़कर चले जाने से या मेरी मृत्यु से देश को सुख और स्वतंत्रता मिल सकती हो तो मैं देश की आज्ञा सिर आँखों पर रखने को तैयार हूँ। मेरे देशवासियों! दो, दो, मुझे आज्ञा दो। मैं पृथ्वी के उस सिरे पर चला जाने को तैयार हूँ। मेरे सिर पर किसी राजा और महाराजा का अधिकार नहीं है। मैं तो अपना सिर तुम्हारे हाथ में दे चुका हूँ। देश की भलाई और स्वतंत्रता के लिए जिस तरह तुम्हें उपयोगी लगे मेरा सिर काम में लाओ। मेरे अनुभवों की और मेरी बची-खुशी जागीर की यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो वह तुम्हारी भेंट है।” १३ दिसम्बर को आरेञ्ज का यह उत्तर डेफ्ट में सयुक्त-प्रान्तों की सभा के सम्मुख रखा गया। सभा ने आरेञ्ज में अपना पूर्ण विश्वास बतलाते हुए फिलिप की नीच घोषणा पर अत्यन्त घृणा प्रकट की।

स्वाधीनता की घोषणा

इस साल सरकारी सेना से देश-भक्तों की इधर-उधर केवल छोटी-मोटी मुठ-भेड़ें होती रही। किसी स्थान पर घोर युद्ध न हुआ। स्टीनविक नामी स्थान पर देशद्रोही रेनेनवर्ग ने घेरा डाला था परन्तु देश-भक्तों की हृदयता देखकर उसे वहाँ से शीघ्र ही हट आना पड़ा। फिर उसने प्रोनिजन नगर को घेरा परन्तु, वहाँ पहुँचते ही वह बीमार पड़ गया और चारपाई पर तड़प-तड़प कर मर गया। मरते समय रेनेनवर्ग की आँखों के सामने वही प्रोनिजन नगर था, जिसको उसने लोभ में पडकर शत्रु के हाथों बेच दिया था। मरते समय प्रोनिजन को सामने देख कर अपने देशद्रोह का धिन्न रेनेनवर्ग की आँखों के सामने नाँच उठा। हाय प्रोनिजन ! प्रोनिजन ! तेरी दीवारें भैंने फिर क्यों देखीं ? कहते-कहते बड़े कष्ट से उसके प्राण निकले।

संयुक्त प्रान्तों के आन्तरिक शासन में बड़ा फेर-फार हो गया था। १३ जनवरी को संयुक्त-प्रान्तों की सभा ने, सब प्रान्तों से बड़े-थोड़े प्रतिनिधि लेकर, ३० सदस्यों की एक कार्यकारिणी संयुक्त-प्रान्तों का शासन चलाने के लिए नियुक्त कर दी थी। बिना कार्यकारिणी की राय लिये अन्य राष्ट्रों से किसी प्रकार की सन्धि भी नहीं की जा सकती थी। परन्तु इस कार्यकारिणी को सार्व-देशिक पचायतों के आधिकार और शासन में हस्तक्षेप करने अथवा

इयू क पलेन्कौन से होने वाले प्रबन्ध में दस्तन्दाजी का अधिकार नहीं था। कार्यकारिणी के सदस्य केवल नेदरलैण्ड-वासी ही हो सकते थे। फिलिप को राज्य-च्युत करने के सम्बन्ध में बहुत दिनों से विचार हो रहा। यह ऐसा विषय था कि यदि एक बार आगे रख दिया गया तो फिर पीछे हटाया नहीं जा सकता था। परन्तु नेदरलैण्ड के सामने और कोई इञ्जत वचाने का मार्ग ही नहीं था। अतएव २६ जुलाई सन् १५८१ ई० को हेग नगर में सारे प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने एकत्र होकर यह घोषणा कर दी,— “नेदरलैण्ड पूर्ण रूप से स्वाधीन है। फिलिप का नेदरलैण्ड पर कुछ अधिकार नहीं है।” स्वतन्त्रता की घोषणा तो हो गई परन्तु भाग्य दुसे देश में ऐक्य न हुआ। ऑरेञ्ज ने बहुत समझाया परन्तु उसका कहा न मान कर वैलून प्रान्त अन्य प्रान्तों से अलग हो गये थे। हालैण्ड और जेलेण्ड ऑरेञ्ज के अतिरिक्त किसी क अपने सिर पर बैठाने को राजी नहीं थे। शेष प्रान्तों ने फिलिप को पदच्युत करके पलेन्कौन के सिर पर ताज रखना स्वीकार कर लिया था।

हालैण्ड और जेलेण्ड बार-बार ऑरेञ्ज से प्रार्थना करते थे कि हमारे शासन की वागडोर आप अपने हाथ में ले लीजिए। ऑरेञ्ज राजी नहीं होता था। २९ मार्च सन् १५८० को हालैण्ड और जेलेण्ड की पचायतों ने एक प्रस्ताव भी पास कर डाला था कि, ‘हम न तो फिलिप का अपना राजा मानते हैं न उसके साथ किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार हैं। सरकारी कागजों पर से उसका नाम सदा के लिए उड़ा दिया जाय। उसके नाम की मोहर तोड़ डाली जाय। कागजों पर ऑरेञ्ज का नाम और

मोहर रहे।” यूट्रेक्ट प्रान्त ने भी यही प्रस्ताव पास कर लिया था। परन्तु ऑरेञ्ज ने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये थे। इसलिए सब कार्रवाई गुप्त रक्खी गई थी। ५ जुलाई सन १५१ को इन प्रान्तों के सारे सरदारों, अमीर-उमरा और पचायतो ने फिर ऑरेञ्ज से प्रार्थना की कि कम से कम जब तक युद्ध जारी है तब तक के लिए ही आप इन प्रान्तों का अधिकार अपने हाथ में ले लीजिए। समय की शर्त इसलिए लगा दी गई थी कि सब अच्छी तरह जानते थे कि अगर ऐसी शर्त नहीं लगाई जायगी तो ऑरेञ्ज प्रान्तों का शासन अपने हाथ में लेने के लिए हर-गिञ्ज राजी नहीं होगा। युद्ध समाप्त होने तक प्रान्तों का शासन करने के लिए ऑरेञ्ज राजी हो गया। १५५५ ई० में ऑरेञ्ज फिलिप की ओर से प्रान्तों का शासक बनाया गया था। उस समय फिलिप राजा था और ऑरेञ्ज फिलिप का नियुक्त किया हुआ प्रान्तों का सूबेदार। आज ऑरेञ्ज जनता का चुना हुआ प्रान्तों का राजा था। प्रान्तों की पचायतों किसी न किसी तरह ऑरेञ्ज को सदा के लिए सारे अधिकार दे देना चाहती थीं। कुछ ही दिन बाद पचायतों की एक गुप्त सभा करके ऑरेञ्ज को शासनाधिकार देने में जो समय की शर्त रक्खी गई थी उसे चुपचाप रद्द कर दिया। ऑरेञ्ज को स्थायी रूप से जावन भर के लिए प्रान्त का सारा शासनाधिकार दे दिया गया परन्तु ऑरेञ्ज को इस गुप्त प्रस्ताव की खबर न दी गई। २४ जुलाई को शासन ऑरेञ्ज को सुपुर्द करने और उसके प्रति शपथ लेने का रश्म पूरी की गई। पंचायतों की ओर से कहा गया कि, “फिलिप हालैण्ड और जेलेण्ड का सूबेदार था। परन्तु उसने प्रान्तों की रक्षा न

करके उनको गुलाम बनाने का ही सदा प्रयत्न किया है। इसलिए आज से हम उससे अपना सम्बन्ध तोड़ते हैं। जनता की ओर मे शासन के सारे अधिकार और शक्ति को दिये जाते हैं। जनता की शक्ति और जनता के अधिकारों की मूर्ति, और शक्ति के प्रति हम सब श्रद्धा को शपथ लेते हैं।” इसके बाद २६ जुलाई को संयुक्त प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने हेग में एकत्र होकर, फिलिप को राजा के पद से च्युत कर देने का प्रान्तों की ओर से पलान कर दिया। उन्होंने मठों के स्थापित होने के समय से प्रारम्भ होने वाले ग्रेनविले, एल्वा, रेकुडसॅज, डॉन जान इत्यादि के अत्याचारों और शहरों के नष्ट होने, एगमोएट हार्न इत्यादि बड़े-बड़े सरदारों को सूलियाँ मिलने, सरदार मोएटनी और बर्घन जो राजदूत बनकर स्पेन गये थे, नियम विरुद्ध मरवा डालने, फिलिप को वादे पर वादे तोड़ने, विश्वासघात करने इत्यादि का जिक्र करते हुए अन्त को और शक्ति के सिर पर सरकार की ओर से इनाम लगाये जाने का जिक्र किया और कहा—“ सारा संसार मानता है कि राजा को अपनी प्रजा की बच्चों की भाँति रक्षा करनी चाहिए; प्रजा का पालन-पोषण करना चाहिए। जब राजा अपना कर्तव्य भूल कर प्रजा को लूटने लगता है अथवा प्रजा को गुलाम समझ कर प्रजा पर अत्याचार करने लगता है तब राजा-राजा नहीं रहता। वह आततायी, अत्याचारी, लुटेरा बन जाता है। ऐसे राजा को गद्दी से उतार देने का प्रजा को अधिकार है। इसी सर्वमान्य सिद्धान्त के अनुसार संयुक्त प्रान्त फिलिप को राज्यच्युत करते हैं। प्रान्तों ने न्याय और कानून की दृष्टि से फिलिप को गद्दी से हटाने का निश्चय किया था। जिन शर्तों पर फिलिप नेदरलैण्ड का राजा

हुआ था वे शर्तें फिलिप ने पूरी नहीं की, इसलिए वह कानून और न्याय की दृष्टि से नेदरलैण्ड का राजा नहीं कहा जा सकता। फिलिप को गद्दी से उतारने वालों का प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करने का बिल्कुल विचार नहीं था। पंचायतें फिलिप के स्थान में नेदरलैण्ड की गद्दी पर बैठाने के लिए दूसरे राजा की तलाश में थीं। परन्तु परिस्थिति ऐसी आ बनी थी कि बिना इच्छा-विचार के शक्ति और प्रभुता प्रजा के प्रतिनिधियों के हाथों में आ गयी। अज्ञानावस्था में ही सही; परन्तु, प्रजातन्त्र की राह पर देश ने कदम रख दिया था। इस घोषणा के निकलने के बाद मैथियस चुपचाप जर्मनी को कूच कर गया। नेदरलैण्ड में अब उसकी कुछ जरूरत नहीं रही थी। मैथियस निरा छाँकरा था। कुछ राजनीतिज्ञों ने उसे अपना काम बनाने के लिए नेदरलैण्ड बुला लिया था। ऑरेञ्ज ने उसे अपने हाथ में फट-पुतली बना कर जो चाहा किया। जब मैथियस की किसी को कोई जरूरत न रही, तभी वह दूध की मक्खी की तरह नेदरलैण्ड की राजनीति में से निकाल कर फेंक दिया गया।

खैर, पंचायतों ने मैथियस को पचास हजार सालाना की पेंशन देना स्वीकार कर लिया। मगर वाद को शायद पेंशन बराबर नहीं दी गई। नेदरलैण्ड की इस समय विचित्र अवस्था थी। फिलिप को गद्दी से उतार दिया गया था। अब फिलिप की प्रभुता दो भागों में उसी स्थान पर दो मनुष्यों को दी जा रही थी। ऑरेञ्ज को इच्छा न होने पर भी हालैण्ड और जेलेण्ड का शासन अपने हाथों में लेना पड़ा था। अन्य प्रांतों का अधिकार एलेन्कौन को देना निश्चय हो गया था। परन्तु, पंचायतों ने

अभी तक वाक्कायदा यह बात स्वीकार नहीं की थी। आरेख ने बहुत प्रयत्न किया कि हालैण्ड और जेलैण्ड भी संयुक्त प्रांतों की तरह एलेन्कौन की आधीनता स्वीकार कर लें, परंतु ये प्रांत अपने निश्चय पर अटल रहे। हारकर आरेख को फिलिपिन उनको वागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ी। अन्य प्रांतों में भी ऐसे लोगों की काफी सख्या थी। जो एलेन्कौन की आधीनता स्वीकार करने को राजी नहीं थे। परंतु, आरेख के बहुत समझाने-बुझाने पर अन्य प्रांतों ने आखिरकार एलेन्कौन की आधीनता स्वीकार कर ली। आरेख ने एलेन्कौन जैसे निकम्मे मनुष्य को नेदरलैण्ड का राजा बनाना उचित समझा यह बड़े अश्चर्य की बात लगती है। क्या मनुष्यों के जौहरी आरेख ने एलेन्कौन की अच्छी तरह परख करके उसे पहचान लिया था? क्या आरेख जानता था कि वह धूर्त, नीच और निकम्मा है? शायद, एलेन्कौन को अच्छी तरह जान लेने का अभी तक मौका ही नहीं आया था, स्वयं फिलिप का स्थान आरेख लेना नहीं चाहता था। यदि उसने नेदरलैण्ड का ताज अपने सिर पर रख लिया होता तो शायद दोष ढूँढने वाला दुनिया यह समझती कि वह देश को स्वतंत्र करने का प्रयत्न नहीं कर रहा था, अपने लिए ताज तैयार कर रहा था। बिना किसी बाहरी सहायता के केवल अपने बल पर, फिलिप जैसे शक्तिशाली अत्याचारी का सामना करना भी नेदरलैण्ड के लिए असम्भव था। इसलिए फ्रांस और इंग्लैण्ड को सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ही, शायद, आरेख ने एलेन्कौन को नेदरलैण्ड का राजा बनाना उचित समझा हो। एलेन्कौन सनातनी था। कुछ लोग नेदरलैण्ड में उसका विरोध केवल सनातनी होने के कारण करते थे ने

आरेख की ओर से कहा गया कि जब धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है, तब सनातनी और सुधारक का प्रश्न ही नहीं रहता। राजा चाहे सुधारक दल का हो या सनातन-धर्मी; यदि वह हम पर अत्याचार न करके हमारी रक्षा करने को तैयार हो तो हमें उसकी अधीनता स्वीकार करने में उज्र नहीं होना चाहिए। फिलिप को गर्दी से इसलिए नहीं उतारा जा रहा है कि वह सनातनी है। उसके अत्याचारों के कारण हमने उसे अलग किया है। कुछ लोगों को डर था कि एलेन्कौन, नेदरलैण्ड को फ्रान्स के राज्य में मिला लेगा। इसलिए यह भी विचार हुआ कि उस को केवल नाम-मात्र को ही सत्ता दी जाय, वास्तविक सत्ता पचायतों के हाथ में ही रहे।

इन दिनों एलेन्कौन इंग्लैण्ड में अपनी प्रेमिका एलिज़बेथ के पास था। दोनों ने एक-दूसरे की अँगूठियाँ बदल ली थीं। सब जगह खबर फैल चुकी थी कि शीघ्र ही दोनों का विवाह होने वाला है। नेदरलैण्ड में लोग आतशबाजी छुड़वाने लगे थे। इंग्लैण्ड में भी चारों ओर खुशियाँ मनाई जाने लगीं। चारों ओर विवाहोत्सव हो रहे थे। केवल विवाह की देर थी। एलेन्कौन को इंग्लैण्ड अ नेदरलैण्ड बुलाया गया और एस्टवर्प में वैसे ही ठाठ-बाट, धूम-धाम में उसका राज्याभिषेक किया गया जैसा किर्न दिन फिलिप का किया गया था। एलेन्कौन के सामने राजा की तरफ से २७ शर्तें रखी गईं। एलेन्कौन ने सारी शर्तें स्वीकार करके हस्ताक्षर कर दिये। इन शर्तों के अनुसार उस को पचायतों की सम्मति के बिना किसी आवश्यक विषय में निश्चय करने का अधिकार नहीं था।

(२२)

आरेञ्ज की हत्या का प्रयत्न

१८ मार्च सन् १५८२ ई० एलेन्कौन की वर्ष-गाँठ का दिन था । इस दिन नेदरलैण्ड भर में समारोह मनाया गया, महल में भी एक बृहत् भोज देने की योजना की गई । आरेञ्ज इत्यादि सारे सरदार बुलाये गये । भोज में काउण्ट होडेनलो, लावल तथा अपने पुत्र मौरिस और दो भतीजों के साथ आरेञ्ज एक मेज पर बैठा खाना खाता-खाता गप्पें लड़ा रहा था । जब वह उठकर चलने लगा तो नाटे कद के एक बदमाश नौकर ने आगे बढ़कर उसके हाथ में एक अर्जी रख दी । आरेञ्ज अर्जी पढ़ने में लगा था कि बदमाश ने पिस्तौल निकाल कर आरेञ्ज के धिर पर वार किया । गोली दाहिने कान के नीचे घुसी और तालू फोड़ती हुई जबड़े में चली गई । आरेञ्ज के दो दाँत बाहर निकल पड़े । दाढ़ी और बालों में आग लग गई । आरेञ्ज की आँखों के सामने अन्धकार छा गया और वह बेहोश सा खड़ा रह गया । उसकी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है । बाद को आरेञ्ज के कहने से मालूम हुआ कि जब उस को गोली लगी तो उसे ऐसा लगा था मानों जिस मकान में वह खड़ा था उसका एक भाग एकाएक धड़ाम से पृथ्वी पर आ गिरा । गोली

लगने के बाद जैसे ही ऑरेञ्ज को होश आया उसने चिल्लाकर का कहा—“ मारना मत । मेरी हत्या का प्रयत्न करने वाले को मैं क्षमा करता हूँ ।” परन्तु उसके ये शब्द निकलने के पहले ही हत्यारे के टुकड़े-टुकड़े हो चुके थे । ऑरेञ्ज को पलंग पर लिटा दिया गया । घाव से खून इतना बह रहा था कि किसी को उसके बचने की आशा नहीं थी । नगर में अफवाह उड गई कि एलेन्कौन ने ऑरेञ्ज को मरवा डाला । जनता को किसी पर विश्वास नहीं था इसलिए उसने अपने एक प्रतिनिधि को स्वयं अपनी आँखों से ऑरेञ्ज की हालत देखने के लिए भेजा । ऑरेञ्ज ने भी समझा कि मैं बच नहीं सकूँगा । वह दुःख प्रकट करके कहने लगा—“मेरे बाद बेचारे एलेन्कौन की क्या दशा होगी ?” डाक्टरों ने उससे प्रार्थना की कि आप चुप-चाप पड़े रहें, नहीं तो मुँह के घाव से खून निकलना बन्द नहीं होगा । ऑरेञ्ज चुप हो गया । परन्तु उसका हृदय चुप कैसे हो सकता था ? वहाँ तो देश को स्वतंत्र बनाने की चिन्ता आँधियाँ खड़ी कर रही थी । उसने एक खत लिखवा कर जनता के पास भिजवाया—“मेरे मर जाने पर एलेन्कौन का हुकम अवश्य मानना ।” ऑरेञ्ज का पुत्र मौरिस था तो कुल १५ वर्ष का बालक, परन्तु बड़ा शान्त चित्त, वीर और होशियार था । ऑरेञ्ज जैसे पिता के गोली लगने पर भी वह जरा नहीं धराराया । चुपचाप हत्यारे की लाश के पास खड़ा रहा, उसका विचार हुआ कि जिन लोगों ने जल्दी से हत्यारे को मारकर उसका मुँह बन्द कर दिया है वही कहीं इस पड्यन्त्र में शरीक न हों । हत्यारा पकड़े जाने पर कहीं भेद न खोल दे इसी डर से न कहीं उसे तुरन्त मार डाला गया हो ।

मौरिस ने हत्यारे की लाश की तलाशी ली। हत्यारे के कपड़ों में मौरिस को कुछ कागज मिले। कागजों को लेकर वह एक निश्च-स्त नोकर के साथ अलग कमरे में चला गया और वहाँ बैठकर वह कागजात को देखने लगा। कागजात स्पेनिश भाषा में लिखे थे। होहेन्लो ने हुक्म दे दिया था कि कोई मनुष्य मकान से बाहर न जाने दिया जाय और न बाहर से हा कोई अन्दर आने दिया जाय। सेण्ट एल्डगोसडे भी आ गया था। उसने कागजों को पढ़ कर सालूम किया कि हत्या एस्टनपे में रहने वाले एक व्यापारी का नौकर था। व्यापारी और उसका मुनीम दोनों षड्यन्त्र में शरीक थे। व्यापारी का दिवाला निकलने वाला था इसलिए उसने आरेञ्ज की हत्या करके इनाम के रुपये से दिवाला बचाने का निश्चय किया था। व्यापारी ने फिलिप से पत्र-व्यहार करके सौदा तय कर लिया था। फिलिप ने अपने हाथ से पत्र लिख कर व्यापारी के पास अपनी मुहर लगाकर भेजे थे। व्यापारी ने २८७७) अपने नौकर को आरेञ्ज की हत्या करने के लिए दिये थे। व्यापारी के नाम की २८७७) रु० की हुँडियाँ कागजों में मिली। व्यापारी एक दिन पहले ही नेदरलैण्ड छोड़कर भाग गया था। उसका मुनीम पकड़ा गया, परन्तु, आरेञ्ज की आज्ञा से उसका मुकदमा निष्पन्न न्याय से किया गया। फौजी देने के पहले मुनीम को कोई कष्ट नहीं दिया गया। बेवकूफ हत्यारे को विश्वास दिला दिया गया था कि विलियम आरेञ्ज को मार डालने से ससार से सबसे बड़े पापी को मारने का श्रेय मिलेगा और इस पुण्य-कार्य के कारण स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जायेंगे। परन्तु, हत्यारा आरेञ्ज को मार कर

२८७७) रु० प्राप्त करने और स्वर्ग जाने के बजाय इसी संसार में रहने के लिए अधिक इच्छुक मालूम पड़ता था, क्योंकि, उसने ऑरेञ्ज पर हमला करने क कई दिन पहले ही से पत्र लिख-लिख कर कुँवारी मेरी, ईसामभीह, जिब्रईल इत्यादि से अपनी सफलता के लिए मन्त्रों मँगना शुरू कर दी थीं। सफलता से मारकर भाग आने में सहायता करने के लिए इन देवताओं को रिश्वतें देने का भी उसने वायदा किया था। किसी को भेड़, किसी को मेमना और किसी को चढावे में वस्त्र देने का प्रलोभन दिया गया था। ऑरेञ्ज की हत्या का शुभ-कार्य सफलता-पूर्वक समाप्त कर चुकने पर हत्यारे ने आठ दिन तक केवल रोटी और पानी पर रहकर उपवास करने का निश्चय भी कर लिया था। उसके कपड़ों में दो मरे हुए मेढक भी पाये गये, जिन्हे शायद वह किसी जादूगर से अपनी रक्षा करने के लिए लाया था। मालूम होता है, इस बेवकूफ बदमाश को उससे कहीं बड़े बदमाशों ने उलटा-सीधा समझा कर उस ऑरेञ्ज की हत्या करने के लिए तैयार कर लिया था। ऑरेञ्ज १८ दिन तक खतरनाक हालत में पलंग पर पड़ा रहा। घाव अच्छा होने लगा। देश भर में लोग गिरजों में इकट्ठे हो-होकर आँखों में आँसू भरकर उसके लिए ईश्वर से प्रार्थनायेँ करते थे। एक दिन घाव ने से एकाएक फिर खून जारी हो गया। लोगों को उसके बचने की आशा न रही। ऑरेञ्ज भी निराश हो गया। उसने अपने पुत्रों को बुला कर जो कुछ अन्त समय कहना था, कह दिया। घाव पर पट्टी बाँधने के लिए मुँह में जगह नहीं थी। खून रोकने के लिए अगर फसकर पट्टी बाँध भी दी जाती तो दम घुट कर बीमार के

मर जाने का भय था। सौभाग्यवश एलेन्कौन के वैद्य को एक बड़ी अच्छी तरकीब सूझ गई। उसने कहा कि यदि बारी-बारी से भिन्न-भिन्न आदमी घाव के मुँह को उस समय तक हाथ से बन्द किये बैठे रहे जबतक कि खून बिल्कुल बन्द न हो जाय तो मरीज अवश्य बच जायगा। यही युक्ति काम में लाई गई। अठारह दिन बीमार पड़े रहने के बाद ऑरेञ्ज अच्छा हो गया, परन्तु उसकी प्राण-प्रिय चिर-सगिनी शाहजादी बूरवन को जो सात वर्ष से दुःख-सुख में सदा उसके निकट रही थी, और जो उसकी बीमारी के १८ दिवसों में दम भर के लिए उसके पलंग के पास से अलग नहीं हुई थी ऑरेञ्ज के घाव में से आखिरी बार खून जारी हो जाने से बड़ा धक्का लगा था। चिन्ता के कारण उसे बहुत जोर का दुखार चढ़ आया था। ५ मई को पति के अच्छे होने के तीसरे दिन शाहजादी बूरवन मर गई, 'पतंग दीपक की भेंट हो गया।' लोगों को डर हुआ कि शाहजादा ऑरेञ्ज का यह नया दुःख फिर कहीं बीमार न बना दे। शाहजादी बूरवन बड़ी सती-साधवी स्त्री थी। ऑरेञ्ज की उसने बड़ी सहायता की थी। सारे देश ने उसकी मृत्यु पर दुःख मनाया। ९ मई को शाहजादी बूरवन की अन्त्येष्टि-क्रिया की गई। शाहजादी छ' लड़कियाँ छोड़ कर मरी थी। इधर भागे हुए व्यापारी ने अलेक्जेंडर फारनोस से जाकर अपनी कृति का सारा हाल कह सुनाया। उसने फारनीस को विश्वास दिला दिया कि ऑरेञ्ज का काम तमाम हो चुका है। फारनीस ने ऑरेञ्ज के मारे जाने का आनन्ददायी समाचार पाते ही, तुरन्त, एण्टवर्प ब्रसेल्स इत्यादि नगरों की पचायतों को खत लिखे—“अब तो ज्वालित देश-द्रोही

ऑरेञ्ज मर चुका है। अब आप लोगों को चाहिए कि अपने राजा की शरण में लौट आवें। महाराज प्रेम से हाथ फैला कर अभी तक आप लोगों को बुला रहे हैं।” मगर फारनीस ने पत्र लिखने में जरा जल्दबाजी दिखाई थी। ‘जालिम देशद्रोही’ विलियम ऑरेञ्ज अभी तक जीवित था। यद्यपि, अधिक दिनों के लिए नहीं। हालैण्ड और जेलैण्ड की पंचायतों की आजकल बैठकें हो रही थीं। वहां सब रोज ऑरेञ्ज के समाचारों की प्रतीक्षा किया करते थे। जैसे ही ऑरेञ्ज अच्छा हुआ, इन प्रान्तों की ओर से प्रातों पर राज करने के लिए फिर उस पर जोर दिया जाने लगा। बहुत दिनों से ये प्रांत ऑरेञ्ज के पीछे पड़े हुए थे। आखिरकार ऑरेञ्ज ने उनकी बात स्वीकार कर ली। एलेन्कौन ने भी वादा किया कि इन प्रातों पर अधिकार जमाने का मैं कभी प्रयत्न नहीं करूँगा। ऑरेञ्ज ने हालैण्ड और जेलैण्ड की जिद्द के सामने सिर मुका कर इन प्रातों का राजा बनना स्वीकार कर लिया। परन्तु जिस प्रकार उसने एलेन्कौन को अन्य प्रान्तों की गद्दी पर बैठा कर भी एलेन्कौन के हाथ में कुछ शक्ति नहीं दी थी, उसी प्रकार उसने अपने हाथ में भी सत्ता नहीं रखी। शासन के सारे अधिकार पंचायतों के ही हाथ में रहे। हालैण्ड और जेलैण्ड का ताज स्वीकार कर लेने से ऑरेञ्ज की शक्ति में वृद्धि नहीं हुई। उलटे उसकी शक्ति घट गई। अगर विलियम ऑरेञ्ज ताज पहनने तक जीवित रहा होता तो इन प्रातों में इंग्लैण्ड की तरह एक नियंत्रित राजा की अध्यक्षता में लोक-सत्तात्मक राज्य कायम हुआ होता। परन्तु भगवान की इच्छा से अमेरिका की तरह पूर्ण प्रजातंत्र राज्य कायम हुआ।

विलिप्तय आरंभ नियम-पूर्वक राज्याभिषेक होने से पहले ही संसार से उठ गया ।

सन् १५८५ ई० में साल भर युद्ध धीरे-धीरे चलता रहा । फारनीस के पास पर्याप्त सेना नहीं थी । मर्यादित प्रान्तों का एलेन्कौन से समझौता हो जाने के बाद फारनीस ने स्पेन से नई सेना मँगा ली थी । सेना के पहुँचते ही उमने शेन्ड के किनारे पर वने हुए ऊडेनाडे नाम के नगर पर घेरा डाला । फारनीस स्वयं खड़ा होकर अपने पदाव के चारों ओर खाइयाँ खुदवाना था । अन्य सब काम की देख-रेख भी स्वयं करता था । जितना शीघ्र हो सके खाइयाँ बनाने का काम खत्म करके वह नगर पर आक्रमण करना चाहता था । समय बचाने के विचार में अपना खाना भी खाइयो पर मँगा कर खा लेता था । एक दिन ढोलों पर दस्तरखवान लगा कर मेज बनाई गई और उस पर बैठे हुए फारनीस, एरेम्बर्ग, नौएटनी, लामोटे इत्यादि खाना खा रहे थे । एक सरदार दूसरे दिन के हमले का संचालन-कार्य अपने हाथ में लेने के लिए फारनीस से बड़ा हठ कर रहा था । इतने ही में शहर की तरफ से एक गोला आकर उसके सिर में लगा । सिर की खीलों बिखर गई । सिर का एक टुकड़ा एक दूसरे मनुष्य की आँख में उचट कर इस जोर से लगा कि उसकी आँख ही निकल पड़ी । देखते ही देखते एक और गोला आकर दस्तरखवान पर गिरा । सारा खाना तितर-बितर हो गया । फारनीस के साथ बैठे हुए सरदार उठकर भागने लगे । परन्तु, फारनीस वहीं बैठा रहा । उसने नौकरों को नया दस्तरखवान बिछाकर दूसरा खाना लगाने का हुक्म दिया । वह कहने लगा कि दुश्मन को इस रात का सन्तोष मैं कभी नहीं

दूंगा कि उसने मुझे खाना खाने से भगा दिया। फारनीस के हठ के कारण विवश होकर वहाँ अन्य सरदारों को भी बैठना पड़ा। भाग्य से नगर की ओर स और कोई गोला नहीं आया। जिस नगर को फारनीस ने इस दृढ़ता से घेरा था उस बेचारे के पास अन्त में धारने के अतिरिक्त और चारा ही क्या था।

नागरिकों के सौभाग्य से फारनीस की नानो का जन्म इसी नगर में हुआ था। अपनी नानो की पवित्र स्मृति में फारनीस ने नगर में लूट-मार और कत्ल-आज नहीं किया। केवल तीस हजार रुपया वसूल करके नागरिकों को छोड़ दिया। एलेन्क्रौन ने उडेनाई को बचाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया था परन्तु, उसकी नाक के नीचे ही फारनीस ने नगर पर अधिकार जमा लिया। दूसरी चढ़ाई फारनीस ने निनोव नाम के दुर्ग पर की। यहाँ उमरों चारों ओर से रसद मिलनी बन्द हो गई और उसकी फौज भूखों मरने लगी। यहाँ तक अकाल पड़ा कि सिपाही घोड़े मार-मार कर खाने लगे। एक दिन फारनीस का एक अफसर फारनीस के खेमे के बाहर घोड़ी बाँध कर किसी काम के लिए अन्दर गया। बाहर निकल कर देखा तो बाठी और लगाम तो लटक रही हैं मगर घोड़ी नदारद है, उसने बहुत शोर-गुल मचाया, मगर, शोर-गुल से क्या होना था। घोड़ी तो टुकड़े-टुकड़े होकर लोगों के पेट में भी पहुँच चुकी थी। परन्तु सेना में इतना अकाल होते हुए भी फारनीस ने निनोव पर अन्त में विजय प्राप्त की। इसके बाद उसने स्टीनविक पर चढ़ाई की और वहाँ भी विजय प्राप्त की। इन्हीं चढ़ाइयों में फारनीस का यह वर्ष बीत गया। फारनीस के पास अब साठ हजार फौज हो गई थी। इसकी सेना का

डच प्रजातंत्र का विकास

माहवारी खर्च साढ़े छ. लाख के लगभग था । एलेन्फ्रीन और संयुक्त प्रान्तों की सेना भी काफी बड़ी थी । इन दो बड़ी-बड़ी सेनाओं का खर्च देते-देते नेदरलैण्ड का दिवाला पिटने की नौवत आ गई थी ।

एलेन्कौन का अन्त

जुलाई मास में जब ब्रूजेज़ नगर में एलेन्कौन का स्वागत हो रहा था। आरेञ्ज भी वहाँ मौजूद था। वहाँ भी दो मनुष्य आरेञ्ज और एलेन्कौन के खाने में जहर मिलाने का प्रयत्न करते हुए पकड़े गये। पकड़े जाने पर अपराधियों ने स्वीकार किया कि फारनीस के कहने से हम लोग आरेञ्ज और एलेन्कौन को जहर देकर मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे। दुर्भाग्य से इस पड्यन्त्र में एग्मोएट का छोटा लडका भी जिसका हाथ उसकी माँ आरेञ्ज के हाथ में दे चुकी थी, शरीक पाया गया। बड़े लडके ने ब्रसेल्स में दगा करके अपने बाप का नाम बदनाम किया ही था, छोटे साहब उससे भी बढ़कर निकले। इन जनाव को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। मगर आरेञ्ज ने प्रयत्न करके मामला दबा दिया। एग्मोएट के नाम को कलक से बचाने के लिए आरेञ्ज ने उसे छुड़ा कर चुपचाप फ्रान्स भेज दिया।

इधर एलेन्कौन पर भी वेवकूफी का भूत सवार हुआ। फ्रान्स से बहुत से सरदारों ने आकर उसके कान भरना शुरू कर दिये थे। “पँचायतो ने तुम्हें अधिकार ही क्या दिये हैं। चारों तरफ से तुम्हारे हाथ-पैर बाँध दिये गये हैं। यह नाम-मात्र के अधिकार लेकर आप अपने प्रख्यात राज्य-वश को बदनाम करते हैं। नेदरलैण्ड को फ्रान्स के राज्य में मिला लेने का आपके हाथ में

अच्छा अवसर आ गया है। यदि आप नेदरलैण्ड को फ्रान्स के राज्य में मिलाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो फ्रान्स के राजा भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। एलेन्कौन डीला तो था ही, बहक गया। एक दिन रात को उसने अपने अधिकारियों को बुलाकर सलाह की कि सैनिकों को सिखा-पढ़ा कर सैनिकों और नागरिकों के जगह-जगह भगड़े करा दिये जायें और फिर इन बलबों को दवाने के बहाने सेना ले जाकर नगरों पर अधिकार जमा लिया जाय। बहुत से नगरों में यह चाल चला गई। एग्टवर्प में स्वयं एलेन्कौन ने अधिकार जमाना का प्रयत्न किया। आरेञ्ज एलेन्कौन पर अटल विश्वास रखता था। उसने एलेन्कौन के विरुद्ध कुछ अफवाहें सुनी थीं परन्तु उसने विश्वास नहीं किया। जिस समय एग्टवर्प के नागरिकों पर एलेन्कौन के मनुष्यों ने एका-एक हमला किया उस समय नागरिक निश्चिन्त अपने-अपने घरों में बैठे खाना खा रहे थे। फिर भी वे इस वीरता से लड़े कि घण्टे भर में ही एलेन्कौन के हथारों मनुष्यों की लाश लोटने लगीं। जो तलवारों की चपेटों से बच गये थे उन्हें नागरिकों ने दैट कर लिया। एलेन्कौन जान लेकर भाग गया। जैसे ही आरेञ्ज को यह समाचार मिला तो वह तुरन्त एग्टवर्प पहुँचा, वहाँ की दशा देखकर उसे बड़ा दुःख हुआ। इतने दिनों के प्रयत्न के बाद आरेञ्ज ने प्रान्तों को मिला कर एक किया था। बड़ी मुश्किल से शासन-व्यवस्था का ठीक-ठाक करके स्वतन्त्रता और शान्ति की स्थापना की थी। अब उसने फिर सब मामला बिगड़ता नज़र आया। एलेन्कौन को दगावाजी के कारण पचायतों का एलेन्कौन पर विश्वास नहीं रहा था। जब इस उपद्रव की खबर

फ्रान्स पहुँची तो फ्रान्स के राजा और उसकी माता ने विलियम आरेञ्ज को लिखा कि यदि एलेन्कौन ने विद्रोह किया है तो किसी के भड़काने या किसी बात से रूष्ट हो जाने से ही किया होगा। आपको चाहिए कि जैसे वने उससे फैसला कर लें। महारानी एलिज़बेथ ने भी इंग्लैण्ड से आरेञ्ज को ऐसा ही लिखा। एलेन्कौन ने भी स्वयं एक पत्र आरेञ्ज को और दूसरा पचायतों को लिखा कि जो कुछ मैंने किया वह प्रजा के अविश्वास और दुर्व्यवहार से रूष्ट होकर ही किया था। मुझे नेदरलैण्ड और पचायतों पर आज भी पूरा स्नेह है। पीछे से एक दूसरे पत्र में लिखा, कि 'मेरे सैनिकों और नागरिकों में झगड़ा हो गया था। मैंने बहुत समझाया फिर भी सैनिकों ने न माना और नागरिकों पर आक्रमण कर दिया।' आरेञ्ज ने उसे उत्तर लिखा 'मैंने सदा आप पर विश्वास रखकर सबे भिन्न की तरह आपकी हर समय सहायता की। परन्तु, आपने अपने इस अन्तिम कृत्य से अपना विश्वास गवाँ दिया है। आपका पत्र लेने के कारण लोग मुझसे पहिले ही से नाराज़ थे। आपके इस कृत्य के बाद अब आपकी सहायता करना मेरे लिए अत्यन्त कठिन हो गया है। पहिले खत में सारे उपद्रव की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेकर कहते हैं कि प्रजा के अविश्वास और व्यवहार से चिढ़कर आपने विद्रोह किया। परन्तु दूसरे पत्र में आप सारी जिम्मेदारी सैनिकों के कन्धे पर डाल कर स्वयं अलग हो जाते हैं। इस प्रकार की बातें आपको शोभा नहीं देती। प्रजा ने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। ध्यान अपना कसूर स्वीकार न करके मामले को और भी टेढ़ा बनाते जाते हैं।'।

आरेञ्ज का दिल एलेन्कौन की तरफ से फट चुका था । परन्तु वह करता तो क्या करता ? हालैण्ड और जेलेण्ड के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में अपने बल पर खड़े होने की हिम्मत नहीं थी । ऐसी दशा में दो ही बातें हो सकती थीं या तो नेदरलैण्ड वाले फिलिपकी दासता स्वीकार कर लें या किसी अन्य विदेशी राजा की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो कुछ थोड़ी बहुत आशा थी, उसके लिए प्रयत्न करते । आरेञ्ज जान गया था कि एलेन्कौन विश्वास करने योग्य मनुष्य नहीं है । परन्तु फिर और कोई दूसरा राजा नेदरलैण्ड की सहायता के लिए बढ़ता नजर में भी तो नहीं आता था । एलेन्कौन ने विश्वासघात करके प्रजा का खून बहाया था, प्रजा के अधिकारों को कुचलने का प्रयत्न किया था । प्रजा के खून से सने उसके हाथों से हाथ मिलाने जो आरेञ्ज का जी नहीं चाहता था । परन्तु यदि वह एलेन्कौन से समझौता नहीं करता तो फ्रान्स और इंग्लैण्ड शत्रु बने जाते थे । पृथ्वीतल पर यही दो देश ऐसे थे जो नेदरलैण्ड से कुछ सहानुभूति रखते थे, और समय-समय पर थोड़ी बहुत सहायता भी पहुँचाते रहते थे । जब कभी पंचायतों के सामने कोई कठिन समस्या उपस्थित होती थी और उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था । तब वे आरेञ्ज की शरण लेती थीं । इस कठिन समस्या के सम्बन्ध में भी आरेञ्ज की राय पूछी गई । आरेञ्ज ने कहा कि 'मैं अपनी राय तो देने को तैयार हूँ परन्तु बहुत डरता हूँ । जब-जब कोई कार्य असफल हो जाता है तब तब उसका सारा दोष मेरे सिर मड़ा जाता है, मानों किसी कार्य को सफल बनाना भगवान के हाथ में नहीं मनुष्य के हाथ में है । रास्ते तीन ही हैं । अपने बल पर खड़े होकर स्वाधीनता के लिए

युद्ध किया जाय, फिर या तो विजय मिले या लड़ते-लड़ते प्राण दे दिये जाय। दूसरा मार्ग यह है कि फिलिप के अत्याचार को चुपचाप सहन किया जाय। यदि इन दो बातों में से एक भी नहीं की जा सकती, तो फिर इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है कि किसी विदेशी राजा से जो कुछ सहायता मिले लेकर फिलिप से पिण्ड छुड़ा लिया जाय। मैं तो हमेशा से पहिले उपाय के पक्ष में हूँ। अपने बल पर खड़े होकर लड़ना; स्वाधीनता प्राप्त करना, नहीं तो लड़ते-लड़ते मर जाना ही मेरी नजर में सर्वश्रेष्ठ जँचता है। परन्तु आप लोगों में इतनी हिम्मत और आत्म-विश्वास नहीं है। तब दूसरे दो रास्ते ही रह जाते हैं। फिलिप के अत्याचारों के सामने सिर झुकाने को मैं आप लोगों को राय दे नहीं सकता। मेरी समझ में एक ही बात आती है। जैसे वने एलेन्क्रौन से फैसला करके उसकी सहायता से स्वाधीनता की रक्षा करने का प्रयत्न किया जाय। पचायतों ने आरेख की सलाह मान ली। एलेन्क्रौन से समझौता कर लिया गया। नई शर्तों पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद एलेन्क्रौन को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न होने लगा। हालैण्ड और जेलेण्ड एलेन्क्रौन से समझौता करने के विल्कुल विरुद्ध थे। उन्होंने बड़ी नम्रता से परन्तु दृढ़ता से आरेख को लिखा “कभी-कभी बड़े से बड़े आदमा भी गलती कर बैठते हैं, हमारी राय से आपको एलेन्क्रौन ने बोखे में डाल रक्खा है। आप उसकी तरफ से मुँह मोड़ कर ईश्वर पर विश्वास रख कर देश की शक्ति के बल पर स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। सारे प्रान्त आपको अपना राजा बनाने के लिए तैयार हैं। आप स्वीकार तो कर लीजिए।” सारे प्रान्तों को ओर से उसके

पास ऐसी हा प्रार्थनाएं आईं । सयुक्त प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने तो जाकर उसके हाथ में शासन के सारे अधिकार ही रख दिये । परन्तु उसने कहा “ न तो मैं फिलिप को यह कहने का मौका देना चाहता हूँ कि मैं स्वयं राजा बनने का प्रयत्न कर रहा था ! न मेरे पास इतनी शक्ति ही है कि मैं केवल अपने बल पर देश की रक्षा कर सकूँ । ये अधिकार किसी अन्य योग्य व्यक्ति को ही दिये जाने चाहिए । जो कुछ देश की सहायता में कर सकता हूँ बिना राज्य स्वीकार किये वैधे ही करने का तैयार हूँ ।” आरेञ्ज की राय में एलेन्कौन से समझौता कर लेने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था । इसलिए वह पचायत्यों और एलेन्कौन का समझौता करा देने का प्रयत्न कर रहा था ।

फारनीस चुपचाप नहीं बैठा था । उसने एलेन्कौन के एकाएक विश्वासघात कर बैठने के कारण देश में पैदा हो जाने वाला अव्यवस्था का फायदा उठाकर बहुत से छोटे-छोटे नगरों पर कब्जा कर लिया था । आरेञ्ज के साले वाएडेनबर्ग ने भी धोखा दिया था । उसने ज़ुटफेन नगर सरकार के हवाले कर दिया । वाएडेनबर्ग ने चुपके-चुपके फारनीस से पत्र व्यवहार करके तय कर लिया था कि यदि सरकार मेरे सारे अपराध क्षमा करके मुझे किसी अच्छे पद पर नियुक्त कर दे तो मैं गिल्ड्रेस और ज़ुटफेन प्रान्तों के सारे मुख्य-मुख्य नगर सरकार के हवाले कर दूँगा । फारनीस ने वाएडेनबर्ग की प्रार्थना मन्जूर कर ली थी । वाएडेनबर्ग ने ज़ुटफेन नगर सरकार के हवाले करके अपने नीच कृत्य का श्री गणेश किया था । आरेञ्ज के शत्रु तो आरेञ्ज को नहीं छका पाते थे, परन्तु प्रायः उसके विश्वास-पात्र मित्र ही उसे ऐन वक्त पर

घोखा देते थे। एम्बरशाह का लड़का शाहजादा चिमे, देश-भक्त दल का विश्वास-पात्र बन कर फ्लैण्डर्स का गवर्नर नियुक्त हो गया था। उसने भी अपने प्रान्तों को फारनीस के सुपुर्द करने का प्रयत्न किया। परन्तु आरेञ्च के लोगों को समझाने और जनता से अपील करने के कारण भेस्ट नगर के निवासी सजग हो गये। फ्लैण्डर्स प्रान्त कुछ दिन के लिए गढ़े में गिरने से बच गया। केवल एक ब्रूजेज नगर—जिस पर चिमे का पूर्ण अधिकार था—फारनीस के हाथ में चला गया। यपरिस पर सरकारी फौजें बहुत दिनों से घेरा डाले पड़ी थीं। आखिरकार इस नगर को भी हार मान कर सरकार की शरण में चला जाना पड़ा। सनातन-धर्म के नये महन्त के हृदय में प्रतीकार की अग्नि धधक रही थी। जैसे ही यपरिस पर फारनीस का अधिकार हुआ उसने हुक्म निकाला कि सुधारक तुरन्त नगर छोड़ कर चले जावें। जो सुधारक मर चुकने पर शहर में दफनाये जा चुके थे उनकी लाशें निकलवा कर फॉफी पर चढ़ाई गई। मुर्दों को फॉसी पर चढ़ा कर उनकी आत्मा शुद्ध कर ली गई। सनातनधर्म के नाम को अपवित्र करने वाला कोई वस्तु यपरिस में नहीं रही। एलेन्कौन और पचायतों में समझौते की बात-चीत चल रही थी। समझौते में सहायता करने के लिए फ्रान्स के प्रतिनिधि भाँ १९ अप्रेज़ सन् १५८४ ई० को डेपट्टू नगर में आ पहुँचे थे। परन्तु १० जून को एकएक एलेन्कौन की मृत्यु हो जाने से समझौते की बात-चीत व्यर्थ हो गई। एलेन्कौन के प्राण बड़े कष्ट से निकले उसके शरीर से पर्साने के साथ-साथ खून निकलने लगा था। यह भी सन्देह किया जाता है कि शायद उसे-विष देकर मार डाला गया।

ऑरेञ्ज की हत्या

पाठक देख ही चुके हैं कि सरकार की ओर से ऑरेञ्ज को मार डालने के लिए जो पुरस्कार मिलने की घोषणा की गई थी वह अपना असर दिखाने लगी थी। कई बार ऑरेञ्ज की हत्या करने का प्रयत्न हो चुका था। एण्टवर्प में जौरगुइ नाम के एक हत्यारे ने ऑरेञ्ज के प्राण लेने का यत्न किया था। ब्रूजेज में सालसेडा और वैजा ने विष देने की चेष्टा की थी। सन् १५८३ ई० के मार्च महीने में एण्टवर्प में पीट्रो नाम के एक मनुष्य को ऑरेञ्ज को कत्ल करने का प्रयत्न करने के अपराध में फाँसी हो चुकी थी। उसने मरने से पहले स्वीकार भी किया कि मैं स्पेन में केवल ऑरेञ्ज को मारने के लिए ही आया था और ग्रेवलाइन्स के गर्वनर ला मोटे से मैंने इस सम्बन्ध में सलाह भी ली थी। सन् १५८४ ई० के अप्रैल मास में क्लुगिंग के हेन्स हैनजून नाम के एक व्यापारी को इस अपराध के लिए प्राण-दण्ड दिया गया कि उसने ऑरेञ्ज के घर के नीचे बारूद लगा कर और गिरजे में उसके बैठने की जगह के नीचे बारूद रखकर दो बार ऑरेञ्ज को बारूद से उड़ा कर मार डालने का प्रयत्न किया। उसने भी अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि इस षड्यन्त्र में स्पेन का पैरिस में रहने वाला राजदूत भी शरीक था। लगभग इसी समय लेगोथ नाम के एक फ्रांसीसी कैदी से भी फारनेस की

तरफ से कहा गया कि यदि तुम ऑरेञ्ज को विष देकर मार डालने का वादा करो तो तुम्हें छोड़ दिया जायगा।” उस चालाक कैदी ने कहा—“यह काम तो मैं बड़ी सरलता से कर सकता हूँ क्योंकि ऑरेञ्ज को मेरा बना खाना बहुत प्रिय है। उसने फारनीस की जेल से छुटकारा पाते ही ऑरेञ्ज को जाकर सारी बात बता दी थी। लेगोथ का ऑरेञ्ज पर सहज प्रेम था। दो वर्ष के भीतर ही पाँच-छः बार ऑरेञ्ज के प्राण लेने का यत्न किया जा चुका था।

सन् १५८४ ई० के ग्रीष्म में ऑरेञ्ज अपने डेल्फ्ट नगर के राजभवन में ठहरा था। पिछली शरद में उसकी नई स्त्री जग-विख्यात कौलिम्बी की पुत्री लूजा को लड़का पैदा हुआ था। यही लड़का आगे चलकर फ्रेडरिक हेनरी के नाम से यूरोप में बहुत मशहूर हुआ। डेल्फ्ट अत्यन्त सुन्दर, शान्त छोटा सा नगर था। नगर में होकर अनेक नहरें बहती थीं। सड़कों के दोनों ओर नीबू और सनोवर के वृक्ष थे। नगर में चारों ओर शांति, आनन्द का साम्राज्य था। राजपथ 'डेल्फ्ट स्ट्रीट' पर ऑरेञ्ज का सुन्दर विशाल भवन था। ऑरेञ्ज के घर के सामने ही सड़क के दूसरी तरफ गिरजा घर था। आठ जुलाई सन् १५८४ ई० को फ्रांस से एक दूत एलेन्कौन की मृत्यु का समाचार लेकर आया। ऑरेञ्ज अभी पलंग पर ही लेटा था। पत्र पढ़ चुकने पर ऑरेञ्ज ने सन्देशा लाने वाले दूत को अपने पास बुलावाया कि दूत से एलेन्कौन की बीमारी का कुछ और हाल पूछे। दूत ने अन्दर आकर अपना नाम फ्रन्सिस गुइथ्रोन बतलाया। इसी मनुष्य ने एक बार बसन्त ऋतु में ऑरेञ्ज की शरण में आकर

यह कह कर सहायता माँगी थी कि “मेरा पिता कट्टर सुधारक होने के कारण बीसन्कोन नगर में मार डाला गया है। मैं भी नये पन्थ का पक्का पक्षपाती हूँ।” वाइविल और प्रार्थना की पुस्तक हर समय बगल में दबाकर फिरने वाला, सदा धार्मिक प्रवचन बड़े चाव से सुनने वाला २७ वर्ष का यह नौजवान बहुत ही भोलाभाला सज्जन-सा लगता था। उसका नाटा कूद और मैला रँग था। इस मनुष्य में कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जिसके कारण लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता। बात-चीत से वह सुशिक्षित और अच्छे कुल का जँचता था। ऊपर से मेमने की तरह भोला भाला लगने वाले इस मनुष्य के साधारण ढाँचे के भीतर बड़ा घृणित चरित्र और हलाहल भरा हुआ था। सात वर्ष से यह मनुष्य एक बोर पाप करने की फिराक में फिर रहा था। इस नौजवान का असली नाम वाल्था-ज्जार जेराड था और यह कट्टर धर्मांध सनातनी था। इसके माता पिता सब जीवित थे, बरगण्डी में रहते थे। जिस समय वाल्थाज्जार जेराड निरा छोकरा था, उसी समय उसने ‘धर्म का नाश करने वाले’ आरेञ्ज की हत्या करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। बीस वर्ष की उम्र में उसने एक दिन अपना खंजर बड़ी जोर से दरवाजे में घुसेड़ कर कहा था—“अहा! ऐसा वार आरेञ्ज की छाती पर लगता तो क्या कहने थे।”

जब आरेञ्ज की हत्या करने वाले को पुरस्कार मिलने की घोषणा निकली थी, तब वह डोल नगर छोड़कर लकज़मबर्ग चला आया था। वहाँ उसे समाचार मिला कि जौरगुइ नाम के एक मनुष्य ने आरेञ्ज को मार डाला। यह समाचार सुनकर उसे

बड़ी प्रसन्नता हुई कि बिना अपनी जान खतरे में डाले ही उसकी मनोकामना पूरी हो गई। सन्तुष्ट होकर उसने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी भी कर ली। बाद को जब उसे पता चला कि जौरगुइ का प्रयत्न असफल रहा, तो उसके हृदय की आग फिर धधक उठी। उसने मैन्सफील्ड की मुहर भी चुराली थी। यह मुहर आरेख के दल वालों को देकर वह देश-भक्तों के विश्वास में आ जाना चाहता था। परन्तु बहुत से कारणों से उसे काफी दिन तक लक्जम्बर्ग में ही रहना पड़ा। आखिरकार लक्जम्बर्ग से चलकर वह हेन्स पहुँचा और वहाँ लालवालो नाम के एक पादरी को अपना इरादा भी बताया। पादरी ने जेराड को आशीर्वाद देकर कहा कि यदि इस शुभ कार्य में तुम मारे गये तो तुम्हारा नाम गाज़ियों में लिखा जायगा। वहाँ से चलकर वह टूने आया। टूने में भी एक बड़े पादरी ने जेराड को बहुत आशीर्वाद देकर आरेख की हत्या जैसा अत्यन्त धार्मिक कार्य करने के लिए उत्साहित किया। अन्त में जेराड ने बड़े परिश्रम से फारनीस के लिए स्वयं एक लम्बा पत्र लिखा। इस पत्र में उसने अपना सारा कवित्व खर्च कर दिया था। पत्र में लिखा था—“गुलाम को अपने राजा की भलाई का और राजा की इच्छा पूर्ण करने का अपने से अधिक ध्यान रखना चाहिए। आश्चर्य है कि किसी ने महाराज फिलिप को आरेख के लिए घातित की हुई सजा को अभी तक पूरा नहीं किया। मैं बहुत दिनों से आरेख को मार डालने की फिराक में हूँ। दुर्भाग्य से आरेख के पास पहुँचने तक का मौका ही नहीं मिलता है। दूसरी कठिनाई एक और भी है। जो कोई मनुष्य आरेख के इर्द-गिर्द की भ्रष्ट अधार्मिक

हवा में रहता है उसके अन्दर की सारी धार्मिक वृत्ति शैतान हर लेता है। खैर, अब मैंने इस लोमड़ी को फँसाने के लिए जाल तैयार कर लिया है। मैंने सरकारी इनाम के लालच से यह काम करने का इरादा नहीं किया है। उस सम्बन्ध में मैं विल्कुल निश्चिन्त हूँ क्योंकि मुझे महाराज फिलिप की उदारता में विश्वास है।”

फारनीस बहुत दिनों से किसी होशियार हत्यारे को तलाश में था। उसे भी पिछले वायसरायों और फिलिप की तरह विश्वास हो गया था कि जब तक आरेञ्ज जीवित है, तबतक नेदरलैण्ड में फिर से स्पेन की सत्ता कायम नहीं की जा सकती। इंग्लैण्ड, स्काटलैण्ड, इटली, स्पेन, लौरेन्स इत्यादि बहुत से देशों से उसके पास हत्यारे आये थे। उसने इन लोगों को रुपया भी दिया था, लेकिन किसीने भी काम पूरा नहीं किया। बहुत से तो रुपया खा-उड़ा कर अपने-अपने घर जा बैठे। जेरोर्ड का बड़ी बड़ी बातों से भरा हुआ पत्र पढ़कर और उसकी शक देखकर फारनीस को विश्वास नहीं हुआ कि यह छोटा-सा कमजोर आदमी इतना खतरनाक काम कर सकेगा। इस लिए उसने जेरोर्ड को अपने यहाँ से चलता किया। परन्तु पीछे से लोगों के कहने पर उसने एक आदमी भेजकर जेरोर्ड को बुलाया। फारनीस ने जेरोर्ड से पूछा—“तुमने किस तरह अपना काम पूरा करने का विचार किया है ?” जेरोर्ड ने कहा—“आरेञ्ज से जाकर कहूँगा कि मैं सुधारक दल का कट्टर पक्षपाती हूँ। मेरे पिता को सरकार ने मरवा डाला है। आप मुझ को अपनी शरण में लेकर मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त और मेरा कोई सहारा नहीं

है। मैन्सफील्ड की मुहर आरेख को देकर मैं उसका विश्वासी बन जाऊँगा और इस तरह उसके पास आने-जाने का सिलसिला लगा लूँगा। जिस समय मौका लगेगा काम पूरा कर डालूँगा। कुछ दिन पापियों की संगत में रहकर मुझे उनके ढंग अवश्य अख्तियार करने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे क्षमा किया जाय। मैंने मैन्सफील्ड की मुहर की नकल भी केवल इसी धार्मिक कार्य के लिए उत्तारी है। वह भी मेरा अपराध न समझा जाय। धर्म से अधिक मुझे और कुछ इस संसार में प्रिय नहीं है।” पंडित लेखगम को मारने वाले हत्यारे ने यदि अपने हृदय के भाव खोलकर रखे होते तो उसने भी शायद इसी प्रकार की कहानी कही होती। लेकिन जेराई को केवल धर्मान्ध समझना ठीक न होगा। उसने यह भी कहा था कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और दौलत पाने ही की आशा से मैंने इस काम के लिए कदम बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कार्य सफल हो जाने पर फारनीस मुझे पुरस्कार दिलवा देंगे। जेराई ने ५०) ६० फारनीस से सफर खर्च के लिए भा माँगे। परन्तु फारनीस की तरफ से उसे उत्तर मिला कि अभी कुछ नहीं दिया जायगा। फारनीस ने बहुत से बदमाशों को रुपये दिये थे। सब के सब खा-पीकर बैठ रहे थे। इसलिए अबकी बार फारनीस ने निश्चय कर लिया था कि इस मनुष्य को कुछ भी न दिया जाय। उसे जेराई को सूरत शक देखकर आशा भी नहीं होती थी कि वह कुछ कर सकेगा। फिर भी उसने जेराई को विश्वास दिलाया कि, काम पूरा हो जाने पर तुम्हें पुरस्कार अवश्य मिलेगा तुम मारे गये तो तुम्हारे बाल-बच्चों को मिलेगा। लेकिन खबरदार, अगर पकड़े जाओ तो

मेरा नाम मत लेना ।” जेराड को फार्नीस से (५०) भी न मिलने से निराशा नहीं हुई । वह फार्नीस से यह कह कर चल पड़ा कि “मैं अपने पास से ही किसी न किसी तरह खर्च निकाल लूँगा । छः सप्ताह में आपको मेरी सफ़नता की ख़बर मिल जायगी ।” फ़ार्नीस के प्रतिनिधि एक बूढ़े पादरी ने जो उससे मिलने आया था जेराड से चलते समय कहा—“जाओ पुत्र आशीर्वाद ! अगर तुम सफल हो गये तो महाराज फिलिप अपना वायदा पूरा करेंगे और तुम्हारा नाम अमर हो जायगा ।”

जेराड ने आरेख के मित्र विलर्स के पास जाकर उसे मैन्सफ़ोल्ड की मुहर दिखाई । आरेख ने जेराड को मुहर लेकर एलेन्कौन के पास फ़ान्स भेज दिया । फ़ान्स पहुँच कर जेराड को बड़ी बेचैनी रहने लगी । नींद हराम हो गई । अपना काम पूरा करने के लिए जैसे बने शीघ्र से शीघ्र वह आरेख के निकट पहुँच जाना चाहता था । एलेन्कौन की मृत्यु हो जाने पर उसने अधिकारियों से प्रार्थना की कि मृत्यु का समाचार लेकर आरेख के पास मुझे भेज दिया जाय । जब आरेख ने खत पढ़ चुकने पर समाचार पढ़ने के लिए उसे अन्दर बुलाया, तो जेराड का हृदय धड़क उठा । अन्दर जाकर उसने देखा कि उसका शिकार जिसके प्राण लेने के लिए वह वर्षों से तड़प रहा है, पलंग पर असहाय अवस्था में निश्चिन्त पड़ा है । एक हथियार तक पास नहीं । ‘धर्म तथा मनुष्य जाति का शत्रु, जेराड के हाथ के निकट था । ऐसा मौका फिर कब मिलने वाला था ? जेराड ने सोचा कि कि आरेख को मार कर एक क्षण में मैं दुनिया में अमोर और अमर बन सकता हूँ । स्वर्ग में भी ईसामसीह मेरे सिर पर ताज

रखेंगे। जिस मनुष्य का खून करने के लिए सात वर्ष से वह भूखे बाघ की तरह इधर उधर भटकता फिर रहा था, उसको आज अपने सामने लेटा देख कर जेराड अपने भावों पर काबू न रख सका। आरेख के प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर देना उसे कठिन हो गया। आरेख फ्रान्स से आये हुए पत्रों को पढ़ने और उनसे उत्पन्न होने वाले विचारों में निमग्न था। उसने जेराड के चेहरे के भाव नहीं देखे। जेराड को आरेख ने अचानक ही भीतर बुलवा लिया था। जेराड के पास अपना इरादा पूरा करने के लिए इस समय कोई हथियार नहीं था। इसलिए वह बेचारा दिल मसोस कर रह गया किसी तरह आरेख के प्रश्नों का उत्तर देकर बाहर चला आया।

रविवार का दिन था। गिरजे का घण्टा घनघन घनघन बज रहा था। जेराड आरेख के मकान से निकल कर अहाते में घूम-घूमकर मकान को चारों ओर से देखने लगा। एक सन्तरी ने पूछा—“इधर क्यों घूमता है?” उसने बड़ी नम्रता से कहा—“सामने के गिरजे में प्रार्थना करने का विचार है। परन्तु सफर में कपड़े सब फट गये हैं। कम से कम जूते और मोजे तो अवश्य ही चाहिए।” सार्जेंट ने उसकी भोली-भाली शक पर विश्वास करके उसकी कठिनाई का जिक्र एक अफसर से कर दिया। अफसर ने आरेख से कहा। आरेख ने तुरन्त जेराड को रुपया देने का अपने मन्त्री को हुक्म दिया। जिस कार्य के लिए जेराड को कंजूस फारनीस से रुपया नहीं मिल सका था उसी कार्य के पूरा करने के लिए उसे उदार आरेख से सहायता मिली। रुपया हाथ आते ही जेराड ने जाकर तुरन्त एक सिपाही से दो

पिस्तौलें खरीदीं । दूसरे दिन शाम को जब उस अभागो सिपाही को पता चला कि उसके पिस्तौल किस काम के लिए खरीदे गये थे, तो वह अपने हृदय में छुरा भोंक कर मर गया ।

१० जुलाई सन १५८४ ई० को मंगलवार के दिन आरेञ्ज अपनी स्त्री और घर के लोगों के साथ खाना खाने के कमरे की तरफ जा रहा था । जेराड ने बढ़कर अपना पासपोर्ट माँगा । आरेञ्ज को स्त्री एक दम चौंक पड़ी । धीरे से आरेञ्ज से बोली— “मैंने ऐसी मनहूस और बदमाश-सूरत आज तक कभी नहीं देखी । यह मनुष्य कौन है ।” आरेञ्ज ने कहा—‘कोई नहीं एक साधारण आदमी है । अपना पासपोर्ट माँगता है ।’ आरेञ्ज अपने मंत्री को पासपोर्ट तैयार करके दे देने का हुक्म देकर खाना खाने चला गया । खाना खाने के कमरे में आरेञ्ज अपने स्वभाव के अनुसार खूब हँसता आनन्द से बातचीत करता और खाना खाता रहा । दो बजे के करीब खाना खाकर बाहर निकला । ऊपर के कमरे में जाने के लिए दो सीढ़ी ही चढ़ा था कि सीने के कोने से एक आदमी ने उछल कर उसके हृदय पर पिस्तौल तान कर धडा-धड़ तीन बार कर दिये । एक गोली सीने को पार करती हुई दीवार में घुस गई । आरेञ्ज के मुँह से आवाज निकली “भगवान ! मेरे ऊपर दया करना ! मेरे देश की गरीब प्रजा पर दया करना ।” विलियम आरेञ्ज के ये अन्तिम शब्द थे । लोगों ने दौड़ कर गिरते हुए विलियम आरेञ्ज को हाथों पर ले लिया । कुछ ही क्षण में, स्त्री और बहन के हाथों में सिर रक्खे हुए विलियम आरेञ्ज की महान् आत्मा ससार से लुप्त हो गई ।

जेराड पिस्तौल पटक कर भाग गया था । स्टाई बैर कर

उस पार जाने का प्रयत्न कर रहा था। इतने ही में सिपाहियों ने जाकर उसे पकड़ लिया। जेराड ने अपना नाम पता इत्यादि सब ठीक-ठीक बतला दिया और अपना अपराध भी कबूल कर लिया। उसे जेल में बहुत कष्ट दिये गये। जिस पशु ने देश के पिता विलियम आरेञ्ज के प्राण ले लिये थे उसपर लागो का अत्यन्त क्रुद्ध होना स्वभाविक ही था। सदा अपने हत्यारों की रक्षा करने वाला विलियम आरेञ्ज तो अब इस ससार में था नहीं। जेराड को बचाता तो कौन बचाता? परन्तु पतले-दुबले जेराड का कलेजा शायद पत्थर का बना था। अकथनीय कष्ट सहने पर भी कभी उसने आह मुँह से नहीं निकाली। बराबर यही कहता रहा कि, 'इस शुभ-कार्य के लिए यदि मुझे ऐसा मौ मौते सहनी पड़ना तो भी मैं खुशी से सहने के लिए तैयार था। शिगन्जे में कम कर जब उसे बाहर निकाला जाता था तो वह अन्धरी तरह बातें करता हुआ निकलता था। लोगों को उसकी मउनशीलता देखकर आश्चर्य होता था। कुछ लागो का तो विश्वास हो चला था कि जेराड अवश्य ही जादूगर है। कोई कोई कहते थे कि स्वयं शैतान उसके भीतर घुस कर बैठा है। जेराड ने बहुत कष्ट पा चुकने के बाद ट्रेक्स और टूनें में पादरियों से होने वाली मुलाकातों की बातों स्वीकार कर ली परन्तु फारनीस का नाम भरते दम तक जवान पर नहीं लाया। आखिरकार उससे लिए बड़ी भयकर और बुर सजा निश्चित की गई। पहले दाहिना हाथ वङ्कते हुए लोहे से जलाया गया। छ जगह दृष्टियों ने से भौंम नाच कर ब्रलम कर लिया गया। दाहिनी चोर कर उसका दिल बाहर निकाल लिया गया और फिर दिल फेंक

कर उसके मुँह पर मारा गया। जेराड का सिर काट कर शरीर से अलग कर दिया गया। शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डाले गये। आरेञ्ज के बस में होता तो वह कत्र से उठकर भी अपने भित्रों की इस भयंकर क्रूरता से जेराड की अवश्य ही रक्षा करता। बड़े से बड़े अपराध के लिए भी किसी मनुष्य को ऐसी सजा नहीं दी जा सकती। क्रूरता और अत्याचार नष्ट करने के लिए महान् आत्मा विलियम आरेञ्ज ने जन्म भर प्रयत्न किया था। आरेञ्ज के मरने पर उसके अनुयायियों ने ऐसी क्रूरता करके अवश्य ही उसकी स्मृति को कलंकित किया। जेराड अधमरा हो जाने पर भा मरते दम तक विलकुल शान्त रहा। फौसी देने से पहले जल्लाद जेराड की उन पिस्तौलों के तोड़-तोड़ टुकड़े करने लगा जिन से उसने विलियम आरेञ्ज को मारा था। अचानक हथौड़ा उचट कर जल्लाद को लग गया। कुछ लोग हँसने लगे। फौसी के तरते पर खड़ा हुआ जेराड भी हँसने लगा।

जेराड को फौसी हो जाने पर उसके माँ बाप को फारनीस ने पच्चीस हजार रुपये का पुरस्कार और आरेञ्ज की जन्त की हुई जागीर में से एक भाग दिलवा दिया। बेटे के पाप से माँ बाप फले फूले।

हत्यारे को विलियम की जान लेने के लिए हथियार खरीदने के लिए भी रुपया विलियम आरेञ्ज से मिला था। हत्यारे के मर जाने पर पुरस्कार में उसके माँ बाप को विलियम आरेञ्ज की जागीर मिली। देश-सेवा का पुरस्कार बड़ा विचित्र है ! घर-बार फूँककर मैदान में आना, जीवन पर्यन्त कष्ट सहन करना, अन्त

में मातृभूमि की वेदी पर बलिदान हो जाना जिन्हें यह सौदा प्रिय हो वही ओखली में सिर दें। २७ वर्ष बाद फिलिप की शिक्षा पाकर विलियम आरेख का अभागा कनिष्ठ पुत्र जब स्पेन से चलने लगा तो फिलिप ने उससे कहा कि 'जेरार्ड' के माता पिता को जागीर की आमदनी का रुपया देते रहना, जागीर पर अधिकार तुम्हारा रहेगा। विलियम आरेख के पुत्र को फिलिप ने ऐसा क्रूर बना दिया था कि उसकी शक्ति देख कर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह शान्त सौम्य विलियम आरेख का पुत्र होगा फिर भी उसमें विलियम का रक्त था। उसने जेरार्ड के बाप को दी गई वह जागीर छूने से इन्कार कर दिया। बहुत दिनों बाद जब यह जागीर फ्रान्स के राज्य में मिली तो फ्रान्सीसी गवर्नर ने जेरार्ड के कुटुम्बियों को दी हुई फिलिप की सनदें फाड़कर पैरों से कुचन डालीं और जागीर जप्त कर ली।

मृत्यु के समय शाहजादा विलियम आरेख की अवस्था ५१ वर्ष १६ दिन की थी। वह १२ बच्चे छोड़ कर मरा। ३ अगस्त को सारे राष्ट्र ने रोते-रोते उसे डेल्फ्ट में दफन कर दिया। धन्य है उस माई के लाल की मौत जिसके मरने पर सारे देश की आखों से आँसू बरसें।

आरेख के जीवन और परिश्रम ने नेदरलैण्ड में प्रजातन्त्र की स्थापना कर दी थी और उसे सुदृढ़ नींव पर भी रख दिया था। परन्तु उसकी मृत्यु से सारे देश का एक प्रजातन्त्र राष्ट्र में मिल जाना असम्भव हो गया। विलियम के मर जाने से फारनीस को लोगों के बढ़काने और फोड़ने का मौका मिल गया। दक्षिण प्रान्त सदा के लिए उत्तर प्रान्तों से अलग हो गये। जब तक

विलियम आरेञ्ज जीवित था, बहुत से दल और गृह-कलह होने पर भी दो वैल्डून प्रान्तों को छोड़ कर वह सारे देश का पित माना जाता था। देश एक था अथवा यों कहिए कि देश के एक हो जाने की सम्भावना थी। सारे देश के देश-भक्तों के लिए विलियम आरेञ्ज का दृढ हृदय चट्टान का सहारा था। उसका मस्तिष्क कठिन से कठिन समय में देश को मार्ग दिखाता था। ग्रेनविले और फिलिप का विश्वास ठोक निकला। जो कार्य स्पेन और इटली की चतुर राजनीति और यूरोप की प्रख्यात फौजों न कर सकीं वह एक तुन्डू मनुष्य की पिस्तौल ने कर दिया। विलियम आरेञ्ज के बाद नेदरलैण्ड का एक सूत्र में बँधना अशुभ हो गया।

एकदम सदा से स्वतन्त्र और स्वाधीनता के लिए लड़नेवाला नगर रहा था। परन्तु आरेञ्ज के बाद फारनोस की चालों के सामने इस नगर ने गर्दन झुका दी। नेदरलैण्ड दो भागों में विभाजित हो गया। हालैण्ड और जेलेण्ड की गद्दी पर विलियम आरेञ्ज बाकायदा नहीं बैठ पाया था। उसके मरते ही इन प्रान्तों की पचायतों ने प्रभुता अपने हाथ में ले ली। विलियम आरेञ्ज के पुत्रों और वारिसों की छत्र-छाया में दो सौ वर्ष तक यह प्रजातन्त्र-राज्य फला फूला।

विलियम के जीवन ने प्रजातन्त्र की स्थापना की। उसकी मृत्यु ने प्रजातन्त्र की सीमा मिश्रित कर दी। यदि विलियम आरेञ्ज बीस वर्ष और भी जी गया होता तो सात प्रान्तों के प्रजातन्त्र राष्ट्र के स्थान में सत्रह प्रान्तों का एक महान् प्रजातन्त्र बन गया होता। स्पेन की सत्ता सदा के लिए नेदरलैण्ड से काफूर

हो गई होती। उसकी मृत्यु के बाद दो सौ वर्ष तक और युद्ध चलने के बाद स्पेन ने इन प्रान्तों की स्वतन्त्रता स्वीकार की। परन्तु इन दो सौ वर्षों में प्रान्तों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। हालैण्ड की नौ सेना ससार की सर्वोच्च नौ-सेना मानी जाने लगी थी। नागरिक स्वतन्त्रता, देश की राजनैतिक स्वतन्त्रता की स्थापना और विदेशी अत्याचार का अन्त आरेज विलियम की आँखें मुँदने के पहले ही हो चुका था। जिस समय सन् १५८१ ई० में जनता ने फिलिप को गद्दी से उतारने की घोषणा की थी उसी समय से प्रजातन्त्र की स्थापना हो गई थी।

नेदरलैण्ड के प्रजातन्त्र का इतिहास विलियम आरेज के जीवन का इतिहास है। विलियम आरेज का जीवन-चरित्र त्याग, तपस्या, सज्जनता, प्रेम और स्वाधीनता का महाकाव्य है। आदि से अन्त तक आरेज के जीवन का एक ही लक्ष्य था। स्वाधीनता—सर्वसाधारण के लिए स्वाधीनता। जीवन भर उसने महान सकटों का हँस हँस कर सामना किया आपत्तियों के पहाड़ टूटे, परन्तु उसके माथे पर शिकन नहीं आई। आरेज के मित्र उसके धैर्य को देखकर कहा करते थे—“हमारा विलियम तूफानी समुद्र में अटल चट्टान है। यूरोप की सर्वश्रेष्ठ शक्ति का जीवन पर्यन्त दृढ़ता से अकेले सामना करने के कारण उसके शत्रुओं के मुँह से उसके लिए वाह वाह निकलती थी। एक उच्च राजवंश में पैदा होकर भी उसने कभी अपनी मानमर्यादा, पद, धन-संपत्ति, किसी की कुछ चिन्ता नहीं की। कभी-कभी तो आरेज के जीवन में ऐसा समय तक आया कि उसके पास आवश्यकता की साधारण वस्तुयें भी नहीं रहीं। देश के लिए

गले में मोली डाल कर वह भिखारी बना, विद्रोही कहनाया ।
 उसके मरने के दश वर्ष बाद उसके भाई जान नसाऊ और
 कर्जदारों से जब हिन्नात्र-किताब साफ हुआ तो १४ लाख रुपया
 आरेञ्ज के नाम कर्ज निकला । रिश्तेदारों से भी आरेञ्ज इतना
 कर्जा ले चुका था कि उसके लड़कों को जागीर चली जाने का
 भय होने लगा था । देश के लिए विलियम आरेञ्ज ने अपना
 रुपया पानी की तरह बहाया । जब देश का ताज उसके सिर पर
 रक्खा जाने लगा तो उसने उस ताज को उठा कर दूसरे के सिर
 पर रख दिया । हालैण्ड और जेलेण्ड ने जब बिल्कुल ही न माना,
 जब अस्वीकार करना असम्भव हो गया तभी उसने देश के इस
 भाग पर राज्य करना स्वीकार किया । परन्तु सागी सत्ता पंचायत
 के हाथ में देकर स्वयं पचायतो का केवल सेवक बनकर रहा ।
 आरेञ्ज अपने देश के लिए जिया, अपने देश के लिए मरा !
 'भगवान मेरे देश की गरीब जनता पर दया करना' ये उसके
 अन्तिम शब्द थे ।

संकट के समय न घबराना, कर्तव्य का पालन करना, पराजय
 होने पर निराश न होना, सिपाही के ये गुण उसमें कूट-कूट कर
 भरे थे । हार पर हार पाकर अन्त में उसने विजय प्राप्त की । उस
 समय के यूरोप के सबसे शक्तिमान स्पेन-साम्राज्य के तीक्ष्ण दौतो
 के भीतर उसने एक प्रजातंत्र राष्ट्र की स्थापना कर दी थी । आरेञ्ज
 बहुत ऊँचे अर्थ में सच्चा विजेता था । उसने एक देश के लिए
 स्वाधीनता जीती थी, राष्ट्र का पद जीता था । स्वाधीनता का युद्ध
 बहुत लम्बा था । इसी युद्ध में विलियम ने अपनी जान गवाँई ।
 परन्तु विजय का ताज इस मृत वीर के सिर पर ही रहा । आरेञ्ज

को मार कर जीवित रहने वाले फिलिप के सिर नहीं। आरेंज को सदा असङ्गठित सेना और भाडे के टट्टुओं की सहायता से युद्ध लड़ना पड़ा था। ये भाडे के टट्टू प्रारम्भ होते ही प्रायः बलवा करने पर उतारू हो जाते थे। आरेंज के पास अपने भाई लुई के अतिरिक्त और कोई अच्छा सेनापति भी नहीं था। लुई मर जाने पर उसका एक मात्र सहारा भी उठ गया था। शत्रु के पास यूरोप की छटी हुई सेनायें थीं, प्रख्यात सेनापति थे। फिर भी उसने सभार के युद्ध के इतिहास में प्रसिद्ध, एल्वा रेकुइसिन्स, डॉन जॉन और फारनीस के सारे प्रयत्न निष्फल कर दिये। आरेंज की मृत्यु के समय हेनाल्ड और आरटोयज केवल दो प्रान्त फिलिप की अधीनता में रह गये थे। अन्य पन्द्रह प्रान्तों पर कान्ति का भ्रूण लहराने लगा था। राजनैतिक कुशलता में तो आरेंज अपने युग का राजा था। लोगों के स्वभाव समझने में वह इतना दक्ष था कि शत्रु देखते ही आदमी को समझ लेता था। जनता के आवेश और भावों को वह सितार के तारों की तरह बश में रखता था। जिस भ्रैण्ट नगर को चार्ल्स-सा चतुर मनुष्य बिना कुचले नहीं दबा सका था, वही भ्रैण्ट आरेंज की ढंगलियों पर मरते दम तक नाचता रहा। भ्रैण्ट ने नेदरलैंड में स्वाधीनता को जन्म दिया था। आरेंज ने जीवन भर भ्रैण्ट स्वाधीनता की रक्षा करता रहा। परन्तु उसके मरते ही भ्रैण्ट ने स्वाधीनता का झण्डा नीचा कर दिया।

आरेंज की वक्तृत्व शक्ति भी अच्छी थी। लेखन-कला में प्रेनविले का गुरु बन सकता था। फ्रेंच, जर्मन, फ्लेमिश, स्पेन, इटैलियन और लैटिन छ. भाषाओं का वह ज्ञाता था। लिखने में भी

आरेञ्ज फिलिप से अधिक मेहनती था। जितने कागज़-पत्र आरेञ्ज के लिखे हुए अभी तक मौजूद हैं उन कागज़ों को लिखने के लिए कम से कम एक जिन्दगी की जरूरत है। आरेञ्ज के चरित्र में दोष ढूँढे नहीं मिलता। उसके गुण तो उसके शत्रुओं तक ने स्वीकार किये हैं। परन्तु कुछ नहीं तो उसके शत्रुओं ने यही साबित करने का प्रयत्न किया है कि आरेञ्ज ने जा कुछ किया अपनी कर्ति के लिए किया। दिल तो मनुष्य का भगवान ही देख सकता है। पर जहाँ तक बाह्य घटनाओं और अन्तरङ्ग पत्रों से पता चलता है, आरेञ्ज उतना ही निस्वार्थ था, जितना मेज़िनी, वाशिंगटन, लेनिन और महात्मा गान्धी को कहा जा सकता है। साहस भी उसका देवी था। कितनी ही बार उसकी जान लेने का प्रयत्न किया गया। इतने हमले हो चुकने पर वीर से वीर मनुष्य को भी हर कदम पर गदा, हर हाथ में खंजर, हर प्याले में विष का भय होना स्वाभाविक था। परन्तु आरेञ्ज ने अपनी रक्षा का कोई विशेष प्रबन्ध कभी नहीं किया। सदा हँसमुख रहता था। और कहा करता था 'मैं तो अपना जीवन ईश्वर के चरणों पर रख चुका हूँ। जो उसकी इच्छा होगी करेगा।' जब जेर्गार्ड का भयानक चेहरा देखकर उसकी स्त्री घबरा उठी थी तब भी विलियम के हृदय में शङ्का उत्पन्न नहीं हुई थी। उसने अपनी स्त्री का भय हँसों में उड़ा दिया। देश के दुःखों की गठरी कंधे पर लादे विलियम आरेञ्ज ने अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की। प्राण निकलते समय भी उसके होठों पर देश का नाम था। 'पिता विलियम' की मृत्यु का समाचार सुनकर देश भर के लोग बालकों की भाँति रोने लगे। गलियों में खेलते हुए बच्चे तक चीख उठे।

सस्ता-मण्डल, अजमेर

की

विचारोत्तेजक,
शिक्षाप्रद
और
क्रान्तिकारी
सस्ती
पुस्तकें
पढ़िए

“सस्ता-मण्डल अजमेर ने हिन्दी
की बड़ी सेवा की है।”

मदनमोहन मालवीय

क्रान्ति की तैयारी कीजिए

जागृति-कर

- १ हमारे जमाने की गुलामी
 - २ नरमेव !
 - ३ सामाजिक कुरीतियाँ
 - ४ अंधेरे में उजाला
 - ५ शैतान की लकड़ी
 - ६ चीन की आवाज
- 1)
१।)
॥३)
।३)
॥।२)
।-)

जीवन-मार्ग

- १ स्वाधीनता के सिद्धान्त
 - २ आत्मकथा
 - ३ अनीति की राह पर
 - ४ दिव्य-जीवन
 - ५ ब्रह्मचर्य-विज्ञान
 - ६ स्त्री और पुरुष
- ।।)
॥२)
।।)
।२)
॥।-)
।२)

वल-प्रद

- | | |
|---|-----|
| १ दक्षिण आफ्रिका का सत्याग्रह
(दो भाग) | १।) |
| २ विजयी वारडोली | २) |
| ३ हाथ भी कतार्ई-युनाई | ॥=) |
| ४ खदर का सपत्ति-शास्त्र | ॥=) |

सस्कारदायी साहित्य

- | | |
|---------------------------|-----|
| १ तामिल वेद | ॥=) |
| २ कर्मयोग | ।=) |
| ३ आत्मापदेश | ।) |
| ४ श्रीरामचरित्र | १.) |
| ५ स्वामीजी का वलिदान | ।-) |
| ६ जीवन-साहित्य (दो भाग) | १) |
| ७ तरंगित हृदय | ॥) |
| ८ क्या करें ? | ॥=) |

बच्चों के लिए

- | | |
|---------------------|-----|
| १ व्यावहारिक सभ्यता | ।)॥ |
| २ कन्या शिक्षा | ।) |

बहनों के लिए

१ भारत के स्त्री-रत्न (दो भाग)	१॥१-
२ घरों की सफाई	१)
३ महान् मातृत्व की ओर	१॥२-
४ सीताजी की अग्नि परिचा	१-

ज्ञान-वर्षक

१ समाज-विज्ञान	१॥१)
२ यूरोप का इतिहास (तीन भाग)	२)
३ गोरों का प्रभुत्व	१॥२-
४ शिवाजी की योग्यता	१-
५ जब अंग्रेज नहीं आये थे	१)

मनोरंजक !

१ अनोखा	१॥२-
२ गंगा गोविन्दसिंह	१॥२-
३ कलवार की करतूत	-)॥११
४ आश्रम हरिणी	१)

जीवन, जागृति, बल और नलिदान की स्रोतस्विनी ।

‘त्यागभूमि’

दो अमूल्य सम्मतियाँ

‘त्यागभूमि’ भारत की हिन्दी-पत्रिकाओं में एक विशेष प्रशंसनीय पत्रिका है । हिन्दी में ‘त्यागभूमि’ जैसी सुन्दर, सुसम्पादित, सात्विक राजस-प्रधान पत्रिका देवकर मुक्त प्रयु-न्नता होती है । इसके लेख और टिप्पणियाँ विचारपूर्ण और हृदय में नवजीवन का संचार करने वाली होती हैं । स्त्रियों और युवकों को उपदेश और उत्साह देने की इसमें प्रचुर सामग्री रहती है । यही पत्रिका आठ-दस हजार वार्षिक घटी सहकर सती दी जा रही है पर यदि इसके दस-बारह हजार प्रादक हो जायें, तो यह अपना पूरा व्यय समाल लेगी । मैं आशा करता हूँ कि देश-भक्त हिन्दी-प्रेमी इसके प्रचार में सहायक होंगे । मैं चाहता हूँ कि यह चिर-जीवी हो ।

मदनमोहन मालवीय

प्रिय भाई,

“आपका खत मिला । आपने जो ‘त्यागभूमि’ के लेख भेजे हैं वह भी कुछ देखे हैं । वास्तव में तो बहुत अच्छे हैं । अगर आप यह समझते हैं कि ‘त्यागभूमि’ की तरफ मेरा ध्यान नहीं है, तो यह बात गलत है, मेरी राय में हिन्दी में सबसे अच्छी पत्रिका ‘त्यागभूमि’ है ।”

जवाहरलाल नेहरू

